

श्रेष्ठि-देवचन्द लालभाई जैनपुस्तकोद्वारे ग्रन्थाङ्क ७५

धान्द्रकुलीनश्रीमदभयदेवश्रीगशिष्यश्रीप्रसन्नान्द्राचार्योक्त्या श्रीसुमतिवाचकशिष्यैः श्रीगुणचन्द्रगणिभिर्विहितम्

# श्रीमहावीरचरित्रम् (प्राकृतं)

प्रकाशिका—श्रेष्ठि-देवचन्द लालभाई—जैनपुस्तकोद्वारसस्था ।

राजनगरीयविद्याशालाकार्यवाहकैरागमाराधनोत्सवागततदन्यद्रव्येण वितीर्णेन ।

[ अस्य पुनर्मुद्रणाद्या सर्वेऽधिकारा एतद्ग्राण्डागारकार्यवाहकाणामायत्ता स्थापिता ]

इदं ग्रन्थरत्नं मुम्नापुर्या जीवनचन्द साकरचन्द जठहेरी इत्यनेन निर्णयसागरमुद्रणालये कोलमाट-  
वीथ्या २६-२८ तमे मन्दिरे रामचन्द्र येसू शेडगेद्वारा मुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

प्रतिसंख्या १२५० ]

वीरसवत् २४५५

विक्रमसवत् १९८५, सन १९२९

[ मूल्य रु ४ ०-०

Rs 4-0-0



16036A

Shreshthi Devachand Lalbhai Jain Pustakoddhara Series, No. 75.

# Śrī MAHĀVĪRA CHARITAM

( PRĀKRITAM )

BY

Śrī GUṆACHANDRA SŪRI

Copies 1250 ]

Price Rs. 4-0-0,

[ A. D. 1929,

[ All rights reserved by the Trustees of the Fund. ]

---

---

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya sagar Press, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

---

Published by Jivanchand Sakarchand Zaveri, on behalf of Seth Devachand Lalbhai Jani Pustakoddhara  
Fund, No 121-123, Javeri Bazar, Bombay.

---

---

## श्रीमहावीरचरित्रस्योपोद्घातः ।

श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य चरित्रमिदमुपदाक्रियमाणं सज्जनेभ्योऽस्ति, यद्यपि भगवत्श्रुतित्राणि नैकानि श्रीहेमचन्द्राचार्य-नेमि-  
चन्द्राचार्यादिभिर्विहितानि सुन्दरतराणि मुद्रितपूर्वाणि च परं न किमप्येतावन्मानं प्रत्नं चातः किमपि, यत एतच्चरित्रं वैक्रमीयायां द्वादशश-  
तान्यामेकोनचत्वारिंशदधिकेषु समानां व्यतीतेषु विद्वन्धं द्वादशसहस्रमानं च, रचयितारश्चास्य चान्द्रकुलीनाः श्रीमन्तो गुणचन्द्राः  
सुमतिचान्दकनिनेयाः, एतच्च प्रस्तुतचरित्रप्रान्तभागावलोकनात् स्पष्टमवसीयते, यत आहुस्तत्र ते—

सिरिसुमद्वायगाणं विणेयलेसेण । गणिणा गुणचंदेणं रइयं सिरिवीरचरियमिणं ॥ ५७ ॥

गणिनथेमे चान्द्रकुलीनश्रीवर्धमान-जिनेश्वरचुद्धिसागर-जिनचन्द्र-अभयदेवसूरिशिष्यश्रीप्रसन्नचन्द्राचार्यवचनेन व्यधुरेनत्, यत  
उक्तं ग्रन्थकृद्भिरत्रैव प्रान्त्यभागे—

साहाइ तस्स चंदे कुलंमि निप्पडिमपसमकुलभवनं । आसि सिरिचद्धमाणो मुणिनाहो संजमनिहिव्व ॥ ४८ ॥

धहलकलिकालत्तमपसरपूरियासेसविसमसमभागो । दीवेणंव गुणीणं पयासिओ जेण मुत्तिपहो ॥ ४९ ॥

मुणिवइणो तस्स हरअट्टहाससियजसपसाहियासस्स । आसि दुवे वरसीसा जयपयडा सूरससिणोव्व ॥ ५० ॥

भवजलहिवीइसंभंतभवियसंताणतारणसमत्थो । वोहित्योव्व महत्थो सिरिसूरिजिणेसरो पढमो ॥ ५१ ॥

गुरुसाराओ धवलाउ सुविहिया (निम्मला पु.) साहुसंतई जाया । हिमवंताओ गंगव्व निग्गया सयलजणपुजा ॥ ५२ ॥

अन्यच्च विशेषावश्यकमाप्यप्रतेः प्रान्तेऽपि नेमिकुमार इत्यमवाह, तयो च न तत्र जिनेश्वरसूरः खरतरावरुदं जिनवल्लभस्य तत्परंपरान-  
 र्गतता च, पाश्चात्यैः खरतरैर्महतामभिधानेन प्रतिष्ठामभिलाषुकैः कल्पित एवैषः वृत्तान्तः, अत एवोपदेशसप्ततिकारैः 'येम्यः प्रतिष्ठामापन्नो,  
 गच्छः खरतराभिधः' इति वाक्येन साधानां प्रलापो ध्वनितः सत्य एव लक्ष्यते ।

किंच—या खरतरगच्छमूलभूतेन जिनवल्लभेन श्रीवीरस्य भगवतो गर्भापहारः पष्ठकल्याणकतया मतः सोऽपि नैभिर्गणिभिर्मतः,  
 अत एव च श्रीमद्भिरत्र चतुर्थप्रस्तावसोपसंहारे पत्रे १४१ 'गम्भावयारजम्मणदिक्खाकल्लणकहणपडिवद्धो—चउत्थओ एस पत्था-  
 वो' इत्युक्त्वा गर्भापहारस्य कल्याणकता निराकृता, यद्यपि श्रीमद्भिर्हरिभद्रसूरिभिर्यात्रापञ्चाशके श्रीमद्भिरमयदेवसूरिभिः रवाधैरात्मपूर्वज-  
 तया स्वीकृतैश्च तद्वृत्तौ 'इत्युत्तरजोएणं चउरो' इत्येतत्सूत्रेण तद्विवरणेन च स्पष्टतया पदकल्याणकवादिनां जिनवल्लभादीनां यदृच्छावादिता  
 दर्शितैव तथापि केचन स्वगच्छाग्रहवन्त आहुः यदुत सर्वजिनकल्याणकानां समतां दर्शयितुं तैस्तयोक्तं, यद्यपि कचनापि पष्ठकल्याण-  
 कस्यानुक्ततया न तत् श्रद्धातुं शक्यमागमरसिकैः, परमत्र तैरपि तथा वक्तुं न शक्यं, यतो वीरचरित्रे अत्र अन्यत्र च कुत्रापि विहाय  
 जिनवल्लभं तदनुसारिणं च न कोऽप्यागमश्रद्धालुराह कल्याणकपट्टं, तथा च यथा श्रीमलयगिरिभिः जिनवल्लभस्य संहननानां शक्तिवा-  
 चकतां सिद्धान्तानभिहितामपि सिद्धान्ताभिहितां मन्वानस्योत्सूत्रवादिता श्रीजीवाभिगमप्रज्ञापनादिवृत्तौ स्पष्टमभिहिता तथैवात्रापि तस्य  
 तथात्वं ध्वन्यमानं न व्याहन्यते इत्यलं चसूर्या गच्छकदाग्रहरसिकैः ।

चरित्रे चात्र स्त्रीशालसुबोधा प्राकृतैवाद्यता भाषा, तथाच प्राकृतवाणीविलासिनामप्राकृतानामतीवादरास्पदमिदं, विशेषतस्तत्र तत्रा-  
 नेकविषयगतान् प्रधन्धान् दिदृक्षुणां । प्रस्तावाश्चात्र श्रीमद्भिः कृता अष्ट, प्रतिप्रस्तावं चात्राधिकारा इमे

अन्नो य पुत्रिमायंदसुंदरो बुद्धिसागरो सूरी । निम्नवियपवरवागरणछंदसत्थो पसत्थमई ॥ ५३ ॥  
 एगंतवायविलसिरपरवाइकुरंगभंगसीहाणं । तेसिं सीसो जिणचंद्रसूरिनामो समुप्पन्नो ॥ ५४ ॥  
 संवेगरंगसाला न केवलं कव्वविरयणा जेण । भव्वजणविम्हयकरी विहिया संजमपवितीवि ॥ ५५ ॥  
 ससमयपरसमयन्नू विसुद्धसिद्धंतदेसणाकुसलो । सयलमहिवलयवित्तो अन्नोऽभयदेवसूरिति ॥ ५६ ॥  
 जेणालकारधरा सलक्खणा वरपया पसन्ना य । नव्वंग (सिद्धंत पु.) वित्तिरयणेण भारई काभिणिव्व कया ॥ ५७ ॥  
 तेसिं अत्थि विणेओ समत्थसत्थत्थचोहकुसलमई । सूरी पसन्नचंदो चंदो इव जणमणाणंदो ॥ ५८ ॥  
 तव्वयणेणं सिरिसुमइघायगाणं विणेयलेसेण । गणिणा गुणचंदेणं रइयं सिरिवीरचरियमिमं ॥ ५९ ॥

अत्र नहि खरतरगच्छप्रादुर्भावस्य गन्धोऽपि, एवमेव च न श्रीजिनेश्वरसूरिशिष्यश्रीजिनचन्द्रकृतायां संवेगरंगशालायां न च श्रीअभय-  
 देवसूरिकृतायां शास्त्रततौ न च श्रीअल्लदेवोपाध्यायकृते सुरसुन्दरीचरिते यावत् अशीत्यधिके समासहस्त्रे जावालिपुरि चतुर्मासीस्थिताभ्यां  
 श्रीमज्जिनेश्वरबुद्धिसागरसूरिभ्यां विहितयोरष्टकवृत्तिबुद्धिसागरव्याकरणयोरपि न खरतरगच्छप्रादुर्भावगन्धोऽपि, एव यदि श्रीजिनेश्वरसूरिभिस्त-  
 त्पद्मोद्भवैश्चान्यैः सूरिभिर्न स्वीकृता तदा खरतरोत्पत्तिस्त्वर्हि तत्परम्पराया वहिर्वर्तिभिः प्रलपितेन किम् ? खरतरगच्छप्ररूपणामूलभूतो जिनवल्लभ  
 एव प्रश्नोत्तरैकपष्टिशतके स्वस्य कूर्चपुरीयजिनेश्वरशिष्यतामाह, किंच-पुण्यपत्तनस्था या कोट्याचार्याया विशेषावश्यकवृत्तिपुस्तिका सापि  
 स्पष्टमेव निगदति यदुत न श्रीजिनेश्वरसूरेः खरतरविरुद्धं न च जिनवल्लभस्तत्परंपरागत इति, यतः सा एकादशशतकीयसप्तत्रिंशद्वर्षेषु लि-  
 खिता, लेखकश्चासा जिनवल्लभस्यान्तेवासी नेमिकुमारः, स स्पष्टमाख्याति यदुत कूर्चपुरीयजिनेश्वरशिष्यजिनवल्लभार्यं पुस्तकमिदमलेखीति,


अन्यत्र विशेषावश्यकभाष्यप्रतेः प्रान्तेऽपि नेमिकुमार इत्यमेवाह, तयो च न तत्र जिनेश्वरसूरेः खरतरषिरुदं जिनवल्लभस्य तत्परंपरानि-  
र्गतता च, याश्चालैः खरतरैर्महतामभिधानेन प्रतिष्ठामभिलाषुकैः कल्पित एवैषः वृत्तान्तः, अत एवोपदेशसप्ततिकारैः 'येभ्यः प्रतिष्ठामापन्नो,  
गच्छः खरतराभिधः' इति वाक्येन स्वाधानां प्रलापो ध्वनितः सत्य एव लक्ष्यते ।

किंच—या खरतरगच्छमूलभूतेन जिनवल्लभेन श्रीवीरस्य भगवतो गर्भापहारः षष्ठकल्याणकतया मतः सोऽपि नैभिर्गणिभिर्मतः,  
अत एव च श्रीमद्विरत्र चतुर्थप्रस्तावस्योपसंहारे पत्रे १४१ 'गम्भावयारजम्मणदिक्खाकलाणकहणपडिवदो—चउत्थओ एस पत्या-  
वो' इत्युक्त्वा गर्भापहारस्य कल्याणकता निराकृता, यद्यपि श्रीमद्विर्हरिमद्रसूरिभिर्यात्रापञ्चाशके श्रीमद्विरभयदेवसूरिभिः स्वाद्यैरात्मपूर्वज-  
तया स्वीकृतैश्च तद्दुरौ 'हयुत्तरजोएणं चउरो' इत्येतत्सूत्रेण तद्विवरणेन च स्पष्टतया षड्कल्याणकवादिनां जिनवल्लभादीनां यदृच्छावादिता  
दर्शितैव तथापि केचन स्वगच्छाग्रहवन्त आहुः यदुत सर्वजिनकल्याणकानां समतां दर्शयितुं तैस्तयोक्तं, यद्यपि क्वचनपि षष्ठकल्याण-  
कस्यानुक्ततया न तत् श्रद्धातुं शक्यमागमरसिकैः, परमत्र तैरपि तथा वक्तुं न शक्यं, यतो वीरचरित्रे अत्र अन्यत्र च कुत्रापि विहाय  
जिनवल्लभं तदनुसारिणं च न कोऽप्यागमश्रद्धालुराह कल्याणकपदं, तथा च यथा श्रीमलयगिरिभिः जिनवल्लभस्य संहननानां शक्तिवा-  
चकतां सिद्धान्तालभिहितामपि सिद्धान्ताभिहितां मन्वानस्योत्सूत्रवादिता श्रीजीवाभिगमप्रज्ञापनादिवृत्तौ स्पष्टमभिहिता तथैवात्रापि तस्य  
तथात्वं ध्वन्यमानं न व्याहन्यते इत्यलं चसूर्या गच्छकदाग्रहरसिकैः ।

चरित्रे चात्र स्त्रीवालसुबोधा प्राकृतैवाहता भाषा, तथाच प्राकृतवाणीविळासिनामप्राकृतानामतीवादरास्पदमिदं, विशेषतस्तत्र तत्रा-  
नेकविषयगतान् प्रवन्धान् दिदक्षुणां । प्रस्तावाश्चात्र श्रीमद्विः कृता अष्ट, प्रतिप्रस्तावं चात्राधिकारा इमे

प्रस्तावः	विषयः	पत्रं	प्रस्तावः	विषयः	पत्रं
१	श्रीवीरस्य सम्यक्त्वलाभः	२	५	चण्डकौशिकप्रतिबोधनावसानं वृत्तं	१८२
२	मरीचिः पदपरिघ्राजकभवाश्च	२८	६	गोशालकाय तेजोलेश्योपायकथनान्तं वृत्तं	२२३
३	प्रियमित्रान्ता भवाः	७०	७	केवलज्ञानोत्पत्त्यवसानं वृत्तं	२५०
४	श्रीवीरस्य च्यवनगर्भजन्मदीक्षाः	१४१	८	निर्वाणान्तं वृत्तं मन्थकृत्प्रशस्तिश्च	३६०

चरित्रं चैतत् श्रीमतां प्रसन्नचन्द्रसूरीणा वचनेन श्रीमद्विहित, पर विधापनायाम्यर्थिताः श्रीमन्तः श्रीमद्म्यां छत्रावली(छत्राल)-वास्तव्याम्या श्रेष्ठिम्या शिष्टवीरनामभ्या, तयोः पिता जज्ञनागः कर्पटवाणिज्यात् छत्रावल्यामागतः, तत्र च कर्पटवाणिज्ये जज्ञनागपित्रा श्रीमद्वायडगच्छीयजीवदेवसुरितच्छिष्यश्रीजिनदत्ताभ्यामधिगतसम्यक्त्वेन नन्दीश्वरचैत्यं विहित श्रीमता गोवर्धनश्रेष्ठिना, तत्कुटुम्बवृक्षध्यायं






स्पष्टं चेदं ग्रन्थप्रशस्तौ, तथाहि—

प्यस्स विरयणंमी निब्बंघो जेसि गाढमुप्पन्नो । ते पुण मूलाओ चिय साहज्जते निसामेह ॥ ६० ॥  
सियजसजोण्हाववलयनायकुलनहयले मयंकुच्च । पुच्चमहेसि महेसीपणओ सिरिजीवदेवपह ॥ ६१ ॥  
तस्स सुसिस्सो सिद्धंतसिद्धसुविसिद्धसंजमाभिरओ । गुणरयणरोहणगिरी पयडो जिणदत्तसूरीत्ति ॥ ६२ ॥  
गंभीरिमाए पसमेण बुद्धिविभवेण दक्खिणत्तेण । सुंदरनएण जेसिं कोऽवि न तुल्लो जए जाओ ॥ ६३ ॥  
तेहिंतो पडियुद्धो 'वायड'कुलभवणजयपढायनिभो । कप्पडघाणिज्जपुरे सेट्ठी गोवद्धणो आसि ॥ ६४ ॥  
नंदीसरावलोयणमणाण भव्वाण दंसणत्थं च । कारावियं सुतुंगं वावन्नजिणालयं जेण ॥ ६५ ॥  
धम्मधरणीए गिहिणीए तस्स सोढित्ति नामधेयाए । अगणियगुणगणनिलया पुत्ता चत्तारि उप्पन्ना ॥ ६६ ॥  
पढमो अम्मयनामो धीओ सिद्धोत्ति जअणागो य । तइओ चउत्थओ पुण विक्खाओ नन्नओ नाम ॥ ६७ ॥  
नयविणयसच्चधम्मत्थसीलकलिएहिं जेहिं दिट्ठेहिं । नूणं जुहिट्ठिलाईवि सइहज्जति सप्पुरिसा ॥ ६८ ॥  
अह संथारयदिक्खं पवज्जिउं भावसारमंतंमि । गोवद्धणंमि सगं गयंमि तह पढमपुत्तदुगे ॥ ६९ ॥  
सो सेट्ठी जअणागो छत्तावल्लीए पासमकरिसु । सच्चकणिद्धो नघ्नयसेट्ठी पुण मूलठाणेवि ॥ ७० ॥  
तेसिं च भइणिपुत्तो नियपुत्ताओवि गाढपडिवंधो । आसि जसणागनामो सेट्ठी सुविसिद्धगुणनिलओ ॥ ७१ ॥  
अह नन्नयस्स पुत्ता पयडा सावित्तिकुच्छित्तंभूया । दोत्ति चिय उप्पन्ना गोवाइओ कवड्डी य ॥ ७२ ॥

५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२

प्रस्तावः	विषयः	पत्रं	प्रस्तावः	विषयः	पत्रं
१	श्रीवीरस्य सम्यक्त्वलाभः	२	५	चण्डकौशिकप्रतिबोधनायसानं वृत्तं	१८२
२	मरीचिः पट्टपट्टिप्राजकभवाश्च	२८	६	गोशालकाय तेजोलेशयोपायकथनान्तं वृत्तं	२२३
३	प्रियमिरान्ता भवाः	७०	७	केवलज्ञानोत्पत्त्यवसानं वृत्तं	२५०
४	श्रीवीरस्य च्यवनगर्भजन्मदीक्षाः	१४१	८	निर्वाणान्तं वृत्तं ग्रन्थकृतप्रशस्तिश्च.	३६०

चरित्रं चैतत् श्रीमतां प्रसन्नचन्द्रसूरीणां वचनेन श्रीमद्विहितं, पर विधापनायाम्यर्थिताः श्रीमन्तः श्रीमदम्यां छत्रावली(छत्राल)-  
वास्तव्याम्यां श्रेष्ठिम्यां शिष्टवीरनामम्यां, तयोः पिता जज्जनागः कर्पटवाणिज्यात् छत्रावल्यामागतः, तत्र च कर्पटवाणिज्ये जज्जनागपिना  
श्रीमद्वायङ्गच्छीयजीवदेवसूरितच्छिष्यश्रीजिनदत्ताम्यामधिगतसम्यक्त्वेन नन्दीश्वरचैत्यं विहितं श्रीमता गोवर्धनश्रेष्ठिना, तत्कुटुम्बवृक्षश्चायं




स्पष्टं चेदं ग्रन्थप्रश्नस्तौ, तथाहि—

एयस्स विरयर्णमी निव्वंधो जेसि गाढमुप्पन्नो । ते पुण मूलाओ चिय साहिअंते निसामेह ॥ ६० ॥  
सियजसजोणहाधवलियनायकुलनहयले मयंकुव्व । पुव्वमहेसि महेसीपणओ सिरिजीवदेवपहू ॥ ६१ ॥  
तस्स सुसिस्सो सिद्धंतसिद्धसुविसिद्धसंजमाभिरओ । गुणरयणरोहणगिरी पयडो जिणदत्तसूरीत्ति ॥ ६२ ॥  
गंभीरिमाए पसमेण बुद्धिविभवेण दक्खिणत्तेण । सुंदरनएण जेसि कोऽवि न तुल्लो जए जाओ ॥ ६३ ॥  
तेहिंतो पडिबुद्धो 'वायड'कुलमवणजयपढायनिमो । कप्पडघाणिज्जपुरे सेढी गोवद्धणो आसि ॥ ६४ ॥  
नंदीसरावलोयणमणाण भव्वाण दंसणत्थं च । कारावियं सुतुंगं वावन्नजिणालयं जेण ॥ ६५ ॥  
पम्मपरणीए गिहिणीए तस्स सोढित्ति नामधेयाए । अगणियगुणगणनिलया पुत्ता चत्तारि उप्पन्ना ॥ ६६ ॥  
पढमो अम्मयनामो थीओ सिद्धोत्ति जज्जणागो य । तइओ चउत्थओ पुण विक्खाओ नन्नओ नाम ॥ ६७ ॥  
नयविणयसच्चपम्मत्थसीलकलिएहिं जेहिं दिट्ठेहिं । नूर्णं शुद्धिद्विहाईवि सद्दहिज्जति सप्पुरिसा ॥ ६८ ॥  
अह संथारयदिक्खं पवत्रिउं भावसारमंतंमि । गोवद्धणंमि सग्गं गयंमि तह पढमपुत्तदुगे ॥ ६९ ॥  
सो सेढी जज्जणागो छत्तावल्लीए वासमकरिसु । सव्वकणिट्ठो नन्नयसेढी पुण मूलठाणेवि ॥ ७० ॥  
तेसिं च भइणिपुत्तो नियपुत्ताओवि गाढपडिवंधो । आसि जसणामनामो सेढी सुविसिद्धगुणनिलओ ॥ ७१ ॥  
अह नन्नयस्स पुत्ता पयडा सावित्तिकुच्छिसंभूया । दोत्ति चिय उप्पन्ना गोवाइचो कवड्डी य ॥ ७२ ॥

प्रस्तावः	विषयः	पत्रं	प्रस्तावः	विषयः	पत्रं
१	श्रीवीरस्य सम्यक्त्वलाभः	२	५	चण्डकौशिकप्रतिबोधनायसानं वृत्तं	१८२
२	मरीचिः पदपरिप्राजकभवाश्च	२८	६	गोशालकाय तेजोलेश्योपायकथनान्तं वृत्तं	२२३
३	प्रियमित्रान्ता भवाः	७०	७	केवलज्ञानोत्पत्त्यवसानं वृत्तं	२५०
४	श्रीवीरस्य च्यवनगर्भजन्मदीक्षाः	१४१	८	निर्वाणान्तं वृत्तं मन्थकृत्प्रशस्तिश्च	३६०

चरित्रं चैतत् श्रीमतां प्रसन्नचन्द्रसूरीणा वचनेन श्रीमद्भिर्विहित, पर विधापनायाम्यर्थिताः श्रीमन्तः श्रीमद्म्यां छत्रावली(छत्राल)-  
वास्तव्याम्यां श्रेष्ठिम्यां शिष्टवीरनामभ्यां, तयोः पिता जज्ञनागः कर्पटवाणिज्यात् छत्रावल्यामागतः, तत्र च कर्पटवाणिज्ये जज्ञनागपित्रा  
श्रीमद्वायडगच्छीयजीवदेवसूरितच्छिष्यश्रीजिनदत्ताभ्यामधिगतसम्यक्त्वेन नन्दीश्वरचैत्यं विहितं श्रीमता गोवर्धनश्रेष्ठिना, तत्कुटुम्बवृक्षध्यायं



स्वष्टं चेदं ग्रन्थप्रशस्तौ, तथाहि—

एयस्स त्रिरयणंमी निब्बंधो जेसि गाढमुप्पन्नो । ते पुण मूलाओ चिय साहिजंते निसामेह ॥ ६० ॥  
सियजसजोण्हाधवलियनायकुलनहयले मयंकुज्व । पुज्वमहेसि महेसीपणओ सिरिजीवदेवपहू ॥ ६१ ॥  
तस्स सुसिस्सो सिद्धंतसिद्धसुविसिद्धसंजमाभिरथो । गुणरयणरोहणगिरी पयडो जिणदत्तसूरीत्ति ॥ ६२ ॥  
गंभीरिमाए पसमेण बुद्धिविभवेण दक्खिणत्तेण । सुंदरनएण जेसिं कोऽवि न तुलो जए जाओ ॥ ६३ ॥  
तेहिंतो पडिबुद्धो 'वायड'कुलभवणजयपडायनिभो । कप्पडवाणिज्जपुरे सेढी गोवद्धणो आसि ॥ ६४ ॥  
नंदीसरावलोयणमणाण भव्वाण दंसणत्थं च । कारावियं सुतुंगं वावन्नजिणालयं जेण ॥ ६५ ॥  
धम्मधरणीए गिहिणीए तस्स सोढित्ति नामयेयाए । अगणियगुणगणनिलया पुत्ता चत्तारि उप्पन्ना ॥ ६६ ॥  
पढमो अम्मयनामो यीओ सिद्धोत्ति जज्जणागो य । तइओ चउत्थओ पुण विकूखाओ नन्नओ नाम ॥ ६७ ॥  
नयविणयसच्चधम्मत्थसीलकलिएहिं जेहिं दिट्ठेहिं । नूणं जुहिट्ठिलाईवि सदहिजंति सप्पुरिसा ॥ ६८ ॥  
अह संयारूयदिक्खं पवज्जिउं भावसारमंतंमि । गोवद्धणंमि सगं गयंमि तह पढमपुत्तदुगे ॥ ६९ ॥  
सो सेढी जज्जणागो छत्तावल्लीए पासमकरिंसु । सव्वकणिट्ठो नन्नयसेढी पुण मूलठाणेवि ॥ ७० ॥  
तेसिं च भइणिपुत्तो नियपुत्ताओवि गाढपडिबंधो । आसि जसणागनामो सेढी सुविसिद्धगुणनिलओ ॥ ७१ ॥  
अह नन्नयस्स पुत्ता पयडा सावित्तिकुच्छिसंभूया । दोन्नि चिय उप्पन्ना गोवाइचो कवड्डी य ॥ ७२ ॥

५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२

सतुंजयपमुहसमत्यतित्यजत्ता पयट्टिया जेण । पढमं चिय तस्स कवडिसेट्टिणो को समो होअ ? ॥ ७३ ॥  
 पुरिसत्यकरणनिरयस्स जअणागस्स विस्सुयजसस्स । अत्यि जिणधम्मनिरया कलत्तमिह सुंदरी नाम ॥ ७४ ॥  
 जाओ तीसे सुंदरविचित्तलक्खणविराइयसरीरो । जेद्धो सिद्धो पुत्तो धीओ पुण वीरनामोत्ति ॥ ७५ ॥  
 को तेसि दाणविन्नाणधुद्धिसुविमुद्धधम्मगेहाण । निउणोऽवि गुणलवंपि हु होअ समत्थो पवित्थरिउं ? ॥ ७६ ॥  
 नागो इव पिंडिअइ वंभंडकरंडए अमायंतो । जस्स जसोहो सारयनिसिच्छणमयलंछणच्छाओ ॥ ७७ ॥  
 जिणविंयसुपसत्थतित्यजत्ताइधम्मकरणेण । धम्मियजणाण मज्जे जेहि य पत्ता पढमरेहा ॥ ७८ ॥  
 अन्नाणतण्हसमणी सुयनाणपवा पयट्टिया जेहिं । सयलागमपोत्थयलेहणेण निवंपि मव्वाण ॥ ७९ ॥  
 तेहिं तित्थाहिवपरमभत्तिसव्वस्समुव्वहंतैहिं । वीरजिणचरियमेयं कारवियं मुद्धवोहकरं ॥ ८० ॥  
 जमजुत्तमेत्थ मणियं नियमइदुव्वलओ मए किंपि । तं साहंतु गुणद्धा ओच्छाइयमच्छरा विउसा ॥ ८१ ॥  
 छत्तावल्लिपुरीए मुणिअंधेसरगिहंमि रइयमिमं । लिहियं च लेहएणं माहवनामेण गुणनिहिणा ॥ ८२ ॥  
 नंदसिहिरुइसंखे(११३९)वोक्कंते विक्कमाओ कालंमि । जेहस्स सुद्धतइयातिहिंमि सोमे समत्तमिमं ॥ ८३ ॥

विद्वन्धं चैतच्चरित्रं छत्रागत्यां श्रीमद्भिः स्थितिं दधद्भिः, मानं चास्य द्वादश सहस्राणि श्लोकानां ॥ चरित्रे चात्र विचक्षणानां विलोक-  
 नार्हाणि चह्वनि स्थानानि, विशेषेण चेमानि-

१ पत्तो मगहाविसए, तहिं दिहा कोडिपुरिसवोज्झा महासिला—मोत्तुणं कोडिसिलं, पत्रे ५९, अत्र कोटीशिलेति शिला कास्तीति  
 प्रथे निश्चितं तस्या मगधविषये स्थानमिति

२ जिनवरो नाउं । चालइ मेरुं चळणंगुलीइ १२० । इह चावधेयं सिद्धान्तश्रद्धारहितैः, यतो न श्रीमद्भिर्होमचन्द्रैः केवलमेतत्  
मेरुचालनं प्रत्यपादि, किन्तु तव्याक्काळीनैरपि श्रीगुणचन्द्रगणिभिः, श्रीमद्द्वानिशीयतृतीयाध्ययने श्रीपद्मचरित्रेऽपि च एवमेवाख्यातं स्पष्टतया

३ सिरिवद्धमाणचरियंमि—गम्भावयारजग्मणदिकूलाकळाणकहणपडिचद्धो—चउत्थओ एस पत्थावो १४१, अनेन वचसा खा-  
यानां जिनवल्लमादीनां पदकल्याणकवादिनां श्रीमज्जिनेश्वरामयदेवसूर्योः परंपराया बहिर्वर्तिता स्पष्टीभवति

४ तादे तिलोपनाहो युञ्जंतो देवनरनरिंदेहि—कप्पोत्ति तहवि साइइ २५१, अनेन वचसा भगवतः प्रथमदेशनाक्षणे नैव देवनराणां  
सद्भाव इति न संमतं गणिभिः, 'पुञ्चि देवाणं धम्मं आइक्खइ' इत्यादिवाक्यं तु देवपर्यव्याधान्येनेति ख्यापितं श्रीमद्भिः

५ तामलित्तिदसन्नुरवोमयचंपाउजेणीगयपुरकंपिळनंदिपुरमहुरापुरेसु महानगरेसु भव्यसत्तजणं पडिवोहिता २६१, अनेन वचसा  
निरस्तास्ते मूलतो ये निजगदुरवन्त्यादीनां देशानां श्रीसंप्रतिनृपात् प्रागनार्यतां, यतः स्पष्टतयाऽत्र श्रीवीरस्य केवलित्वे उज्जयिनीदशार्णमद्रा-  
दिषु विहारो दर्शितः, तेषां भ्रममूर्तं कौशान्या अटव्याः स्थाने कौशान्या नगर्या ग्रहः, अस्ति च गोदावर्या उपकंठं कौशांब्यटवी यत्र  
श्रीकृष्णस्य प्रेतता पाण्डुमथुरां गच्छतः, एवं च सौराष्ट्रकलिंगादीनां न व्याहन्येत श्रीवीरकालेऽप्यार्यता

६ अन्नया सेट्टिणी नरिंदपत्ती य पंचवण्णसुराहिकुसुमदहियक्खयसुगंधिगंधधूववासपडिपुण्णपडलकरपरियरियाओ . गयाओ  
जिणालयं, विरइया अणेगविच्छित्तिगणहरा सव्वण्णुविवाण पूया ३२७, अनेन स्त्रीणां जिनविम्बानां पूजाया निषेधकस्य जिनदत्तस्य शास-  
नतत्त्वापलापिता ध्वनिता

७ कप्पसमत्तीए विहरिया मुणिणो ३२९, इत्युक्त्या मासकल्पविहारस्योत्सूत्रतावादिनो जिनदत्तस्य सूत्रोत्तीर्णवादिता व्यक्तीकृता

८ गुरुसाराजो षवलाउ सुविहिया साहुसंतई जाया ३४०, इत्येव श्रीजिनेश्वरसूरेः सुविहितानामुद्भवो वर्णितः, तथाच तेभ्यः  
 खरतरोत्पत्तिं वावदुका दूर निरस्ताः, यद्यपि कैश्चिदपास्य भवमियं न्यस्तमत्र 'खरयरया' इति पदं न च तत् प्रक्षेप्त्वादर्शेषु, न च यथार्थं,  
 तदनुयायिभिर्व्याकरणसवेगगशालादिवृत्तिमुसुन्दरीचरित्रादिषु तदुल्लेखस्याकृतेः, न च मात्रागणोऽपि उकारादारब्धो यथायथं समाप्नोति  
 इत्यलमतिविस्तरेण । चरित्रस्यास्य मुद्रणमारब्धपूर्वं श्रेष्ठि देवचंद लालभाइ जैनपुस्तकोद्धारसंस्थया, परं समाप्तेरवसरे श्रीराजनगरे  
 श्रेष्ठिसुयाभाइ रवचंद इत्यनेन स्थापिताया विद्याशालासंस्थायाः कार्यवाहकैः श्रेष्ठिशिवाभाइ मोहनभाइ (२) जीवनभाइ  
 इत्येभिः आगमाराधनोत्सवागतेनान्येन च द्रव्येण साहाय्य चिकीर्षुभिः पचविंशतिशतिका दत्ता द्रम्माणां सस्थाये एतस्यै, तेनानया  
 सस्थया यथायथं समाप्य प्राकाश्य नीत चरित्रमेतत् । शोधने विहितेऽपि श्रमे स्वलित यत् शोधयन्तु धीमन्तः सज्जनास्तदित्यर्थयते  
 आनन्दसागरः १९८५ कार्तिकशुद्ध ३ गुरुवासरे राजनगरात्



## श्रीवीरचरित्रस्य विषयानुक्रमः

### १ प्रस्तावः

प्रस्तावना  
महाव्रजयन्तीशुभमर्दनवर्णनं  
नयसारवर्णनं  
अटवीमध्ये साधुभ्यो दानं  
धर्मदेशना सम्यक्त्व च  
सौधर्मे देवत्वं धर्मकार्यं च

### २ प्रस्तावः

विनीतावर्णनं  
श्रीकृष्णप्रभुवर्णनं  
समवसरणवर्णनं

१ वामामुत्तमरीचिदीक्षा  
२ अंगारखडकदण्डान्तः  
३ पारिव्रज्यं  
३ मरीचिदेशनादि  
४ इन्द्रचक्रितमवमहदानं  
५ मरीचैः कुलमदः  
अष्टापदे चैत्य तद्गुणाश्च  
कपिलदीक्षा मरीचिकाळः आसुरि-  
दीक्षा अन्यक्तादि  
७ सूरसेनपरिव्राजकचरित्रं अभियोतदीक्षा  
९ सनत्कुमारे देवः श्वेतांबिकाया भारद्वाजः  
१० माहेन्द्रे देवः ससारः

११ परिवाहपुत्रं भोगदोषाः स्थावरदीक्षा  
१३ प्रत्नदेवः २८  
१४ ३ प्रस्तावः  
१५ विश्वभूतेर्मधुकीडा ३१  
१७ देव्यामहः कूटपुरुषाः रणयात्रा विश्वन-  
१९ न्दिकीडा विश्वभूतेरपमानं संवेगश्च ३६  
२० संभूत्याचार्यवर्णनं देशना विश्वभूतिदीक्षा  
परिजनाक्रन्दः वीरश्च  
२३ विश्वभूतेस्तपः गोनुरस्य पातः निदानं ४१  
२५ महाशुके देवः  
रिपुमर्दनः अचलः मृगावती पुत्री राक्षी च  
२५ सप्त स्वप्नाः त्रिपृष्ठजन्म ४३

प्रेक्षणकं अश्वपीरदूतापमानं सिंहवधः ५०  
 युद्धं प्रतिवामुदेववधः अंतःपुरविलापः  
 अंगादिदेशसापनं कोटीशिलोत्पाटनं ६०  
 पोवनपुरे श्रेयांसजिनागमः धर्मकथा  
 सम्यक्त्वं ६२  
 गायकगृतिः देव्यपमानं सप्तमनरफगमनं ६३  
 धर्मपोपसूरिदेशना अचलदीक्षामोक्षौ ६३  
 प्रियमिप्रचक्री धनार्यदेशसाधनं चक्रिऋद्धिः  
 वैराग्यं प्रोष्ठिलाचार्यदेशना दीक्षा शुके देवः ७१  
 ४ प्रस्तावः  
 नन्दनजन्म प्रोष्ठिलाचार्योः देशना ७२  
 नृपो नरसिंहः चम्पकमाला देवी मन्त्रिवर्गः  
 सुतचिन्ता घोरशिरागमः मन्त्रसाधनं  
 घोरशिवमूर्च्छा श्रीभवनपुरं अवन्ति-

सेनो राजा वीरसेनविजयसेनौ राज्यं  
 स्नेचरयुद्धं गगनवल्लभे विजयराजसुतो  
 जयशेखरः वैद्यमित्तेजाः वीरसेनरा-  
 जस्यापहारः विजयसेनकृतो राज्याक्रमः  
 सोमदत्तगृहे स्थानं प्रस्थानं योग्याचार्यो  
 महाकालनामा प्रप्रग्या, अष्टशतेन होमः  
 क्षत्रियैः, वेताढ्यगमनं चंपकमालाया  
 ध्वजस्वरः घोरशिवस्य राज्यं नर-  
 विक्रमाभिधानं हर्षपुराधिपदेवसेनदु-  
 हितुर्वरणं कालमेघमल्लजयः शीलवत्यै  
 पितृशिक्षा पुरप्रवेशः युवतिविभ्रमा  
 जयकुञ्जरवशीकरणं कुमारस्य प्रवासः  
 पाटलगृहे वासः शीलवत्या अपहारः  
 जयवर्धने राज्यं नशा नरविक्रमापहारः

सामन्तभद्रः देशना सुतो गोकु-  
 लिकगृहे सुतसंयोगः शीलवत्यै शी-  
 लवत्या योगः मालाकाराय चौडराज्य-  
 दानं जयन्त्यां गुरोर्गमनं देशना पित्रा  
 योगः राज्याभिषेकः शिक्षा साधु-  
 नृपयोः १०९  
 नन्दननृपस्य दीक्षा विंशतिस्थानकारा-  
 धनं प्राणते देवः १११  
 देवानन्दाकुक्षाववतारः स्वप्रानामुपलंभश्च १११  
 इन्द्रस्तुतिः गर्भापहारः देवानन्दाकंदः ११२  
 त्रिशलाकुक्षौ संक्रमः स्वप्ना वृद्धिर्मनोरथाः ११४  
 निष्पन्दत्वं शोकः अभिमहः ११५  
 श्रीवीरस्य जन्मनि दिक्कुमारीमहः ११७  
 अभिषेकसामग्री मेरुचालनं अभिषेकः १२३

वृषभो महः  
 वर्धमाननामकरणं सुरपिशाचसंपरूपा-  
 भ्यामभीविः लेखशाडानयनं  
 यशोशमिधानकारणं  
 यशोदया श्रीवीरस्य विवाहः, प्रियदर्शना-  
 जन्म  
 मातापित्रोः स्वर्गमनं, नन्दिवर्धनस्य रा-  
 ज्याभिषेकः  
 संवत्सरदानं नन्दिवर्धनकृत्वा महानसशा-  
 ला लोचान्तिकागमनं च  
 दीक्षाभिषेकः चन्द्रप्रभा शिबिका दीक्षा-  
 महोत्सवः  
 ५ प्रस्तावः  
 सोमगाक्षणाय वसार्धदानम्

१२५ कूर्मात्मामे गोपोपसर्गः शक्रकृता निर्म-  
 त्सना दूश्त्रवाभ्रमे गमनं वर्षायाः  
 १२७ पक्षे गते निर्गमः अभिप्रहृषं चक १४८  
 १३० वर्धमानग्रामस्यास्थिप्रामत्वे हेतुः वृषस्था-  
 प्रतिजागरणाद् द्वेषः मारिः चैत्यम् १५२  
 १३२ शूलपाणिकृता उपसर्गाः तत्प्रतिबोधः  
 स्वप्नदशकं इन्द्रशर्मोक्तं तत्फलं (१) १५६  
 १३४ अचलंदकस्य कुटिलता शक्रशिक्षादि १५८  
 सुवर्णमालुकायां वसार्धस्य पातः, नन्दि-  
 वर्धनाय लक्ष्णेण दानं तस्य १५९  
 कनकसलाभ्रमः ( गोभट्टो विप्रः वना-  
 रसीप्रस्थानं विशासिद्धाकृष्टा रसवती  
 युवतिश्च शीलदार्ढ्यं जालन्धरे चन्द्र-  
 लेखाचन्द्रकान्ते ईशानचंद्रः रक्षाव-

लयं गंगायां प्रवेशः नास्ति कृत्वाक्  
 जालन्धरे गमनं ईशानचन्द्ररक्षा यो-  
 गिनीशान्तिः परस्त्रीनियमः गृहे आ-  
 गमनं भार्योमरणश्रवणं धर्मघोषस्य  
 देशना दीक्षा मंडूकीविराधना क्रोधः  
 ज्योतिष्कः तापसः चंडकौशिकः  
 बोधः १७६  
 उत्तरवाचाला श्वेतां विक्रायां प्रवेशि-  
 नृपकृता स्तुतिः १७७  
 सुरमिपुरं सुदंष्ट्रसुरोपसर्गः कंवलशंवलौ  
 मथुरा जिनदासः साधुदासी गंगोचारः  
 स्थूणाके गमनं पुण्यबोधः १८२  
 ६ प्रस्तावः  
 राजगृहनालन्दायां तन्तुवायार्जुनशालायां  
 वर्षावासः (२) १८३

उत्तरापथे सिद्धिन्ध्रे केशवशिवापुरो मं-  
 राः पूर्वप्रियोपलब्धये पट्टिकाकृतिः मं-  
 गलीमुभद्रयोर्मसत्वं गोशालजन्म,  
 धोवीरेण मीढनं कोष्ठाके सिध्यत्वं प्रा-  
 ग्गृहीताया नियतेः स्वालीस्फोटे दाढ्यं  
 प्रास्यगमामे उपनन्दगृहदाहः चंपायां  
 वर्षावासः (३) मालाके पात्रालके च ताडनं  
 कुमारे मुनिचन्द्राः चौराके सोमाजय-  
 न्तीभ्यां मोचनं पृष्ठपम्पायां वर्षावासः (४)  
 तुवांगले दरिद्राः श्रावस्यां मनुष्यमांसं  
 हरिद्रुमेऽग्निः मंगलाग्रामे वासुदेवगृहे  
 आत्रने घलदेवगृहे च स्थानं चौराके  
 मंडपदाहः फलंधुकायां कालमेपह-  
 स्तिनो म्लेच्छदेशे गमनं पूर्णकलशे स्तो-

नरधः भद्रिलायां वर्षावासः (५) कद-  
 लीसमागमे जंबूखंडे चास्तारिकाभक्तं  
 तंबाके नन्दिपेणाः कूपिके विजयाप्र-  
 गल्भाभ्यां मोचनं वैशालीप्रस्थानं (६)  
 गोशालो वाधितः अयस्कारपातः १९८  
 विभेळक्यक्षस्योत्थानपर्याणिका २१२  
 शालिशीर्षे कटपूतनोपसर्गः लोकाग्रधिः २१३  
 आलम्बिकायां वर्षारत्रः (७)  
 गोशालमीढनं २१३  
 कुण्डागे मधुमथनगृहे गोशालचेष्टा मर्दन-  
 ग्रामे घलदेवगृहे च २१३  
 सालाग्रामे सालज्योपसर्गपूजे २१४  
 लोहार्गले जितशत्रुकृतः सत्कारः २१४

पुरिमताले वग्गुरश्रेष्ठिकृता पूजा, धर्मघोप-  
 सूर्युक्तं पूजाफलं दानं च २१७  
 तुन्नागपथे श्रीभूमौ च गोशालस्य ताडनं  
 राजगृहेऽष्टमो वर्षावासः (८) २१८  
 लाढावञ्जभूमिशुद्धभूमिपूषसर्गाः वृक्षमूले  
 वर्षावासः (९) २१८  
 सिद्धार्थकूर्मारग्रामयोरन्तराले तिलप्रभादि २१८  
 वैश्यायनस्योत्थानपर्याणिका तेजोलेश्या  
 तन्निवारणं तदुपायप्रभोत्तरे २२३  
 कूर्मारसिद्धार्थपुरोरन्तराले तिलनिश्चयात्  
 प्रवृत्तिपरिहारो नियतिवाददाढ्यं च  
 श्रावस्यां तेजोलेश्या पार्श्वन्तेरासि-  
 सगमः २२४

७ प्रस्तावः

वैशार्यां शंखसरारः गंडकिकायां नावि- पोपसर्गः ऋतुपट्ट्याविकारिता	२१९
वाणिश्रमामे आनन्दगाथापतिः अव- पिमान्	२१९
श्रायस्यां वर्षारात्रः (१०) सातुपष्टिके प्रतिमाः	२२६
टदभूमौ पेढाले संगमोपसर्गाः, संगम- कस्य सौधर्गाग्निर्वासनं	२३१
आलंबिकायां विद्युत्कुमारेन्द्रस्तुतिः श्वेतं- निकायां हरिस्सहस्तुतिः श्रावस्यां रु- न्दप्रतिमासत्कारः कौशांब्यां चन्द्र- सूर्यावतारः धाराणस्यामिन्द्रपूजा रा-	

जगृहे ईशानार्चा मिथिलायां जनक- स्तुतिः धरणेन्द्रवन्दना	२३३
राजगृहे वर्षारात्रः (११) भूतानन्दस्तुतिः जीर्णश्रेष्ठिभावना केवलिदेशना	२३४
चमरेन्द्रोत्थातः सुसुगारे	२४०
भोगपुरे भाहेन्द्रोपसर्गः रानत्कुमारेन्द्र- नतिः नन्दीयामे नन्दिस्तुतिः	४४१
चम्पापातः धारणीमरणं चन्दना कुल्मा- पामिग्रहः	२४७
पाणमासिकः कीलकोपसर्गः मध्यमापापायां कीलकनिर्गमः	२५०
तपःसंकलना केवलज्ञानं च	३५१
८ प्रस्तावः	
समवसरणरचनं धर्मदेशना	२५३

गणधराणां प्रतिबोधः दीक्षा चन्दनाया दीक्षा संघस्थापना	२५९
ऋषभदत्तस्य देवानन्दाथाश्च दीक्षा	२६०
क्षत्रियकुण्डे समवसरणं पपेदश्च नन्दि- वर्धनकृता स्तुतिः जमालिदीक्षा (मा- त्रादिचचनप्रतिवचनानि) महः	२६५
जमालेर्निहवत्वं प्रियदर्शनाया बोधः ज- मालेर्गतिः	२६९
कौशांब्यां सुरप्रियलब्धवरे नृपस्य क्रोधः चण्डप्रयोत्कृता मृगावत्याः प्रार्थना शी- लरक्षार्थं छलं मृगावत्या दीक्षा या सा सा सोदाहरणं आतन्वादीनां वाणि- श्रमामादिषु बोधः कौशांब्यां चन्द्र- सूर्यावतरणं कैवल्यं	२७४

आश्चर्यदशकं जानन्दश्रवणः गोशालक-	सुदंप्रजीवकर्मकस्य दीक्षा तन्मोचनं च	२९१	सामायिके कामदेवकथा	३२३	
कृत उपसर्गः सर्वानुभूतिः सहस्रारे सु-	वामलिस्यादिषु विहारः प्रसन्नचन्द्रादी-		देशावकाशिके सागरदत्तकथा	३२५	
नक्षत्रोऽच्युते	२७९	नां बोधश्च	२९१	पोपधोपवासे जिनदासकथा	३२७
गोशालकवाहः अयंपुत्रः शिष्येभ्यो निर्ह-	राजगृहे समवसरणं	२९२	अतिथिसंविभागे साधुरक्षितकथा	३२९	
रणादेशः सप्तमदिने सम्यक्त्वं आदेशः	२८२	प्रथमाणुव्रते हरिवर्मकथा	२९८	सेडुकद्विजवृत्तं	३३४
सिंहानीतौपधेन नीरोगत्वं श्रीवीरस्य	२८३	द्वितीयाणुव्रते सत्यश्रेष्ठिकथा	३००	गागलिप्रव्रज्यादि	३३४
गोशालकस्य भवाः	२८६	तृतीयाणुव्रते वसुदत्तकथा	३०३	अष्टापदयात्रा तापसानां बोधादि	३३५
राजगृहे धर्मदेशना मेघकुमारस्य दीक्षा		तुर्याणुव्रते सुरेन्द्रदत्तकथा ( शुभंकर-		मिथिलायां दुष्पमास्वरूपोक्तिः	३३७
भग्नमनस्कत्वं पूर्वभवौ	२८९	कथा )	३१२	आयुर्वर्धने विज्ञप्तिः	३३८
नन्दिपेणस्य दीक्षा, देवेन कृतो निषेधः		पंचमाणुव्रते वासवदत्तकथा	३१४	निर्वाणमहः गौतमकेवलं	३३९
जिनेनापि, वेदयागृहे स्थानं दशकदश-		दिग्ध्रते जिनपालितकथा	३१६	परम्परा ग्रन्थकारकाणामितिहा च	३४१
फयोधः दीक्षा देवत्वं	२९०	भोगोपभोगमाने रविपालकथा	३१९		
		अनर्धदण्डविरतौ फोरंटककथा	३२२	इति श्रीमहावीरचरित्रस्य विषयानुक्रमः	

शेठ-देवचन्द-लालभाई-जैन-पुस्तकोद्धारसंस्थायाः क्रेयग्रंथाः

अंक.	मूल्य.	अंक.	मूल्य.	अंक.	मूल्य.
३०	आनन्दकाव्यम० मौक्तिक ४ सुं ०-१२-०	६०	विंशतिस्थानकचरित्रं पद्यबद्धं १-०-०	६८	नवपदप्रकरणं लघुवृत्तिः १-०-०
३२	" " " ५ सुं ०-१०-०	६१	कल्पसूत्रसुत्रोधिका २-०-०	६९	पंचवस्तुकपंथः सटीकः ३-०-०
४३	" " " ६ सुं ०-१२-०	६२	सुवोधा सामान्यरी ०-८-०	७०	आनन्दकाव्यम० मौक्तिक ८ सुं.
४८	श्राद्धप्रतिक्रमणसूत्रवृत्तिः २-०-०	६३	श्रीपालचरित्रं प्राकृते साव- चूर्णिकं १-४-०	७१	आचारप्रदीपः १-८-०
५१	सेनप्रभानि (प्रश्नोत्तररत्नाकरः) १-०-०	६४	प्रवचनसारोद्धारः सटीकः उ- त्तरार्ध, ४-०-०	७२	विचाररत्नाकरः ३-०-०
५३	आवश्यकटिप्पनं. १-१२-०	६५	(द्रव्य) लोकप्रकाशः भाग १ लो २-०-०	७३	नवपदप्रकरणं वृहद्वृत्तिः ४-०-०
५४	जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः सटीकाउत्तरार्ध. २-०-०	६६	आनन्दकाव्य म० मौक्तिक ७ सुं. १-८-०	७४	(क्षेत्र) लोकप्रकाश भाग. २ जो २-८-०
५६	श्रीपालचरित्रं संस्कृते. ०-१४-०	६७	तत्त्वार्थोधिगमसूत्रं भाष्यटीका- युक्तं पूर्वार्ध ६-०-०	७५	महावीरचरियम् ४-०-०
५७	सूक्तमुष्णवली. २-०-०			७६	प्रियङ्करनृपकथादि १-०-०
५८	प्रवचनसारोद्धारः सटीकः पूर्वार्ध. ३-०-०				
५९	संबुलनेयालीयपयज्ञो सटीक. १-८-०				

श्रीआगमोदय-समिति संस्थायाः-क्रेयग्रंथाः

शं.क.	नाम.	किंमत.	शं.क.	नाम.	किंमत.
३४	विशेषा० गाथा विषयक्रमः	०-५-०	४८	विशेषा० भाषांतर भाग २ जो	३-०-०
३५	विचारमार्गप्रकरणं	०-८-०	५०	जीवसमासः	१-८-०
३६	गण्डागरणप्रश्नो	०-३-०	५१	शोभनस्तुतिः (संस्कृत) प्रेसमां	८-०-०
३७	धर्मविन्दुप्रकरणं	०-१२-०	५२	स्तुतिचतुर्विंशतिका सचित्रा शोभनमुनिरूपा	६-०-०
३८	विशेषा० भाषांतर भाग १ लो	२-०-०	५३	चतुर्विंशतिका सचित्रा यप्पमट्टिसुरिहृत	६-०-०
३९	जैनफिटोसोफी (धंमेजी)	१-०-०	५४	भक्तामरकाव्यसंग्रह भाग २ जो	३-८-०
४०	योग " "	०-१४-०	५५	नंदादिसप्तसूत्रीगाथाऽपकारादियुतो विषयानुक्रमः	२-०-०
४१	धर्म " "	०-१२-०	५६	आयद्वयकमलयगिरिहृतटीका भाग १ लो	४-०-०
४२	भगुयोगद्वारमूर्तं	२-८-०	५७	धीचतुर्विंशतिजिनानन्दस्तुतयः सचिचरणाः सचित्राः	६ ० ०
४४	नंदागूर्तं	२-४-०	५८	लीषडीमंडारना हस्तलिखितपुस्तकोनुं सूत्रीपत्र	१-४-०
४५	भक्तामरकाव्यसंग्रह भाग १ लो	३-०-०	५९	जैनधर्मपरस्तोत्र	प्रेसमां
४६	दत्तात्रेय्या छायायुक्त	२-०-०		लोकप्रकाश गुजरातीभाषांतर भाग १ लो	प्रेसमां
४७	पंचसंग्रहः (न्योपज्ञगृहियुताः)	२-८-०		आयद्वयकमलयगिरिहृतटीका भाग २ जो	प्रेसमां

प्राप्तिस्थान सुरत गोपीपुरा.



श्रेष्ठि-देवचन्द लालभाई जैनपुस्तकोदारे ग्रन्थाङ्क. ७५

चान्द्रकूलीनश्रीमदभयदेवशूरिशिष्यश्रीप्रसन्नचन्द्राचार्योक्त्या श्रीसुमतिवाचकशिष्यैः श्रीगुणचन्द्रगणिभिर्विहितम्

# श्रीमहावीरचरित्रम् (प्राकृतं) ३३३२

प्रकाशिका—श्रेष्ठि-देवचन्द्र लालभाई-जैनपुस्तकोदारसंस्था ।  
राजनगरीयविद्याशालाकार्यवाहकैरागमाराधनोत्सवागततदन्यद्रव्येण वितीर्णेन ।

[ अस्य पुनर्मुद्रणाद्याः सर्वेऽधिकारा एतद्ग्राण्डागारकार्यवाहकाणामायत्ताः स्थापिताः ]  
इदं ग्रन्थरत्नं मुम्बापुर्यां जीवनचन्द्र साकरचन्द्र जठहेरी इत्यनेन निर्णयसागरमुद्रणालये फोल्भाट-  
वीथ्या २६-२८ तमे मन्दिरे रामचन्द्र येसू शेडगेद्वारा मुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

प्रतिसंख्या १२५० ]

वीरसंवत् २४५५, विक्रमसंवत् १९८५, श. १९२९.

[ मूल्यं रु. ४-०-०

Rs. 4-0-0



Shreshthi Devachand Lalbhai Jain Pustakoddhara Series, No. 75.

# Śrī MAHĀVĪRA CHARITAM

(PRĀKRITAM)

BY

Śrī GUNACHANDRA SŪRI

Copies 1250]

Price Rs. 4-0-0.

[A. D. 1929.

[ All rights reserved by the Trustees of the Fund. ]

---

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya sagar Press, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

---

Published by Jivanchand Sakarchand Zaveri, on behalf of Seth Devachand Lalbhai Jain Pustakoddhara  
Fund No 121-123, Javeri Bazar, Bombay

---

## श्रीमहावीरचरित्रस्योपोद्घातः ।

श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य चरित्रमिदमुपदाक्रियमाणं सज्जनेभ्योऽस्ति, यद्यपि भगवतश्चरित्राणि नैकानि श्रीहेमचन्द्राचार्य-नेमि-  
चन्द्राचार्यादिमिर्विहितानि सुन्दरतराणि मुद्रितपूर्वाणि च परं न किमप्येतावन्मानं प्रलं चातः किमपि, यत एतच्चरित्रं वैक्रमीयायां द्वादशश-  
तान्यामेकोनचत्वारिंशदधिकेषु समानां व्यतीतेषु विद्वन्धं द्वादशसहस्रमानं च, रचयितारथास चान्द्रकुलीनाः श्रीमन्तो गुणचन्द्राः  
सुमतिवाचकविनेयाः, एतच्च प्रस्तुतचरित्रप्रान्तभागावलोकनात् स्पष्टमवसीयते, यत आहुस्तत्र ते—

सिरिमुमड्वायमाणं विणेयलेसेण । गणिणा गुणचंदेणं रइयं सिरिचीरचरियमिणं ॥ ५७ ॥

गणिनश्चेमे चान्द्रकुलीनश्रीवर्धमान-जिनेश्वरबुद्धिसागर-जिनचन्द्र-अभयदेवसूरिशिष्यश्रीप्रसन्नचन्द्राचार्यवचनेन व्यधुरेनत्, यत  
उक्तं ग्रन्थकृद्भिरत्रैव प्रान्त्यभागे—

साहाइ तस्स चंदे कुळमि निप्पडिमपसमकुलमवणं । आसि सिरिचन्द्रमाणो मुणिनाहो संजमनिहिच्च ॥ ४८ ॥

षहळकलिकालतमपसरपरियासेसविसमसमभागो । दीवेणंय मुणीणं पयासिओ जेण मुत्तिपहो ॥ ४९ ॥

मुणिवइणो तस्स हरअट्टहाससियजसपसाहियासस्स । आसि दुवे वरसीसा जयपयडा सूरससिणोव्व ॥ ५० ॥

मवजलदिवीइसंभंतभवियसंताणतारणसमत्थो । बोहित्थोव्व महत्थो सिरिसूरिजिणेसरो पढमो ॥ ५१ ॥

'गुरुसाराओ षपलाउ सुविहिया (निम्मळा पु.) साहुसंतई जाया । हिमचंताओ गंमव्व निग्गया सयळजणपुजा ॥ ५२ ॥

अत्रो य पुत्रिमायंदसुंदरो बुद्धिसागरो सूरी । निम्नवियपवरवागरणछंदसत्थो पसत्थमई ॥ ५३ ॥  
 एगंतवायविलसिरपरवाइकुरंगभंगसीहाणं । तेसिं सीसो जिणचंद्रसूरिनामो समुप्पन्नो ॥ ५४ ॥  
 संवेगरंगसाला न केवलं क्वविरयणा जेण । भव्वजणविम्हयकरी विहिया संजमपवितीवि ॥ ५५ ॥  
 ससमयपरसमयन्नू विसुद्धसिद्धंतदेसणाकुसलो । सयलमहिवलयवित्तो अत्रोऽभयदेवसूरिति ॥ ५६ ॥  
 जेणालकारधरा सलम्खणा वरपया पसन्ना य । नव्वंग (सिद्धंत पु.)वित्तिरयणेण भारई कामिणिव्व कया ॥ ५७ ॥  
 तेसिं अत्थि विणेओ समत्थसत्थत्थवोहकुसलमई । सूरी पसन्नचंदो चंदो इव जणमणाणंदो ॥ ५८ ॥  
 तव्वयणेणं सिरिसुमइवायगाणं विणेयलेसेण । गणिणा गुणचंदेणं रइयं सिरिवीरचरियमिमं ॥ ५९ ॥

अत्र नहि खरतरगच्छप्रादुर्भावस्य गन्धोऽपि, एवमेव च न श्रीजिनेश्वरसूरिशिष्यश्रीजिनचन्द्रकृतायां संवेगरंगशालायां न च श्रीअभय-  
 देवसूरिकृतायां शास्त्रततौ न च श्रीअल्हदेवोपाध्यायकृते सुरसुन्दरीचरिते यावत् अशीत्यधिके समासहस्ते जावालिपुरि चतुर्मासीस्थिताभ्यां  
 श्रीमज्जिनेश्वरबुद्धिसागरसूरिभ्यां विहितयोरष्टकवृत्तिबुद्धिसागरव्याकरणयोरपि न खरतरगच्छप्रादुर्भावगन्धोऽपि, एवं यदि श्रीजिनेश्वरसूरिभिस्त-  
 त्पद्योद्भवैश्वान्यैः सूरिभिर्न स्वीकृता तदा खरतरोत्पत्तिस्तर्हि तत्परम्पराया बहिर्वर्तिभिः प्रलपितेन किम् ? खरतरगच्छप्ररूपणामूलभूतो जिनवल्लभ  
 एव प्रश्नोत्तरैकपष्टिशतके स्वस्य कूर्चपुरीयजिनेश्वरशिष्यतामाह, किंच-मुण्यपत्तनस्या या कोट्याचार्याया विशेषावश्यकवृत्तिपुस्तिका सापि  
 स्पष्टमेव निगदति यदुत न श्रीजिनेश्वरसूरेः खरतरविरुद्धं न च जिनवल्लभस्तत्परंपरागत इति, यतः सा एकादशशतकीयसप्तत्रिंशद्वर्षेषु लि-  
 खिता, लेखकश्चास्या जिनवल्लभस्यान्तेवासी नेमिकुमारः, स स्पष्टमाख्याति यदुत कूर्चपुरीयजिनेश्वरशिष्यजिनवल्लभार्थं पुस्तकमिदमलेखीति,


अन्यत्र विशेषावश्यकमाप्यप्रतेः प्रान्तेऽपि नेमिकुमार इत्यमेनाह, तथा च न तत्र जिनेश्वरसूरेः खरतरधिरुदं जिनवल्लभस्य तत्परंपरानि-  
 गंतता च, पाश्चात्यैः एतरेर्महतामभिधानेन प्रतिष्ठामभिलाषुकैः कल्पित एवैपः वृत्तान्तः, अत एवोपदेशसप्ततिकारैः 'येभ्यः प्रतिष्ठामापन्नो,  
 गच्छः खरतराभिध.' इति वाक्येन खापानां प्रलापो घ्वनितः सत्य एव लक्ष्यते ।

किंच—या खरतरगच्छमूलभूतेन जिनवल्लभेन श्रीवीरस्य भगवतो गर्भापहारः पष्ठकल्याणकतया मतः सोऽपि नैभिर्गणिभिर्मतः,  
 अत एव च श्रीमद्भिरत्र चतुर्यप्रस्तावस्योपसंहारे पत्रे १४१ 'गम्भावयारजम्मणदिक्खाकल्लाणकहणपडिवद्धो—चउत्थओ एस पत्या-  
 यो' इत्युक्त्वा गर्भापहारस्य कल्याणकता निराकृता, यद्यपि श्रीमद्भिर्हरिमद्रसूरिभिर्यात्रापञ्चाशके श्रीमद्भिरभयदेवसूरिभिः रवाधैरात्मपूर्वज-  
 दर्शितैव तथापि केचन स्वगच्छाग्रहवन्त आहुः यदुत सर्वजिनकल्याणकानां समतां दर्शयितुं तैस्त्रयोक्त, यद्यपि क्वचनापि पष्ठकल्याण-  
 कस्यानुक्ततया न तत् श्रद्धातुं शक्यमागमरसिकैः, परमत्र तैरपि तथा वक्तुं न शक्यं, यतो वीरचरित्रे अत्र अन्यत्र च कुत्रापि विहाय  
 जिनवल्लभ तदनुसारिण च न कोऽप्यागमश्रद्धालुराह कल्याणकपट्ट, तथा च यथा श्रीमलयगिरिभिः जिनवल्लभस्य संहननानां शक्तिवा-  
 चकतां सिद्धान्तानभिहितामपि सिद्धान्ताभिहितां मन्वानस्योत्सूत्रवादिता श्रीजीवाभिगमप्रज्ञापनादिवृत्तौ स्पष्टमभिहिता तथैवात्रापि तस्य  
 तथात्वं घन्यमानं न व्याहन्यते इत्यलं चसूर्या गच्छकदाग्रहरसिकैः ।

चरित्रे चात्र स्त्रीयालसुषोधा प्राकृतैवाहता भाषा, तथाच प्राकृतवाणीविलासिनामप्राकृतानामतीवादरास्पदमिदं, विशेषतस्तत्र तत्रा-  
 नेकविषयगतान् प्रयन्धान् दिदक्षूणां । प्रस्तावाश्चात्र श्रीमद्भिः कृता अष्ट, प्रतिप्रस्तावं चात्राधिकारा इमे

प्रस्तावः	विषयः	पत्रं	प्रस्तावः	विषयः	पत्रं
१	श्रीवीरस्य सम्यक्त्वलाभः	२	५	चण्डकौशिकप्रतिबोधनावसानं वृत्तं	१८२
२	मरीचिः पटूपरिप्राजफभवाश्च	२८	६	गोशालकाय तेजोलेश्योपायकथनान्तं वृत्तं	२२३
३	प्रियमिरान्ता भवाः	७०	७	केवलज्ञानोत्पत्त्यवसानं वृत्तं	२५०
४	श्रीवीरस्य ऋचवनगर्भजन्मदीक्षाः	१४१	८	निर्वाणान्तं वृत्तं ग्रन्थकृतप्रशस्तिश्च	३६०

चरित्रं चैतत् श्रीमतां प्रसन्नचन्द्रसूरीणां वचनेन श्रीमद्विर्विहितं, परं विधापनायाम्यर्थिताः श्रीमन्तः श्रीमद्म्यां छत्रावली (छत्राल)-  
वास्तव्याम्यां श्रेष्ठिम्यां शिष्टवीरनामम्यां, तयोः पिता जज्जनागः कर्पटवाणिज्यात् छत्रावल्यामागतः, तत्र च कर्पटवाणिज्ये जज्जनागपित्रा  
श्रीमद्वायडगच्छीयजीवदेवसूरितच्छिष्यश्रीजिनदत्ताम्यामधिगतसम्यक्त्वेन नन्दीश्वरचैल्यं विहितं श्रीमता गोवर्धनश्रेष्ठिना, तत्कुटुम्बवृक्षध्यायं



स्पष्टं चेदं ग्रन्थप्रशस्तौ, तथाहि—

एयस्स विरयणंमी निव्वंधो जेसि गाढमुप्यन्नी । ते पुण मूलाओ चिय साहिज्जते निसामेह ॥ ६० ॥  
सियजसजोण्हाधवलियनायकुठनहयले मयंकुव्व । पुव्वमहेसि महेसीपणओ सिरिजीवदेवपह्ण ॥ ६१ ॥  
तस्स सुसिस्सो सिद्धंतसिद्धसुविसिद्धसंजमाभिरओ । गुणरयणरोहणगिरी पयडो जिणदत्तसूरीत्ति ॥ ६२ ॥  
गंभीरिमाए पसमेण बुद्धिविभवेण दक्खिणत्तेण । सुंदरनएण जेसिं कोऽवि न तुल्लो जए जाओ ॥ ६३ ॥  
तेहिंते पडियुद्धो 'वायड'कुलमवणजयपडायनिभो । कप्पडवाणिज्जपुरे सेट्ठी गोवद्धणो आसि ॥ ६४ ॥  
नंदीसरावलोयणमणाण मव्वाण दंसणत्थं च । कारावियं सुतुंगं वावन्नजिणालयं जेण ॥ ६५ ॥  
धम्मघरणीए गिहिणीए तस्स सोद्धित्ति नामधेयाए । अगणियगुणगणनिलया पुत्ता चत्तारि उप्पन्ना ॥ ६६ ॥  
पढमो अम्मयनामो धीओ सिद्धोत्ति जज्जणागो य । तइओ चउत्थओ पुण विक्खाओ नन्नओ नाम ॥ ६७ ॥  
नयविणयसच्चधम्मत्थसीलकलिएहिं जेहिं दिट्ठेहिं । नूणं जुहिट्ठिलाईवि सइहिज्जति सप्पुरिसा ॥ ६८ ॥  
अहं संयारयदिक्खं एवज्जिउं भावसारमंतमि । गोवद्धणंमि सग्गं गयंमि तह पढमपुत्तदुगे ॥ ६९ ॥  
सो सेट्ठी जज्जणागो छत्तावल्लीए वासमकरिसु । सव्वकणिट्ठो नन्नयसेट्ठी पुण मूलठाणेवि ॥ ७० ॥  
तेसिं च मरणिपुत्तो नियपुत्ताओवि गाढपडियंधो । आसि जसणागनामो सेट्ठी सुविसिद्धगुणनिलओ ॥ ७१ ॥  
अहं नन्नयस्स पुत्ता पयडा सावित्तिक्कुच्छिसंभूया । दोत्ति चिय उप्पन्ना गोवाइओ कवड्डी य ॥ ७२ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥



सत्तुंजयपमुहममत्यतित्यजता पयट्टिया जेण । पढमं चिय तस्स कवड्डिसेट्ठिणो को समो होअ ? ॥ ७३ ॥  
 पुरिसत्यकरणनिरयस्स जज्जणागस्स विस्सुयजसस्स । अत्यि जिणधम्मनिरया कलत्तमिह सुंदरी नाम ॥ ७४ ॥  
 जाओ तीसे सुंदरविचित्तलम्बणविराइयमरीरो । जेडो सिट्ठो पुत्तो वीओ पुण वीरनामोत्ति ॥ ७५ ॥  
 को तेमि दाणविज्ञाणबुद्धिसुविमुद्धधम्मगेहाण । निउणोऽवि गुणलवंपि हु होअ समत्थो पवित्थरिउं ? ॥ ७६ ॥  
 नागो इव पिंडियइ वंभंडरुंढए अमायंतो । जस्स जसोहो सारयनिसिच्छणमयलंछणच्छाओ ॥ ७७ ॥  
 जिणयियमुपसत्थतित्यजताइधम्मकरणेण । धम्मियजणाण मज्जे जेहि य पत्ता पढमेरेहा ॥ ७८ ॥  
 अन्नागतहसभणी सुयनाणपवा पयट्टिया जेहि । सपलागमपोत्थयलेहणेण निचंपि भव्वाण ॥ ७९ ॥  
 तोहिं तित्थाद्विपरमभत्तिसव्वस्समुव्वहंतेहिं । वीरजिणचरियमेयं कारवियं मुद्धवोहकरं ॥ ८० ॥  
 जमलुत्तमेत्थ भणियं नियमइदुन्वत्तओ मए किंपि । तं साहंतु गुणद्धा ओच्छाइयमच्छरा विउसा ॥ ८१ ॥  
 उत्तारल्लिपुरीए मुणिअंयेस्सरणिहंमि रइयमिमं । लिहियं च लेहएणं भाहवनामेण गुणनिहिणा ॥ ८२ ॥  
 नंदसिहिरुमंते(११३९)वोक्कंते विक्कमाओ कालंमि । जेढस्स सुद्धतइयातिहिंमि सोमे समत्तमिमं ॥ ८३ ॥

निद्वयं चैतश्चरित्रं उत्तरागत्यां श्रीमद्भिः स्थितिं दधद्भिः, मानं चास्य द्वादश सहस्राणि श्लोकानां ॥ चरित्रे चात्र विचक्षणानां विलोक-  
 नार्हाणि पट्टानि स्थानानि, विशेषेण चेमानि—

१ पत्तो मगहाविसए, तहिं दिट्ठा कोडिपुरिसवोज्जा महासिला—मोतूणं कोडिसिलं, पत्रे ५९, अत्र कोटीशिलेति शिला कास्वीति  
 प्रथे निमित्तं तस्या पगपयिपये स्थानमिति

२ त्रिणवरो नाडं । चालइ मेरुं चलणंगुलीइ १२० । इह चावपेयं सिद्धान्तधरद्वारहितैः, यतो न श्रीमद्भिर्हेमचन्द्रैः केवलमेतत्  
मेरुचालनं प्रत्यपादि, किन्तु तत्प्राक्कालीनैरपि श्रीगुणचन्द्रगणिभिः, श्रीमहानिशीयवृत्तीयाध्ययने श्रीपद्मचरित्रेऽपि च एवमेवाख्यातं स्पष्टतया  
रयावो १४१, अनेन वचसा खा-

सद्भाव इति न संमतं गणिभिः, 'पुण्यं देवानां धम्मे आइक्खइ' इत्यादिवाक्यं तु देवपर्वत्याधान्येनेति ख्यापितं श्रीमद्भिः  
ः प्रथमदेशनाक्षणे नैव देवनराणां

५ कामठित्तिदसन्नपुरवीमयचंपाउञ्जेणीगयपुरकंपिल्लनंदिपुरमडुरापुरेसु महानगरेसु भव्वसत्तजणं पडिवोहिता २६१, अनेन वचसा  
निरस्वाम्हे मूलतो ये निजगदुरवन्त्यादीनां देशानां श्रीसंप्रतिवृपात् प्रागनार्यतां, यतः स्पष्टतयाऽत्र श्रीवीरस्य केवलित्वे उज्जयिनीदशार्णमद्रा-  
दिषु विहारो दर्शितः, तेषां प्रमगुलं कौशाम्ब्या अटव्याः स्थाने कौशाम्ब्या नगर्या ग्रहः, अस्ति च गोदावर्या उपकण्ठं कौशांन्यटवी यत्र  
श्रीकृष्णस्य प्रेतता पाण्डुमयुरां गच्छतः, एवं च सौराष्ट्रकलिंगादीनां न व्याहन्येत श्रीवीरकालेऽप्यार्यता

६ अन्नया सेट्ठिणी नरिंदपत्ती य पंचवणसुरदिकुसुमदहियक्खयसुगंधिगंधधूववासपडिपुण्णपडलकरपरियरियाओ गयाओ  
जिणालयं, विरइया अणेगविच्छित्तिमणहरा सब्वण्णुर्विवाण पूया ३२७, अनेन स्त्रीणां जिनविम्पनां पूजाया निषेधकस्य जिनदत्तस्य शास-  
नतत्त्वापलापिता ध्वनित्ता

७ कप्पसमत्तीए विहरिया मुणिणो ३२९, इत्थुत्तया मासकल्पविहारस्योत्सूत्रतावादिनो जिनदत्तस्य सूत्रोत्तीर्णवादिता व्यक्तीकृता

८ गुग्गुलासो धाताउ सुविहिता साधुमंतर्द जाया ३४०, इत्येवं श्रीविनेश्वरसूत्रेः सुविहितानामुद्भवो वर्णितः, तथाच तेभ्यः  
 गणतोर्तो कावदुस्य दूरं निरन्ता, यद्यपि कैषिदपाम्य भ्रमिपं न्यस्तमत्र 'सरयया' इति पदं न च तत् प्रवेष्वादर्शेषु, न च यथार्थं,  
 तदनुपानिदिप्यांकरनभोगंगगात्रादिगृत्तिमुत्पुन्दरीचरियादियु तदुद्देशसाकृतेः, न च भाषागणोऽपि उकारादारन्वो यथायर्थं समाप्नोति  
 ह्यत्रमिस्त्रोए । अग्निमास्य मुद्रामारुणापूर्णे श्रेष्ठि देवचंद्र लालभाइ वैनपुस्तकोद्धारसंशया, परं समाप्तेरवसरे श्रीराजनगरे  
 भेदिसुषामाइ रूपचंद्र इत्यनेन व्यापाराना विदाशातासंभ्यायाः कार्यमाहकेः श्रेष्ठिशिवाभाइ मोहनभाइ (२) जीवनभाइ  
 ह्येभिः भाषणागणनोन्नागानान्येन च द्रव्येन मादाप्यं चिकीर्षुभिः पंचविंशतिशतिका दत्ता द्रम्माणां संख्यायै एतस्यै, तेनानया  
 मूल्यता रक्षावधं गमाय शास्त्रं नीतिं चस्तिमेतन् । शोभने विद्विोऽपि शमे स्वळितं यत् शोधयन्तु धीमन्तः स्रजनाम्तदित्यर्थयते  
 आनन्दसागरः १९८५ अष्टिकुण्डा ३ गुग्गुलासो धाताउ

## श्रीवीरचरित्रस्य विषयानुक्रमः

१ प्रस्तावः

प्रस्तावना  
महानपजयन्तीशत्रुमर्दनवर्णनं  
नयसारवर्णनं  
अटवीमध्ये साधुभ्यो वानं  
धर्मदेशना सम्यक्त्वं च  
सौपर्ये देवत्वं धर्मकार्यं च

२ प्रस्तावः

विनीतावर्णनं  
श्रीछपमप्रभुवर्णनं  
समवसरणवर्णनं

२ वामासुतमरीचिदीक्षा  
३ अंगारबधकट्टान्तः  
३ पारिव्रज्यं  
३ मरीचिदेशनादि  
४ इन्द्रचक्रितमवपहदानं  
मरीचेः कुलमद्ः  
अष्टापदे चैत्यं तद्रुणाश्च  
करिलदीक्षा मरीचिकालः आसुरि-  
दीक्षा अहगच्छादि  
७ मूरखेनपरिप्राजकचरित्रं अभिद्योतदीक्षा  
९ सनत्कुमारे देवः श्रेतांविकायां भारद्वाजः  
१० माहेन्द्रे देवः संसारः

११ परिवाद्भृत्तं भोगदोषाः स्वावरदीक्षा  
१३ प्रह्लादेवः २८  
३ प्रस्तावः  
१५ विश्वभूतेर्मधुकीडा ३१  
१७ देव्यामदः कूटपुरुषाः रणयात्रा विश्वन-  
१९ न्द्रिकीडा विश्वभूतेरपमानं संवेगश्च ३६  
२० संभूत्याचार्यवर्णनं देशना विश्वभूतिदीक्षा  
परिजनाकन्दः योषश्च  
२३ विश्वभूतेस्तपः गोनुत्तस्य पातः निदानं ४१  
२५ महाशुके देवः  
रिपुमर्दनः अचलः भृगावती पुत्री राक्षी च  
२५ सप्त स्वप्नाः त्रिष्टम्भजन्म ४३

नृपठतो महः	१२५	कूर्मारामे गोपौपसर्गः शक्रकृता निर्भ-
वर्धमाननामकरणं सुरपिशाचसर्परूपा-		र्त्तना दूइज्जंवाभमे गगनं वर्षायाः
भ्यामभीतिः लेखशाडानयनं	१२७	पक्षे गते निर्गमः अभिप्रहृषं चकं १४८
यस्योदाभिधानकारणं	१३०	वर्धमानप्रामत्याधिप्रामत्वे हेतुः वृषत्या-
यशोदया श्रीवीरस्य विवाहः, प्रियदर्शना-		प्रतिजागरणाद् द्वेषः मारिः चैत्यम् १५२
जन्म	१३२	शूलपाणिकृता उपसर्गः उत्प्रतिषोधः
मातापित्रोः स्वर्गगमनं, नन्दिवर्धनस्य रा-		स्वप्रदशकं इन्द्रसर्गोक्तं तत्फलं (१) १५६
ज्याभियेकः	१३४	अच्छंदकस्य कुटिलता शक्रशिक्षादि १५८
संपत्सरदानं नन्दिवर्धनकृता महानसशा-		सुवर्णशालुकारां बस्त्रार्थस्य पातः, नन्दि-
ला लोकान्तिकागमनं च	१३६	वर्धनाय लक्ष्णेण दानं तस्य १५९
दीक्षाभियेकः चन्द्रप्रभा शिविका दीक्षा-		कनकललाधमः ( गोभट्टो विप्रः वना-
महोत्सवः	१४१	रसीप्रस्थानं विद्यासिद्धाकृष्टा रसवती
५ प्रस्तावः		शुवतिश्च शीलदाह्ये जालन्धरे चन्द्र-
सोमवाङ्मनाय बस्त्रार्थदानम्	१४४	लेखाचन्द्रकान्ते ईशानचंद्रः रक्षाव-

लयं गंगायां प्रवेशः नास्तिकवाक्	
जालन्धरे गमनं ईशानचन्द्ररक्षा यो-	
गिनीशान्तिः परस्त्रीनियमः गृहे जा-	
गमनं भार्याभरणश्रवणं धर्मघोषस्य	
देशना दीक्षा मंडूकीविराधना क्रोधः	
ज्योतिष्कः तापसः चंडकौशिकः	
घोषः	१७६
उत्तरवाचाला श्वेतांधिकायां प्रवेशि-	
नृपठता स्तुतिः	१७७
सुरभिपुरं सुदंष्ट्रसुरोपसर्गः कनकशंखलौ	
मथुरा जिनदासः साधुदासी गंगोत्तारः	
स्यूणाके गमनं पुण्यबोधः	१८२
६ प्रस्तावः	
राजगृहनालन्दायां तन्तुवायाजुनशालायां	
वर्षावासाः (२)	१८३

७ प्रस्तावः

वैशाख्यां शंखसत्कारः गंडकिकायां नावि-  
 कोपसर्गः ऋतुपट्टस्वाविकारिवा २१९  
 वाणिज्यप्रामे आनन्दगाथापतिः अच-  
 धिमान् २१९  
 श्रावस्त्रां वर्षारामः (१०) सानुपष्टिके  
 प्रतिमाः २२६  
 दृढभूमौ पेडाले संगमोपसर्गाः, संगम-  
 कस्य सौधर्मात्रिर्वासनं २३१  
 आलंबिकायां विष्णुकुमारेन्द्रस्तुतिः श्रेवां-  
 विकायां हरिस्वहस्तुतिः श्रावस्त्रां स्फु-  
 न्दप्रतिमासत्कारः कौशाख्यां चन्द्र-  
 सूर्यावतारः चाराणस्यामिन्द्रपूजा रा-

जगृहे ईशानार्चा मिथिलयां जनक-  
 स्तुतिः धरणेन्द्रचन्द्रना २३३  
 राजगृहे वर्षारामः (११) भूतानन्दस्तुतिः  
 जीर्णश्रेष्ठिभावना केवलिदेशना २३४  
 चमरेन्द्रोत्पावः मुसुमारे २४०  
 भोगपुरे माहेन्द्रोपसर्गः सनत्कुमारेन्द्र-  
 नतिः नन्दीप्रामे नन्दिस्तुतिः - ४४१  
 चन्पापातः धारणीभरणं चन्द्रना कुल्मा-  
 याभिप्रहः २४७  
 पाण्मासिकः कीलकोपसर्गः मध्यमापापायां  
 कीलकनिर्गतः २५०  
 तपःसंकलना केवलज्ञानं च  
 ८ प्रस्तावः  
 समवसरणरचनं धर्मदेशना २५३

गणधराणां प्रतिबोधः दीक्षा चन्द्रनाया  
 दीक्षा संघस्थापना २५९  
 ऋषभदत्तस्य देवानन्दायाञ्च दीक्षा २६०  
 क्षत्रियकुण्डे समवसरणं पर्यदश्च नन्दि-  
 वर्धनकृता स्तुतिः जमालिदीक्षा (मा-  
 चादिवचनप्रतिवचनानि) महः २६५  
 जमालेर्निद्वयत्वं प्रियदर्शनाया बोधः ज-  
 मालेर्गतिः २६९  
 कौशान्ख्यां सुरप्रियलब्धपरि नृपस्य क्रोधः  
 चण्डप्रद्योतकृता नृगावत्याःप्रार्थना शी-  
 लरक्षार्थं छलं सुगावत्या दीक्षा या सा  
 सा सोदाहरणं आनन्दादीनां वाणि-  
 ज्यप्रामादिषु बोधः कौशान्ख्यां चन्द्र-  
 सूर्यावतरणं कैवल्यं २७४

प्राथम्येदनाकं धानन्दप्रथमाः गोगात्रक-	सुरंपूजीवर्षकस्य शीखा तन्मोपनं च	२९१	सामायिके कामदेवकथा	३२३
कृत्वा मसरोः मसंभूतिः महामारे सु-	गामलिम्यादियु विशारः प्रसन्नचन्द्रादी-		देशावकाशिके सागरदत्तकथा	३२५
नक्षत्रोऽप्युते	नां बोधश्च	२९१	पोषभोपवासे जिनदासकथा	३२७
गोगात्रकृदाहः अंगुष्ठः शिल्पेभ्यो निर्द-	राजगृहे समवमरणं	२९२	अतिविस्मयिभागे साधुरक्षितकथा	३२९
रणादेशः सातपदिने मस्यस्तं आदेशः	प्रथमाशुभ्रते हरिवर्मकथा	२९८	सेडु कृद्विजृचं	३३४
मिहानीगौरधेन नीगोगत्वं भीवीरस्य	द्वितीयाशुभ्रते सत्यधेमिकथा	३००	गागलिप्रथम्यादि	३३४
गोगात्रकस्य भयाः	तृतीयाशुभ्रते वसुदत्तकथा	३०३	अष्टापद्यात्रा चापसानां बोधादि	३३५
राजगृहे धर्मदेशना मेपकुमारस्य शीखा	तुर्याशुभ्रते सुरेन्द्रदत्तकथा ( शुभंकर-		मिथिलायां दुष्यमास्वरूपोक्तिः	३३७
भमननम्बरं पूर्वमथौ	कथा )	३१२	आयुर्वर्धने विशतिः	३३८
नन्दिनेनास्य शीखा, देवेन कृतो निषेधः	पंचमाशुभ्रते वामवदत्तकथा	३१४	निर्वागमहः गौतमकैवलं	३३९
तिनेनासि, देव्याशुदे स्थानं दसदस-	दिग्भने जिनपालितकथा	३१६	परम्परा मन्वकारकाणामितिहा च	३४१
कथोपः दीक्षा देवत्वं	भोगोपभोगमाने रविपालकथा	३१९	इति श्रीमहावीरचरित्रस्य विषयानुक्रमः	
२९०	अनधंद्ण्डरिखौ धोरंटककथा	३२२		

शेठ-देवचन्द-लालभाई-जैने-पुस्तकोद्धारसंस्थायाः क्रेयग्रंथाः

अंक.	मूल्य.	अंक.	मूल्य.	अंक.	मूल्य.
३०	आनन्दकाव्यम० मौक्तिक ४ मुं ०-१२-०	६०	विंशतिखानरुचरित्रं पद्ययुक्तं १-०-०	६८	नवपदप्रकरणं लघुवृत्तिः १-०-०
३२	" " " ५ मुं ०-१०-०	६१	कल्पसूत्रसुप्रोधिषा २-०-०	६९	पंचप्रस्तुक्रमंथः सटीकः ३-०-०
४३	" " " ६ मुं ०-१२-०	६२	सुबोधा सामाचारि ०-८-०	७०	आनन्दकाव्यम० मौक्तिक ८ मुं.
४८	थाद्वयप्रमणसूत्रवृत्तिः २-०-०	६३	श्रीपालचरित्रं प्राकृते साव- चूर्णिकं १-४-०	७१	आचारप्रदीपः १-८-०
५१	सेनप्रभानि (प्रभोत्तररत्नाकरः) १-०-०	६४	प्रवचनसारोद्धारः सटीकः उ- त्तरार्ध, ४-०-०	७२	विचाररत्नाकरः ३-०-०
५३	आवश्यकदिप्पनं. १-१२-०	६५	(द्रव्य) लोकरत्नाकरः भाग १ लो २-०-०	७३	नवपदप्रकरणं वृहद्वृत्तिः ४-०-०
५४	जम्बूद्वीपप्रशस्तिः सटीका उत्तरार्ध. २-०-०	६६	आनन्दकाव्यम० मौक्तिक ७ मुं. १-८-०	७४	(क्षेत्र) लोकरत्नाकर भाग. २ जो २-८-०
५६	श्रीपालचरित्रं संस्कृते. ०-१४-०	६७	तत्त्वार्थाधिगमसूत्रं भाष्यटीका- युक्तं पूर्वार्ध ६-०-०	७५	महावीरचरियम् ४-०-०
५७	सूक्तमुक्तावली. २-०-०			७६	प्रियङ्करनृपकथादि १-०-०
५८	प्रवचनसारोद्धारः सटीकः पूर्वार्ध. ३-०-०				
५९	तंदुलवेयालीयपयज्ञो सटीक. १-८-०				



श्रीआगमोदय-समिति संस्थायाः क्रेयग्रंथाः

बंक्र.	नाम.	किंमत.
३४	विशेषा० गाथा विषयप्रश्न	०-५-०
३५	विचारसारप्रकरणं	०-८-०
३६	गण्डाचारपत्रो	०-६-०
३७	धर्मविन्दुप्रकरणं	०-१२-०
३८	विशेषा० भाषांतर भाग १ लो	२-०-०
३९	जैनफिलोसोफी (धर्मप्रेमी)	१-०-०
४०	योग " "	०-१४-०
४१	कर्म " "	०-१२-०
४२	भनुयोगप्रारम्भ	२-८-०
४४	नंदीमूर्त्ति	२-४-०
४५	भक्तामरकाव्यसंग्रह भाग १ लो	३-०-०
४६	दशपयत्रा छायायुक्त	२-०-०
४७	पंचसंग्रहः (म्योपगृह्ययुतः)	२-८-०

बंक्र.	नाम.	किंमत.
४८	विशेषा० भाषांतर भाग २ जो	३-०-०
५०	जीवसमासः	१-८-०
५१	शोभनस्तुतिः (संस्कृत) प्रेसमां	८-०-०
५२	स्तुतिचतुर्विंशतिका सचित्रा शोभनमुनिरुता	६-०-०
५३	चतुर्विंशतिका सचित्रा वृष्णभद्रिसुरिकृत	६-०-०
५४	भक्तामरकाव्यसंग्रह भाग २ जो	३-८-०
५५	नंदादिसप्तसूत्रीगाथाऽपकारादियुतो विषयानुक्रमः	२-०-०
५६	आवश्यकमलयगिरिकृतटीका भाग १ लो	४-०-०
५७	धीचतुर्विंशतिजिनानन्दस्तुतयः सचिवरणाः सचित्राः	६ ० ०
५८	लीषडीमंडारना इस्तलिपितपुस्तकोत्तुं सूचीपत्र	१-४-०
५९	जैनधर्मपरस्तोत्र	प्रेसमां
	लोकप्रकाश गुजरातीभाषांतर भाग १ लो	प्रेसमां
	आवश्यकमलयगिरिकृतटीका भाग २ जो	प्रेसमां

प्राप्तिस्थान सुरत गोपीपुरा.



## श्रेष्ठी देवचन्द लालभाई जह्मेरी.

जन्म १९०९ वैक्रमाब्दे  
कार्तिकशुद्धैकादश्या (दिबदीपावली सोमवासरे)  
सूर्यपुरे.

निर्याणम् १९६२ वैक्रमाब्दे  
पौषकृष्णतृतीयायाम् (भकरसमान्तमंदवासरे)  
मुम्बय्याम्.

**The Late Sheth Devchand Lalbhai Javeri.**

Born 22nd Nov. 1852 A. D. Surat,

Died 13th January 1906 A. D. Bombay.

7-27 -Copies 5000.

K S P

॥ नमो षीतरागाय ॥

# ॥ श्रीमहावीरचरित्रम् ॥

॥ श्रीमद्गुणचन्द्रसूरिवर्यनिर्मितं ॥

पयडियसमत्यपरमत्यवित्थरं भषचक्रकयसोक्खं । विष्फुरइ जस्स रविमंडलं व नाणं निहयदोसं ॥ १ ॥  
जस्स य सोइइ पणमंतसकसंकंतनयणकमलवणं । कमविमलसरं तललीणमीणमयरं नहंसुजलं ॥ २ ॥  
संगमयपणइणीहिं कडफणविक्खेवखोभदक्खाहिं । जस्स मणागंपि मणो न चालियं नियपइण्णाओ ॥ ३ ॥  
नरतिरियदेवविहिज्जोवसग्गरिउवग्गविजयजायजसो । ओहामियऽण्णवीरो सो जयइ जिणो महावीरो ॥ ४ ॥  
पणमहं सिरिरिसइजिणिंदचंदमुहामकामवलदलणं । गिहिसाहुधम्मपासायमूलपीढाइयं जेण ॥ ५ ॥  
अजियाइणो जिणिंदा सुरिंदसंदोहनमियकमकमला । धम्ममहिघरणधीरा सेसव्व जयंति सेसावि ॥ ६ ॥  
सो जयइ जिणो पासो जस्स सिरे सहइ फणिफणकडप्पो । पायडियसत्तजीवाइत्तत्तसंखं व दार्वितो ॥ ७ ॥  
कविसेविपयकमला सुत्तीहि पसाहिया महाभोगा । गोवग्गजणियसोक्खा सरस्सई जयइ सरियव्व ॥ ८ ॥

दंसियसमग्गसग्गापवग्गमग्गाण गोयभाईणं । गुणवंताण गुरुणं थुणामि पथपंकयं निचं ॥ ९ ॥  
 इय संधवणिज्जप्पयपणाममाहप्पनिहलियविग्घो । भवाण सोक्खमूलं धम्मवएसं पयंपेमि ॥ १० ॥  
 जलहिजलगलियरयणं य दुल्लहं पाविऊण मणुयत्तं । पुरिसत्थज्जणकज्जे उज्जमियदं बुहजणेणं ॥ ११ ॥  
 तत्थ पुरिसत्थमत्थयचूडामणिविब्भमो परं धम्मो । सो पुण पइदिणसच्चरियसवणओ हवइ भवाणं ॥ १२ ॥  
 तस्स य धम्मस्स जिणो पणायगो संपयं महावीरो । चरियंपि उ तस्सेव य सुणिज्जमाणं तओ जुत्तं ॥ १३ ॥  
 तं पुण निस्सेसाग्गसमुद्दसवणासमत्थसत्ताणं । निउणेणावि न गुरुणा समग्गमवि तीरए वोत्तुं ॥ १४ ॥  
 ता जह भुवणेक्कगुरु निप्पडिमपभावधरियधम्मधुरो । मिच्छत्ततिमिरमुसुमूरणेक्कमिहिरो महावीरो ॥ १५ ॥  
 अच्चंतमणंतमणोरपारभववांरिरासिमणवरयं । पुवं परियट्ठिय तिरियतियसपुरिसाइभावेणं ॥ १६ ॥  
 ओसप्पिणी इमीए पढमं चिय गामचित्तगभवंमि । नीसेससोक्खमूलं सम्मत्तमणुत्तमं पत्तो ॥ १७ ॥  
 तत्तो पाविय देवत्तमुत्तमं भरहचक्कवट्ठिस्स । मिरिइत्ति सुओ होउं काउं जिणदेसियं दिक्खं ॥ १८ ॥  
 दुस्सहपरिसहनिम्महियमाणसो पयडिउं तिदंडिवयं । मिच्छत्तविलुत्तमई कविलस्स कुदेसणं काउं ॥ १९ ॥  
 तद्दोसेणं अयराण वट्ठिउं कोडकोडिसंसारं । छब्भवगहणे पुणरवि पारिवज्जं पवज्जित्ता ॥ २० ॥  
 दीहं संसारं हिंडिऊण रायग्गिहंमि रायसुओ । होऊण विस्सभूई घोरं संजममणुचरित्ता ॥ २१ ॥

मरणे नियाणवंधं निवृत्तिय मुरमुहं च भोत्तूणं । पोयणपुरे तिविद्ध परिपालिय वासुदेवत्तं ॥ २२ ॥  
 मूयाए पिपमित्तो चफित्तं संजमं च अणुचरिउं । छत्तग्गाए नंदण नरनाहत्तं च पवज्जं ॥ २३ ॥  
 परिपालिय वीसइकारणेहिं तित्थाहिवत्तमज्जिणिउं । पाणयकप्पा चविउं कुंडग्गामंमि नयरंमि ॥ २४ ॥  
 सिद्धत्तरायपुत्तो होउं जंतूणमुद्धरणहेउं । सधत्तिरइं पवज्जिय दुव्विसहपरीसहे सहिउं ॥ २५ ॥  
 केषललच्छिं लहिउं संपत्तो भोक्खसोक्खमक्खउं । अट्ठहिं पत्थावेहिं सिद्धंताओ तह कहेमि ॥ २६ ॥

द्वादशभिः कुलरुम् ॥ अहवा-

कत्थ भुवणेफपहुणो चरियं अम्हारिसो कहिं कुरुई ? । साहसुभिममसममुयहिपवाहतरणाभिलासोव ॥ २७ ॥  
 तहवि हु गुरुजणवयणोवरोहओ मुद्धलोयसुहवोहं । विरणमि चरियमेयं खभियधं एत्थ सूरीहिं ॥ २८ ॥  
 एत्थ य पत्थुयचरिए नाणाविहसंविहाणगाइत्ते । अमयजलकुल्लतुल्ले महल्लकल्लाणवल्लीणं ॥ २९ ॥

कत्थवि जइवि हु किंपिप्पसंगओ किंपि बुह्वयणाओ । सत्थंतराणुत्तरणाओ किंपि किर भणइ अउवं ॥ ३० ॥  
 चरिएयरंति तहवि हु न संकियधं कहिंवि कुसलेहिं । उवकहपमुहं एत्तो पज्जत्तं बहुपसंगेणं ॥ ३१ ॥ विशेषकस्

अत्थि समत्थावरविदेहालंकाररूपरूपपहुमणिमउडविडंरुयिविहरयणकंतिविच्चुरियचरणजिणनाहविहरणप-  
 संतडिंउडमरं अमरागारसमुत्तुंगसिंणसमुवहसियहिमगिरिवरं वरवेरुलियरुणयकलहोयपमुहमहागरसोहियवसुंधराभोगं

भोगोवभोगलालसजणजणियपरितोसं सुरभूमिसोहृग्गमडप्फरफंसयं महावप्पं नाम विजयसेत्तं, तत्थ य विसालसा-  
लपलयखाइयापरिविद्यत्ता नाणाविहविहारवापीकूत्रमहासरसरियपरिसराभिरामा सुविभत्तत्तियचउक्कचचरचउप्पह-  
पसोहिया पासायसयमालालंक्रिया सुइनेवत्यमहिच्छच्छेयजणसंकुला पागसासणपुरिध दीसंतनाणाविहरयणा कम-  
लासणमुत्तिध सपओमुही विंशगिरिमेहलध पुत्रागनागसोहिया जहत्थाभिहाणा जयंती नाम नयरी

कुलसेलुचुंगथणत्थलीएँ नहनइजलोहहाराए । धरणीरमणीएँ मुहे जा सोहइ चित्तलेहव ॥ ३२ ॥

सत्तमुणिमेत्तगधियमणेगमुणिसंकुला सुरपुरिंवि । एगवुहं भूरिविबुहा इसइ व जा तूररसिएहिं ॥ ३३ ॥

जीए य कमलसंडाण मित्तविरहसंकोयपीडणाणि मुणिप्रराणं करवालुप्पाडणं बालकुंजरेसुं कलहसहो रहंगमि-  
दुणाण पियविरहपेयणा तंतुवायसालासु वसणुभवो, न कयाइ लोएसु, तहिं च-सायरपणमंतमहंतसामंतमउलिमा-  
लामणिमसिणियपायवीढो पयंडभुयदंडमंडलियहोडंडनियत्तत्तिकखखुरुप्पखंडियसयसत्तुमुंडमंडियसमरंगणो, दएणुभ-  
डसुहडपरिवुडदंडनाहसहस्साणुसरिज्जमाणमग्गो मग्गणगणवंडाइरित्तपूरियमणोरहो, रहोव मुसिलिट्टलट्टसुचक्कक-  
यसंचरणो रणरसियपुरिसोध कयवहुकययपरिग्गहो गहगणोव कविमुहगुरुयणाणुगओ गओव अणवरयदाणवरिसो  
रिसिध निग्गहियलवग्गपयारो पायारोव पुवपुहइपालपवत्तियनयनयरीए हिमगिरिध डिंडीरपिंडपंडुरकित्तिमुरस-  
रियाए जलहिध अणेगगुणं गणरयणरासीए

विपक्खदप्पखंडणो नरिंदयंसगंडणो, अजायभंगसासणो कुनीइलयनासणो ।

असेससोक्खकारणं करेइ लोयपालणं, नरिंदसत्तुमहणो म(ज)णंमि चित्तनंदणो ॥ ३४ ॥

जंमि य नराहिवे पवलवलसालिभुयपरिहारोवियधरणिभारे रायनीइमेत्तं मंतिणो सोहा हरिकरिरहजोहसामग्गी  
आडंबरं असिचक्कचावसरकुंतप्पमुहपहरणपरिग्गहो सेवगा पणयावेक्खा सजीयनिरवेक्खंगरक्खपरिक्खेवपरिक्कप्पणा ।  
तस्स य रण्णो विसिद्धायापरिपालणपरायणो धम्मसत्थसवणवियाणिग्रहेज्जोवादेयवत्थुसरुवो गंभीरिमाइगुणग-  
णावासो पयइसरलो पयइविणीओ पयइपियंवओ पयइपरोवयारपरो पुहइप्पइट्ठाणनामंमि गामे नयसारो नाम गाम-  
चित्तगो अहेसि । जो य तहाविहसाहुसेवाविरहेऽवि अलसो अकज्जपचित्तीए परम्मुहो परपीडाए सयण्हो गुणगणो-  
वज्जणाए अचक्खु परछिइंपलोयणाए । एवंविहगुणो य सो सविसेसगुणुकरिससाहणनिमित्तं भणिओ गुरुअणेण,  
जहा-धणरिद्धी दूरं वड्डियावि दुब्बिणयपवणपडिहणिया । एकपएच्चिय पुत्तव ! पणस्सए दीवयसिहव ॥ ३५ ॥

णीहारहारधवलोवि वच्छ ! सेसो गुणाण संघाओ । विणएण विणा वयणं व नयणरहियं न सोहेइ ॥ ३६ ॥

अच्चंतपिओऽवि परोवयारकारीवि भुयणववडोऽवि । वज्जिज्जइ पुरिसो विणयवज्जिओ गुरुभुयंगोव ॥ ३७ ॥

इय दुब्बिणयत्तणदोसनिवहमवलोकण बुद्धीए । पुत्त ! रमेज्जमु विणए समत्यक्खलाणकुलभरणे ॥ ३८ ॥

तहाहि—विणएणं हुंति गुणा गुणेहिं लोकोऽणुरागमुधहइ । अणुरत्तसयललोयस्स हुंति सवाओ रिद्धीओ ॥ ३९ ॥

रिद्धिहि संगओ गयचरोवं अणवरयदाणवरिसेण । मग्गणगणपणईणं उवयारं कुणइ लीलाए ॥ ४० ॥

उवयरणेणं तेसिं लब्भइ आचंदकालिया किन्ती । तीएऽविहु लद्धाए किं नो लद्धं तिहुयणेऽवि ? ॥ ४१ ॥

एसच्चिय जेण धिरा जुगविगमेऽविहु न वच्चइ विणासं । उप्पत्तिपल्लयकलियं सेसं पुण थेवदियहथिरं ॥ ४२ ॥

इय गुरुजणसिक्खं गिण्हऊण तह कहवि संपयट्ठो(सो) । वीसासट्ठणं नरवइस्स परमं जहा जाओ ॥ ४३ ॥

अन्नया य सत्तुमहणनराहिवेण भवणसंदणाइनिमित्तं पवरदारूहिं पओयणंमि संपत्ते आणत्तो एसो-भइ !

गच्छसु तुमं पभूयं सगडसमूहं किंकरनरनियरं च गहाय दारुनिमित्तं महाडवीएत्ति, तओ सिरसा सासणं से पडि-  
च्छिय विसिद्धसंबलगसमेओ समग्गसामग्गीसणाहो पट्ठिओ गामचिंतगो, पत्तो य अणवरयगमणेण महाडवीए,  
जा य केंरिसी?—गयणयलाणुलिहंतमहंतचित्तरुवराभोगावरद्धदिसावगासा अणवरयझरंतगिरिनिज्झरझंकारमणहरा  
जहिच्छविसरंतरुरुविरुयरिंछहरिहरिणसदूलभीसणा महापुरिसवच्छत्थलिच्च सिरिवच्छालंकिया, मिगरायकंधरव  
केसरविसरविराइया उवसनगरभूमिव मायंगकुलसंकुला सुहडावलिच्च धरियवाणासणा । तहिं च निउत्तपुरिसेहिं  
सरला य दीहरा य विसाला सुंदरा य सुजायवट्ठखंधवद्धा य तरुणो समारद्धा छिंदिउं, एवं च छिंदंताण जाओ मज्झणह-  
समओ, संपत्ता भोयणवेला, पगुणीभूओ भोयणकरणाय गामचिंतगो, उवणीया किंकरगणेण विचित्तखंडखज्जप्पहाणा  
रसवई, जइ पुण सत्थपरिभट्ठो वा मग्गं अयाणमाणो वा एत्थ तडियकप्पडियसमणप्पमुहो अतिही लुहाभिभूओ एज्ज



ता तस्स दाऊण सयं भुंजामित्ति संपधारिऊण गामर्चित्तणेण धेरं भूमिभागं गंतूण तंक्खणमवलोइयं दिसावल्यं,  
 पत्त्यंतरे सत्थपरिभट्टा संता परिसंता खुहापिवासाभिभूया मज्झंदिणदिणयरतावविगलंतसेयसलिलधरा तरुवरनि-  
 वडणव यडारावंनिसामणसंभावियसत्थावासा समागया तं पएसं तवस्सिणो, दिट्ठा य तेण ससंभमं, गओ तदभिमुहं,  
 गाढकरुणारसाउरिजमाणमाणसेण पणमिऊण पुच्छियाअणेण-भयवं! किमेवं विजणविहारमायरह?, साहूहिं भणि-  
 यं-मह! सत्थेण(समं)पढमं अम्हे पत्थिया, भोयणकाले जाव असणपाणट्टा गामं पविट्ठा तांय गओ सत्थो, अम्हेऽवि-  
 तुरंता सत्थाणुमगलग्गाइंता निग्गया एत्थ महाडवीए, गामर्चित्तणेण भणियं-अहो निकरुणया अहो दुट्ठसीलया अहो  
 नरकनिवासलाळसत्तणं अहो वीसत्थघाइत्तणं अहो पावाभीरुत्तणं अहो आजम्मा नियकुलरुलंरुकरणं तेसिं सत्थियाणं,  
 अविय-सत्तपयमेत्तसंयवसेऽवि सुयणाण वड्डए नेहो । आजम्मदंसणेऽविहु निदयचित्ताण न खलाणं ॥ ४४ ॥

सत्थाणुसरणकालेऽवि वारिया किं न पावबुद्धीहिं । एए महाणुभावा पढमं चिय साहुणो तेहिं? ॥ ४५ ॥

जइ एएसिं सीहाइएहिं कीरेज एत्थ विद्वणं । ता नूणमेव तेसिं नरगेऽविहु होज संवासो ॥ ४६ ॥

अहवा पावाण कहाएँ होउ नियधम्मदूसणकरीए । आगच्छह आवासं कुणह पसायं ममेयानिं ॥ ४७ ॥

इय भणिए ते सुणिणो जुगमेत्तनिहित्तचंक्खुणो धीरा । तस्सावासंमि गया पच्चक्खा धम्मनिहिणो व्व ॥ ४८ ॥

पुण्णवसंसाहुदंसणसिणेहसंजायतिव्वसद्धेणं । विउलेहिं असणपाणेहिं तेणऽवि पडिलाहिया विहिणा ॥ ४९ ॥

गहियमत्तपाणेहि य पडिनियत्तिऊण जीवोवरोहरहिष् थंडिलंमि पडिक्कंता ईरिवावहिया आलोइयं भत्तपाणं  
 फयं चित्तिवंदणं विहिओ तफ्फालोचिओ सज्झाओ, मुहज्झाणेण खणंतरं गमिऊण समुज्झिय रागदोसं मुणिणो परि-  
 जिमियत्ति, गामर्चित्तगोऽवि कयत्थमप्पाणं मन्नतो भोत्तूण समागओ तेसिं सगासे भणिउं पवत्तो—भयवं ! आग-  
 च्छह तुम्हे जेण नगरगामिणिं वत्तिणिं उवदंसेमि, तओ पत्थिया साहुणो तेण सद्धिं, तेसिं च मज्झे एगो मुणी  
 धम्मकहालद्धिसंपन्नो, तेण य णायं—जहा एस धम्मजोगोत्ति, ता अवस्सं सद्धम्मे निर्जुजियव्यो होइत्तिचित्तिऊण  
 भणिओ सो गामर्चित्तगो—भो महायस ! कुमग्गपरिन्भमणपीडियाणं तण्हाच्छुहाभिभूयाणं अग्घाणं तहाविहपडि-  
 वत्तीए असणपाणदाणेण य परमोवयारी तंऽसि ता किंपि अणुसासिउं समीहामो, गामर्चित्तएण भणियं—भयवं !  
 किमेवमासंकह ? नियसिस्सनिव्विसेसं सिक्खवेहिति, तओ साहुणा पारद्धा धम्मदेसणा, जहा—

धणुसिफ्खाविरहियपुरिसखित्तसरजणियराहवेहं व । तुडिजोगा भणुयत्तं लद्धूणं कुसलवुद्धिमया ॥ ५० ॥

सग्गापवग्गफलसाहगस्स धम्मस्स पायवस्सेव । मूलं सम्मत्तमहो जाणेयव्वं पयत्तेणं ॥ ५१ ॥

निच्छत्तपंकपडलावलुत्तसन्नाणनयणपसरारणं । सिरसूलमूलमेसा जणाण सम्मत्तवत्तावि ॥ ५२ ॥

जुत्ताजुत्तं केणपि करुणापरवुद्धिणोवद्वंपि । दुस्सुमिणंपिय सोउं नेव वलंति तुच्छमई ॥ ५३ ॥

दढमूढगुरुरूपरूवणवसेण कम्मं च तं पकुव्वंति । जेण निमज्जंति अहो कूवक्खणणुज्जयनरो व ॥ ५४ ॥

जं मिच्छतोदयो अगुरुं पि गुरुं अदेवमवि देवं । घत्तूरिओव्वं गेण्हइ लेहुं व सुवण्णबुद्धीए ॥ ५५ ॥  
तेणं चिय पाणिगणो गणणाइकंतवेळमणुभवइ । तं किंपि दुक्खनिवहं जं जाणइ केवली सम्मं ॥ ५६ ॥

इयं भो देवाणुप्पिय ! मिच्छत्तं सयलदोसकुलभवं । नीसेसदुग्गदुग्गइसंसग्गकरं लहुं चयसु ॥ ५७ ॥

सम्मत्तं पुण नीसेसदोसविरहियमसेससुहफल्यं । जीवाण तिव्वजरमरणदुक्खवुच्छेयणसमत्थं ॥ ५८ ॥

जं मोहणिज्जपत्रलत्तविगमओ गुरुवसा सयं वाचि । उल्लसई कल्लाणयवलीजलकुल्लतुल्लं व ॥ ५९ ॥

तत्तो अट्टारसदोसवज्जिए जिणवरंमि पडिवत्ती । देवोत्ति समुप्पज्जइ निरवज्जा वज्जघडियव्व ॥ ६० ॥

सयमवि धम्मपरेसुं सिद्धंतवियारणेक्ककुसलेसुं । धम्मोवएसनिरएसु होज साहसु गुरुबुद्धी ॥ ६१ ॥

ता जिणवयणायण्णपविण्णायसमत्थतत्तरयणस्स । विरमइ य मई लोइयधम्माउ कुवस्सयाउव्व ॥ ६२ ॥

अवगणइ गोपयं पिय दुग्गइदुहमयरभीसणावत्तं । कम्मजलुप्पीलोउलमरइरउइं भवसमुइं ॥ ६३ ॥

तहा—सम्मत्तमसंज्ञाहविहियरक्खो खणेण विक्खिवइ । सुहडोव्व तित्थियभडुव्वभडंपि मिच्छत्तसंगामं ॥ ६४ ॥

पासायस्स व पीढं पुरस्स दारं व मूलमिव तरुणो । वारसविहधम्मस्सवि आइं कित्तित्ति सम्मत्तं ॥ ६५ ॥

इयं भो एवं लक्खिय निरवेक्खो लोइएसु भग्गेषु । सहहणनाणसारं सरहसमणुसरसु सम्मत्तं ॥ ६६ ॥

ताहे भत्तिभरणयभालयलमिलंतमउलकरकमलो । सोचा सो गुरुवयणं भत्तीए भणिउमाढत्तो ॥ ६७ ॥

भयवं ! किमेवमुवइसह पावनिरयाण बुद्धिरहियाणं । पचक्खपंसूणं पिव अम्हाणं दढमजोग्गाणं ॥ ६८ ॥  
 गुरुणा भणियं मा वयसु एरिसं जेण जोग्गया तुज्झ । जाणिज्जइ संपन्ना संपइ पचक्खलिंगेहिं ॥ ६९ ॥  
 कहमण्णहमेवंविहमहाडवीनिवडिया तए अम्हे । दिट्ठा पइपम्भट्ठा गाढस्समसुढिय(सिढिल)सुव्वंगा ॥ ७० ॥  
 कह तत्थवि दंसणमेत्तओऽवि चिरदिट्ठवल्लहजणे व । पुलयपडलाणुमेओ उप्पण्णो तुह पमोयभरो ॥ ७१ ॥  
 कह वा भोयणंसमओवणीयनियभोयणेण दाणमई । जाया अम्हाणुवरिं खुहापिवासाभिभूयाणं ? ॥ ७२ ॥  
 एवंविहपरिणामो उप्पज्जइ नेव पुण्णरहियाणं । एवंविहा य अतिही न य चक्खुपहं पवज्जंति ॥ ७३ ॥  
 रयणनिहाणं किं रोमंदिरे किं मरुमि कप्पतरू । कत्थवि थलंमि जलकमलसंभवो हवइ कइयावि ? ॥ ७४ ॥  
 ता एवंविहविघडंतवत्थुसंघडणलिंगसद्धेया । कहमिव तुज्झ न सद्धम्मजोग्गया भइमुह ! होजा ? ॥ ७५ ॥  
 जेणेरिस सामग्गी निरवग्गहपुण्णपगरिसवसेण । सिवलच्छिपेच्छियाणं निच्छयओ घडइ मणुयाणं ॥ ७६ ॥  
 किंच—आरियखेतुप्पत्ती कुलमकलंकं नरत्तसंपत्ती । निरुवहयरूवलाहो रोगोरगदूरविगमो य ॥ ७७ ॥  
 आउयमवि पडिपुण्णं कलाकलावंमि कोसलं विमलं । साहूहिं समं जोगो एत्तियमेत्तं तए पत्तं ॥ ७८ ॥  
 एत्तो एगयरंपिडु पण्णं व सकम्मपवणपडिहणिया । संसारंमि भमंता अणंतसत्ता ण संपत्ता ॥ ७९ ॥  
 तुमए पुण सव्वमिमं उवलद्धं पुण्णपगरिसवसेणं । ता एत्तो निरुवममोक्खसोक्खफलदाणदुल्लियं ॥ ८० ॥

सिहिणो सिहं व सारं फणिवइफणरयणचक्कवालं व । एकं अपत्तपुषं गिणहसु जिणदेसियं धम्मं ॥ ८१ ॥ युग्मम्  
 इय भणिण सो चित्तेउमारद्धो तिघजायसंवेगो । कह नियकज्जपसाहणपरम्मुहाणं गुणनिहीणं ॥ ८२ ॥  
 केवलकरुणारससायराण समगणियरायरोराणं । जाओ मइ पडिवंधो गुरुण खणदंसणे वावि ? ॥ ८३ ॥ युग्मम्  
 निष्पुण्णेषु जणेषुं चक्खुंपि खिवंति नेरिसा समणा । ता सब्वहेसि वयणं जुत्तं मह संपयं काउं ॥ ८४ ॥  
 विस्संभरतलविलुलंतमउलिमह पणमिऊण गुरुचलणे । आणंदसंदिरंसूनयणो सो भणिउमाढत्तो ॥ ८५ ॥  
 निक्कारणेक्कवच्छल ! भयं नीसेससत्तताणपरा । आरोहेसु ममिण्ह सम्मत्तं भवविरत्तस्स ॥ ८६ ॥  
 ताहे गुरुणा जिणभणियनीईओ नायजोग्गयगुणेण । चित्तुच्छाहप्पमुहपहाणसउणोवलंभंमि ॥ ८७ ॥  
 अरिहं देवो गुरुणो य साहुणो जिणमयं मयं तुज्झ । इय एवं आरोवियमाजम्मं तस्स सम्मत्तं ॥ ८८ ॥  
 भणिओ य वच्छ ! निव्वाणलच्छिवीयं मए इमं दिण्णं । संकाइंदोसविरहेण सब्वहा ता जएज्ज इहं ॥ ८९ ॥  
 घन्नोऽसि तुमं भदय ! दुहसयरुद्धंमि भवसमुद्धंमि । जेण तए जिणधम्मो तरणतरंडोवमो पत्तो ॥ ९० ॥  
 एयस्स पभावेणं पालिज्जंतस्स सब्वकालंपि । जीवेहिं अणंतेहिं दुक्खाण जलंजली दिण्णो ॥ ९१ ॥  
 पयईए खणविणस्सरसंसारुंभवसुहस्स कज्जेणं । एयंमि मा पमायं काहिसि तं भइ ! कइयावि ॥ ९२ ॥  
 अह सो नमिउं चरणे गुरुण भवमीयपाणिगणसरणे । हरिसभरवंधुरगिरं उदाहरित्था वयणमेयं ॥ ९३ ॥

धेवोवयारिणोऽचिहु लोया पूयं करिति सविसेसं । एवंविहोवयारीण तुम्ह किं संपयं करिमो ? ॥ ९४ ॥  
 तहवि नियत्तह भयवं ! गिण्हह धणरयणभवणसंसारं । अहवा किमेत्तिणं ? जीर्यपिहु तुम्ह आयत्तं ॥ ९५ ॥  
 गुरुणोववृह्दिओ सो ससरीरेऽवि हु ममत्तरहिण्ण । सम्मं कयं महायस ! तयत्ति एवं जओ भणियं ॥ ९६ ॥  
 सम्मत्तदायगाणे दुप्पडियारं भवेसु बहुएसुं । सब्बगुणमेलियाहिंवि उवयारसहस्सकोडीहिं ॥ ९७ ॥  
 परमत्थेण महायस ! दिण्णं तुमए समत्थमम्हाणं । एयंमि धम्मकम्मंमि निच्चमच्चुज्जमंतेण ॥ ९८ ॥  
 इय गुरुणा सिक्खविउं जिणिंदधम्मस्स सब्बपरमत्थं । भणिओ सो अणुजाणसु एत्तो अम्हे गमणकजे ॥ ९९ ॥  
 दूसहगुरुदंसणविरहवेयणावाउलीकयसरीरो । दूरपहं अणुगच्छिय दंसिय मगं नियत्तो सो ॥ १०० ॥  
 भावेत्तो गुरुवयणं चिंतंतो भवभयं महाघोरं । सम्मत्तभावियमई निययावासंमि संपत्तो ॥ १०१ ॥

तओ काऊणमणंतरकरणीयं भरिऊणं सगडाणि विसिट्ठकट्टाणं नीसेसभिच्चजणसमेओ नियत्तो नियगामाभिमुहं,  
 पत्तो य कालक्कमेण, पेसियाणि दारूणि नरिंदस्स । तओ पइदिणं अब्भस्संतो जिणधम्मं पज्जुवासंतो मुणिजणं  
 परिचिंतितो जीवाजीवाइणो नव पयत्थे रक्खंतो पाणिगणं बहु माणंतो साहम्मियजणं सबायरेण पभावेत्तो जिण-  
 सासणं कालं गमेइ । अण्णया य मरणपज्जवसाणयाए जीवलोयस्स खणभंगुरत्तणओ सवभावाणं तहाविहमुवक्कम-  
 णकारणं पाविऊण सोसम्मं परिपालियाविरयसम्मदंसणभावो कयपजंताराहणाविहाणो सुमरंतो पंचनमोकारं

पंचतमुवगञ्जोत्ति ।

उववण्णो सोहम्मे पलियाउसुरो तजो सुदिट्ठीओ । अंतोमुहुत्तमेत्तेण पत्तपज्जत्तभावो य ॥ १०२ ॥

जय जय नंदा । भइत्ति वाहरंतेण किंकरजणेणं । हरिसभरनिम्भरेणं कारियतक्कालकायघो ॥ १०३ ॥

उत्तुंगयोरयणवट्टलद्धरेहंतमोत्तियसरीहिं । छणमयलंछणसच्छहवयणाहिं कुवलयच्छीहिं ॥ १०४ ॥

निम्मलरुयोलतललिहियचित्तविच्छित्तपत्तवल्लीहिं । करकिसलयपरिघोलिरचामीयरचारुवलयाहिं ॥ १०५ ॥

सुरसुंदरीहिं सद्धिं कीलंतो तेषु तेषु ठाणेषुं । रइसागरावगाढो कालं वोलेइ लीलाए ॥ १०६ ॥ तीहिंविसे०

कल्लाणगेषु पंचसु चवणप्पसुहेसु जिणवरिंदाणं । नंदीसरदीवाइसु परिचत्तासेसवाधारो ॥ १०७ ॥

भवजलहितरंडमिमं तिदुक्खतत्ताणममयमेयंति । मणवंछियत्थपूरणाचिंतामणिपच्चलमिमंति ॥ १०८ ॥

अम्हारिसाणमविरंइपराण इय विहियगाढवहुमाणो । हरिसभरनिम्भरंगो कुणइ य अट्टाहियामहिमं ॥ १०९ ॥ तीहिंविसे.

विधिमाणारूढो सिद्धाययाणि पेच्छइ य ॥ ११० ॥

संसारुन्वेयकरं भत्तीए धम्मसवस्सं ॥ १११ ॥

डुकरतवचरणकिसंग(सारए)संगवज्जिए सुणिणो । मणवयणकायगुत्ते भत्तीए पज्जुवासइ य ॥ ११२ ॥

इय पवरसिद्धिमंदिरसोआणपरंपरासरिच्छंमि । सिरिबीरनाहजिणवरचरियंमि गुणोलिनिलयंमि ॥ ११३ ॥

अशंतुत्तमसम्मत्तलाभनामो समत्थिओ एतो । भवजणचित्तसंतोसकारओ पढगपत्थाओ ॥ ११४ ॥ इइ  
सम्मत्तलाभनिरुयणो पढमो पत्थाओ ।

अह विइओ पत्थाओ

एवं लाभो बोहीपें परमसिवसाहिवीयभूयाए । भणिओ एतो सम्मं मिरीइवत्तव्वयं सुणह ॥ १ ॥

एत्थेय समत्थसमुद्दीववलओवगूढपज्जंते । मेरुविराइयमज्जे जंबूदीयंमि दीवम्मि ॥ २ ॥

आरोवियधणुगुणसच्छदंमि तइ दाहिणह्मरहंमि । गंगासिंधूण महानईण बहुमज्झयारंमि ॥ ३ ॥

अत्थि पसत्थविधिहत्तरुसंडमंडियपरिमरा पेरंतपरूढपंडुच्युताडनीवारनिराइया नाणामणिरयणरइयधर-  
णिरीडा जगरावइध नासयाहिद्विया अहिणनपुरिव्व नवकुलालंकिया जणयतणयन्न रुसलवलाडसा विलासिणिन्न  
दीहरच्छोपसोद्विया रागएवसेणन्न अदिट्टविहीसणदोसा पायालपुरिव्व अहीणजणाणुगया सुरिंदवयणोन्नरोहहरिसि-  
यवेसमणजक्खविणिम्मिया वारसजोयणदीडा नवजोयणविच्छिण्णा समुत्तुंगरुणवपायारपरिक्खित्ता पवरभवणमा-  
लासहस्माभिरामा धणकणयरयणपरिपूरिया विणीया नाम नयरी ॥

अत्थ यम्महो इव अखंडरुनलावणजोवणगुणविन्भमो रेहइ पउरजणो, अक्कित्तिममंडणाओ सुरसुंदरीओ-  
नि परिद्वंति नियरूयेण तरुणोओ, जहिं च सरेसु चेत्त मुन्नइ मग्गणसहो दोसिपाणं दोसाभिलासो तरुनराणं गया-



परावत्तो रयणेसु वइरसहो ॥ तं च रक्खेइ खांचेयचालयासणागयाखंडलकरकलियकणयकलसविहियरजाभिसेओ  
तक्कालसंगहियउग्गभोगरायैन्नखत्तियचउव्विहंपहाणपरियरो सुरवइविइण्णकणयकडयतुडियमणिमउडपमुहदिव्वालं-  
कारालंकियसरीरो सिरिउसभनराहिवो ॥

कसिणासाढचउत्थीए चत्तसन्नत्थसिद्धिवासो जो । उत्तरसाढानक्खत्तजोगमिंदुंमि संकंते ॥ ४ ॥  
कुलगरनाभिस्स गिहे चोइसगयपमुहसुमिणकयसूओ । मरुदेवीए गच्चे पाउब्भूओ महाभूर्इ ॥ ५ ॥  
पुन्नच्चियपुण्णसमूहचलियसिंहासणेण सक्केण । भत्तीए जस्स पणया जणणी गन्भावयारंमि ॥ ६ ॥  
चेत्तवहुल्लुमीए उत्तरसाढासु अद्धरत्तंमि । सुवणजणजणियतोसो जाओ जो पुण्णचंदोव्व ॥ ७ ॥  
जस्स य जम्मणकम्मं तक्खणचलियासणा उ अकरिंसु । निययहिगारणुरुवं छप्पण्णदिसाकुमारीओ ॥ ८ ॥  
वत्तीससुरिंदेहिं नीसेसामरसमूहसहिएहिं । मेरुंमि जम्ममज्जणमहसवो निम्मिओ जस्स ॥ ९ ॥  
जस्सोरुवसभलंछणदंसणसंजायहरिसपुलएण । सिरिनाभिनरिंदेणं उसभोत्ति पइट्ठियं नामं ॥ १० ॥  
सुररायपाणितलसंठिओच्छुलट्ठिं करे धरंतेण । जेण जहत्थभिहाणं निम्मियमिक्खागुवंसस्स ॥ ११ ॥  
लेहप्पमुहा वावत्तरी कला जेण देसिया पढमं । बहुभेयं कासवलोहचित्तघडवत्थसिप्यं च ॥ १२ ॥  
कम्मं च खेत्तवाणिज्जपमुहमाई निदंसियं जेण । अविपक्करुणविभक्खणदुक्खियजणजलणपयणं च ॥ १३ ॥

दुन्नयपसत्यजणसिक्खणत्वमुवदंसिया जए जेणं । सिद्धजणरक्खणद्वा सामाइ चउच्चिहा नीई ॥ १४ ॥

दारपरिग्गहसमए जस्स सुरिंदेणं परमंरिद्धीए । पुंखणगविहिसणाहो विवाहमहसवो विहिओ ॥ १५ ॥

यागरणं उदकहकवमग्गजोइसपमोक्खयदुविज्जा । लद्धा जेणुवइद्वा पढमं चिय सुद्धवुद्धीए ॥ १६ ॥

नियनियकम्मनिसेवण नियमेणं गुरुजणस्स नमणं च । जायकुलाण ववत्था जेण समत्था कया भुयणे ॥ १७ ॥

किं बहुणा-जुत्ताजुत्तवत्थुविण्णाणसुण्णहियएसु । नीई अज्जवि विक्कुरइ जस्स कित्तिव्व सव्वगया ॥ १८ ॥

तस्स य गयतुरयपमुहरजंगपरिबुडस्स संसएसुं य ववत्थासु य कुलायारेसु य परोप्परविसंवाएसु य सयल-

जणपुच्छणिज्जस्स नंदाए देवीए सुमंगलाए य समं विसयसुहमणुहवंतस्स वचंति वासरा, अण्णया य सुमंगलाए देवीए भरहो वंभी य मिहुणगं जायं, तद्वा सुनंदाएऽवि देवीए वाहुवली सुंदरी य जुवलयं जायं, एवं वचंतेमि काले पुणोऽवि सुमंगला देवी अण्णाणि एग्गणपत्तासं पुत्तजुयलगाणि पसूया, ते य भरहप्पमुहा कुमारा वहंति सरीरेण नीसेसकलाकलावफोसलेण य, एवं च निदंसिय सयलकला कुलव्ववत्थाए सुहलोयवावारो उसभनरिसरो तेयासी- पुण्डकस्साइं जाव परिपालिकुण गिहत्थपज्जायं अयलोइकण परलोयमग्गाणुरूवधम्मवावारविरहियं भवपंकनिमज्जमाणं (जणं) मणे अचंतकरुणारसालिद्धवुद्धी तक्कालचलियासणागयसारस्सयपमुहलोगंतियतियससमहियमुच्छाहियचित्तवित्ती चिणिवित्तमोगपिवासो भरहपमुहपुत्तसयसंविभत्तपरिचत्तवसुंधराभारो आसंवच्छरकणयवारिधारावरिसाभिणंदियदी-

णमग्गणजणो चेत्तस्स बहुलद्वमीए उत्तरासाढनक्खत्ते पच्छिमपहरावसेसे दिवसे कच्छमहाकच्छपमुहाणं नियनियपुण्ण-  
 (त्त)निहित्तरज्जवावडाणं चउर्हिं सहस्सेर्हिं मंडलेसराणं परिवुडो देवदाणयुक्खित्तचिचित्तचित्तोवसोहियसुदंसणाभि-  
 हाणसिबिकाधिरूढो परमविभूर्इए समग्गकाणणलच्छिलीलावणंमि उज्जाणे कयरुद्धुक्खित्तवकम्मो परिचत्तसवंगसं-  
 गिरयणाभरणो सयमेव चाउमुट्टियं लोयं काऊण कयसिद्धनमोक्कारो पडिवण्णसव्वसावज्जजोगविरती वत्तीससुरेसरोर्हिं  
 चउच्चिहदेवनिकायसहिएर्हिं सन्भावसारार्हिं महत्थार्हिं पसत्थार्हिं गिरार्हिं शुव्वमाणो पंचिंदियदित्ततुरयदमणो  
 समणो जाओत्ति ॥

सुररायनिसिद्धविसिद्धसमंसावलंवि वहमाणो । कच्छमहाकच्छपमोक्खभिक्षुलोएण परियरिओ ॥ १९ ॥  
 परिचत्तसव्वसावज्जजोगसंगो तिगुत्तिगुत्तो य । अप्पडिवद्धो गामाणुगाममह विहरिओ भयवं ॥ २० ॥ जुम्मं ।  
 धणकणयसमिद्धसमुदुरा य मणुया मुणंति नो तइया । का भिक्षा के तग्गाहिणोत्ति भिक्षं भमंतंमि ॥ २१ ॥  
 परमेसरंमि ताहे नियपहुपणएण कणगकरितुरए । इत्थी महत्थवत्थे पणया मणुया पणामंति ॥ २२ ॥ जुम्मं ।  
 भिक्षं अपावमाणा कच्छमहाकच्छपभिइणो मुणिणो । पइदियहमणसणेणं संजायसरीरसंतावा ॥ २३ ॥  
 तेलोक्कनायगे मोणमस्सिए ते उवायमलभंता । परिसडियपंडुपत्ताइभोइणो काणणंमि ठिया ॥ २४ ॥ जुम्मं  
 भयवंपि निप्पकंपो सुरसेलो इव विसिद्धसंघयणो । पइदिणमदीणचित्तो एगागी विहरइ मर्हिंमि ॥ २५ ॥

कच्छमहाकच्छमुया नमिपिनमी रायलच्छिमिच्छंता । चिंतामणिव्य सव्वायरेण सेवंति भयवंतं ॥ २६ ॥

तम्भतिरंजियमणेण नागराएण दिन्नवरविज्जा । विज्जाहररायत्तं पाविय विगया जहाभिमयं ॥ २७ ॥

भयवंपि गागनगरागरेसु भिक्खं जपानमाणोऽपि । विहरंतो किमियतणू कुरुदेसे गयपुरंमि गजो ॥ २८ ॥

जिणदंमणमुगरियपुञ्जम्ममंजायतिषसद्वेण । सेजंसकुमारेणं सिरियाहुयलिस्स पउत्तेणं ॥ २९ ॥

तक्कान्तागयपुरिमोयणीयपंदुच्छुगंडयरसेणं । संवच्छरपज्जंते भयवं पाराविंओ तत्व ॥ ३० ॥ जुम्मं ।

पटिया य कणयधारा तियसेहिं समाहयाइं तूराइं । मिलिओ य पउरलोओ तेणवि कहिओ सबुत्तंतो ॥ ३१ ॥

भयवंपि पारणयं काऊण पहलीपडंवंइल्लमुण्णभूमिपग्गहेसु देसेसु विहरमाणो तन्वासिमणुयाणं मोणमल्लिणोऽपि  
समाहप्पेण भद्दगभावं जणंतो विविहतयचरणपरायणो असंकिलिट्ठयाए तक्कालियलोयस्स अतहाविहवेयणीयकम्मओ  
य निगमग्गं संजमणुपाळितो समइफंते एगंमि वाससहस्ते विणीयनयरीपचासण्णंमि पुरिमतालेमि नयरंमि  
गंपत्तो, तस्म उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए म्मगडमुहं नाम उज्जाणं, तंमि नग्गोहपायवस्स हेट्ठा संठियस्स अट्टमेणं भत्तेणं  
पुण्णहदेमहाले फग्गुणवहुलेफारमीए उत्तरासाट्ठानकखत्ते भगवओ तिहुयणेफनंधवस्स ज्ञाणंतरियाए वट्टमाणस्म  
दिस्सं जणंतं लोयालोयगयभावाभासहावत्तुसत्त्वपरमत्त्वनिग्भासणसमत्वं केवलनाणं समुप्पण्णं ॥ अह जिणना-  
दनाणुप्पायमाहप्पपरिंफियसीहासणप्पलोयणपउत्तावदिनुणियनाणवइयरा पहयपउहप्पमुहगंभीरत्तूरवा संखोभि-

यसुरलोया सरभसपणधिरसुरसुंदरीभुयलयालोलंतरयणवलयरणञ्जणारवनिम्भरभरियभुवणंतरा आगंतूणं वत्तीसं  
ससुरा सुरिंदा समवसरणं विरइंति । केरिसं चिय ?—

अइसुरभिसिसिरमारुयपडिहयतणुरेणुतकणुकेरं । घुसिणघणसारगंधाभिरामसलिलोवसंतरयं ॥ ३२ ॥

आजाणुमेत्तविकिसत्तकुसुमरेहंतरयणमहिवीढं । डञ्जंतधूवधूमंधयारघणसंकियसिंहंडिं ॥ ३३ ॥

मणिचामीयरनिद्धंतरुप्यपायारवलयतियकलियं । सव्वत्तोमुहमणिरयणरइयसिंहासणसणाहं ॥ ३४ ॥

डिंडीरपिंडपंडुरलत्तत्तयरुद्धरविकराभोयं । पवणुव्वेत्थियकंकेत्थिपल्लवुत्थिहियनहविवरं ॥ ३५ ॥

गयणद्वियसुरकरपहयगहिरवज्जंतदुंदुहिसमूहं । दिसिमुहपसरियनिम्मलभामंडलखंडियतमोहं ॥ ३६ ॥

सरयनिसायरकरनियरागारधुव्वंतचामरुप्पीलं । इय एवंविहमुहामदोसहरणं समोसरणं ॥ ३७ ॥ छहिं कुलयं ।

तंमि य भुवणेकपह पवरे सीहासणे तियसपणओ । पुव्वामुहो निसीयइ तित्थस्स नमोत्ति भणिऊणं ॥ ३८ ॥

हरिसभरनिम्भरुत्थिणणपुलयपडलोवसोहियसरीरा । सट्टाणेसु निलीयंति तक्खणं चउविहा देवा ॥ ३९ ॥

पूरिजइ अंयरमित्तजंततियसाण पंचवण्णेहिं । उद्धूयचिंधेहिं विमाणलक्खमालासहस्सेहिं ॥ ४० ॥

एत्थंतरे जिणपत्तिपरिज्ञाणनिमित्तं पुव्वनिउत्ता केवलनाणुत्तिनिवेयणत्थं तद्वा पहरणसालापाउव्वभूयप-  
भूयजक्खसगद्धिद्वियनिस्तामत्तफुरंतफारपहाभरनिकत्तियपयंडतमकंडुट्टामरचकरयणवइयरसंसर्णत्थं च भरहनरिंदस्स

पुरओ जुगयं चिय समागया वद्वेगा पुरिसा । तओ भरहो इहलोयतुच्छमुहमेत्तसंपायणपंचंल्लं निच्छिऊण चकरय-  
 णस्स उमयलोगमुहजणगंतं पुण परमेसरस्स पवररूरेणुगाखंधाधिरोहियसुयविरहविदुरंमरुदेवासमेओ नीसेसकुमारनि-  
 यरपरियरिओ समग्गवल्हाहणो हरिसमरनिम्मरंगो भगवओ केवलमहिमं काउं संपत्थिओ । अंतरेण मरुदेवीए  
 मगवओ उच्चाइउत्तपमुहं विभूइसमुदयं पेच्छंतीए तहाविहभवियव्याथसेण मुहज्झाणपरायणाए अंतगडकेवलित्तं  
 जायं । भरहओत्ते पढमसिद्धोत्ति परिचिंतिऊण देवदाणवेहिं कया तीसे महिमा, खित्तं खीरोयसायरे से सरिरं, भरहो  
 य परमपमोयमुग्गहंतो तित्थयरं तिपयाहिणीकाऊण बहुप्पयारं थोऊण सदेवमणुयासुराए सभाए आसीणो । सामि-  
 णावि सजलजलहरारावगंभीराए आजोयणप्पमाणखेत्तपडिप्फलणपचलाए पइजणमेककालं संसयसयवुच्छेयजण-  
 णीए वाणीए पारद्धा धम्मदेसणा ॥ कहं ?

भो भो महाणुभाया ! दुलहं उदिऊण माणुसं जम्मं । उप्पत्तिपलयकलियं वियाणिउं भवसरूवं च ॥ ४१ ॥

फीसायासनिपंपणसपणसरीरेसु मोहवामूढा । धम्मोयज्जणरहिया निरत्थयं गमह नियजीयं ? ॥ ४२ ॥

सुमरह किं न निरंतरमणंतसो तिक्खदुक्खसंतत्ता । विवसाएसु ववसिया जं भे चउसुं पि विगईसुं ॥ ४३ ॥

तपाहि—नरए परमाहम्मियपहरणल्लिज्जंतअंगपचंगा । तिरियत्ते वहवंपणदहणं कणवाह्यामिहया ॥ ४४ ॥

देपत्तेऽवि य ईसायिसायपेसत्ततायसंतत्ता । मणुवत्ते पुण दोगववाहिविदुरा चिरं सुत्था ॥ ४५ ॥

इय चउगइदुहनिवहं अणुसुमारिय मोक्खसोक्खकंखिला । निरवज्जं पव्वज्जं पव्वज्जिउं उज्जमह धम्मै ॥ ४६ ॥  
एवमाइ भगवओ धम्मदेसणं का(सो)ऊण भरहो सावगो जाओ, वंभी य पव्वइया, भरहपुत्तो पुव्वभववद्ध-  
गणहरनामगोत्तो उसमसेणो नाम, सो य जायसंवेगो पव्वइओ, सुंदरी पुण साविगा जाया, एस चउविहो समण-  
संघो पढमसमोसरणे भगवओ पाउब्भूओत्ति । ते य कच्छमहाकच्छवज्जा तावसा सुणिऊण जिणनाहकेवलनाणमहिमं  
भवणवइवाणमंतरवेमाणियजोइसियदेवगणपरिवुडं भगवंतं दद्धुण पव्वइया । एतयंतरे जायभववेरग्गा पडलग्गतणं  
य रायसुहं उज्झिऊण भरहस्स पंच पुत्ताणं सत्त नत्तुयाणं सयाइं समकालमेव तंमि चेव समोसरणे पव्वज्जं पव्वणाइं ।

अह गामचिंतगजिओ सोहम्मै पालिऊण देवत्तं । पलिओयमपज्जंते भरहनरिंदस्स भज्जाए ॥ ४७ ॥

यम्माए गब्भंमि पाउब्भूओ सुसुमिणकयसूओ । पुव्वभवसाहुदंसणपाचियधम्माणुभावेण ॥ ४८ ॥

अद्धट्टमदिवसाहिय नय मासे वसिय गब्भवांसंमि । उववन्नो कयपुन्नो पवित्तनक्खत्तसुमुहुत्ते ॥ ४९ ॥

दसदिसिमुहेसु पसरंतमुत्तमं निहयतिमिरसंभारं । जाओ सूरुव्व तओ मिरीयजालं विमुच्चंतो ? ॥ ५० ॥

परमब्भुयभूयं जम्मवइयरं चक्किणा निसुणिऊण । तस्स जहत्थं ताहे मिरिइत्ति पइट्ठियं नामं ॥ ५१ ॥

करकिसलयसोहिळो कंकिळितरुव्व जणमणाणंदो । देहोवचएण तओ कुमारभावं समणुपत्तो ॥ ५२ ॥

अन्नया य सो मिरिई कुमारो भगवओ आइत्तित्थगरस्स असोगपुप्फयुट्ठिपमुहं च पाडिहेरविभूइं चउविहदेवनि-

काण्ण कीर्त्तानि दृष्ट्वा तीर्थाणागयपहुप्पण्णवत्थुसत्थवित्थरगयसंदेहसंदोहदहणपसमणेत्तपीऊसधाराणुगारिणिं  
धम्मदेसनं निसामिऊणं ये करिकलहकन्नतालतरलभवलोइऊण जीवियं उन्नेलिरमहल्लविसवेळरीसरित्थं निच्छि-  
ऊण कुवलयच्छिसंजोगसमुच्चवमुहं अयंडतडिदंडभंगुरं जाणिऊण पणइजणपेम्मप्पवंधं परूढगाढसद्धम्मपरिणामो  
महाविभूर्इए पियामहस्स पासे पव्वइओत्ति ।

तओ सम्ममहिगयसमणधम्मो पंचप्पयारायारसमायरणपरायणो पंचसमिइसमिओ तिगुत्तिगुत्तो पंचमहव्वयर-  
पखणवद्धलक्खो ससरीरेऽवि निरवेक्खो रयणवणिओ इव परिचत्तलोहायरो सायरो इव मयरहिओ दिणयरो इव दो-  
सुम्मूलणरुरो नागराजोव्व दूरुषूढसमावलओ मंदरो इव निम्महियजलही सुहडो इव निहयविसमकरणो गाना-  
गरनगरेसु अप्पडिवज्जो धेराण पासे सामाइयाइं एक्कारसंगाइं समुत्ताइं सअत्थाइं धिरपरिचियाइं करेमाणो सामिणा  
सद्धिं विहरइत्ति ।

इओ य-भरहराया समुप्पन्नचक्करयणो चाउरंगवलकलिओ पुव्वदिसाए मागहतित्थं दाहिणेण वरदामं पच्छि-  
मेण पहासं उत्तरेण य चुल्लहिमवंतपरिसरं जाव साहिऊण लवयंडभरहं सट्ठीए वाससहस्सेहिं वत्तीसनरवइसहस्सपरि-  
यरिओ जइगओ विणीयरायहाणिं, कओ से वारस वासाइं महारायाहिसेओ, विसज्जिया य रण्णा नियनियट्ठाणेसु  
दूरदेसागया नरवइणो ।



अत्रया य भरहो अट्टाणउइए जुळभाउयाणं दूयं पेसेइ, भगवेइ य जहा-मम सेवं पडिवज्जह अहवा रज्जाइं  
परिहरह जुज्झसजा या हयह उवायंतरं वा परिकप्पहत्ति, एवं-च राइवयणं सम्ममवधारिऊण गओ दूओ, निवे-  
इओ तेसिं भरहनरिंदाएसो, तं च समायन्निऊण कोवावरत्तनेत्तेहिं लीलाजट्टिताडियधरणिवट्टेहिं भणियं तेहिं-रे दूया-  
हम! को भरहो? को वा एरिसवत्तव्वे तस्साहिगारो? जेण तरस अम्हाणं च ताएणं दिण्णं रज्जं तम्हा ताओ चेव  
जं जाणवेही तं करिस्सामोत्ति, रोसेण कंठे घेत्तूण निद्धाडिओ दूओ अवहारेणं । एत्थंतरे गामाणुगामेण विहरमाणो  
भयवं आइतित्थयरो अट्टावयंमि नगवरे समोसरिओ, आगओ चउव्विहदेवनिक्काओ, तेऽपि अट्टाणउइंपि कुमारा  
तुरियं समोसरणमागया, सहरिसं च सामी वंदिऊण निसज्जा सट्टाणे, पत्थापे य भरहाएसं कहिऊण पुट्टं तेहिं-  
ताय! फहेसु किं जुज्झामो उयाहु रज्जाइं चयामोत्ति, ताहे सामी तेसिं जोग्गयमुवलब्भ भोगनिवित्तिनिमित्तं  
असम्भावपट्टावणाए इंगालदाहगदिट्ठंतं कहिउमाढत्तो-

जह एगो फिर पुरिसो भायणमेगं तु भरिउ सलिलस्स । इंगालाण निमित्तं काले गिम्हे वणंमि गओ ॥ ५३ ॥

तत्येगत्य वहइं खायरपमुहाइं सारकट्टाइं । सो भेलिऊण जलणं पज्जलइ तस्समीवगओ ॥ ५४ ॥

उज्झंतकडसिंहित्ताविउत्ति संछिन्नदारुसमिओत्ति । मज्झंदिणदिणयरपीडिओत्ति तण्हाउरो सुत्तो ॥ ५५ ॥

तं पुव्वाणीयं जलमसेसमापियइ तत्थ सुमिणंमि । गिंभुव्वभदिणयरकिरणविहुरमरुधेरयंसहोव्व-॥ ५६ ॥

तद्विं दु असमियतण्हो गेहे गंतूण सयलकलसजळं । निट्टविऊण निलीयइ पोक्खरिणीवाविकूवेसु ॥ ५७ ॥  
 पीए तस्सलिलंमिंवि गंगाइमहानईसु ओगाढो । ताओऽविहु सोसेई पलएव्व पयंडमत्तंडो ॥ ५८ ॥  
 तत्तो जलहिजळं पिय अंजलिसलिलं व पियइ नो तद्वि । तस्स उवसमइ तण्हा अवि अहिययरं पवहेइ ॥ ५९ ॥  
 ताहे अपायमाणो क्किं पि सलिलं समत्थमुवणेऽवि । अवलोइउं पवत्तो सो संतत्तो पयत्तेण ॥ ६० ॥  
 जइ एगत्य पएसे जइउंडो पूइयघो य (पूइयघो)सलिलोच(य) । तेणं दिट्ठो कूवो चिरेण परितुट्ठचित्तेण ॥ ६१ ॥  
 पविसिउमसमत्थो दीहरज्जुणा वंधिऊण तणपूलं । सो खिवइ तत्थ तण्हासमत्थदुक्खस्स पसमट्ठा ॥ ६२ ॥  
 तो तफहियपूलयपेरंतगळंतविंदुसंदोइं । उहं वियारियसुहो आसायंतो गमइ कालं ॥ ६३ ॥  
 जइ तस्स पाविदीहियसायरसलिलेहिं अहयतण्हस्स । नो किं पि होज्ज तेसिं तणग्गलग्गेहिं विंदूहिं ॥ ६४ ॥  
 एयं देवाणुपिया । तुम्हाणं पुषकालियमवेसु । उवभुत्तपवरपंचप्पयारसद्दाइविसयाणं ॥ ६५ ॥  
 पुणरवि सव्वाणुत्तरसघत्थविमाणपत्तसोक्खाण । तेत्तीसं अयराइं निव्विग्घमणंतरभवंमि ॥ ६६ ॥  
 जइ भो महाणुभावा । तित्ती भोगे पडुघ नो जाया । ता किं इमिणां होही भुत्तेणं तुच्छरज्जेण ? ॥ ६७ ॥  
 तो जगुइसंमवेसुं तुच्छेसुं माणुसेसु भोएसु । अइयोव्वकांलिपसुं पजंते दुहवियागेसुं ॥ ६८ ॥  
 सुहमदुरेसुं आवइसहस्सहेऊसु निर्दणिज्जेसु । साहुजणवच्चिएसुं सुदुत्तमवि मा कुणह संगं ॥ ६९ ॥

तंखणकयवेयालिपवरज्जयणेण वोहिऊणेवं । ते जिणवरेण सम्मं मुणिदिक्खं गाहिया सव्वे ॥ ७० ॥  
 तो सुचरियसामन्ना विणिहयनीसेसघाइकम्मंसा । भुवणजणपणयचरणा जाया सव्वेऽवि केवल्लिणो ॥ ७१ ॥  
 विहरंति जिणेण समं गामागरनगरमंडियं वसुहं । अह दूयं भरहवई पुण पेसइ वाहुवल्लिणोऽवि ॥ ७२ ॥  
 तेणवि दूयं निब्भच्छिऊण भरहेण सह समारद्धो । दिट्ठीवायाइओ संगामो जाव पव्वइओ ॥ ७३ ॥  
 तत्थेयुस्सग्गठिओ कह लहुभाईण वंदणं काहं । वंभीसुंदरियेसण ओयरणं कुणसु हत्थीओ ॥ ७४ ॥  
 युत्ते चिंतानाणं जिणस्स पासंमि गमणमह तस्स । भरहोऽवि हयविपक्खं भुंजइ रज्जं सनगरीए ॥ ७५ ॥

इओ य-तस्स मिरियस्स दसविहचक्खवालसामायारीनिरयस्स सिद्धन्तपसिद्धसंजमकरणपरायणस्स संसारा-  
 सारयं परिभाविंत्तस्स अट्टारसविहं वंभचेरमणुपालेत्तस्स वोलीणाइं वहइं वरिसाइं, एगयां य गिम्हमासे विप्फुरं-  
 तेसु जलणजालाकरालेसु रविकरेसु धम्मनाणलोहागरनिज्जा(ज्झा)मयसरिसेसु वायंतेसु खरसमीरणेसु विरहिणीजणहिय-  
 यव्व तत्तंमि महियलंमि अण्हाणवसविसप्पमाणवहलमलाविलसरीरत्तणेण पवहंतसेयसलिलुप्पिलाउलत्तणेण य  
 वाढं किलंतस्स दढचारित्तावरणीयकम्मदोसेण मइलहिययस्स परिचत्तकुभित्तस्सवि गुरुकुलवासे ठियस्सावि छट्टट्टमा-  
 इनिट्टुरतवकिसियसरीरगस्सुवि सयावि सुत्तत्थे विपरिभाविस्स एकारसंगाइं तण्हाभिहयस्स पयंडगिंभसंतत्त-  
 सव्वगत्तस्स पलहत्थं संजमओ झुडत्ति चित्तं मिरियस्स ।

अद्गादो मोहमडो जमेरिसाणवि मणो विकंपेइ । अघडंतघडणपडुयाण किं व सज्जं न कम्माणं ? ॥ ७६ ॥  
अत्तं च-तावधिय धम्ममई तावधिय निंदियत्वपरिहारो । जावडज्जवि मोहमहापिसांयपासंमि नो पडंइ ॥ ७७ ॥  
एत्तो विय मोक्खमहानिहाणमुक्खणियमुज्जयं समणं । घाडिंति विसहरा इव वाधीस परीसहा सहसा ॥ ७८ ॥

अह मिरिइणा चिंतियं-न सन्नहा समत्थोऽम्हि सम्ममियारिणिं समणत्तणमणुट्ठिउं, ता किं करेमि ? कमुवाय-  
मणुसरागि ? किं देसंतरं वचामि ? कस्स वा साहेमि ?, होउ या विकप्पिणं, पघज्जापरिघाएणं नियभवनगमणं  
संपयं मे पत्तहालंति, अहवा-चउज्जहिमेइलामंडलाए महिमहिलाए अहियइस्स पयंडमुयदंडदलियदुइंतवइरिव  
ग्गस्स सयलंपणमंतमहिवालमउलिकिरणाउलिकुचुरियवलय(चलण)स्स छन्नवइगामकोडिनाहस्स अप्पडिहयसा-  
सणस्स भरहचफइणो पुत्तो होऊण सयमेव परिथत्तं मंदिरमणुसरंतो कहं न लज्जामि ?, कहं वा तत्थगयं निह-  
यपइणं मं जाणिऊण न लज्जाए हेट्टामुहा ठाइस्संति जणणिजणया ? कहं वा तुसारहारगोधीरकुंदेदुधवलस्स  
इक्खागुऊलस्स पडमकलंफो न भविस्सामि ? के वा परिथत्तमंगीकयधम्मस्स न करिस्संति हीलं सहसंवहियावि  
पंथुणो ? कस्स कस्स वा महापावकारिणो निदंसणं न भविस्सामि ?, ता सन्नहा न जुत्तं गिहगमणं, किं तु सव-  
प्पयारेहियि परिमुद्धं नियमणस्सेव नियमणं मे काउं जुज्जइ, तं पुण सेलसिरयलोहट्टोदगंडसेलंपिव जुगंतसमय-  
समीणुदुयसिंधुसमुच्छलियमहलरुल्लोलपडलं पिय पयंडमत्तंडमंडलपगलंतपहाजालं पिय बढमुक्काकाणणगयमहाडुया-

सणं पिव न मणागंपि सक्केमि संठविउं, अयं च जइधम्मो अबंतमप्पमत्तचित्तमहासत्तनिव्वहणिज्जो, अहं पुण दुइंतग-  
इभो इव समुदुरखंधसिंधुरमहल्लयणोवसरणं कायरो इव दुग्गसंगामभीमसवडं मुहुब्भडभिडंतसुहडभिउडिफडाडोवं  
दुस्तइपरीसहचमूपराजियमाणसो न सक्केमि अट्टारससीलंगसहस्साभिरामं सव्वहा जडुत्तं समणधम्ममणुवरिउं ।  
अविय—

सुरसेलतुंल्लभारो एसो अहि(अहयं तु)भग्गपरिणामो । आजम्मं वोदव्वो कह तं एवंविहेण मए ? ॥ ७९ ॥  
एसोऽवि भवविरक्ख(क्क)णपडयपभावो पियामहो जइवि । करकलियामलयं पिव जाणइ मम विहडियं चित्तं ८०  
तहविडु संसारुव्वेयविरत्तओ कहमहं महाघोरं । काउं मुणीण धम्मं तरामि एयाणुवित्तीए ? ॥ ८१ ॥  
कीरइ अणुवित्तीविडु सद्धम्मगुरूण थोवदिणसज्जे । कज्जे आजम्मं पुण कायव्वो संजमो कह णु ? ॥ ८२ ॥  
इओ य-(असुहं)गिहत्थभावं संजममकलंकमवि न सक्केमि । काउं किलिट्टचित्तो कमुवायं संपवज्जामि ? ॥ ८३ ॥  
एवं च तस्स किंकायव्वयाअ मूढस्स अचिंतणीयमहिमयाए कम्मयाणं अपारसंसारसागरपरिब्भमाणुकूलसी-  
लयाए जीवस्स अवस्सं भवियव्वयाए तहाविहभावस्स इओ तओ उभयमग्गोणुसारिणमुवायं मग्गमाणस्स सह-  
सच्चिय सयमेव एयारिसी बुद्धी पाउव्वभूया, जहा—किर भगवंतो मुणिणो मणवयणकायदंडत्तयरहिया असुभवावारप-  
रिच्चाएणं सया संलीणसरीरा अहं पुण न एवंविहगुणजुत्तो, जओ पराजिओ इंदिएहिं अहिभूओ य उस्सिस्सखलेहिं

मणयणकायदेहिं, तद्वा एरिसस्त मम हवउ सचरियपयडणपरं तिदंडं चिंधं, जइ पुण एयं अणवरयं पेण्डमाणस्स  
मदुचरियपच्छायावेण विसिद्धपरियाणुज्जमो होजा १, तद्वा मुणिणो सिरकेसावणयणेण सच्चिदियनिग्गहेण य  
मुंडिया भवंति, मय पुण इंदियनिग्गहरहियस्स किं निरत्थयं मत्थयलुंचणेण २, अओ खुरमुंडणं मुणिवेसविसरिसत्त-  
परूयणपरं सिहाधरणं च संपज्जउत्ति ३, तद्वा समणा भयवंतो तिविहं तिविहेणं पच्चक्खायसुद्धमवायरपमुहभे-  
यपाणाइयाया संजममणुपालेत्ति, मज्झं पुण अतद्वाविहजोग्गयाजुत्तस्स थूलपाणाइयायवेरमणं जुत्तंति ३, परिचत्तस-  
मग्गकिंचणा मुणिणो, अहं पुण न एयंविहो ता नियमग्गाविसरणनिमित्तं सुवण्णपत्रित्तगाइमेत्तं मम किंचणमवि  
हवउ ४, तद्वा जिणवरुदिद्धसमग्गसीलजलपक्खाडियकम्ममलसेयत्तणेण निचं सुंदरगन्धाभिरामां (मुणिवरा) अहं  
पुण निम्मलत्तणेण दुगुंछियगंधो ता चाहिंपि तस्सावणयणनिमित्तं गंधचंदणाइपरिग्गहो मम समुचिओत्ति ५,  
तद्वा यवगयमोहा निफारणविमुक्खोवाहणपरिमोगा य तवस्सिणो, अहं पुण महामोहाभिभूतो सरीरक्खापरो अओ  
लत्तयपरणं उवाहणापरिमोगो य मम संपज्जउत्ति ६, तद्वा परिजुन्नसुद्धकुरिययधोवमुक्खिलवत्थंपरिग्गहा महाणुभावा  
मुणिणो, अहं पुण गाढकमायकडुसियउद्धिपमरो तद्वा धाउरमरत्ताणि वत्थाणि मए परिहियन्वाणि ७, तद्वा  
मायज्जोगभीरुणो जइणो मणमावि न पत्थंति वधुमीवाउलं जलारंमं, अहं तु संसाराणुसारिबुद्धी तद्वा  
परिमिप्पणं सल्लिलेणं पाणण्हाणाहं वावारमणुचरिस्संगमिच्छि ८ ॥

एवं सवुद्धिपरिकल्पिण जइविसरिसेण वेसेणं । मुणिधम्ममग्गचत्तो पारिव्वज्जं पवत्तेइ ॥ ८४ ॥  
 गामागरनगराइसु सिरिरिसहजिणेण सह परिब्भएइ । सुस्तवणपक्खवायं निचं हियएण वहमाणो ॥ ८५ ॥  
 अह तं करयलगहियच्छत्तयं दीहलंबिरसिहंडं । पासविमुक्कतिदंडं पविंत्तमाईहिं परियरियं ॥ ८६ ॥  
 गेरुयरसरत्तंगुयविराइयं संझसूरत्रिवं व । चंदणचच्चियदेहं उवाहणारोवियकमं च ॥ ८७ ॥  
 असरिसरुवं नीसेससमणसघस्स मज्झयारंमि । दहुं कौऊहलिओ बहुजणो पुच्छए धम्मं ॥ ८८ ॥  
 मिरिईवि सम्ममहिगयसुत्तयो तत्तदेसणसमत्थो । साहेइ वित्थरेणं मुणिधम्मविहिं जणस्स पुणो ॥ ८९ ॥  
 जह एत्थं आजम्मं वायरसुहुमेसु सबजीवेसु । संघट्टणविह्वणाइ वज्जणिज्जं पयत्तेणं ॥ ९० ॥  
 कोहेण व लोभेण व हासेण भएण वावि माऽ(ना)सचं । जीवोवघायजणगं भासेयवं विणासेऽवि ॥ ९१ ॥  
 गामे वा नयरे वा थोवं वा भूरि वा न घेत्तधं । सच्चित्तमचित्तं वा सव्वमदत्तंपि तिविहेण ॥ ९२ ॥  
 देवनरतिरियरमणीसु पवरलायणसुंदरंगीसु । पच्चक्खभुयंगीसु व सणंपि नो अभिरमेयवं ॥ ९३ ॥  
 धम्मोययारि मोत्तुं पत्थपडिग्गहपमोक्खमुवगरणं । सेसमहिगरणरुवं परिहरियवं पयत्तेण ॥ ९४ ॥  
 सधारगमेकं वज्जिऊग नेवोवहाणतूलीओ । फासस्साणुगुणाओ कइयावि य पत्थणिज्जाओ ॥ ९५ ॥  
 अरसविरसन्नपाणेहिं पीडिण्णावि महुरदित्तरसे । नो भोयणंमि चित्तं निवेसियवं मणागंपि ॥ ९६ ॥

रम्भेण वडलमालइरुमलयगंधेषु तदियरेसुंषि । घाणिंदियगोयरमहगणसु तुल्लेण होयवं ॥ ९७ ॥  
 रूयेसु सुंदरेसुं नयणमणाणंदणेसु दिट्ठेसु । तवइरित्तेसुं चा तोसपओसा न कायवा ॥ ९८ ॥  
 सहेसु पेणुपीणाफिन्नरकंडुम्भयेसु विविहेसु । खरमज्जारभवेसुवि सुणिणसु समेण होयवं ॥ ९९ ॥  
 तज्जणतालणहीलणकरणपसत्तेऽवि चालिसजणंभि । चिररुढगाढपणएव रूसियवं न धेवंपि ॥ १०० ॥  
 जयपयडेहिनि नीसेसलोयविम्हयकरेदिवि गुणेहिं । जुत्तेण मणागंपिवि भाणो न मणंभि ठवियवो ॥ १०१ ॥  
 विस्सासविणासणकारिणित्ति सुहगइदुवारपरिहोत्ति । दुहनंदियत्ति माया परिहरियवा कुमज्जव ॥ १०२ ॥  
 धेवंपि कज्जलिहं पायिय पायस्त ललणसीलस्त । लोहस्त पिसायस्त व अवगासो नेव दायवो ॥ १०३ ॥  
 सञ्जायं तिव्वकलं मइसउणं पवरसीलतरुसंडं । भंजंतो दुट्टमणो वंधेयवो वणकरिष ॥ १०४ ॥  
 निस्तंयंयं सायज्जजोग्गये जंतुदुक्खजणगे तु । सधेऽवि भासियवे जीहावि पडिक्खलेयवा ॥ १०५ ॥  
 तत्तायगोलओ इव पमत्तचित्तंगविविहयावारो । णिं नेव विह्वेज्जा ? ता देहो संठवेयवो ॥ १०६ ॥  
 सत्तरसभेयभिन्नो जइधम्मो नूनमप्पमत्तेणं । जं फायव्वो निवं तेणेसो दुक्करो होइ ॥ १०७ ॥  
 गिम्हुणहपीडिणवि न छत्तयं न उवाहणाओऽवि । परिमुत्तन्वा हेओ सब्बोऽवि सरीरसक्कारो ॥ १०८ ॥  
 नो मिरलोयप्पमुहं कट्ठाणुट्ठाणमवि विमोत्तवं । रत्ताइवणवत्थेपि पत्थभिज्जं कयाइ नवि ॥ १०९ ॥



इय जइधम्मे सद्यो कायन्वविही निवेइओ तुम्ह । अक्खंडं सिवसोक्खं जइ वंछह ता तयं कुणह ॥ ११० ॥

एवमायन्निऊण जणो पहिट्टमणो भणित्तात्तो—भययं ! जइ एवंविहो चरणधम्मो ता कीस तुम्हे छत्तप्प-  
मुहमुयगरणं गिण्हह ? सिरलोयाइयं च न सम्ममायरहत्ति, मिरिइणा भणियं—भो भो महाणुभावा ! मा एवमासं-  
कह, जहा एसो अण्णहा भासइ अण्णहा करेइत्ति, अहं हि संसाराणुत्तारिवुद्धी पराजिओ मोहमहामल्लेणं पडिक्ख-  
लिओ उस्सिखलकसायखलेहिं मुसियपसमधणो दुइंतिदियचोरेहिं सायरमवलोइओ दुग्गइदुक्खरक्खसीए, ता मम  
दोसगुणविभाषणं उज्झिऊणं नीओवणीयं पिव महामणिं खचरसमपियं पिव परमविज्जं मांयंगदेसियं पिव समी-  
हियपुरपंथाणं रोगविदुरवेज्जोवइट्ठं व परमोसहं अंगीकरेह संबहा तुम्हे मुणिधम्मंति ।

एवमाइन्निऊण संजायभववेरग्गा निउणवुद्धिपरिभावियपरमत्था तणं व परिचत्तपुत्तकलत्तमित्तवित्ता जिण-  
धम्मनिवेसियथिरचित्ता समणदिक्खांगहणत्थं पाउन्भवन्ति अणेगउग्गभोगराइण्णपमुहा जणा, मिरिईइवि ते  
सिस्सभावेणोवट्ठिए णाऊण भगवओ भुवणपर्इवस्स संसारतरुगहणदहणदावानलस्स अट्टप्पयारपवरपाडिहेरययडप्प-  
भावस्स उसुभसामिणो समप्पेइ । एवं च पइदिणं सद्धम्मदेसणाए पडिवोहेमाणो नियदुच्चरिअं निरंतरं निंदमाणो  
सुस्समणपक्खवायं वहमाणो सुत्तत्याइं मणे परिभावेमाणो मुहसीलयाए सवुद्धिपरिकपियपरिन्नायगवेसं धरेमाणो  
गामागराईसु सामिणा सद्धिं विहरमाणो कालं गमेइत्ति ।

अह अन्नया कयाई भयवं गामागरेसु विहरिऊण अट्टावयंमि समोसरिओ, भरहचक्कवट्टीवि भाउणो पवइए निसामिऊण संजायतिव्वसोगो जइ पुण भोगे दिज्जमाणे अज्जवि गेण्हंतित्ति संचित्तिऊण भगवंतं उंसभसामिं सचि-  
णयं वंदिऊण भाउगे भोगेहिं निमंतेइ, इहलोइयसुहनिरवेक्खेहिं भणिओ तेहिं—

भो महायस !—सयमेव परिचत्ते दुहनिवदुप्पत्तिकारणुभूए । उरनिहयसल्लतुल्ले कहमिव भोगे अणुसरामो ? १११  
अच्छंतु पेम्मनिभरतरुणीसंवंधंधुरा भोगा । तेसिं न संकहंपिवि सौंउं संपइ समीहामो ॥ ११२ ॥

एवं भोगेसु पडिसिद्धेसु भरहो परिचत्तसंगाण एएसिं आहरदाणेणावि ताव धम्ममायसामित्ति विकप्पिऊण पवरलक्खणभोयणभरिएहिं पंचहिं सगडसएहिं असणदाणत्थमुवट्टिओ, पुगरवि निवारिओ तेहिं—अहो महायस ! न कप्पइ आहाकम्मं आहडं च असणपाणं परिभोत्तुं मुणीणं, तओ गिहनिमित्तसंसिद्धभोयणेण निमंतेइ, सोऽवि रायपिंडो न कप्पइत्तिकाऊण निसिद्धो साहहिं, हा सव्वपगारेहिं परिचत्तो अहमियाणिं एएहिंति दढं चित्तसंताव-  
मुवगओ भरहचक्कवट्टी, तं च सोगंविहुरं नाऊण वियाणमाणेणावि सक्केण तस्स परितोसनिमित्तं पुच्छिओ भयवं सप्पभेयमोग्गहं, पुट्टेणं य भगवद्या भणियं—सुरिंद ! पंचविहो उग्गहो, तंजहा—देविंदोग्गहो रायावग्गहो गिहिवइअ-  
वग्गहो सागारियावग्गहो साहम्मियावग्गहो, तत्थ देविंदावग्गहो जहा किर जंबुदीवदाहिणखेत्ताहिवई तुमं, अहो सक ! तुहाणुजाणावणेण कप्पइ समणाणं तहिं विहरित्तए, राया पुण लक्खंडभरहाहिवई जहा संपयं भरहो, तस्साणुण्णाए

मुणीहिं तद्देसे वसियधं, गिहवई य मंडलेसरो, सोऽपि समंडलनायंगत्तणेण अणुणवणजोग्गो, तदणुयए चेव टाइयधं, सागारिओ पुण सेज्जायरो, सेज्जा य सनिमित्तकयतहाविहगेहसालापमुहो भवणविसेसो, तद्दण्णेण तरइ संसारसायरंति सेज्जातरो गुणनिष्फन्ननामो । कइं पुण सेज्जाए तरइत्ति ? भन्नइ—

तत्थ ठिया मुणिवसहा सज्झायज्झाणश्लोसियसरीरा । जं धम्मदेसणाईहिं भवलोयं उवयरंति ॥ ११३ ॥

जं वा अपुवसत्यं पढंति तह संजमे पयट्टंति । छट्ठमाइयतवो दुक्करमवि जं पवज्जंति ॥ ११४ ॥

अन्नत्तोऽविहु जं यत्यपत्तभत्ताइणा न सीयंति । परमत्थेणं सवत्थ तत्थ सेज्जा भवे हेऊ ॥ ११५ ॥

इय-सेज्जादाणेण महल्लदुक्खकल्लोलसंकुलमगाहं । संसारसायरं गोपयं च दाया लहुं तरइ ॥ ११६ ॥

इहरा सेज्जाऽभावे न जीवरक्खावि निवहइ सम्मं । किं पुण समग्गसद्धम्मपालणं होज्ज निव्विग्घं ? ॥ ११७ ॥

साहम्मियावग्गहो पुण सिद्धंतपसिद्धनाएण परोप्परं समणाण एगखेत्ते निरसिउकामाणमंवगंतवो । एवं च पंचविहायग्गहपरूवणमायन्निऊण पंचंगपणिवायपुरस्सरं सको भणिउमाढत्तो-भयवं ! जे इमे अज्जप्पभिइं दाहिणखेत्ते समणां निग्गंथा विहरंति एएसि णं अहं ओग्गहमणुजाणाभि, भगवंया भणियं-जुत्तमेयं, एयं च आयन्निऊण भरहोऽवि जायपरितोसो भणइ-भयवं ! अहंपि भारहे वासे साहुणो विहरमाणे अणुमण्णेत्ति । तंपि तहाऽऽनीयमसणं

अणुव्यगुणघयमिच्छायगुणसंगयाणं सावगाणं सक्रयणाओ भरहेण दावियं, तदा एवंपि निजरा होउत्ति मण्णमा-  
णेण सावगाणं पइदिणं भोयणदाणं कयं, भयवंपि अन्नत्थ विहरिओ ।

तेऽपि सावगा परिचत्तासेसधरवावारा भरहपणीयजिणधुइगन्भे वेदे परावत्तयंता छट्ठे मासे परिण्णाणनिमित्तं का-  
गिणीरयणेण उत्तरामंगनाएण आलिहियतिरेहा निरवज्जवित्तीए कालं गमेति । अन्नया य भयवं पडिवोहिऊण तेसु तेसु  
ठाणेसु भन्नजणं पुणरवि अट्ठावयमागओ, देवेहिं कयं विसालसालत्तयविहारं छत्ताइच्छत्तरमणिज्जं आजाणुमेत्तभूमि-  
निहित्तरुंत्तभमरं पंचप्पयारपुप्फुंजोयारं गयणंगणोयरंततियसविमाणमालासहस्साभिरामं मंदमंदमुद्धयवेजयंती-  
सयसोहियं पवरमणिमयमहप्पमाणासोगतरुविराइयं पंचवन्नरयणविणिम्मियसिंघासणं समवसरणं, तत्थ य निसन्नो  
तइलोफपियामहो भयवं पढमजिणो, निविट्ठा कमेण गणहरपमुहा साहुवग्गा, आसीणा अणेगसुरकोडिपरियुडा  
वत्तीसंपि सुरिंदा, विण्णायजिणागमयुत्तंतो समागओ सन्नविभूर्इए भरहो, परमभत्तीए पणमिय भयवं आसीणो  
उचियभूमिमाए ।

अह सो तहापिहं भवणच्छरियं नीसेसत्तिहुयणसिरिविरइयंपिव सन्नम्भुदयगेहंपि व समवसरणसोहं भगवओ  
परमिस्सरियं च पासिऊण हरिसुप्फुल्लोयणो पुच्छिउमेनं पवत्तो-ताय ! जारिसा तुम्हे भवणगुरुणो एवंविहपूयाप-  
यरिसपत्ता किमेत्थ भरहेअण्णेऽपि एरिसा भविस्संति न वा ?, भगवया मणियं-भविस्संति, भरहेण मणियं-केरिसा ?,

ताहे तेवीस जिणे अजियाई वीरनाहपज्वंते । समबुद्धिवलायारे तिहुयणजणपणयपयपउमे ॥ ११८ ॥

तह तेसिं च अण्णोऽण्णमंतरं सयलकालकलणेणं । वण्णं पमाणमाउं गोत्तं तह जणणि जणगा य ॥ ११९ ॥

जम्मणनयरे य तहा कुमाररजाइ सव्यपरियागं । सिद्धिगईपज्वंतं भयवं भरहस्त साहेइ ॥ १२० ॥

पुणरवि पुच्छइ भरहो मम सारिच्छा कईह होहिंति ? । सगराई एकारस चकहरे कहइ सबन्नू ॥ १२१ ॥

अप्पुट्टोऽविहुं भयवं पुणोऽवि चागरइ भरहनाहस्त । नव वासुदेववलदेवजुवलए भाविणो भरहे ॥ १२२ ॥

पुणरवि भणिओ भरहाहिवेण तइलोकमंदिरपईवो । अवलोइऊण परिसं-खयरामरनियरपरियरियं ॥ १२३ ॥

छट्टमाइतवकिसियसाहुसुधम्मकारिगिहिकलियं । भयवं ! किमेत्थ कोऽवि हु पाविस्सइ तित्थयरलाभं ? ॥ १२४ ॥

तह चकवहिलिच्छं चोइसवररणगुणमइग्गवियं ) अहवावि वासुदेवत्तणंपि पावेज्ज भरहंमि ? ॥ १२५ ॥

ताहे कलियकुलिंणं मिरिइं एगंतसंठियं भयवं । दावइ जह एसं जिणो चरिमो होही तुह सुओत्ति ॥ १२६ ॥

एसोच्चिय गामागरनगरसमिद्धस्त भारहद्धस्त । सामी तिविहुनामो पढमो तह वासुदेवाणं ॥ १२७ ॥

एसो महाविदेहे पियमित्तो नाम चकवट्टीवि । मूयाए नयरीए भविस्सई परमरिद्धिजुओ ॥ १२८ ॥

एवं च आयत्तिऊण भरहनरिंदो पहिट्टमणो पणमिऊण भयवंतस्त चरणसरोरुहं तक्खणमेव अणेगसुहसेणाव-  
श्रनिवेहपरिवुडो पयट्टो नियमुयस्सं मिरियस्स वंदणणिमित्तं, तदंतरे चारणलद्धिसंपन्ने ओहिनाणधरे मणपज्ववनाणिणो

मूयाए नयरीए महाविदेहंमि तह य चक्कवई । वत्तीससहस्समहानरिंदसंदोहनयचरणो ॥ १३५ ॥  
 पारिघज्जं जम्मं च तुज्झ नो पणिवयामि किंपि अहं । जं होहिसि तित्थयरो चरिमो तं तेण वंदामि ॥ १३६ ॥  
 एवं थोऊण वहुं गिराहिं अम्महियभावगम्मार्हिं । जयकुंजरमारूढो विणीयनगरिं गजो भरहो ॥ १३७ ॥  
 मिरिईवि इमं सोउं हरिसुग्गयपुलयजालपीणंगो । गरुयकुलजम्मासहजायभूरि गंभीरिमं मोउं ॥ १३८ ॥  
 जिणवयणत्यविभावनसंपन्नविवेयमवि परिचइउं । देहुग्गयनिरवग्गह लज्जापसरंपि पडिखलिउं ॥ १३९ ॥  
 दुवारवेगपफुरियफारसुम्मायभेक्कमासज्ज । दप्पुम्मडमप्फोडिय तिवइं मल्लो व रंगंमि ॥ १४० ॥

पथासन्नमहासुणिसमंक्खमह लोयमज्झयारंमि । आणंदसंदिरच्छो फुडक्खरं भणिउमादत्तो ॥ १४१ ॥ चउहिं कलावयं ।  
 जइ पढम वासुदेवो महाविदेहंमि चक्कवटीवि । चरमो तित्थयरोऽविहु अहं भविस्सामि भरहंमि ॥ १४२ ॥  
 ता तिहुयणेऽवि नूणं अण्णो नो पुण्णवं ममारहितो । कस्सऽण्णस्स व एरिस फलदायी होज सुकयतरू ॥ १४३ ॥  
 तथा—अज्जो तित्थवराणं पढमो जणगो य चक्किवंसस्स । अहयं च दसाराणं अहो कुलं उत्तिमं मज्झ ॥ १४४ ॥  
 एयं नियकुलचंगिमउक्कित्तणपचएण संजणियं । नीयागोयं कम्मं मिरिइपरिवायणेण दढं ॥ १४५ ॥  
 भयवं च जयपियामहो विहरिऊण तेसु तेसु गामांगरपुरमडं वदोणमुहपमुहेसु ठाणेसु किंचूणं पुषसयसहस्सं  
 केवल्लिपरियागं पाउणित्ता आउयकम्मस्स सावसेसयं नाऊण अट्ठावयपव्वयमारूढो, तओ महामासवहुलतेरसीए अभि-

ईन्द्रसूक्तमुवागए चंदे पुषण्डसमयंमि सुसमदूसमाए एगूननउइपकखेसु सेसेसु कयचउइसमतवोकम्मो दसहिं सुणि-  
सहस्सेहिं सद्धिं परिचत्तचउविहारो कयपाजोवगमगो पञ्जंकासणसंठिओ वेयणियाउयनामगोयकम्माणं अंतं  
करिचा सियमयलमणुत्तरं पत्तोत्ति ।

अह पंत्तीसंपि सुरिंदा दुस्सहदुक्खविडुरेण भरहनरिंदिण समेया वाहप्पव्याहाउल्लोयणजुयला पणमिऊण भग-  
वंतं नंदणवणाओ सरसगोसीसकमणागरुपमुहसोक्खकट्ठाइं आणारिंति ।

तओ—पुव्वेण जिणस्स कए यद्वायारं चियं रयापिंति । दक्खिणदिसाए तंसं इक्खागुकुलुम्भवनिमित्तं ॥ १४६ ॥

अवरेण उ चउरंसं विरपरपंतं विसिद्धरुहेहिं । अवसेसाण सुणीणं सरीरसफारकज्जेणं ॥ १४७ ॥

ताहे सीरोदयं(जल)ण्हवणमुइसुरहिचंदणविलिचं । आरोवेति सरीरं चियाए सक्का जिणिंदस्स ॥ १४८ ॥

भवणवइपमुहदेया ण्हविषविलिच्चाइं सेससाहणं । आरोवेति दुइत्ता देहाइं नियनियचियासु ॥ १४९ ॥

तत्तो अग्गिकुमारा जहफमं तासु सक्कयणेणं । वयणेहिं निराणंदा मुयंति जालाउलं जलणं ॥ १५० ॥

एवं सरीरसफारमावरेणं सुरेसरा फाउं । नियनियठाणेसु गया विच्छायसुहा विगयसोहा ॥ १५१ ॥

भरहनरिंदो पुण महासोगाभिभूओ सगिहमागओ, तत्तय य ददयच्चपडणाइरित्तसोगमंमारज्जवरियसरीरो मल्ल-  
पूरियगलसरणी संफंदणपोकमुफारा(या)णुसारोयणारावविहियसोगपमोक्खो अट्टावयमेउसिद्धंमि मच्चरवणवयं मरुत्तं

धूमं रयावेइ, वाहुवलिपमुहाण य नवणउईए भाउगणं अण्णाणि नवनउई धूभाणि निवत्तावेइ, तहा भगवओ नि-  
 व्याणलामप्पएसे तिगाउयउस्सेहं जोयणायामं सिंहनिसा(सेज्जा)इयं सव्वरयणविणिम्मियनियनियवण्णप्पमाणोववेय-  
 चउवीसजिणपडिमाहिद्वियं सुविमत्तसालिभंजियाभिरामतोरणात्तद्धवंधुरामिलाणवंदणमालं दुवारदेसोभयपासपइद्विय-  
 लट्टपुंडरीयपिहाणपुण्णकणयकलसं सरसपंचप्पयारपुण्णपुंजोवयारकलियं कालागुरुकुंदुरुक्करुप्परपमुहवत्थुसिद्धधूयधूमं-  
 धयारियदिसाहोयं अणेगतियसंगणाजणुत्तालकरतालपुरस्सरदिज्जमाणरासयं भत्तिभरनिभरगायंतर्किनरनियरं दूरदेसा  
 गयविज्जाहरचारणमुणिजणविचित्तथुइथोत्तखवहंतहलवोलं पइद्वियलोहमयजंतदुवारपालं जिणभवणं कारावेइ ।

जं च—संसारोयहिनिवंडतसत्तसंताणजाणवत्तं व । रेहइ पवणुदुयघवलधयवडाडोवरमणिज्जं ॥ १५२ ॥

इक्खागुकुलुम्भवभूवकित्तिक्कूडं व संठियं पयडं । सोहइ महीएँ केलाससेलसमसीसियाएव्व ॥ १५३ ॥

पवणपणोल्लिरजलहरपडलाउलसिहरपरिसराभोगं । परिभमिरभरनियरं विरायए कुमुयमउलं व ॥ १५४ ॥

मन्ने पवणपणोल्लिरएयमहद्वयपलोयणेण जणे । पवयसिरनिवडिरगयणसरियकित्तीफुडं जाया ॥ १५५ ॥

भरहनरिंदनियेसियजिणमंदिरदंसणाणुसारेणं । सेसजणोऽवि पयट्टो जिणविंवाईण कारवणे ॥ १५६ ॥

जुत्तं च एयं, जेण—

एयं खु दुग्गइदुवार(पिहाण)फलिहोचमं जिणा विंति । नीसेससत्तसंताणताणद्राणेकहेउं च ॥ १५७ ॥



एको(त्तो)धिय तक्कालियमुणिगणहरकेवलीहिं न निसिद्धं । चेइहराभावे जं तित्तुच्छेजो भवे पच्छा ॥ १५८ ॥  
 तथा—जिणसंतविचदंसणविन्नायजहत्यवत्तुपरमत्तो । पडिवज्जइ जइ फिरियं कोई संसारंभयभीजो ॥ १५९ ॥  
 मुणिणोऽवि वंदणत्थं इओ तजो इंति नियविहारेणं । तेऽवि य करेत्ति सद्वम्मदेसणं समयनीईए ॥ १६० ॥  
 पडिचुज्झंति य भग्ना गिण्हंति जिणिंदधम्ममकलंफं । एवं च तित्तवुद्धी होइ कया सव्वकालंपि ॥ १६१ ॥  
 किं बहुणा?—जिणभवणाइनियेसणसमुवज्जियपुण्णपगरिसवसेणं । सग्गापवग्गलच्छी नियसइ भग्गाण करकमले १६२,  
 इय सो भरहनरिंदो नियेसिऊणं जिणिंदवरमयणं । उवमुंजइ नियरज्जं विसयसमिद्धं बहुं कालं ॥ १६३ ॥  
 अह अन्नया पविट्ठो आयंसपरंमि विमलफलिहमए । नियरूवपेच्छणकए सव्वालंकारियसरीरो ॥ १६४ ॥  
 विविहपयारं पेच्छंतयस्स अह अंगुलीयगं गलियं । करकिसलयाउ ताहे वीभच्छा अंगुली जाया ॥ १६५ ॥  
 ववगयसोहं तं पासिऊण सव्वंगसंगि यामरणं । मुकं साहावियरूवदंसणत्थं महीइणा ॥ १६६ ॥  
 अत्थमियसयलतारं व नहयलं लुणियसस्समिव छेत्तं । ववगयरूमलं व सरं तरुं व संछिन्नसाहग्गं ॥ १६७ ॥  
 दहुं च कट्टपडियं व निप्पहं विगयरूवलायन्नं । चम्मावणद्धनिविडट्ठिपंजरागारमह देहं ॥ १६८ ॥  
 तो चिंतिउं पवत्तो मुनिउणवुद्धीए जायसंवेगो । वेरग्गावडियमई सरीरासारयं भरहो ॥ १६९ ॥  
 एवंविहनिंदियदेहकारणा कह मए महापावं । कयमचंतरउहं अहो विमूढेण चिरकालं ? ॥ १७० ॥

कह वा विसयामिसमोदिएण जिणनाहदेसिओ धम्मो । निप्पुण्णएण न मए सिवफलओ सम्ममायरिओ ११७१  
 किं चिंतामणिमह कप्पतरुवरं कामघेणुमह यावि । कोऽवि सयन्नो कहमवि लद्धूण परम्मुहो होजा ११७२ ॥  
 ते धाहुवलिपमोक्खा घण्णा मह भाउणो महामागा । जेहिं असारसरीरेण साहिओ सुंदरो मोक्खो ॥१७३॥  
 एमाइसुहज्जयसाणजलण(जाले)जलाविउं झत्ति । निदड्ढो तणरासिब मोहंपसरो भरहवइणा ॥ १७४ ॥  
 उप्पाडियं च केवलनाणं निप्पच्चयायसुहहेउं । देविसमप्पियलिं गो गेहाओ निग्गओ ताहे ॥ १७५ ॥  
 दसहि सहस्सेहिं नरेसराण तफालगहियदिक्खाणं । परियरिओ भयवं भरहकेवली विहरिओ वसुहं ॥ १७६ ॥  
 अह पुच्चसयसहस्सं केवलपजायपालणं काउं । एकसमयेण निव्वाणमुवगओ भरहमुणिवसहो ॥ १७७ ॥

इओ य सो मिरिई परिव्वायगो सार्मिनि निव्वाणमुवगएऽवि साह्महिं समं गामागरनगराइसु अप्पडिबद्धो  
 विहरइ, अपुच्चठाणेमु य धम्मदेसणं कुणइ, जो य कोवि पडिबुज्झइ पव्वजागहणं च समीहेइ तं साह्मणं समप्पेइत्ति ।  
 एवं च तस्स विहरमाणस्स अन्नया कयाइ सरीरगेलण्णया महती पाउब्भूया, तवसेण य सो न तरइ अप्पणो निमित्तम-  
 सणपाणंपि आहरिउं, न खमइ सरीरघेट्टंपि अणुट्ठिउं, न पहवइ चइमेत्तमवि भासिउंति, ते य सगासट्ठिया पेच्छंति  
 साहुणो तं तहट्ठियं तहावि असंजउत्ति कलिऊण न पुच्छंति सरीरवत्तं, न समप्पेंति भत्तपाणं, न दंसेंति वेज्जस्स, न  
 उवयरंति ओसहाणं, किं बहुणा ?, न संकहंपि करिंति तस्स, मिरिईवि जातसंकिलेसो चित्तेइ-अहो निदया

अहो निरप्पणचित्ता अहो सकज्जपसाहणपरायणा अहो लोयववहारपरम्मुहा अहो नियउदरभरणरसिया ' इमे सा-  
 णुणो जं उवयारिणंपि चिरपरिचियंपि एगगुरुदिकिखयंपि पासपरिवत्तिणंपि समाणधम्मपडिवद्धंपि अणवरयगुणग-  
 हणपरायणंपि मगं सिणिद्धचक्खुक्खेवमेत्तेणवि णाणुगिण्हंति, अहवा न सम्ममणुचिंतियमेयं मए, जओ एए  
 महाणुभाया सरीरस्सवि पडियारमकुणंता कहं मम अस्संजयस्स उवयारे वद्धंतु?, केवलं जइ अहंपि इमाओ रोग-  
 महण्णवाओ पारं पावेमि ता निच्छियं पव्वजागहणुज्जुयं कमवि सयमेव पद्दावयामि, न एगागीहिं तीरिज्जंति  
 सोडुमावयाओ, अह कहंपि भवियव्वयाए यसेण खओवसमओ वेयणीयस्सं चिरकालभवियव्वत्तणओ पारिवज्ज-  
 पासंडयंसस्स तद्दाविहोसहसामग्गीउवहारओ ववगयरोगो सो समत्थसरीरो संपन्नो, विहरिओ य अण्णत्थ ।

अण्णया य धम्मदेसणं कुणमाणस्स तस्स कविलो नाम रायपुत्तो सगासमलीणो, तेणावि पंचमहव्वयरक्ख-  
 णपद्दाणो पसमाइगुणाहिट्ठिओ पंचिदियनिग्गहविसुद्धो निस्सेयसफलदायी परूविओ से मुस्समणधम्मो, कविलेण  
 य युत्तं-भयवं ! अण्णहा तुम्हे वज्जनेयत्यमुव्वहह, इमं च अण्णहा पण्णवेह, किमेत्थ तत्तं ?, मिरिइणा भणियं-  
 भइ ! एसो मुसाहुधम्मो तुह निवेइओ, इमं पुण जडुत्तसाहुधम्मासमत्थथाए पवलपावकम्मयाए दुग्गइगमणसी-  
 लयाए यं सवुद्धिसिप्पपरिकप्पियं कुलिगं मए अब्भुवगयं, तात ! एयं पारगच्छियं, अओ पडिवज्जमु निस्सं-

१ यद्यपि मनुष्यो प्राणिनामेव क्षयोपशमस्तथापि अत्र प्राणुदितस्य वेदनीयस्य क्षयः नवस्य चोदरनिरोध इति क्षयोपशमता वेदा, न तु मिथीभावताऽन्य ।

सयं समणधम्मं, कविलेण दुत्तं-भयवं ! तुम्ह संतिए एत्थ तहावि अत्थि किंपि णिज्जराठाणं नवा ?, मिरिइणा भणियं-भइ ! समणधम्मो ताव अत्थि, इहावि मणागंति, एवं च तेण अजहट्टियवत्थुदेसणओ निविट्ठो सागरोव-मकोडाकोडिमेत्तो संसारोत्ति । नणु किं एत्तियमेत्तविवरीयरुहणेऽवि एवं संभवइ ?, किमिह चोज्जं?, जेण-

विवरीयजिणागमपयमेत्त(स्स)परुवणेऽवि मिच्छत्तं । अप्पत्थभोयणेण थ दुइजणगं रोगमज्जिणइ ॥ १७८ ॥

एत्तोच्चिय मूलुत्तरगुणगणविरहेऽवि लिंगधारीवि । सुवइ सव्वज्जुमयं जहट्टियं पन्नवेमाणो ॥ १७९ ॥

किं एत्तोऽवि इ ए(पा)वं जं सरणगए णु भवंभएण जणे । उम्मग्गदेसणातिक्खखग्गघाएण विइवइ ॥ १८० ॥

गरुयंपि कयं पायं न तहा जीवस्स दुक्खमावइ । जह जिणवरवयणपसूयसमयविवरीयपरिकहणं ॥ १८१ ॥

अलं वित्थरेण । पत्थुयं भणणइ-

सो कविलो सन्निवायाभिभूओ इव परमोसहं महागहपरिग्गहिओ इव तहाविहं मंतकिरियं पुंप्पवुग्गाहिओ इव सम्मपरिकहणं महापवलमिच्छत्तणओ न पडिवण्णो मणागंपि समणधम्मं, तओ मिरिइणा चिंतियं-न ताव परिगिण्हइ एस जइधम्मं, ममावि छत्तगाइपरियरुव्वहणे गामंतरगमणे सरीरगेलणे अयंतिगपओयणे एगेण सहाइणा कज्जमत्थि, तम्हा पद्दावेमि एयंति चिंतिऊण कविलो गाहिओ नियदिकएणं, सिक्खविओ किंपि वज्जं कट्ठाणुट्ठाणं, एवं च सो नियंसियकासायवत्थजुयलो पाणिपरिग्गहियत्तिदंडो पवित्तिगापसुहोवगरणपरियरिओ

गामाणुगामं पिषरं च देवयं च सामियं च परमोवगारिणं च रयणनिहाणदेसगं च जीवियदायारं च मिरिईं पञ्जुवासंतो परिममइत्ति, एवं च काले वोलंतंमि मिरिईं चउरासीईं पुवसयसहस्साईं सवाउयं पालइत्ता अणालो-  
इयपडिकंतनियदुघरिओ कालं काऊण वंभलोए कप्पे दससागरोवमाऊ देवो जाओत्ति ।

सोऽवि कविलो अपढियसत्थपरमत्थो वज्झोवगरणधरणमेत्तरसिगो जहादिद्वकद्वाणुद्वाणपत्तपरमकट्ठो एगागी परियडइ । मुणिविलक्खणागारदंसणेण पुव्वकमेण समल्लियइ य से समीवे धम्मसवणत्थं वहु जणो, सोऽवि अ-  
वियक्खणत्तणओ समणसत्थेसु तहाविहधम्मदेसणमवियाणमाणो 'युक्तायुक्तपरिज्ञानशून्यचित्तस्य देहिनः । अलब्ध-  
मध्यताहेतुर्मानं सर्वार्थसाधनम् ॥ १ ॥' इति परिचिंतंतो गाढपरिग्गहियमोणव्वओ दिणगमणियं करेइ । अन्नया  
य आसुरिरायपुत्तपमुहं सिस्सगणं पष्वाविऊण जथादिद्वं वज्झाणुद्वाणं दंसिऊण य चिरकालं कयवालतवो मरिऊण  
वंभलोए कप्पे देवो उववज्जइ । तर्हि च—

असुयं अदिद्वपुव्वं सुरलच्छिं पेच्छिऊण तारिच्छं । अणुचित्तिउं पयत्तो अइविम्हियमाणंसो कविलो ॥ १८२ ॥  
किं मन्ने होज्ज मए दारुणरूवं तवं समायरिउं (यं) ? । किं मयलंछणसच्छहमणुचरियमणुत्तमं सीलं ? ॥ १८३ ॥  
किं वा दुक्करतवनियमनिरयचित्तेसु साहुपत्तेसु । होज्ज निहित्तं वित्तं नियभुयजुयलज्जियं पुब्बि ? ॥ १८४ ॥  
किं वा साहसमवलंविऊण खित्तं हयेज्ज नियदेहं । पज्जलियतिव्वजालासहस्सजडिलंमि जलणंमि ॥ १८५ ॥

एमाइविहसंसयसंकियचित्तो खणं विगमिऊणं । सम्मं वियाणणट्ठा ओहिण्णाणं पउंजेइ ॥ १८६ ॥  
 पारिवज्जपवन्नं अह देहं नियइ तं विगयजीयं । तेऽवि ससिस्से गंथत्थवाहिरे मुद्धबुद्धीए ॥ १८७ ॥  
 ताहे नियदंसणपक्खवायओ चत्तदेवकायव्वो । ओयरिओ आयासे सिस्साणं तत्थ(त्त)कहणट्ठा ॥ १८८ ॥  
 वरपंचवण्णमंडलमज्झगओऽदिस्समाणरूवो य । आसुरिपमुहे सिस्से भासइ संबोहिऊणेवं ॥ १८९ ॥  
 अवत्ताओ वत्तं पभवइ इच्चाइ तत्तसंदोहं । तो सट्ठितंतगंथं तं सोच्चा आसुरी कुणइ ॥ १९० ॥  
 अव्वोच्छिती य तओ जाया सीसप्पसीसवग्गस्स । एवं सति वित्थरियं सवत्थ तिदंडिपासंडं ॥ १९१ ॥  
 कविलोऽवि हरिसियमणो ठाणाओ तओ गओ सुरावासं । तत्थ य अणणसरिसे पंचविहे मुंजए भोए ॥ १९२ ॥  
 अह सो मिरिई आउयखयंमि चइऊण वंमलोगाओ । दूरदिसागयनेगमपणियाउलविवणिमग्गंमि ॥ १९३ ॥  
 परिसरदेसट्ठियसाहुवग्गपारद्धधम्मकम्मंमि । नीसेसगामतिलए कोह्लागे संनिवेसंमि ॥ १९४ ॥ जुम्मं ।  
 छक्कम्मनिरयचित्तो वेयत्थवियारकुसलबुद्धी य । जाओ जयपयडजसो नामेणं कोसिओ विप्पो ॥ १९५ ॥  
 सो विसयपसत्तमणो दविणज्जणकयविचित्तवावारो । पाणवहपमुहगुरुपावठाणनिरवेक्खचित्तो य ॥ १९६ ॥  
 मिच्छत्तनिहयबुद्धी तिदंडिदिक्खं निसेविउं अंते । असीई उ पुब्बलक्खे सव्याउं पालिऊण मओ ॥ १९७ ॥

अह सकयकम्मजणिए सुरतिरिपामोकखविविहठाणंमि । उववज्जिऊण बहुसो पसुव चिवसो दुहाभिहओ १९८  
भमिऊण चिरं कालं भवंमि थूणायसंनिवेशंमि । माहणिमाहणपुत्तो जाओ सो पुस्समित्तोत्ति ॥ १९९ ॥ जुम्मं ।

तत्थवि चिरकालं निवसिऊण निविन्नकामभोगो सो । परिवायगदिक्खं पडिवज्जेउण धम्मवुद्धीए ॥ २०० ॥  
काऊण तथं विविहं पालिय नियसमयसिद्धधम्मविहिं । सव्वाउयं च धरिउं वावत्तरिपुव्वलक्खाइं ॥ २०१ ॥

मरिऊण पुस्समित्तो तत्तो सोहम्मदेवलोगंमि । दिव्वाभरणविभूसियदेहो देवो समुप्पन्नो ॥ २०२ ॥

कालक्कमेण तत्तो चइऊणं चेइयंमि य निवेशे । अग्गिज्जोओनामा(स)वंभणो(अह)समुप्पन्नो ॥ २०३ ॥

सो य चउसट्ठिं पुव्वलक्खाइं परिपालिऊण आउयं गहिऊण परिवायगदिक्खं मरिऊण ईसाण देवलोगे  
मज्झिमाऊ तियसो होऊण चिरं कालं भोगे भुंजिऊण आउक्खए चुओ संतो मंदिराभिहाणसंनिवेशे सोमिलस्स  
वंभणस्स सिवभहाए भारियाए पुत्तत्तेण उववत्तोत्ति, कयं च से अग्गिभूइत्ति नामं, सो य पत्तो तारुत्तं, अन्नया  
य तत्थ संनिवेशे परिब्भममाणो समागओ सूरसेणो णाम परिवायगो, सो कुसलो सट्ठितंतसिद्धंतं वियक्खणोधम्मकहाव-  
क्खाणे छेओ परचित्तपरिण्णणे, तं चागयं सोऊण समागओ बहुजणो, आरद्धो य तेण नियदरिसणत्तपरुवणापवंचो,  
आणंदियहियओ गओ य सट्ठाणं जणो, जाया पसिद्धी, वीयदिवसे अग्गिभूई अणो य लोओ आगओ तस्स सयासं,  
कया उचियपडिवत्ती, उवविट्ठो संनिहियपदेसे, कहिओ य तेण महया पगारेण नियदरिसणाभिप्पाओ, हरिसिया

सत्वे, एतयंतरे एगेण मणुसेण पुच्छिओ सो परिघायगो, जहा भयवं ! मयलंछणे इव जणनयणाणंदे मुत्ताकंलावेवं सहं-  
रिसहरिणच्छिसिहिण(हण्डि)संवासोचिए नंदणवणे इव विविहविलासजोग्गे जलहिंमि व लावणपुण्णे रसायलेष भुयं-  
गसंगसमुचिए भग्गवम्महसोहग्गे किमेरिसंमि तारुण्णे अणुद्धियं तुमए पव्वजागहणंति ? , न खलु मुणालतंतुरंजू परि-  
खमइं मत्तसिंधुरखंधवंधणपरिक्खेवं न यावि सहइ सहयारमंजरी जरढढेकपरिक्खेवचरणभारं न य पमवइ धाराकराल-  
करवालसिहुल्लेहलीलं कमलदलं, न सब्बहा तुइ एरिसी सरीरसिरी काउमरिहइ निट्टुरजणजोग्गं तवचरणंति, केवलं  
होयवमेत्थ पणइणीविरहेण वा धणभंगेण वा सयणविप्पियदंसणेण वा अण्णेण वा केणइ कारणेणं, वाढं कोऊहलं  
मे, साहेह सब्बहा जइ न दूरमकहणिज्जंति । परिव्वायगेण भणियं—भइ ! तुम्हारिसाणवि किं किंपि अकहणि-  
ज्जमत्थि ? , सुणमु जइ अत्थि कोऊहलं, अहं किर पुवं कोसंवीए नयरीए असंखदविणभायणं अणेगाणं दीणाण  
दुत्थियाण विदेसियाण भयंताण य सत्ताणं ताणदाणपरायणो आसि, अण्णया य खणीए मे पमुत्तस्स सहसा  
समुच्छलिओ तुमुलो रवो, तओ संभंतोऽहं समुद्धिओ सयणीआओ जाव पेच्छामि आइद्धियनिसियखग्गे दढावव-  
द्वपरियरे चावचक्कुंतपमुहाउहहत्ये हण हणत्ति भणंते धरणियलगयंपि सयं निहित्तमिव.अत्यसंचयं गिण्हमाणे  
तहद्धियाउं चेव तुरंगमंदुराओ अप्पायत्ताओ करेमाणे संमुहद्धियं परियणं विविहप्पयारेहिं विह्वेमाणे कंसं दोसं  
धरवक्खरं च अवहरेमाणे जमसुहडे इव कलिफालमित्ते इव पावपियामहे इव भीसणे निक्खिे भिल्लपुरिसे, ते य



दद्रुण मरणमपविदुरेण सिग्धं अवक्कमिऊण मए वाहरिया आरक्खिया, त य जाय मत्ता इव सुच्छिया इव गयचे-  
यणा इव बहु घोलावियापि हुंकारमेत्तमवि न दिंति ताव नायं मए नूणमेए ओसोवणिमंतेण वा ओसहपजोगेण  
वा एएहिं चोरेहिं निहयचेयणा कया भविस्संति, कहमण्णहा एयं निहा विहवेजा ?, होउ वा ताव सजीवियं  
रफ्साभिचिपरिभाविऊण सणियं सणियं निह्हुको एयत्थ वणगहणे, भिल्लावि भवणसिलाधंभाइयं मोत्तूण सेसं  
पराडमेत्तंपि गहाय गया, कमेण पहाया रयणी, उट्ठिओ जणो, जाया पुरे वत्ता, आगओ लोओ अहं च, अवलोइयं  
गेहं जाय तत्थ एगदिणभोयणमेत्तंपि नत्थि, खीणविभवत्तणओ कलंतराइपउत्तंपि दविणजायं न पावेमि, जओ  
नत्थि कोऽवि निग्गाहो तओ चिंतियं मए-

नीसेसजणपहाणत्तणेण ठाऊण एत्थ नयरंमि । संपइ कप्पडिओ इव कह निवसंतो न लज्जामि ? ॥ २०४ ॥  
दीणाण दुत्थियाण य दाउं भोयणविहिं कुणंतस्स । इण्हि तु निओदरभरणमेत्तनिरयस्स का सोहा ? ॥ २०५ ॥  
कह वा तुरगारूढो पुण्वि भमिऊण पुरिसपरियरिओ । वचिस्सं एगागी इण्हि तु पयप्पयारेण ? ॥ २०६ ॥  
कह वा सहपंसुकीलियधंघवलोयस्स वंछियत्थस्स । अविपूरितो जीयं निरत्थयं उव्वहिस्सामि ? ॥ २०७ ॥  
हुव्वहगव्वुदुरवइरिविसरदुव्विसहदुव्वयणजायं । पव्वमठुलट्टुविमरो पच्चक्खं कह मुणिस्सामि ? ॥ २०८ ॥  
ता मोत्तूण इमं ठाणं देसंतरं यद्यामिस्ति चिंतिऊणं चलिओऽहमुत्तरायहाभिमुहं, कालंतरेण पत्तो एगंमि सन्नि-

वेसे, भिक्षापरिचमणेण कया पाणवित्ती, बुद्धो तत्थेव किंचिकालं, अण्णदिवसे य दिट्ठो मए एगो तिदंडी,  
 वंदिरुण सवायेण उवविट्ठो से समीवे, पुच्छिओऽहं जहा मए तहा तेणवि नियवइयरं, निवेइओ य मए संखेवेण,  
 तिदंडिणा भणियं-पुत्त! परिचयसु सोयसंतावं, अणुसरसु धीरत्तणं, सबसाहारणो हि एस्स वइयरो, किं च—

किं वयणिज्जं जं निदिए जणे नो धिरत्तणं कुणइ ? । पुरिसुत्तमंपि लच्छी छड्डइ महिलव दुघीळा ॥२०९॥

नो मुइकुलं न रुवं नो विण्णानं न विक्कमं न वलं । वालव गयविवेया अवेक्खाए किंपि मुयमाणा ॥२१०॥

अहया जलनिहिकल्लोलसंगसंलगचंचलत्ताए । कोत्थुहमणिसहजम्मणवहियदढनिट्ठुरत्ताए ॥ २११ ॥

मयलंछणसमसी(सा)सियमइलाणुस्सरणवद्धसीलाए । सुरगइतुरंगसंगइदूरुज्झियवरविवेयाए ॥ २१२ ॥

दुस्सहविसमेत्ती(व)सदावियपजंतदुहविवेगाए । कंबुसिणेहसमुच्छूढगाढकुडिलत्तबुद्धीए ॥ २१३ ॥

तह पारियायपणयप्पभावजडजायपक्खवायाए । निच्चं लवणोयहिवासमुक्कमधुरत्तभावाए ॥ २१४ ॥

एयाए सचरियं फहं हवेज्जा महाणुभावाए ? । न हि विसरिससंसग्गी विसिट्ठुणसाहणं कुणइ ॥ २१५ ॥

ता चयसु सोगमहुणा पोरुसमुबहसु कुणसु करणिज्जं । न हि विण्णायसरूवे गुणंति कहिंपि सप्पुरिसा २१६

किं भइ ! तुम एगो इमीए मुक्को ? जमेवमइगरुयं । संतावं वहसि न पत्तकालमहुणा समायरसि ॥ २१७ ॥

भणियं च मए भयवं ! किं पुण एत्तोऽवि पत्तकालं मे ? । तेण कहियं ! महायस ! निच्छओ सवहा धम्मो ॥२१८॥

एयविउत्ताण जजो विहडंति समुदुरावि रिद्धीओ । एएण संपउत्ताण हुंति दूरं पलीणावि ॥ २१९ ॥  
 एयं च मए आयन्निऊण संजायभवविरागेणं । एसा तिदंडिदिक्खा पडिवन्ना दुक्खनिम्महणी ॥ २२० ॥  
 ता भद्द ! तए वेरग्गकारणं जं पुरा अहं पुट्ठो । तं एयं तुह सिद्धं एत्तोच्चिय कुणसु धम्ममइं ॥ २२१ ॥  
 एत्तयंतरंमि एयं सोया ओभिन्नवहलरोमंचो । पुणरुत्तनिवेसियपारिवज्जदिक्खाभिमुहवुद्धी ॥ २२२ ॥  
 सो जग्गिभूइनामो मिरीइजीवो तिदंडिणं नमिउं । भालयलनिमियपाणी पयंपिउं एवमाढत्तो ॥ २२३ ॥  
 भयवं ! जाए वेरग्गकारणे तारिसंभि तुम्हेहिं । जं दिक्खापडिवत्ती विहिया तं सम्ममायरियं ॥ २२४ ॥  
 एयस्स निसामणओ ममोवि घरवामवासणा विगया । छिन्नो मायामोहो विवेयरयणंपि विप्फुरियं ॥ २२५ ॥  
 ता नियदिक्खादाणेणऽणुग्गहं कुणसु संपयं मज्झ । इय वुत्ते तेणं सो पच्चज्जं गाहिओ सहसा ॥ २२६ ॥  
 काऊण तवं तो सो धरिउं छप्पण्ण पुषलक्खाइं । सघाउयं तदंते सणंकुमारे सुरो जाओ ॥ २२७ ॥  
 कालफमेण चविउं सेयवियाए पुरीए पवराए । वंभणकुले पसूओ भारद्दाओत्ति नामेण ॥ २२८ ॥  
 तत्तयवि सरुम्मजणिए मुहदुक्खे भुंजिऊण धेरत्ते । पुषफमेण पुणरवि पारिवज्जं पवजेइ ॥ २२९ ॥  
 काऊण य चालतवं कुदेसणापानधूलियडलेणं । अवगुंडिऊण चाढं रम्मन्ताणं व बहुहालं ॥ २३० ॥  
 सघाउयमणुपालिय चउयालीसं तु पुषलक्खाइं । पंचत्तगजो संतो तियसो होऊण माहिंदे ॥ २३१ ॥

निम्मलमणिरयणमउहजालउज्जोविण विमाणंमि । नियपरियणपरियरिओ कीलइ सच्छंदलीलाए ॥ २३२ ॥  
 आउक्खएण तत्तो चविउं सो मणुयतिरियजोणीसु । नरयकुदेवेसुंपिय पुणरुत्तं परिममेऊण ॥ २३३ ॥  
 रायग्गिहंमि नयरे दियवरकविलस्स कंतिमइयाए । गिहिणीए गन्धम्मी पुत्तत्तेणं समुप्पत्तो ॥ २३४ ॥  
 जाओ समुचिअसमए नामंपि य थावरोत्ति से विहियं । सत्तेण य गत्तेण य कुमारभावं च वोक्तो ॥ २३५ ॥  
 अणवरयमरणजरजम्मवाहिदुहनिवहपीडियं लोयं । दइण काउकामोवि धम्ममइमोहमूढो सो ॥ २३६ ॥  
 नो वच्चइ दुक्करतवविहाणनिरयाण जिणमुणिंदाणं । पासंमि कयावि हु नेव अन्नतिट्ठियजणस्सावि २३७ जुम्मं ।  
 एवं अच्छंतो सो पेच्छइ एगं तिदंडिणं समणं । चिविडियनासावंसं भग्गोद्वउडं दलियदसणं ॥ २३८ ॥  
 कुसुयं व चंददंसणवसेण कमलं व दिणयरुग्गमओ । सालत्तयतरुणचरणताडणाओ असोमुच्च ॥ २३९ ॥  
 तं पासिऊण पियसंतनयणनलिणो परं पमोयभरं । अइदुल्लहवल्लहसंगमे व सो पाविओ झत्ति ॥ २४० ॥  
 पइजम्मपरिन्वायगदिकखागहणुब्भवंतुनेहाओ । तत्तपरिपुच्छणट्टा तस्स सगासं समळीणो ॥ २४१ ॥  
 नमिउं चरणे सचायरेण सो पुच्छिओ य धम्मविहिं । जोगोत्ति कलिय तेणवि तिदंडिणा साहिओ तस्स २४२  
 अन्नं च इमं सिद्धं जहाऽहमिह दुक्खिओ ठिओ पुग्घिं । विसयपिवासाणडिओ कुसलेण तहा न ठायवं ॥ २४३ ॥  
 अह थावरेण भणियं भयवं ! कह तं ठिओ इह दुहत्तो ? । विसयपिवासानडिओ कहेहि कोऊइलं मज्झ ॥ २४४ ॥

भणियं च तेण भद्रय । सुणसु पुरा विसयसलिलपडिहरयं । अन्नाणमीणभीमं विसोत्तिवालोलकंछोलं ॥ २४५ ॥  
 निव्वज्जिमजलयेलाविलासमवसत्तदुत्तरायत्तं । पावविकम्पणपंकं निस्संखपवंचसंखउलं ॥ २४६ ॥  
 जमिमाणघोरघोसं पयंडकंदप्पवाडवग्गिसिंहं । दोसघणपडलकिन्नं तारुणमहन्नवं पत्तो ॥ २४७ ॥ तीहिं विसेसवं ।  
 तयसेण य परिचत्तसग्गिहसंयासो दूरुज्झियसयणवंधवो परमतायसो इव विसट्टकंदोद्वनयणासु पवरपओहरासु  
 महाभोगसालिणीसु समुलसंतकळोलवाहुविलासासु इंसगाणुत्तरियपयकमलासु सालसकुलकळरवासु सरसीव सुंदरासु  
 विलासिणीसु कयाभिरई समाणो एगया अणंगसेणाभिहाणाए वेसाए समं बुत्थो वहुं कालं, तदणुरागवसेण य  
 पवरभूसणद्राणेण अणवरयमहामोळदोगुलसमप्पणेण तंबोलफुलंबिलेवणोवणंयणेण य निट्टवियं पियापियामहपमुहपुरि-  
 सच्चियं दविणजायं, जाओऽहं निट्टणचंगो, मुणिओ शइगाए, तओ निप्पीलियालत्तयं व पयत्तपीयवारुणीचसगं व  
 भुत्तायसेस भोयणं व तेहिं तेहिं अपमाणकारणेहिं परिचत्तो म्हि तीए, तयणंतरं निग्गओऽहं वेसाघराओ, गओ  
 नियगेहे, दिट्ठं च तनणेगच्छिइसपसंकुलं पच्चमट्टपुषसोहं मसाणं व भयजणगंति, तओ महाविसायाभिभूओ पयट्टो  
 देसियालिष, गच्छंतेण य पइदिणं एगत्थ मुत्तसन्निवेसे दिट्ठं भूमिनिवडियं रक्खावलयं, गहिउं मए विहाडियाओ  
 निविडजउजडियाओ रक्खागंठिओ, दिट्ठं च एगस्त मज्झनिहित्तं लिहियपवरक्खरं भुज्जखंडं, याइयं च कोऊहलेण,  
 परिभापिओ य तल्लिहियगामनामदिसाभागलंछणसमेओ रयणओडिप्पमाणनिहाणवइयरो, हरिसियमणेण संगो-

वियं च तं सधपयारेण, पट्टिओ तयणुसारेणं, पत्तो अकालखेवेण मुज्जलिहियंमि गामे, निरुविओ निहाणप्पएसो,  
 अवलोइयाइं लिंगाइं, जाव सधाणिवि लिहियाणुसारेण मिलंति, तओ मे पाउब्भूओ परमप्पमोओ, पसत्थनिसाए यं  
 दिसावलिपवखेवपुरस्सरं खणिउमाढत्तो णिहाणपएसं जाव य हत्थप्पमाणमेत्तं तं न खणाभि ताव समुट्टिया उब्भ-  
 डफडाडोवभीसणा तडिसिहातरलललंतजीहजुयला मुहमारुयसंवलयजलणफुलिं गुग्गारदारुणा पुच्छच्छटाताडिय-  
 धरणिवट्टा दीवयसीहा फुरंतरत्तदित्तनेत्ता महाभुयंगा, तेहि य संदंसेहि य तडतडत्ति तोडियं मह सरिरं, निचिट्ठो  
 महाविसावेगेण निवडिओऽहं भूमीए, विइकंता रयणी, ममाणुकंपाएव सपुग्गओ भयवं दिणयरो, अवलोइओऽहं  
 गामजणेण, विण्णायविसविगारेण य दयाए पडियारिओ, तहाविहोसहमंतकिरियाए जायं च पगुणं सरिरं, पुट्ठोऽहं  
 गामजणेण रयणिचइयरं, कहिओ य मए तस्स जहट्टियनिहाणयुत्तंतो, तओ तत्थेव वीसमिऊण कइवय चासराइं  
 पुणरवि पत्थिओ एगदिसाए, अण्णया य गच्छंतस्स मिलिओ एगो पुरिसो, समाणसीलयाए य जाया मज्झ तेण  
 समं मेत्ती, पत्थावेण य तेण एगंते सव्भावेण निवेइओ मम विवरप्पवेसजक्खिणीसाहणकप्पो, अब्भत्थिओ य  
 सधायेरण जहा-जइ तुमं सहाइभवसि ता विवरं पविसामो, भोगगाढलोलुयाए पडिवण्णमेयं मए, तओ अखं-  
 डपयाणएहिं गया चलयामुहं नाम विवरं, विरइया से दुवारपूया, तप्पियाओ जोइणीओ, मुमुहुत्तनक्खत्तंसि गहाय  
 वाढं पत्थयणं परिकलियहत्थपईया पविट्टा तत्थ, उच्चनीयठाणाणि चोलिंता सणियं सणियं गया दूरदेसं, दिट्ठा य

श्रुति एगत्थ निज्जुपुंजभामुरा पवरंकरणगसिंहासणनिविट्ठा एगा जक्खकन्नगा, अविय—

गंदयलललंतुज्जलकुंडलकिरणोलिविच्छुरियवयणा । नाणाग्गणि(मय)भूसणससिरियरेहंतदेहलया ॥ २४८ ॥

आमलयधूलमोत्तियनवसरहारावरुद्धधणवट्ठा । पप्फुल्लमणहर(हरा)वम्महतुरुतरुणसाहंघ ॥ २४९ ॥

पायालसिरिष रइष देउरमणिष जणियमणमोहा । ललियकरकलियलीलासरोरुहा सुंदरावयवा ॥ २५० ॥

भुयणच्छेरयभूयं रूयं दहं अदिट्ठपुयं से । मयरद्धपसरविहुरा अम्हे तप्पासमलीणा ॥ २५१ ॥

सायि अम्हे आगच्छंते पेच्छिऊण सन्निहियपज्जलंतपयंडजालाकराले श्रुति कुंडे पविट्ठा, अम्हे पुण महा-  
मोग्गराहया इव विहाणवयणा चिंतिउं पयत्ता—किं पच्छाहुत्तं नियत्तामो उयाहु तत्थेव तदंगसंगसंलग्गलायन्न-  
पुत्ते जलणकुंडे पयंगो इव अत्ताणं सियामो?, केवलं दारुणो दहणो खणद्वेणवि दहइ देहं, संसइओ य तीए सद्धि  
मीलगो, जीवन्ता पुणोऽपि महाइं पेच्छिस्सामो, ताव सहसचिय एगनिकुंजाओ कुंजरोष गरुयंगभारो अंगभारधरह-  
रियधरणितलो धरणितलताडणममुच्छलंतपडिसइयसहस्सन्नहिरियदिसाभोगो दिसाभोगपसरंतकज्जलगवल्लगुलि-  
यालियलयहालप्पभाजालो करधरियमहंतनरसिररुवालो कालरत्तिजणगो इव दुप्पेच्छो वयणेण व धूमवत्तिं मुय-  
माणो फारफुंफाररउदकमिणमुयंगवद्धकेसमारो समायओ तं पएसं श्रुत्ति खेत्तनालो, तओ तेण अचंतरोसारुणच्छेपा  
पेच्छिऊण भणिया अम्हे—रे रेपुरिसाहमा! विण्णुमीलसमायारा कायरडियमेत्तवित्तंसियसरीरा किं नियचित्तावट्टंमं

न मुणह ? जं एत्य आगया, ता एण्हमणुभवह दुविणयफलंति भणिऊण पवणपणुण्णलिण्णपण्णं च भएण कंपमाणा  
सहसच्चिय चरणे धरिऊण बालच्छगलगव्व अम्हे महया वेगेण उल्लालिया तओ पएसाओ, निवडिया य वलयामुह-  
विवरदुवारमूले, तओ समागयमहानिद्वावेगा इव गभिऊण जामिणिं समुगयंमि दिणयरे उम्मीलियनयणकमला  
परिचिंतिउं पवत्ता—अहो को एसप्पएसो ? केणेहाणीया ? कहं वा धरणीए पसुत्ता ? कत्य वा तं विवरं ? कहिं  
वा सा कण्णगा ? ।

सुमिणं माया वेयं विभीसिया व ? मइविब्भमो वावि ? । एवं चिर संसइया होऊणं मुणियपरमत्था ॥ २५२ ॥

ठाणाउ तओ चलिया पत्ता वेण्णायडंमि नयरंमि । तत्थवि विज्जासिद्धो दिट्ठो सिवसुंदरो नाम ॥ २५३ ॥

तो बहुविहप्पयारं विणएणाराहियो पयत्तेणं । तुट्ठेण तेण दिण्णो मज्झं कचाइणीमंतो ॥ २५४ ॥

कहिओ य साहणविही तओ मए चंडिगाएँ गेहंमि । गुरुणा जहोवइट्ठो पारद्धो जाव होमविही ॥ २५५ ॥

साहसरंहियत्तणओ तणग्गकंपेवि भयविसिट्ठस्स । धिट्ठत्तणओच्चिय मंतसाहणं नम कुणंतस्स ॥ २५६ ॥

उत्तालुत्तालकरालकालवेवालचंडपरियरिओ । एगो महापिसाओ सहसच्चिय उट्ठिओ भीमो ॥ २५७ ॥ जुम्मं ।

ताहे तारिसविगरालदंसणुप्पणमरणभयविहुरो । विस्सुमरियमंतपओ पहाविओऽहं संगिहहुत्तं ॥ २५८ ॥

तेणावि धिट्ठदुस्सिक्खिओत्ति भणिऊण विगयसंकेण । अइलंवाणिणा करिसिऊण नीओ सिवाएँ पुरो ॥ २५९ ॥



तादे मुद्वीर्णं हजो तद्वा जहा चिविडिया ममं नासा । अत्रेऽवि अग्नादंता भग्ना निम्नगुरेण ॥ २६० ॥  
 ता भो महायस ! तए जं गुद्वोऽहं सवइयरं गुधं । सो एस जइ न पत्तिज्जसीह ता पेच्छ मज्झ मुहं ॥ २६१ ॥  
 अह धारणेण भणियं भयवं ! पद्यक्खदिस्समाणेऽवि । भोगपिवासादोसे को मइमं नेव पत्तियइ ? ॥ २६२ ॥  
 जुत्तं तुम्हेहिं रुयं अहंपि काउं इमं समीहामि । ता ण्णुगिण्हइ संपइ पारिषज्जप्पयाणेणं ॥ २६३ ॥  
 दिण्णा य तेण दिग्घा जाओ सो धम्मकरणनिरयमणो । दढतवियदुस्सहतवो मिच्छत्तविलुत्तवोहेणं ॥ २६४ ॥  
 चोत्तीमयुपलस्ये सयाउं पालिऊण पज्जंते । मरिऊण वंभलोए उववण्णो भामुरो तियसो ॥ २६५ ॥  
 नियवुदिसिप्पिरुप्पियतिदंदिदंमणपरूढनेहेणं । पारिषज्जग्गहणं छम्भवग्गहणाइ संपत्तं ॥ २६६ ॥  
 सकुलपमंसावइयरनिवद्वद्वनीयगोपकम्मेणं । माहणपमुहे नीए कुलंमि जम्पं च मिरियस्स ॥ २६७ ॥  
 दहूण जिणपरागमपिरीयपरूवणं कुलपसंसं । दूरं परिवज्जह भो वियक्खणा ! सधकालंपि ॥ २६८ ॥  
 इय वद्धमाणचरिए महउरुछाणरुद्धिपरियरिए । मिच्छत्तपंसुमइलियजणमणमलखालणजलंमि ॥ २६९ ॥  
 भरहसुयपढमपयडियतिदंदिपामंडमंसणागग्भो । भयजणभिम्हयकरो सम्मत्तो वीयपत्थावो ॥ २७० ॥  
 ॥ इति गुणचंद्रसूरिरइए सिरिमहावीरचरिए वीयपत्थावो सम्मत्तो ॥

( ततीयपत्थावो )

तिहंढिभवसमेया भणिया वत्तवया य मिरिइस्स । एत्तो य जहावित्तं साहिज्जइ विस्सभूइस्स ॥ १ ॥  
इहेव जंबुदीवे दीवे भारहवाससिरसेहरोवमे पइदिणभवंतविधिहमहूसवे नीसेसनयरविक्खाए रायगिहे नयरे  
पढमो साँडीरचक्कस्स वल्लहो गुणिवग्गस्स सम्मओ पयइलयस्स पाणप्पिओ पणइजणस्स भुयदंडलीलारोवियभूमि-  
भारो विमुद्धवुद्धिपगरिसवीमंसियधम्मवियारो विस्सनंदी नामं नराहिवो, मयणलेहा नाम से भारिया, विसाहनंदी  
कुमारो, तथा परूढगाढपेम्माणुबंधो सररीरमेत्तविभिण्णो विसाहभूती जुवराया, तस्स रूवाइगुणरयणरोहणधरिणी  
धारिणी नाम देवी । इओ य सो मिरिइजीयो वंभलोगाओ जुओ संतो चउग्गइयं संसारकंतारमणुपरियट्टिऊण अणं-  
तरभवजणियतहाविहकुसलकम्माणुभावेण समुप्पण्णो तीसे गब्भंमि पुत्तत्ताएत्ति, अण्णया पसूओ विसिट्ठे वासरे,  
कयं विस्सभूइत्ति से नामं, कमेण परिचत्तवालभावो गाहिओ सो पिउणा कलाकलावकोसलं, तारुणमणुप्पत्तो परि-  
णाविओ वत्तीसं सुररमणीविन्भमाओ पवररायकुलसमुब्भववालियाओ, ताहि य समं बहुप्पयारं कीलंतो कालं  
गमेइत्ति । अण्णया य सयलतइलयदरिसियवियारो तरुवराणंपि विहियलावण्णो मुणीणंपि कयचित्तचमक्कारो स-  
मागओ महुमासो, जत्थ य—

पोढपुरंधिधोरथणमंडलपडिहयगमणवेगओ । पिययमविरहविडुरतरुणीयणदीहरसासतरलिओ ॥ २ ॥

चंदणनीवकुमुयकमलायस्कुचलयगंधबंधुरो । दाहिणपवणुदिसिहिं पवियंभइ नावइ गंधसिंधुरो ॥ ३ ॥  
 अण्णं च—चंचलचरणचलणपरिवोलिरमंजुलकणयनेउरं । करयलरणझणंतमणिकंकणकलरवपसरमणहरं ॥ ४ ॥  
 कणिरनियंत्तविवकंचिगुणकिंकिणिधालयलालयं । सहइ वरंगणाण चाउदिसिं चच्चरि चारुगीययं ॥ ५ ॥  
 एवंविहं बहुसमयं दहं विस्सभूई कुमारो समग्गविभूईए चाडुकरनरभडचेडपरिकित्तो अंतेउरतरुणीजणपरिय-  
 रिओ गओ पुप्फकरंडयं नाम उज्जाणं, जत्थ तरुवराभोगे गायंतिव अमंदमयरंदविंदुपाणपरवसभमिरभमरगुंजिएहिं  
 पणचंतिव खरपवणुवेळिरमद्वल्लपल्लवभुएहिं हसंतिव डिंडीरविंडपंडुरपरिप्फुडकेयइदीहरदलेहिं । जम्मि य—  
 जंबुजंधीरखजूरसाहिंजणा, सज्जनालियरिफणिसप्पला अज्जुणां ।  
 खइरसिरिखंडकप्पूरपूगीतला, पीलुनिंवंवलियउयवडपिप्पला ॥ ६ ॥  
 कयलिनोमालियामाहवीसालयासलईसग्गनवनीषहिंतालया ।  
 वउलवंसालितायिच्छयाकच्छिया, सधकालंपि रेहंति जलसुत्थिया ॥ ७ ॥  
 जं च—कहिंचि सहयारतरुमंजरीमंडियं, कहिंचि वेइल्लफुलंतगंधद्वयं ।  
 कहिंचि कंकेलिनवपल्लवालंकियं, नाइतरुणीकमालत्तवालंकियं ॥ ८ ॥  
 कहिंचि नवपाडलापुप्फनियराउलं, कहिंचि विरुटंतममरावलीसंकुलं ।

कहिंचि वरमालईमउलमालथियं, नाइनियविहवदंसणेण रोमंचियं ॥ ९ ॥

जणं च—कारंडहंसवगचफवायभारुंडकीरकुरेहिं । जीवंचीवकर्विजलजलवायसखंडरीडेहिं ॥ १० ॥

हारीयपंचवणयपोरवयपमुहविविहपक्खीहिं । सुसिणिद्धबंधवेहि व सेविज्जइ जं सयाकालं ॥ ११ ॥

जत्थ य वम्महदुस्सहसराभिघाएहिं जज्जरंगीओ । बालमुणालुप्पलसत्थरेसु तिसिरेसु रमणीओ ॥ १२ ॥

विणयंति विरहिणीओ दिणाइं करपिहियसवणजुयलाओ । परहुयताररवारसियसवणमुच्छागमभएणं ॥ १३ ॥ जुम्मं ।

रेहंति जत्थ चंपयतरुणो नवकुसुमनियरसेहरिया । आरूढमयणजलणव्व पहियनिवहाण दहणत्वं ॥ १४ ॥

स्वरपवणुदुयमयरंदपिंजरं पेच्छिंऊण रविविंवं । मज्झणहेऽवि हु संझं संकंति रहंगमिहुणाइं ॥ १५ ॥

जत्थऽक्खमयणदमणा तरुणो सुणिणो य सुमणसोवेया । मुहलवलीलालसिया भुयगीओ विलासिणीओ य ॥ १६ ॥

तत्थ एवंविहंमि उज्जाणे सो विस्सभूर्इ कुमारो पवरत्तरुणीजणसमेओ अणिमिसाए दिट्ठीए पेच्छमाणो वण-

लच्छिं कोऊहलाउलियपरियणदेसिज्जमाणमग्गो काणणंतरेसु परिब्भममाणो सायरं पसीयह कुमार ! पेच्छह इओ

गंजरिज्जइ सहयारावली इओ फुलंति मल्लियाओ इओ पल्लविज्जंति बालकंकिल्लिणो इओ कोरइज्जंति कुरुवयनि-

उरुंया इओ कुसुमिज्जंति कणियारनियरा इओ मउरिज्जंति पुन्नागाइसाहिणोत्ति, एवं उज्जाणपालेण निदंसिज्जमाण-

तरुणो वणकीलाए दिणाइं गमेइत्ति । अंतरा य सुणेइ राइनीईसत्थाइं विमरिसेइ गूढत्थपयाइं अभिणयावेइ वि-

मिद्वरुत्रिजणरिदयाइं नाड्याइं भरहविजापियम्बणेहिं हावभावहत्थयाइपत्थावणपडुएहिं नाडइजपुरिसेहिं नि-  
 नामेइ य वेणुपीणाणुमवं गायणत्रणाओ पडुपोटणप्पयारमणहरं पंचमगेयं, तथा एगंतदेसट्टिओ निगुणेइ दूरुणं  
 मोयाळंभापणाइं । कदं?—

तीमे मंकेयं संमिऊण पडिजुचइमणुसरंतेणं । नाह । तए जाजीयं दिन्नो लहुयत्तणकळंको ॥ १७ ॥

गुदय ! तुह रिहदुस्सहमिदिपसमत्वं ममाहरंतीए । तीसे सरसीसुं निट्टियाइं नवनलिणिनालाइं ॥ १८ ॥

परिगरसहयारुग्गपनयमंजरिगंडणेण पइदियंइं । तीसे ताण निमित्तं घट्टा मज्झंगुलीण णहा ॥ १९ ॥

पणामण्णे कयविरिहकळरये नीळकंडकळयंटे । परिमंता मज्झ भुया पइस्सणं उट्टवंतीए ॥ २० ॥

एइ पिउ एइ पिउ एगो गो हसमुतं यणं धीरा । धफ्फा मेण्हि जीहा पुणरुत्तं वाहरंतीए ॥ २१ ॥

इय परिमा अत्था पट्टइ तुह पणयिणीए दुषिमहा । जइ जीमंति वंळमि कुमार । ता तं लहुं सरसुं ॥२२॥

तथा कयाइ गोत्तगलियपरिहुमियकामिणीपमायुणप्पयणयणप्पवंचविरयणेण कयाइ सुयसारियासंलाववि-

नोएण कयाइ परोप्परमरत्तिकामिणीरुयकळहकोलाहलनिमामणेण कयाइ णाणाविहदूरदेमोवणीयापुषतरुमंदोह-  
 दोहल्लगदाणेण कयाइ मंमयपणमिहंदिनंडयाउलोपणेण विविहं कीळइ । अण्णया य कुमारस्स कामिणीहिं समं  
 दुरोदरेण रमंतस्स ममागओ मज्झंदिणमओ ।

तओ अंतेउरसमेओ चलिओ जलकीलानिमित्तं, पत्तो काणणसरसीए, तयणंतरं च-

सरसीतडविडविसरावमुक्कअंपुच्छलंतसलिलभरं । झिलइ महल्लकल्लोलपेळणुवेळिरो कुमरो ॥ २३ ॥

मड्ढाए तदणीओ रणंतमणिमेहलाकलावाओ । खिप्पंति परापपरपेळरीउ भयत्तरलियच्छीओ ॥ २४ ॥

करकलियकणयसिंमयसलिलपहारेहिं पोढरमणीओ । विह्वइ कुमरो कोवभरियदरपाडलाट्टीओ ॥ २५ ॥

पियकरकुंसुल्लासिरनियंवतडतुट्टेमेहलगुणाहिं । निवडंतकिंकिणीहिं पलाइयं झत्ति वालाहिं ॥ २६ ॥

घोरघणघ(धा)मसमजलयट्टियपूराएँ झत्ति सरसीए । कमलाइं वयणलायणणनिजियाइं व बुडंति ॥ २७ ॥

इय विविहसलिलकीलाहिं कीलिउं जुवइसत्थपरियरिओ । जोयरिओ सरसीओ गओ कुमरो नियावासं ॥ २८ ॥

एत्थंतरे अत्थमिओ गयणचूडामणी दिणनाहो, मडलिया कमलसंडा समं माणिणीमनुणा, विप्पउत्ताइं

चक्रवायमिहुणाइं सह मिहुणदिणविरहेण, पवट्टियाणंदा इओ तओ परिभमिउं पवित्ता कोसिया समं पंसुलिधिल-  
याहिं, निलीणाइं नियट्टाणेषु सउणिकुलाइं समं मुणिजणेण, तथा निसायरंसेण्णं व भीसणं पसरियमंधयारं, मवर-  
द्धओव विप्फुरिओ सवओ पढमप्पओसपईवनिवहां, एवं पयट्टे संझासमए कुमरो काऊण पओसकिचं तेहिं को-  
ऊहलनम्मालाववंकभणियगीयाइविणोएहिं विगमिऊण खणंतरं पसुत्तो सुहसेज्जाए, कमेण व पभाया रयणी,  
समुग्गओ सहस्संसुमाली, उट्टिओ कुमरो सयणीयाओ, कयपाभाइयकायवो पुषविहीए दोगुंदुगुष विलासिणीम-  
ज्जगओ विलसइत्ति । एवं च तत्थ सायंदिणमभिरममाणस्स सरंति वासरा ।

अत्रया य विस्तनंदिणो महारायस्स अग्गमहिसीए दासचेडीओ पुप्फकलंगहणत्थमागवाओ पुप्फकरंडगुज्जाणं, दिट्ठो ताहिं विस्सभूइकुमारो अंतेउरसमेओ बहुप्पयारं तहा विलसंतो, तं च ददूण समुप्पण्णगाढामरिसाहिं ईसी-सल्लभिज्जमाणमाणसाहिं सिग्घमेव पडिनिवत्तिऊण क्कहिओ रायग्गमहिसीए कुमारस्स काण्णकीलावइयारो, खणं-तरे य दीहं नीससिऊण पुणो भणियं ताहिं—देवि! किं तुज्झ जीविएणं? किं वा रज्जवित्थरेणं? किं वा विमवेणं? जइ तुम्ह पुत्तो विसाहनंदी पुप्फकरंडगुज्जाणे न कीलेज्जा, एवं च आयत्तिऊण अवियाररमणीयत्तणओ इत्थीसहा-यस्स अदूरदंसित्तणओ मइपसरस्स अभीरुत्तणओ नियकुलकलंकुग्गमस्स पक्कओ महापरिकोवो देवीए, परिचत्तं भोयणं उज्झिओ सरीरसक्कारो पेसियो नियनियडाणेसु सहीवग्गो, कइययदासचेडीपरिबुडा य पविट्ठा कोवधरंमि, रयणिसमए य समागयेण विस्तनंदिनरिंदेण देविं अपेच्छमाणेण पुट्ठो कंनुगिप्पमुट्ठो परियणो, क्कहियं च एगेण-देव! अमुगंमि गेहे मिलाणवयणरूमला केणवि कारणेण देवी गयत्ति, तओ राया तमायत्तिऊण ससंभमं तत्थेव गओ, दिट्ठा य कोवेण मिसमित्ती उहसासरोगाउरव दीहं नीससंती देवी, दिज्जासणे आसीणो नराहिवो भणित्ताडत्तो य-देवि! किमेरिसी अवत्था? किमत्थं कारणं?, साहेसु परमत्थं, न ताव सुमरेमि थोवंपि निय-दुघरियं, न याधि ममाणुवित्तिपरायणो परियणोऽवि मणागंमि अवरज्झइ तुज्झ, नेव य विविहरयणाभरणसंभारेहिं खूणमत्थि, ता किं निरत्थओ एस कोवाडंवरोत्ति?, देवीए भणियं—महाराय! सचं चियं नत्थि केणाधि पगारेण

खूणं, केवलं किमेण निरत्थेण सयलजणसामण्णेण?, रायणा भणियं—किं पुण अनिरत्थयं सयलजणासामण्णं च?, देवीए भणियं—महाराय! पुप्फकरंडगुज्जाणे परिभोगो, राइणा जंपियं—किं तेण तुज्झ?, देवीए बुत्तं-तेण मे पओयणं विसाह्णंदिकुनारस्स रमणत्थंति, राइणा भणियं—देवि! मा कुप्पसु, मुंचसु असदञ्चवसायं परिहरसु इत्थीजणसुलमं चावलं समिक्खेसु नियकुलक्कमं, किं तुमए दिट्ठो कोऽवि अम्हाणं कुले सुओ वा एगंमि पुप्फकरंड-गुज्जाणट्ठिए पुर्विपि पविसमाणो?, ता कइं पुवपुरिसागयं ववत्थं चूरेमि, सब्बहा अण्णं किंपि पत्थेसु, देवीए भणियं—महाराय! गच्छ निययमंदिरे, उज्जाणलाभाभावे केत्तियमेत्ता अण्णपयत्थपत्थणा?

रज्जेणं रट्ठेणं धणेण सयणेण वंधवजणेणं । ससररीरपालणेणवि न कज्जं किंपि मह एत्तो ॥ २९ ॥

जीघंतीविडु नरनाह! नाहमेयं तुहप्पसाएणं । जइ पुत्तं कीलंतं पेच्छामि तदाऽफलं जीयं ॥ ३० ॥

नरनाह! तुह समवखंपि नेस पुज्जइ मणोरहो जइ मे । पच्छा दूरे सेसं भोयणमेत्तेऽवि संदेहो ॥ ३१ ॥

वज्जघडिओऽसि मन्ने जमेगपुत्तंपि परिभवदुहत्तं । दट्ठूण सुहं चिट्ठसि अहह महानिरणुतावोऽसि ॥ ३२ ॥

इय सलिलेहि घ बहुविहवयणेहिं णरिंदमाणसं तीए । तडमिव महानईए दुहाकयं नेहनिविडंपि ॥ ३३ ॥

रत्ता भणियं सुंदरि! मा संतप्पसु करेसु करणिज्जं । अच्छउ सेसं दूरे जीयंपिह तुज्झ आयत्तं ॥ ३४ ॥

एवं वहुं संठविज्जण गओ नरिंदो अत्थाणमंडयंमि, आहूया मंतिणो, साहिओ तेसिं रहंमि समग्गो देवीको-



वचइयरो.सकुलकमववत्था य, मंतीहिं भणियं-देव! वीसत्था होह, अम्हे गंतूण देविं परूवेमो, अणुत्ताया य राइणा गया देवीए सगासं, भणिया य अणेगप्पगारेहिं, न य कहंपि संवुज्झइ, तओ विलक्खवयणा समागया राइणो सगासे, भणियं पवत्ता य-देव! निच्छयं देवी गाढजणियकोवा मरणंपि अब्भुवगमेज्जा, ता सवहा जहा तहा अणुणयणजोग्गा, रत्ता भणियं—भो किमेवं वाहरह?, किं तुच्चे न जाणह अम्ह कुलकमं?—जमेगंमि रममाणे उज्जाणे अत्रो न पविसइ, वसंतमासपविट्ठो य मासग्गसो चिट्ठइत्ति, मंतीहिं भणियं—देव! जाणेमो, केवलं दुत्तिग्गहो इत्थीग्गहाग्गहो, राइणा सविसायं भणियं—

एगत्तो मज्जाया पल्हत्थिज्झइ कुलकमपरूढा । अन्नत्तो मरइ पिया आवडियं संकडमियाणिं ॥ ३५ ॥

संपज्झइ धुवमेपिंह अपत्तकालेऽविय विद्वियसेणं । दढनेहवंधवंधुरवंधवजणचित्तविच्छेओ ॥ ३६ ॥

गहिलायत्तो राया जुत्ताजुत्तं न पेच्छए किंपि । इय अवजसो दिसासुं अखलियपसरो चिरं भमिही ॥ ३७ ॥

ता मंतिणो उवायं तमियाणिं कुणह कंपि परिसुद्धं । जह सा जीवइ देवी सकुलवत्था य निवहइ ॥ ३८ ॥

एवमायन्निऊण जं देवो आणवेइत्ति भणिऊण टिया एगंते मंतिणो, सुनिउणवुद्धीए य सम्मं निच्छिऊण कज्जत्तत्तं साहियं नरिंदस्स, जहा-देव! एयं पत्तकालं किल पञ्चतराया देसमुर्सिसखलो विहवेइ य, एतदत्थसंवद्धा लेहारिया कीरंति, ते य तुम्हाण लेहे समप्पंति, तत्थावधारणाणंतरं पयाणयं च दवात्रिजइ, तहा कए खुग्गइ सामं-

तवगो, कुमारोऽपि विनायवइयरो फुप्फकरंडगुज्जाणं मोत्तूण एइत्ति, एयं च उभयमवि सुपडिविहियं भवइ, एव-  
 मायन्निकुण अब्भुवगयं राइणा, उट्टिया मंतिणो, साहिओ देवीए एगंतट्टियाए एस वइयरो, सहरिसाए कयं तीए  
 भोयणं, पमुक्को कोवाडंवरो, वीयदिवसे य लिहियकचडलेहहत्था उदूलियजंघा गाढपरिस्समकिलंता उवट्टाविया  
 मंतीहिं अपुच्चपुरिसा, नीया य रायसमीवे, खित्ता तेहिं लेहा, वाइया सयमेव राइणा, विनाओ तदत्थो, कवडको-  
 वप्फडाडोवपुव्वं च भणिया नियपुरिसा—रे रे पुरिसा! ताडेह सन्नाहभेरिं, नयरदूरे पइट्टह गुडरं आयट्टह दिव्वा-  
 उहाइं समप्पह जयहत्थिं जेण करेभि पत्थाणंति वुत्ते तहत्ति निघत्तियं पुरिसेहिं, इओ य भेरीसइसवणओ संखुद्धं  
 सामंतमंडलं पगुणीकया मयगलंतगंडत्थला कुंजरघडा, संवूढा मुहडसत्था, चउहिंसिंपि पयट्टाइं तुरयघट्टाइं, मिलिया  
 सेणाहिवइणो, किं बहुणा?—हलहलियं सयलं भूमंडलं, ठिओ पत्थाणंमि णरिंदो, एत्थंतरे अविनायपरमत्थो पत्था-  
 णट्टियमुवल्लभ नराहियं निग्गओ पुप्फकरंडगुज्जाणाओ विस्सभूई कुमारो समागओ रायसमीवे निवडिओ चलणेसु  
 पुट्टो वइयरं, साहिउमारदो य नरिंदेण, जहा—वच्छ! अत्थि पचंतसीमालो पुरिससीहो नाम मंडलाहिवो, सो य  
 पुव्वं पणयभावं आणावत्तित्तणं पडिवज्जिकुण य संपइ दरिसियतिव्ववियारो निहयसीमागामजणो अम्ह मंडलमइक-  
 मइ, ता पुत्त! महंतो एस मे परिभवो । अविय—

सपियपियामंहपमुहज्जियं महिं पेच्छिकुण हीरंतिं । कह सकलंकं जीयं निरत्थयं संपइ वहामो ? ॥ ३९ ॥

अज्ववि केऽवि सपुरिसा पयंडभुयदंडदलियपडिवक्खा । गिण्हंति परस्स म्हिं अम्हे न नियंपि रक्खामो ॥ ४० ॥

भग्गुच्छाहं रिउवग्गनंदणं मुक्कचित्तवट्ठं । निवडियसहं च सीमंतिणीओ जणयंति किं पुत्तं ? ॥ ४१ ॥

ता पुत्त ! पत्तकालं अजसंपंकप्पसमणगजलकप्पं । जरविडुरंगरसायणमहुणा सरणं रणे मज्झ ॥ ४२ ॥

एवं च रणणा सिद्धे कोवदट्टोदुपुडो उट्टिऊण निवडिओ चरणेषु कुमारो, विन्नविउमाढत्तो य-ताय ! मुंचह कोवसंरंभं, केत्तियमेत्तो सो दुरायारो ?, नहि लीलादलियमत्तमायंगकुंभत्थलो केसरी समोत्थरइ गोमाउयं, निय-कुलसिलोचयसमुच्चसिहरदलणदुल्ललियं निवडइ एरंडकंडे सहस्सनयणकुलिसं, नेव य पडिपुण्णमंडलहरिणंकदि-णयरकवलणलालसो गिलइ तारयजालं गहरुल्लोलो, ता पसीयह विरमह तुम्हे देह ममाएसं अवणेमि तुम्ह पसाएण तस्स धट्टसोंडीरिमस्स भुयदंडकंडुं, न य अम्हारिसेसु विज्जमाणेषु जुत्तमेयं तायस्स, तुम्ह पयावोच्चिय साहेइ कज्जाइं । तहाहि—

पुण्यमहासेलुच्छगसंगिणो उग्गमे व सूरस्स । दूरदिसिपसरियंपि हु तिमिरं किरणच्चिय हणंति ॥ ४३ ॥

गंभीरगहिरयोसा विवरंसुहवाहिउग्गवइनिवहा । आगयगयाइं रयणायरस्स वेलच्चिय करेइ ॥ ४४ ॥

उम्मडदंडुडामरविलसिरवरपत्तकोसगन्भाइं । हिमगिरिणो कमलाइं हणंति पवणुडुयतुसारा ॥ ४५ ॥

इय भणिप गाढोवरोहेण दिण्णो आप्सो राइणा कुमारस्स, पणामपुब्बयं पडिच्छिऊण दवावियं तेण पयाणयं,  
चलियं चाउरंगं सेन्नं, फहं चिय ?—

गंडत्थलपगलंतुग्गदाणधारंधयारियदियंता । चलकन्नतालवाडियमयगंधायद्वियदुरेहा ॥ ४६ ॥

अइघोरघोसगलगज्जिविहियखीरोयमहणसंकासा । उज्जलताराभरणा गयणाभोगव भासंता ॥ ४७ ॥

कंयलीवणकयसोहा गेरुयरसलित्तवियडकुंभयडा । जंगमया कुलसेलव पत्थिया हत्थिणो सिग्घं ॥ ४८ ॥

चलिया य पवणवेगा खरखुरसिहखणियखोणिणो तुरया । फेणुग्गिरणमिसेणं जसं व कुमरस्स वियरंता ॥ ४९ ॥

करकलियकुंतकोदंडसेल्लभल्लयसुत्तिक्खकरवाला । सन्नद्धवद्धकयया पयंडमुयदंडवलकलिया ॥ ५० ॥

नियसौंटीरिमवसओ रिउसेन्नं जरतणं व विगणिंता । सपहुप्पसायपरवसहियया जीएऽवि निरवेक्खा ॥ ५१ ॥

पइखणविमुक्कहकारपुक्कारुकरिसतुट्टसन्नाहा । गेहनियत्तियदइया चलिया दप्पुब्भडा सुहडा ॥ ५२ ॥

वहुविहयहरणभरिया रहनिवहा घणघणारवरउहा । सवपहेसु पयट्टा पवणुद्धुयधयवडाडोवा ॥ ५३ ॥

इय चातुरंगसेन्नं नरवइवयणेण वद्वियाणंदं । मुणिदाणजायपुन्नं व कुमरपासं समल्लीणं ॥ ५४ ॥

तओ भंजंतो गिरिसिहराववद्धमहल्लभिल्लपल्लीओ निब्भच्छंतो जणवयविह्वणवद्धलक्खं चरडपक्खं अवलोयंतो

नगन्नगरगामारामरमणीयं महीमंडलं पडिच्छंतो मग्गे सामंतसमप्पियं विविहालंकारकरितुरयपमुहं पाहुडं पत्तो

विज्जगिरिसमीपं, एगत्थ निवेसिजो खंधाधारो, तजो य पद्धानवियक्खणपरियण्णुमओ चलिओ कोउहत्तेण विज्ज-  
गिरिमयलोइडं । अंतरे य—

उत्तंगमत्तकुंजरकुलाइं पेच्छइ जहिच्छचाराइं । रेवातडरूढमहत्तसत्तईकवलणपराइं ॥ ५५ ॥

निसुणइ पेम्मभरालसज्जुवईपरिकिन्नकिन्नरावद्धं । करकलियतालकलवसंचलियं पंचसुग्गारं ॥ ५६ ॥

निज्जरञ्जंकाररवायण्णगघणघोससंकिमणाणं । तंडवमस्सिक्खियपंडियाण पेक्खइ सिहंडीणं ॥ ५७ ॥

तयणंतं च पुरओ पयट्ठो सगाणो गायंतं व पवणगुंजियसरेणं हसंतं व विप्फुरियफारफुलिं गुग्गारेहिं पणधं-  
तं व समीरपसरियमहत्तजालाकलावेहिं विट्ठलियकेसपासं व गयणंगणलंघमाणधूमपडलेण नियइ दारुणं दावानलं,  
तं च अइलंपिऊण कमेण पद्धानपुरिसं व तुंगायारं सुवंसपडिवद्धं च, नरेसरं व वररयणकोसं जणाणुमयपायच्छायं च,  
फाऊरिसं व दुट्ठसत्तादिद्वियं निट्ठरसरुवं च, महियाहिययं व दुद्धंधणिज्जं पओहरोधसोद्वियं च, आरूढो विंज्जगिरिं ।  
तजो चिरं काणणेषु निज्जरेसु विवरेसु दुरारोहसिहरेसु कयलीलीलाहरेसु देवोवभोगुच्चमडगंधेषु सिलावट्टणसु विवि-  
हमणोहरप्पपसेसु विहरिऊण परिस्संतो उवविट्ठो एगंमि माहवीलयोहरे । एत्थंतरे पदियमेगेण चारणेण—

विंज्जो साराणुमओ निधं चिय नम्मयाएं परियरिओ । सारंगजणियसोहो गयकुलकलहो दयावासो ॥ १ ॥  
उच्छूढसमाधारो विबुद्धपिओ मयणसुंदरसरीरो । एवंविहो तुमं पिव कुमार! किं अच्चमहियमेत्थं ? ॥ २ ॥ एयमो-

यत्रिऊण परितुट्टो कुमारो, भणियं च-अहो साहु सिलेससारं पढियमेएण, ता देह एयस्स दीणारलक्खग, ज दवो  
आणवेइत्ति भणिऊण पडिवन्नं भंडागारिण, खणंतरेण गओ नियआवासं । कयं पयाणयं, कमेण य पत्तो पचंत-  
देसं, तर्हि च पेच्छइ पमुइयपकीलियं गोमहिसिपसुकरहरासहपउरं धणधणसमिद्धं सुद्धगामागरनगरं नियजण-  
जाणवयं, विम्हियजणेण य आहुया विसयमहत्तरा सिट्ठिणो य, तंवलदाणाइवहुमाणपुरस्सरं पुच्छिवा य लोयसु-  
त्थासुत्थवत्तं, तेर्हि भणियं-देव ! तुम्ह भुयपंजरंतरनिलीणाणं अम्हाणं को सयन्नो मणसावि असुत्थयं काउं समीहेज्जा ?  
न हि जीवियसावेक्खो पंचाणणगंधकेसरकुरलिं तोट्टेज्जा भुयगरायफणफलममंणिं वा गिण्हेज्जत्ति, केवलं एत्ति-  
यमेव असुत्थं—

जमेत्थ दावियसुद्धायारेर्हिं पणतरुणीगणेर्हिं, नयणचावपमुक्ककडक्खियमग्गणेर्हिं । दिसिदिसिनिह्यपह-  
णिवि पइदिणु पंधियहुं, हीरइ हियउं हयासहि पहि पेक्खंतियर्हिं ॥ १ ॥ विसयदोसदुहसंचयकहणपरायणहं,  
धम्ममग्गु देसंतह पइदिणु मुणिजणहं । भोगुयभोगु जहिच्छइ गिर्हिं निवसंतएर्हिं, अम्हेर्हिं करणु न लब्भर्हिं  
भवभयसंकियर्हिं ॥ २ ॥

इय निसुणिऊण कुमरेण दरवियसियकवलं हसिऊण सुचिरं पसंसिऊण य तवयणविन्नासं दवावियतंवाला वि-  
सज्जिया सिट्ठिणो विसयप्पहाणा य, तयणंतरं दूयवयणेण भणाविओ पुरिससिंधो, जहा-कुमारो तुह दंसणुस्सुओ

पद्विंशति, एयमायन्निऊण य पुरिससिंघनखइणा कुमारस्स आणयणनिमित्तं पेसिया नियपहाणपुरिसा, तदणुरोहेण  
 ममागओ कुमारो, पवेसिओ नगरंमि परमविभूर्इए पुरिससीहेण, काराविओ भोयणं, समप्पिया करितुरयसंदणा,  
 उपणीयमण्णंपि पमूयं दविणजायं, विन्नत्तो य भालतलघडियकरसंपुडेण तेण-कुमार । गाढमणुग्गहिओम्हि तुमए जं  
 नियचरणकमलेहिं पवितीरुयं मह भवणं, ता कइयदिणाइं पडियालेह एत्थेय, पुणोऽपि दुलहं तुम्हेहिं सह दंसणंति  
 मणिए युत्तो कुमारेण-भो नरिंद ! अपुषो तुह पेम्मपवंचसारो पियालाओ अणणविणयवत्तहारो अच्छेरयभूया प-  
 टियत्ती मणसापि अचित्तिज्जं सच्चणत्तणं, ता एरिस तुह गुणगणेण गाढमागरिसियं मम उणद्वेणवि चित्तं, जइ पुण  
 कइयय वासराणि तुमए सदिं वसामि नूणं न पइ परवसस्स नियचित्तस्स हवामि, सच्चं च इमं पडिज्जइ-“अत एव  
 हि नेच्छन्ति, साधवः सत्तमागमम् । यद्वियोगासिल्लस्य, मनसो नास्ति भैपजम् ॥ १ ॥” ताऽणुजाणेसि मं  
 गमणाएत्ति युत्ते दुस्सइतन्निओगसोगदमियमणोऽमुधरं हयगयरहसमग्गसामग्गीए अणुगच्छिऊण कुमारं वल्लिओ  
 पुरिससीहो, कुमारोऽपि अक्खंडपयाणगोहिं चलिओ रायगिइनगराभिमुहं । इओ य विस्सनंदिणा नरिंदेण सो  
 नियपुत्तो विसाहनंदी मणिओ-

वच्छ ! जहिच्छं पणलच्छिपेच्छणं ऊण मयच्छिमज्झुगओ । परिसंकं सक्कस्सवि अपहंतो एत्थ उज्जाणे ॥ १ ॥  
 एयमायन्निऊण विसाहनंदी कुमारो वहियाणंदसंदोहो पमुक्कनीसेसयावारंतरो अंतेउरममेओ विचित्तणीटाहिं

उज्जाणे संठिओ कीलइत्ति । सो य विस्सभूर्इ अणवरयमागच्छंतो संपत्तो रायगिहे, नियनियठाणे पेसियसामंतसे-  
णावइपमुहपरियरो गाढाणुरागेण य चिरदंसणुकंठिओ पुवप्पवाहेण पुप्फकरंडगुज्जाणे पविसिउमाढत्तो, भणिओ य  
दुवारदेसट्टिएण पडिहारेण—कुमार ! न जुत्तं तुम्ह एत्थ पविसिउं, जेण विसाहनंदी अंतेउरसहिओ इह पविट्ठो  
कीलइ, विस्सभूर्इकुमारेण भणियं—भइ । कइया पविट्ठो ?, तेण भणियं—तुम्ह गमणाणंतरमेव, एवमायन्निऊण समु-  
प्पन्नतिवकोवमरारुणनयणो णिडालतडघडियभिउडिभासुरियवयणो त्कालुच्छलियसेयविंदुजलजडिलियसरीरो कु-  
मारो एवं चिंतिउमारद्धो—

पचंतकुद्धनरवइवइयरववएसओ धुवं पुर्विं । उज्जाणाओ इमाओ नियवुद्धीए नीणिओ रत्ता ॥ १ ॥

जेण सयं चिय दिट्ठो सो देसो सुत्थगामपुरगोट्ठो । परचक्कचोरअभिमरभयरहिओ धणकणसमिद्धो ॥ २ ॥

ता नूणं नियपुत्तस्स कीलणट्ठं इमंमि उज्जाणे । अवजसपरिहरणत्थं कवडमिमं विरइयं सघं ॥ ३ ॥

वाढं अजुत्तमेयं आयरियं निच्छियं नरिंदेण । न हि विस्सासपरवसहिययंमि जणे घडइ माया ॥ ४ ॥

एवं खणं निग्गमिऊण तेण समुप्पन्नसमहिगकोवाइरेगेण तज्जिया विसाहनंदिपुरिसा—रे रे दुरायारा! मए अप-  
रिचत्तेऽपि उज्जाणे केण तुम्हे पेसिया ? को वा तुम्ह पुरिसायारो ? कहां वा अविण्णायपरक्कमा एत्थ सच्छंदमभिरमह ?  
मए निहंघाणं कत्तो वा तुम्ह परित्ताणंति भणिऊण दुघिसहाभिमाणपरव्वसयाए नियवलदंसणत्थं, पहओ, निहुरमु-



द्विपहारेण कृत्स्नरूपयमाहो पक्रिद्वो कविद्वपायवो, तदभिघाएण य कुलसेलताडियं व थरहरियं मेइणीवट्टं तुट्ट-  
निपिडयंघणाइं निरडियाइं सयलफुलाइं दंसियाणि य विसाहनंदिपुरिसाणं, सगधं भणिया य-रे रे पुरिसाहमा !  
जद घयाणि पाडियाणि तदा पाडेमि तुम्ह मुंडाणि, अक्केमि दुक्खिणयसीलयं, विहाडेमि उज्जाणरमणाकोऊहलं,  
केवलं लप्पेमि तायम्म पीडेमि नियकुलकलंकस्स विचिकिञ्छेमि लोयाववायस्सत्ति भणिकण उवसंतत्तिव्व होहावेगो  
गंवेगमग्गमुवगओ एयं चित्तिउमादत्तो-

विसयपरम्यसदियया हीलं किं किं जणा न पेच्छंति । कत्थ व न दुक्करंमिवि ववसाए संपयट्टंति ? ॥ १ ॥

को या न जाययावत्तरट्टिया तिक्कदुक्खरिंलोली । दंमोलिनिघिसेसा जतक्किया निवडइ सिरंमि ॥ २ ॥

तुच्छोवि पियुहजणनिंदिओडवि को या विमुक्कमज्जाओ । न करेज्जा दुक्खिणयं विसययसत्ताण सत्ताणं ॥ ३ ॥

विमवाणं पुण निघिक्ककारणं निच्छयं मक्कणीओ । विहिणा पावेण विणिम्मियाउ नणु केण कज्जेणं ? ॥ ४ ॥

नूनं न दुग्गदुग्गइपडणदुहाइं कयावि सुमिणेडवि । पेच्छेज्जा मणुयजणो जइ जुवइपरंमुहो होज्जा ॥ ५ ॥

पामच्च करियराणं हरिणाण प वागुरा विममनेधो । पंजरमिव विहगाणं पईयकळियच्च खलमाणं ॥ ६ ॥

मीणाणं जालंपिय जणाण सेच्छापयारमुदियाणं । अदह विसमं महंतं महिल्लजंतं कयं विहिणा ॥ ७ ॥

अविय-नयमालइपरिवलमंजलोवि नरमुरादिकुमुमरगंधो । किं कुणइ तेसि जेवि मणंमि नो वधइ हरिणच्छी ॥ ८ ॥

अइरेगुदीवियवम्महोऽवि निम्महियसयललोओऽवि । जुवईविरत्तचित्तं नो चालइ मलयपवणोऽवि ॥ ९ ॥  
 सरयनिसायरकिरणुज्जलावि नो कोमुई मणागंपि । दावेज्ज वियारं पंचवाणवलदलणधीराणं ॥ १० ॥  
 जोव्वणतिमिरच्छाइयविवेयनयणो पुरा गिहे वसिओ । अहह कंहं दुट्टमई निरत्थयं एत्तियं कालं ? ॥ ११ ॥  
 अहवा किमइकंतत्थसोयणेणं निरत्थएणं मे । अज्जवि किंपि न नट्ट करेमि सद्धम्मकम्ममहं ॥ १२ ॥

एवं च गरुयसंवेगावन्नमाणसो सब्बहा पवहमाणविसयविरागो निच्छियसंसारासारत्तो गओ संभूइसूरिस्स पासे, जो य केरिसो ?—

अइपसत्थगुणरयणसायरो, तेयरासिना वइ दिवायरो । सोमयाए संपुन्नचंदओ, जो विसुद्धसुहवेळिकंदओ ॥ १ ॥  
 मेरुसेलसिहरव्व निचलो, संपकज्जभरवहणपचलो । सुरनरिंदपणिवयसासणो, दुट्टकामतमपडलणासणो ॥ २ ॥  
 तवऽग्गिदद्धपावओ विसुद्धभावभावओ, सया तिगुत्तिगुत्तओ पसत्थलेसजुत्तओ ।  
 पर्यंडदंडवज्जिओ जिणिंदमग्गरंजिओ, पणट्टमाणकोहओ विणीयमायमोहओ ॥ ३ ॥  
 जणाण घोहकारओ कुतित्थिदप्पदारओ, अपुव्वफप्परुक्खओ पणट्टसत्तुपक्खओ ।  
 गुणिंदविंदवंदिओ असेसलोयनंदिओ, अणेगच्छिन्नसंसओ पणट्टसव्वदोसओ ॥ ४ ॥  
 तस्स एवंविहस्स गुरुणो पलोयणेण समत्थतित्थदंसणपुयपावं पिवऽप्पाणं मण्णमाणो सव्वायरेण पणमिऊण

चरणरुमलं उपविष्टो सन्निहियभूमिभागे, गुरुणाऽपि पारद्धा महुमहणापूरियपंचयणरवाणुकारिणा सरेण धम्मदे-  
सणा । जहा—

संसारमंदरंगे सदत्तमेहिं थ चित्तरुवेहिं । सो नत्थि किर पपसो जीयेहिं न नच्चियं जत्थ ॥ १ ॥

चउमइजटपडन्नाउलमयणनेऽणेगगो करेतेहिं । दुहिएहिं मज्जणुम्मज्जणाइं रुम्मेहि व कहिंपि ॥ २ ॥

जारियमेनुप्पत्ती नो पायिच्चइ पभूयहालेऽपि । तीएपि हु पत्ताए कहिंचि कम्मक्यओवममा ॥ ३ ॥

धम्मत्यरुमसादणकारणमेगंतियं न मणुयत्तं । पायंति पावविहया भममाणा विविहजोणीसु ॥ ४ ॥

उद्वेऽपि तत्थ जरताननासकंठूपमोक्खदुक्खेहिं । निहयाण धम्मरुम्मुच्चमोऽपि दूरेण वयेच्चा ॥ ५ ॥

नीरोगत्ते पत्तेऽपि कइदारिहिविहुयसरीरा । उदरभरणत्वयाउलचित्ता वोळित्ति नियजीवं ॥ ६ ॥

इस्सारिपऽपिहु पदुरविणमद्वज्जास्सविहयापारा । लोभेण भोयणंपिहु काउं न तरंति पेलाए ॥ ७ ॥

संतोसेणपि मिच्छत्तपंरुपसरेण मइलमदविमया । मव्यण्णुमयं सम्मं सुयंति नेयावजुज्झंति ॥ ८ ॥

सव्यण्णुधम्मवोहे जाएऽपि हु रुम्मपरिणदयमेणं । नीमिसगुणायासो गुरुवि न कहिंपि मंपडइ ॥ ९ ॥

उद्वेऽपि गुंमि समत्थवत्तुवित्थारपयडणपईये । सिद्धिपुरपरमपयवी न पयट्टइ तद्वि विरइमई ॥ १० ॥

तीएपि निरुगयदुदुग्गलत्तनिररेक्खकारणं पायो । पमरंतो न पमाओ मळितं तीरेइ वणरुरिय ॥ ११ ॥

इय उचरोत्तरमहप्पबंधेउप्पसाहणिज्जंमि । मोक्खसुहे धण्णाणं केसिंपि मणो ससुहसइ ॥ १२ ॥

अत्तेसिं एवंधिहसमग्गसामग्गिसंभवेऽवि मई । उप्पजइ संसारियसुहेसु विरसावसाणेसु ॥ १३ ॥

को वाऽविहु सलहेज्जा को वा नामंपि तेसिं गिण्हेज्जा । जे भोगामिसगिद्धा रमंति इह सारमेयव ॥ १४ ॥

अचिय-जोव्वणपडलच्छाइयविवेयनयणा मुणंति तरुणीण । केसेसुं कुडिलत्तं न उणो तासिं चिय मणंमि ॥ १५ ॥

पहुहारावुहामं उन्मडनासं सुदीहरच्छं च । पचियंभियसत्तिलयं नियंति वयणं न उण नरयं ॥ १६ ॥

परिणाहसालिवित्तं सि थि(थ)णेसुं न धम्मबुद्धिसु नियंति । पेहंति तणुयमुपरं साणंदा न उण नियजाउं ॥ १७ ॥

सुरमणुयगईपरिहंपि सुंदरं भुयजुयं पसंतंति । जंधोरुजुयं अइअसुइयंपि उवमिंति रंभाए ॥ १८ ॥

इय भो देवाणुप्पिय! विप्पियहेउंपि जुवइजणदेहं । मणमोहणवम्महचुण्णपुण्णचित्ता अभिलसंति ॥ १९ ॥

तेचिय पमाणमवलंविऊण भोगेसु को पयट्टेज्जा? । कुपहपवणो किं होज्ज कोइ कुसलाणुसरणिज्जो? ॥ २० ॥

नवजोव्वणोऽवि निप्पडिसरुवकलिओऽवि लच्छिनिलओऽवि । पवरविलासीवि तुमं भइ! धुवं धम्मजोग्गोऽसि २१

तेणेवंधिहपवरोवएसरयणाइं तुज्झ दिज्जंति । न कयावि पुण्णरहिया चिंतामणिलाभमरिहंति ॥ २२ ॥

इय भणियंमि गुरूहिं समहिगसंजायधम्मपरिणामो । भत्तिभरनिम्भरंगो कुमरो भणिउं समाढत्तो ॥ २३ ॥

भयवं! सव्वमसेसं कहियं तुम्हेहि सियसुहकएणं । ता सम्मं पव्वज्जं निरवज्जं देहमह इण्हि ॥ २४ ॥

एवं च भणिषो सो गुरुणा समुद्भिन्नवरयणाभरणो अंगीकृत्यगुरुचरणसरणो सिद्धंतभणियविहाणेण गाहिओ जिणिंददिस्खं सिक्खविओ पइदिणं कायव्वकलावं जाणाविओ सिवसुहनिबंधणं संजमघणं पाढिओ सामाइयप-  
मुहं सुत्तंति । इओ य कुमारपव्वजासवणवजासणिताडणुप्पण्णपरमसोगो अंतेउरसमेओ समं जुवराएण समागओ  
विस्सनंदी, सविणयं सूरिं वंदिऊण पणमिओ अणेण विस्सभूई साह, भणिओ य सोपालंभं सप्पणयं च एसो-पुत्त!  
किं जुत्तमेयं पवरकुलुप्पन्नाणं तुम्हारिसाणं ? अनिवेइऊण निययुत्तं जमेवंविहं दुकरं साहुकिरियं पडिवण्णोऽसि, ता  
वच्छ ! साहेसु को तुज्झ चित्तनिव्वेयहेऊ ? किं वा अह्म दूसणं पडिवण्णो ? केण वा तुम्ह वयणं पडिकूलियं ? कि-  
मेयं एकपएधिय अदक्खिणत्तणमव्वुवगओऽसि ? हवउ वा सेसजंपणेण, तुमं विणा कस्सेयारिं अम्हे सकज्जं सा-  
हिमो ? विसमावयानिवडियाणं को वा आलंनणं ?, ता सव्वहा अज्जवि परिचयसु पव्वज्जं पडिवज्जसु रज्जं कीलेसु  
जहिच्छं पुप्फरुंदगुज्जाणे मा पूरेसु सत्तुमणोरहे मा अणाहीकरेसु वालक्रमलिणीवणं व सस्सिरीयं बहुजणं मा उवे-  
क्खेसु पुव्वपुरिसरक्खियं नियजणवयं मा पडिवज्जसु गाढगंठिनिदुरहिययत्तणंति ।

तो विस्सभूइमुणिणा पसमपहाणं पयंपियं एयं । भो सुंचह संतायं कुणह जहावंडियं कज्जं ॥ १ ॥

नो किंचिधि वयणिज्जं इहऽत्थि सव्वेऽवि निययकज्जेसु । उज्जमह सेसचागेण जेण लोगेऽवि पयडमिमं ॥ २ ॥

सयणाइसिणेहरिमोहिएहिं कीरंति जाइं पावाइं । दुग्गइगयाण ताइं कडुयविवागं फलं देति ॥ ३ ॥

न य बहुमुययरिओऽविह विहुरे येवंपि कुणइ साहारं । सयणजणो मोत्तूणं एकं जिणदेसियं धम्मं ॥ ४ ॥  
इय भणिए नियदुचरियपेहणुप्पण्णगाढसंतावो । काऊण पायपडणं जहाऽऽगयं पडिगओ राया ॥ ५ ॥

विस्सभूर्हं सम्ममहिगयसाहुधम्मो गुरुचरणसुस्सूसापरो दूरुज्झियमुहिसयणसंधवो जीवियमरणनिरवेक्खो  
पंचिंदियदित्तसत्तुविजयपरो बहुं कालं गुरुकुलं पञ्जुवासेइ । अण्णया य सम्मं समहिगयमुत्तत्थो विसेसेण विहियम-  
णपरिकम्मो जोगोत्ति कलिऊण गुरुणाऽणुण्णाओ समाणो एगल्लविहारित्तणं पडिवज्जिऊण छट्ठमाइ निदुरं तवो-  
कम्मं कुणमाणो सम्मं परीसहचम्मं अहियासेज्जमाणो वीयरगोव्व गामनगरागराइसु अममाएंतो पइक्खणं वीरास-  
णुकुडयासणाइं कुणमाणो पइदिणं सुराभिमुहं आयारित्तो नियजीवियब्भहियं पाणिगणं रक्खित्तो वायालीसदो-  
सविसुद्धविरसाहारगहणेण संजमसरीरमणुपालेंतो गामाणुगामं विहरेंतो समागओ सुरिंदपुरिविब्भमाए महुराए नय-  
रीए, ठिओ थियसुपंडगविवज्जिए उक्किट्ठतथनिरयमुणिजणसंगए एगंतदेसे, तहिं च निवसंतो एगया परमसंवेग-  
गयमाणसो नियजीवियनियमणत्थं चिंतिउमारद्धो । जहा—

एसोऽभिकंखइ सुहाइं जिओ दुहाइं, दूरेण मोत्तुमभिवंचइ तुच्छबुद्धी ।

एवं न जाणइ जहा न कहिंपि धम्मसंबंधसिद्धिविरहेण भवंति ताइं ॥ १ ॥

भोगे समीहइ करेइ रइं कहासु, देसित्थिपत्थिवसुभोयणसंगयासु ।

सीउण्हदंसमसगाइ परीसहे य, सम्मं तितिक्खइ न मूढमई पमाया ॥ २ ॥

सत्तु वरं निसियधारकरालकालकंतिच्छडालकरवालकरो सुकुद्धो ।

घायत्थमुज्जुयमई वरमुग्गभोगभोगीसरो ङसिउमुद्धमरो रुणच्छो ॥ ३ ॥

उहंडमारुयपईवियदीहजालामालाउलो य जलणो वरसंगलग्गो ।

नीसेसदोसनिलओ न खणंपि नूणं, जुत्तो न गंतुमहमो हि इमो पमाओ ॥ ४ ॥

एए हि सत्तुपमुहा मणुयाण दिंति, तिव्यावि एगभवगोयरमेव मञ्चुं ।

एसो पईभवमुदुस्सहतिक्खदुक्खलक्खक्खणी तदहिगं परिवज्जणिज्जो ॥ ५ ॥

वज्जणमेयस्स पुणो आहारचागओ घडइ सम्मं । ता सवहेव जुत्तं मम काउं उग्गतवचरणं ॥ ६ ॥

इइ संपहारिऊण य समारद्धं तेण मासखमणं, कओ विसेसेसुज्जमो समाढंतो पइदिणं झाणप्पवंधो निरुद्धो मणप्पसरो, एवं च कमेण पडिपुण्णे मासक्खमणे पडिलेहियभंडोवगरणो अतुरियं अचवलं जुगमेत्तनिहित्तचक्खुपसरो सुत्तत्थपोरिसिपज्जंतकाले चलिओ भिक्खानिमित्तं उचावयगिहेसु गोयरचरियाए, परिभममाणो उग्गमउप्पायणादोसे सम्मं निरुवेमाणो लाभालाभेसुवि अरत्तदुद्धो पगिट्ठतवाणुट्ठाणकरिसियसरीरत्तणेण य तणंपिव पवणेणावि पकंपमाणो परिसोसियमंससोणियत्तणेण य पयडसिराजालावणद्धंउट्ठिपंजरो धवलपाडिवयमयलंछणो इव कलावसेसो तं रायम-

गमोगाढो जत्य सो विसाहनंदीकुमारो पिउच्छाए रण्णो अग्गमहिसीए धूयापरिणयणत्थं पुब्बमावासिओ चिट्ठइत्ति ।  
 अहं तं मुण्णिं दट्ठूण जायपच्चभिण्णाणेहिं पुरिसेहिं भणिओ विसाहनंदी कुमारो, जहा-सामी ! मुणह तुम्हे एवं पवइ-  
 यं ? , सो भणइ-सम्मं न जाणामि, तेहिं भणियं-कुमार ! एसो सो विस्सभूई कुमारो जो पुब्बिं पवइओ, तं लक्खिऊण  
 जाओ तस्स पुब्बामरिसेण कोयोत्ति, एत्थंतरे सो तवस्सी तंमि पएसे वचमाणो इरियासमिईवक्खित्तचित्तत्तणेण अत-  
 क्कियमेव पणोळ्ळिओ अहिणवपसूयाए गावीए, पडिओ य निसट्ठो धरणीए, ताहे तेसिं विसाहनंदिपमुहपुरिसेहिं दट्ठूण  
 तं तहानिवडियं संजायगाढहरिसेहिं कओ सिंहनाओ अप्फोडिया तिवई दिन्नाओ तालाओ पारद्धो कलयलो, भ-  
 णियं च महया सहेण-भो भो कत्य गयं तमियाणिं कविट्ठफलपाडणवलं जेण गोमेत्तेण विनिवाडिओऽसि ? , इमं च  
 निसामिऊण वलियकंधरो विस्सभूई जाव विप्फारियलोयणो अमरिसेण पलोएइ ताव दिट्ठा विसाहनंदिमुपहा पच-  
 भिण्णाया य, तयणंतरं च पलीणो से उवसमपरिणामो ववगओ विवेओ समुळ्ळिओ महाकोवो समुल्लसियं वीरियं,  
 धाक्खिऊण य सा गहिया सिंगेसु गावी पडाइयव भमाडिया सीसोवरिं पक्खित्ताय धरणीए, भणिया य ते, जहा-रे रे  
 दुरायारा ! दुरुम्मुकपरकमा हीणा सन्नसो य विरहिया मं उवहसह, न मुणह जहा दुब्बलस्सऽवि पंचाणणस्स सिगा-  
 लसहस्सेहियि न लंघिज्जइ परकमो, सुलहुयस्सवि विहंगरायस्स न तीरइ सोढुं भुयंगमेहिं चडुलचंचुप्पहारो, तहा—  
 जइविट्ठु निट्ठुरतवकम्मकिसियकाओ वियाणिओऽहमिह । तहवि न रे ! तुम्हाणं लक्खेणवि अत्थि मम गणणा ॥ १ ॥



रे पिसियपोसिया विउसदूसिया किं परेण भणिण्ण ? । अच्छिपडियावि तुम्हे न कुणह मे किंपि परियावं ॥ २ ॥  
 निम्भच्छिऊण एवं साहिक्खेवं सुत्तिक्खवयणेहिं । गंतूण य नियठाणं साहू चिंतेउमादत्तो ॥ ३ ॥  
 अज्जवि न मणागंपिवि पुद्धानुसयं चयंति मइ एए । पच्चजोवगयंमिवि निक्कारणवइरिणो पावा ॥ ४ ॥  
 अहवा एयाणं धालिसाणं किं एत्थ दूसणं ? जेण । पुद्दायरियाण सुहासुहाण एसो दसावागो ॥ ५ ॥  
 ता तह करेमि संपइ परमवपत्तो जहा य सुमिणेवि । एवंविहअवमाणट्ठाणं नो कहिंपि पेच्छामि ॥ ६ ॥  
 इय कयसंकप्पो सो अविभावियसमयसत्थपरमत्थो । अविचिंतिउत्तरोत्तरसंसारावडणदुहनिवहो ॥ ७ ॥  
 भत्तं पच्चक्खाउं नियाणवंधं च काउमुज्जुत्तो । पच्चासण्णमुणीणवि समक्खमेवं पजंपेइ ॥ ८ ॥  
 जइ ताव ममं दुक्करतवस्स छट्ठट्ठमाइरूवस्स । सज्झायज्जाणसहियस्सिमस्स सन्वायरकयस्स ॥ ९ ॥  
 वायालीसेसणदोसरहियसुद्धुंछभोयणस्सऽविय । सुत्तत्थतत्तचिंतण[पर]गुरुजणविणयाणुचरणस्स ॥ १० ॥  
 पंचमइव्वयधरणस्स वावि फलमउलमत्थि नणु किंपि । अतुलियवलकलिओऽहं ता होज्जा अण्णजम्मंमि ॥ ११ ॥  
 एवं च नियमिऊणं ठिओ सुद्धसिलायले, निसामियनियाणवंधा य समागया इयरसमीववत्तिणो तवस्सिणो,  
 भणिओ य सबहुमाणं तेहिं-भो महाणुभाव ! सयंचिय मुणियजुत्ताजुत्तस्स नत्थि जइवि तुह किंपि कहणिज्जं त-  
 हावि एयं निवेइज्जइ-जेण न लोहकीलियानिमित्तेण कोऽवि कुणह देवउलपलीवणं, न वा कोडिप्पमाणरंयणरा-

सिणा किणिज्जइ कागिणी नेव य गोसीसचंदणागरुपमुहसारदारुणि दहिऊण कीरंति इंगाला, न य एवंविहनिक्कलं-  
कमुचिरचरियविविहतवेहिं किंपागफलं पिय पजंतदारुणो काउं जुजइ नियाणबंधो, अण्णं च—

किं पवणगुंजिएहिं कंपिज्जइ मंदरो रउदेहिं । दुज्जणवयणेहिं मणो किं वा पक्खुहइ साहणं ? ॥ १ ॥

चिरकालुच्चूढं किं मज्जायमइकमंति जलनिहिणो । हरिणंकदिणयरा किं तिमिरंप्पसरेहिं रुज्झंति ॥ २ ॥

निम्मलगुणरयणमहानिहाण ! तुम्हारिसावि सप्पुरिसा । चवसंति एरिसं जइ धम्मसिरी ता कमल्लियउ ? ॥ ३ ॥

कत्थ व वचउ विणओ ? वोढुं को वा खमो खमभियारिणं ? भग्गनिवासो गच्छउ कत्थ वराओ विवेओऽवि ? ॥ ४ ॥

एमाइविविहवयणेहिं भासिओ जा न देइ पडिवयणं । नियनियठाणेसु गया ताव मुणिंदा निराणंदा ॥ ५ ॥

विस्सभूइवि अविचलियणियाणबंधज्झवसाओ अणालोइयपडिक्कंतो कालमासे कालं किंचा उक्कोसट्ठितीओ  
महासुक्के देवलोगे देवो समुप्पण्णो, तत्तो उवट्ठित्ता जहा वासुदेवो होही जहा य से पिया पयावइत्ति भविही तहा  
एत्तो कहिज्जइ ।

इहेव जंबुदीवे दीवे भारहे वासे पोयणपुरंमि नयरे जहत्थाभिहाणो रिउपडिसत्तू नाम राया, तस्स य सयल  
अंतैउरपहाणा भदा नाम अग्गमहिस्सी, तीसे चउमहासुमिणपिसुणियाववारो अयलो नाम पुत्तो, अशंतमहावलो  
विस्सुओ य, एगया य तीसे देवीए पाउब्भूओ गब्भो, जाया य कालेण सव्वलक्खणपडिपुण्णसरीरा कण्णगा,

कयं च उचियसमए मिगावइत्ति से नामं, कगेण य निरुवमारूढजोवणगुणा एवं सोहिउं पवत्ता—  
 कसिणमुसिणिद्धकुंचिरचिहुरचओ तीएँ उत्तमंगंमि । वयणेंदुविन्भमागयविडप्पसोहं समुब्बहइ ॥ १ ॥  
 मालतलेऽवि लुलंती अतिकुडिला चिहुरवल्लरी तीसे । रेहइ वम्महरणो विजयपसत्थिव्व आलिहिया ॥ २ ॥  
 सरलेहिं लोयणेहिं तीएँ कवोलेहिं चंदकंतेहिं । अहरेण पउमरागेण रयणट्ठाणं व सहइ सुहं ॥ ३ ॥  
 संखो इव रेहावलयलंछियं कंठकंदलं विमलं । संठियविचित्तमणिलट्ठगंठियं सोहए तीए ॥ ४ ॥  
 कंदप्पनरिंदनिवासविन्भमे तीएँ थोरघणवट्ठे । हारो पडिहारतुलं आलंबइ लंबमाणो सो ॥ ५ ॥  
 रंभाभिरामपीवरमूरुजुयं कणयकमलकंतिछं । थंभजुयलं व छज्जइ विसयमहासोकखभवणस्स ॥ ६ ॥  
 वहलालत्तयरसर्पिंजरं व मणिकुट्टिमंमि संकंतं । कमलोवहारसोहं चलणजुयं दावए तीसे ॥ ७ ॥

एवंविहा य वरजोगत्तिकाऊण सा सव्वालंकारविभूसियसरीरा भहाए पेसिया पिउणो पायवंदणत्थं, गया  
 चेडीचक्कवालपरिवुडा निवडिया नरिंदचलणेसु पेच्छिया संभमभरियच्छिणा सव्वायरं रणणा पणयालावपुरस्सरं च  
 आरोविऊण तमुच्छंगे रूवेण जोव्वणगुणेण य वाढमक्खित्तचित्तो विचिंतिउमाढत्तो—अहो सुरमुंदरीरूवाइसयपराभव-  
 करं रूवं अहो सव्वावयवसुंदरं लायणं अहो सरयचंदचंदिमानिम्मलं कंतिपडलं, अहो वेणुवीणाविजइणी वाणी,  
 सव्वहा मुयणच्छेरयभूयमिमीए किंपि विलसियं, नूणं पुवं एरिसं न निम्भियं खत्तियकुले कन्नगारयणं परमेसरेण

विहिणा, तेणं चिय मयरद्वएण परिग्गहिया रई तिसूलपाणिणाऽवि परिणीया पवयसुया महुमहेणवि मंदरुम्महिय-  
 खीरजलहिसमुद्धिया जलमाणुसी पणइणी कया पुरंदरेणावि पुलोममुणिकन्नगा उव्वूढत्ति, अहो अहं नमो मज्झं  
 जस्त अंतेउरे रयणायेरेव एरिसं कण्णगारयणं समुप्पण्णंति ।

अह कोमलुच्छुचावोऽवि वम्महो पंचकुसुम विसिहोऽवि । वज्झधणुलोहनिट्टुरसहस्सवाणो व विप्फुरिओ ॥ १ ॥

जत्तो जत्तो सा धवलपम्हले लोयणे परिक्खिवइ । तत्तो तत्तो सोऽविहु निसियं सरधोरणिं मुयइ ॥ २ ॥

अत्थाणजणोऽविहु वम्महेण संताविओ हु पासेण । रिउपडिसत्तू राया तदेगचित्तो विसेसेण ॥ ३ ॥

एवं च मयणसरप्पहारविहुरियमाणसो सो नरिंदो परिभाविउं पवत्तो—अहो एसा इयाणिं वरजोग्गा वट्टइ  
 ता किं कायव्वं ?, किमेरिसरूवाइसया कण्णगा परस्स दाऊण सगिहाओ निस्सारिज्जइ ?, सब्वहा न जुत्त-  
 मेयं, जइविहु जणो अविसेसेण कण्णगाणं अप्पण्ययाणेण पउत्तो तहावि गइरिकापवाहो एसो नालंरणट्टाणं सुवु-  
 द्दीणंति कयनिच्छओ अणवेक्खिउं गरुयमाचंदकालियं लोयाववायं अविमंसिऊण चिरप्परूढं नायमग्गमनिग्गहि-  
 ऊण मयणवेयणं अप्पणा चेव तं परिणेउकामो कहकहवि आगारसंवरं काऊण धूयमंतेउरं विसज्जेइ, वोयदियहे  
 वाहराविऊण सेट्टिसत्यवाहपमुहं नयरमहाजणं सामंतसेणावइवगं च सुहासणत्थं सबहुमाणं भणइ—भो भो  
 पहाणलोया ! तुम्हे कुलवत्थाणं जुत्ताजुत्ताणं नयाणं संसयत्थाणं लोयधामववहाराणं परुवगा निच्छयकारगा य,

अम्हाणंपि मन्त्रयेसु गुरानि पुच्छणिज्जा, ता मंपयं साहेह जमेत्य विसए रयणमुपंजइ तस्स को सामी ?, अविण्णा-  
 यपरमत्येहिं तेहिं भणियं—देव ! किमेत्य पुच्छणिजं ?, तुम्हेयिय सामिणोत्तियुत्ते तिहसुत्ते एयमेव वयणं भणावि-  
 ऊण नरंइणा उपट्ठाविया माऽवि य कन्नगा, भणिया य ते—अहो धूया एसा मम अंतेउरे रयणभूया पाउच्चूया  
 भओ तुम्हाणुण्णाओ अहमेयं सयं परिणेउं वंटाभि, अणइक्कमणिजं सु तुम्ह वयणं अम्हाणंति, एवं भणिए-लज्जाव-  
 मवलंतंरुंधरा जरोप्परसुहमवल्लोयमाणा जोहयमणसंकप्पा अपरिभावियत्रयणत्रिसट्टमाणचित्तपीडा गया नियनियठा-  
 णेसु पुरजणपमुम्हा, मा रुण्णया जरखासरे वारिज्जमाणेणऽपि भद्दाए देवीए पडियलिज्जमाणेणऽपि कुलमहत्तरएहिं  
 उपहगिज्जमाणेणपि नम्ममचिरेहिं सोरालंभं वज्जिज्जमाणेणपि मंतीहिं दुहविवागमणुसासिज्जमाणेणपि धम्मगुरुहिं अ-  
 णुमरियपिंशेण रुरेणुइ(ण)व अणियारियपमरेण गंधवत्रियाहेण परिणीया सा नरिंदेण, ठविया जग्गमहिंसीपए, तीसे  
 मद्धि विगयमुदमणुभुंजइत्ति । मा य भद्दा देवी द्दूण तारिसं जणनिंदणिजं उभयलोयत्रिरुद्धं तियचउक्कचचरेसु जणइ-  
 नणिजं रण्णो वइयरं मंजायगाढचित्तमंताया अयलेण पुत्तेण समं महया रिद्धिवित्तरेणं पहाणजणसमेया गया दक्खि-  
 णावहं, तत्थ य पगत्यभूमिभागे निरेसिया नयती निम्मियाइं धवलहराइं ठवियाइं सुरागाराइं कारावियाइं पाया-  
 रणोउराइंति, मा य पुरी महंतीए ईमरीए कारियत्ति माहेमरित्ति गुणनिष्फण्णनामेण देसंतरेसु पसिद्धिं गया ।  
 तत्थ य जयलो कुमारो भद्दादेविं मोत्तून पिउपाममागओ, एवं च काले उचंतंमि लोणेणं तस्स राइणो सबूया-

कामित्तणेण पयावइत्ति नामं कयं । अण्णया य सो विस्सभूई महासुक्कदेवलोयाओ चविऊण उर्ववण्णो मिगावइए  
 देवीए गव्वंमि पुत्तत्ताए, तओ सा रयणिंमि सुहपसुत्ता सत्त महासुमिणे पासित्ता णं पडिवुद्धा, पहिद्वहियया य गया  
 रण्णो सगासे, निवेइओ सुविणवुत्तंतो, रत्ता भणियं-देवि! निच्छियं भुवणविकखायजसो सयलसामंतमडलिमंडल-  
 मसिणियकमकमलो पयावपडिहयपडिवक्खो कुलकेऊ तुह पुत्तो भविस्सइ । जेण-

एवंविह सुमिणाइं देवि! पुण्णेहिं कहवि दीसंति । हरिसभरनिच्चभरंणी अभिनंदमु ता तुममिमाइं ॥ १ ॥  
 इइ जंपिऊण रण्णा वाहरिया सुमिणपाढगा कुसला । ते य नरिंदाएसं तहत्ति पडिवज्जिउं सहसा ॥ २ ॥  
 णहाया कयवलिरुम्मा परिहियसुविमुद्धसुंदरदुगुद्धा । सिरनिहियक्खयकुसुमा निडाल रुयरोयणातिलया ॥ ३ ॥  
 करकलियनिमित्तागमपोत्थयत्तत्था समत्थनयनिउणा । पच्चायागयविज्जा समागया झत्ति निवभवणं ॥ ४ ॥  
 सीहासणेसु सन्वायरेण उयवेसिया नरिंदेणं । फलफुल्लदाणपुव्वं सुमिणत्थं पुच्छिया ताहे ॥ ५ ॥  
 तेहि य निमित्तसत्थाइं वित्थरेणं सबुद्धिविहवेणं । परिचित्तिऊण तह निच्छियं च काऊण अण्णोऽण्णं ॥ ६ ॥  
 भणिओ पयावइनिवो जहेरिसाणं विसिद्धसुमिणाणं । अणुभावेणं नूणं पयडो नीसेसभुवणंमि ॥ ७ ॥  
 तिकखंडभरहसामी अण्णपडिहयसासणो य तुह पुत्तो । होही अण्णपडिमवलो इह पठ्ठो अण्णुदेवोत्ति ॥ ८ ॥  
 आयन्निऊण एयं पहिद्वचित्तेण ते नरिंदेण । दाऊण धणं विविहं विहज्जिया नियनियगिहेसु ॥ ९ ॥

मा य मिगावई देवी पुणोऽवि नरिंदेण कहिय सुमिणपाढगसिद्धे सुमिणट्टे पहिट्टहियया सुहंसुहेणं गन्भमुषहइ,  
 ञ्णया य पडिपुण्णंमि समए पसत्त्वंमि वासरे सुकुमारपाडलपाणिपल्लवं तमालदलसामलसरीरं सयलपुरिसप्पवरल-  
 क्खणविराइयं तिपिट्टकरंडगाडंवरभिरामं दारयं पसूया । विण्णायमुयजम्मो पहिट्टो पयावई, कराविओ सुरमं-  
 दिरेसु महमपो, तथा—

दिज्जंतऽनिरारियरुणयदाणनंदिज्जमाणमग्गणयं । पम्मुकुपुप्फपुंजोत्रयाररेहंतरायपहं ॥ १ ॥

मंगलरुलयलमुहलुम्मिलंतमहिलाजणाभिरमणिज्जं । पारद्धसंतिकुम्मं जायं नयरं च तं सहसा ॥ २ ॥

अयरनागरे य तस्म दारयस्म परमविभूईए तिपिट्टकरंडगदंसणनिच्छियाभिहाणवीएण पइट्टियं तिविट्टुत्ति  
 नामं रुलयेरीजणेणं, अह सो तिविद्धू पंचघाईपरिकियत्तो महारयणं व हत्थाओ हत्यं संचरंतो अणेगचेडचाडुकर-  
 परिगओ कुमारभावमणुप्पत्तो,

ताहे पिउगा जोगोत्ति जाणिउं मोहणे तिहिमुहुत्ते । उवणीओ सो विहिणा लेहायरियस्स पढणत्थं ॥ १ ॥

सयलो रुलरुलारो अकालखेवेण गुरुमयामाओ । निययुद्धिपगरिसेणं सविसेसो तेण गहिओत्ति ॥ २ ॥

अह सुणियमच्चनायव्वेवित्थरो गुरुपए पणमिऊण । तदणुण्णाओ रुमरो गओ सगेहंमि परितुट्टो ॥ ३ ॥

अयलेण भाउणा सह खणमपिय विओगमसहमाणो सो । पवरुज्जाणाईमुं निम्मसंको कीलइ जहिच्छं ॥ ४ ॥

कोमलकायस्सवि तस्स भुयवलं पेक्खिऊण जायभया । पमिलाणवयणकमलौ सहस्समह्यावि कंवंति ॥ ५ ॥  
 लीलाएविहु पंयपंकयाइं सो जत्थ जत्थ मेह्लेइ । वज्जाहयन्न धरणी तर्हि तर्हि थरहरइ वाढं ॥ ६ ॥  
 परिहासेणवि जे तेण पाडिया कहवि मुट्टिघाएणं । ते नूणं जइ परगेहिणीए पुत्तेहिं जीवंति ॥ ७ ॥  
 खिवइ य जत्तो दिट्ठिं तत्तो चिय सायरं विणयपणया । अहमहमिगाएँ धावंति किंकरा मुक्कवावारा ॥ ८ ॥  
 जस्साएसं वियरइ थेवंपि अणायरेणऽवि कुमारो । सो लद्धनिहाणो इव मन्नइ कयकियमप्पाणं ॥ ९ ॥  
 सो भणइ जत्थ ङाणे तत्थ समप्पंति सेसवावारा । तस्सेव परकमचण्णणेण लोयस्स पुणरुत्तं ॥ १० ॥  
 इय पुच्चभवज्जियसुकयकम्मवसवट्टमाणसोक्खस्स । अयलसमेयस्स सरंति वासरा अह तिविट्ठुस्स ॥ ११ ॥

इओ य-रायगिहे नयरे भारहद्धवसुंधराहियमणिमउडकोडिलीडपायवीढो पयलकालमायंडमंडलुडामरपयावकंतदि-  
 सिचको निधिसंकमुयदंडमंडवनिलीणरायलच्छिविलाससुंदरो समरसीमनिहयमत्तमायंगकुंभत्यलगलियमुत्ताहलविरइ-  
 यचउको महागोपुरपरिहसन्निहवाहुवद्धवीरवलओ निसियधारुकडचकनिकंतियवइरिग्गीवो आसग्गीवो नाम राया  
 पडिवासुदेवो यवरं यंचप्पयारमणिजं विसयसिरिमणुहवइ । एवं च वोलंतंमि काले सो विसाहनंदी कुमारो चिरं  
 रज्जमणुपालिऊण मओ समाणो नरयतिरिएसु भमिऊण उववण्णो एगंमि गिरिकंदरे सिंहत्तणेणं, पमुक्कवालभावो  
 य इओ तओ हिंडंतो उवइवेइ तस्स रण्णो पहाणसालिछेत्तनिवासिकरिसगजणे, ते य तेण उवइविज्जमाणा आ-



गया आसगीवनरिंदस्स सगासे, साहिओ सीहवइयो, इमं च वागरियं जहा-देव! इमाओ कयंतविभमाओ  
 सिंहाओ न रक्खह अम्हे ता करिसावेह नियच्छेत्ताई, अम्हे अन्नत्थ वचिस्सामो, राइणा भणियं-भो गो किमेवं का-  
 यरा होह?, तदा करेमि जहा न मणागंवि पीडइ एस दुट्टसत्तो, तओ निरुविया जहकमं सोलसवि सहस्सा नरिंदाणं  
 सीहंपसरपडिक्खलणत्वं, गया य पहिद्धा करिसगा सट्टाणंमि । अण्णया य आसगीयो सुरसुंदरीविभमंमि अंतेउरी-  
 जणे वेसमणधणाइरेगे कोसविभवे अण्णसरिसे करितुरगाइरज्जंगे सुरवइसमंमि आणाइस्सरिण अचंतं मुच्छिओ  
 गिद्धिओ चिंतिउमारद्वो-किं मण्णे एरिससमग्गसामग्गीपरिवुडस्स परेण मणेणवि अणभिभवणिज्जस्स निचंपि अप्प-  
 मत्तचित्तअंगरक्खपरिक्खेवस्स अणुसुमरणमेत्तकरत्तलपाउअभवंतअप्पडिइयगइचक्काउहस्स ममावि संभवेज्ज कोइ वि-  
 णासकरणपचलोत्ति?, जइ ताव तं जाणेमि कहवि ता करेमि पडिविहाणं, रक्खेमि सवप्पयारेण अप्पाणंति संप-  
 हारिऊण आहुओ नेमित्तिओ, दावियमेगंते आसणं, निसन्नो सो तत्थ, सक्कारपुवं पुट्टो य सन्नायरेण, जहा भइ!  
 नेमित्तिय! सम्मं चिंतिऊण साहेसु, कोउवि अत्थि किं ममावि मच्चुकारी न वत्ति?, तेणवि य निमित्तवलेण अव-  
 लोइऊण भणियं-देव! पडिइयमंगलं, कहमणिट्ठं साहिज्जइ?, रत्ता वुत्तं-भइ! मां संखुम्भ, साहेसु जहापुच्छियं,  
 नेमित्तिणं जंपियं-जइ एवं ता अत्थि तुम्भंपि मच्चुकारी, रत्ता कहियं-कहं सो नेओ?, तेण वुत्तं-देव! जो सां-  
 लिच्छेत्तसीहं वावाइस्सइ तुहसंतियं च नीसेसमंडलाहिवसम्माणट्टाणं चंडवेगद्वयं धरिसेही सो निच्छियं मच्चुकारी

जाणियधो, सबप्पयारोहिं रक्खणिज्जो य, एयमायत्तिऊण रत्ता विसज्जिओ जेमिच्चिओ, सयंपि उवविट्ठो अत्थाण-  
मंडवे, पुच्छिया य अमयाइणो-अहो को संपयं नरवई दंडाहियो कुमरो वा अतुलनलपरकमो सुणिज्जइत्ति, तेहिं  
भणियं-देव! तुम्हाणंपि सयासाओ कोऽवि अतुलवलो? जेण साहिज्जइ, महीए सूरमंडले पहवंतंमि विप्फुरइ ता-  
रगगरूई?, राइणा भणियं-बहुयणा वसुंधरा, किमिह न संभवइ?, मंतीहिं भणियं-देव! निच्छियं न सुणिमो,  
सवणपरंपराए पुण सुणिज्जंति-पयावइनरिंदस्स कुमारा अनन्नसरिसपरकमा लीलादलियसेससोंडीरवलावलेवत्ति,  
एवमायत्तिऊण राइणा भणिओ चंडवेगो-जहा भइ! गच्छसु एयस्स राइणो सगासे साहेसु य तस्स अमुगं मम  
पओयणं, जं देवो भणइत्ति पडिच्छिऊण सासणं निग्गओ, गओ महया पुरिसपरियारेणं परिकिखत्तो पोयणपुरा-  
भिसुहं चंडवेगो। इओ य पयावइराया कयपवरसिंगारो परिहरियमहामुल्लदुगुलो कुमारपमुहपरियणाणुगओ अंते-  
उरमज्जे ठिओ चिठ्ठइ, वट्ठइ य तत्थ पेच्छणयं, केरिसं?—

विविहंगहारविभमविचित्तकरणप्पओगरमणिज्जं । रणझणिरमंजुमंजीरमणहरारावसंवलयं ॥ १ ॥

दढदेहायासवमुच्छलंततुट्ठंतहारसरिविसरं । भूमंगविभममुभडपसरियवहुहावभावभरं ॥ २ ॥

कलयंतकंठगायणपारद्धविमुद्धतारगेयसरं । ताडियपडुपडहुम्मिस्समंजुगुंजंतवरमुरवं ॥ ३ ॥

इय एरिसंमि तरुणीजणस्स नटंमि संपयट्ठंमि । अदिट्ठरूवपुवे संपन्ने परमरंगे य ॥ ४ ॥

मुत्तघ चित्तलिहियव लेवघडियव रञ्जनद्वेव्व । मइरामयनिप्फंदियव्व विमुक्कऽन्नवावारा ॥ ५ ॥

अणमिसनयणनिवेसा जणपरिसा तक्खणेण सा जाया । अइतुट्ठ तिविट्ठुकुमार रायलोएण सह झत्ति ॥ ६ ॥

एत्थंतरे सीरोयनिम्महणपंजंतुट्ठियविसुग्गारोव कंपियविबुहसत्थो कयंतोव अणियांरियागमणो पविट्ठो सो चंड-  
वेगाहिहाणो दूओ, तं च दट्ठूण ससंभममुट्ठिया, सामिदूओत्ति कलिऊण कया महती पडिवत्ती, पुट्ठो य आसग्गीव-  
नरिंदस्स सरीरारोग्गवत्तं, सिरसा पडिच्चियं सासणं, संवरियपेच्छणगवावारो नियनियगेहेसु गओ जणो, रंगभंग-  
करणेण य वाढं अमरिसिओ तिविट्ठुकुमारो, पुच्छिओ अणेण एगो पुरिसो-अरे ! को एस ? किं वा एयागमणेण अञ्भु-  
ट्ठिओ ताओ ? कहं वा पविसमाणो दुवारेचिय न रुट्ठो पडिहारेण ?, तेण भणियं-कुमार ! एसो खु रायाहिरायस्स पहा-  
णदूओ, अओ सामिघ दट्ठवोत्ति राइणा अञ्भुट्ठिओ, अओचिय पडिहारेणवि न खलिओ, एयाणुवित्तीए चेव सुहेणेत्थ  
नियसिअइ, पभुचित्ताणुवत्तित्तणं हि सेवगधम्मो, कुमारेण भणियं-जाणियधं कोऽवि कस्सवि पभू सेवगो वा, होउ  
ताव किं एएण ?, अनिघडियपुरिसायाराणं विफलो अत्तुकरिसो निरत्थओ तुंडमंडवो अणुचिओ भुयवलावलेवो अजुत्तो  
नेवत्थफडाडोवो, ता एयं एत्थ पत्तकालं-अरे ! साहेज्जसु तुमं मम जया एसो सनयराभिमुहं वच्चेज्ज, जेण करेमि  
एयस्स पाहुन्नयं, जं कुमारो आणावेइत्तिभणिऊण अञ्भुवगयं पुरिसेण, सो य दूओ गुणदोसे राइणा समं भासिऊण  
साहियनरिंदपओयणो परिगहियविचिहपाहुडो कयसक्कारसम्माणो चलिओ सनयराभिमुहं, अंतरा य गच्छंतो

विज्ञायगमणवइयेणं पडिरुद्धो तिविद्वुकुमारेण अयलपरिगणं, भणिओ य—

- रे दूयाहम ! जइदुद्ध धिट्ट पाविट्ट कत्थ वचिद्विसि । पेच्छणयरंगभंगं तइया काउं मम समकखं ? ॥ १ ॥  
निम्मग्ग ! गरुयराउलसेवणओऽविहु पभूयकालेणं । पत्थावापत्थावं न मुणसि किं सिक्खिओ तंसि ? ॥ २ ॥  
नियजण ! वयणविज्ञासपमुहगुणवित्थरेण उवहससि । सक्कगुरुंयि विद्वुकुह अन्नेव वियद्विगा तुज्झ ? ॥ ३ ॥  
ता पाप ! पावसु फलं सदुद्धचेट्टियतरुस्स दुविसहं । सुमरेसु य इट्ठदेवं माऽरुंयधम्मो धुवं मरसु ॥ ४ ॥  
इय मणिऊण तिविद्वू निद्वुरमुट्ठिप्पहारमुग्गिरिउं । जा हणइ नेव दूयं अयलेणं जंपियं ताव ॥ ५ ॥  
भो भो कुमार ! विरमसु गोहचंपिव विमुंच पयवहं । दूया रंडा भंडा कयावराहावि अहणणिजा ॥ ६ ॥  
ताहे भणिया पुरिसा ! रे रे सिग्गं इमस्स पावस्स । मोत्तूण जीवियव्वं सेसं अवहरह वत्थाइं ॥ ७ ॥  
पुरिसेहिं तओ कुमरस्स वयणओ लट्ठिमुट्ठिपभिइहिं । गहिऊण तं समत्थं घणाइयं अवहडं तस्स ॥ ८ ॥  
भयभरविदुरत्तणओ नियंसियं वत्थमविय से गलियं । भूमीए निवडणेणं धूलीए धूसरियमंगं ॥ ९ ॥  
अह खमणगोष सुणिउव्व पंडरंगोव्व तक्खणं जाओ । सो चंडवेगदूओ नियजीवियरक्खणट्ठाए ॥ १० ॥  
सेसो पुण परिवारो जीवियकंखी य पहरणे मोत्तुं । सयलदिसामु पलाणो दंसणमेत्तेऽवि कुमरस्स ॥ ११ ॥  
एयं च लुंचविलुंचियं काउं दयं वलिया कुमारा, जाणिया य वत्ता पयावइणा, तओ भीउच्चिग्गो चिंतिउमाढत्तो—

अहो असोहणं कयं कुमारेहिं, एयंमि पडिकूलिण परमत्येण आसग्गीवो पडिकूलिओ, अजहावलमारंभो मूलं विणा-  
 सस्स, न य कुमारावरद्धे मम निहोसत्तणं वयणसण्णवि कोऽवि पडिवज्जिही, पडिवज्जिणवि पयडो खलु एस वव-  
 हारो जं भियवराहे सामिणो दंडो, ता विसममावडियं, अहवा अलं चित्तिण, उवाओ चेव उवेयस्स साहगोत्ति-  
 निच्छिऊण आणाविओ दूओ, सविसेसं कया पडिवत्ती, समप्पियाइं महामोलाइं पाहुडाइं, कओ य चउग्गुणो  
 दाणक्खेवो, भणिओ य एमो-अहो महायस! वालभावसुलभनिवियेयत्तणेण जोषणवसविसंठुलचिद्धियत्तणेण राय-  
 कुलजम्मसहयदुल्लियत्तणेण य जइवि घाटं अवरद्धं कुमारेहिं तुम्हं तद्दहिं सवहा न कायवो चित्तसंतावो, न वो-  
 ढधो अमरिसो, मम निच्चिसेसोऽसि तुमं, डिमदुव्विलसियाणि न करिंति चित्तपीडं कइवि जणगत्थाणीयस्स, अहं  
 जणगो चेव एएसिं, उत्तरोत्तरगुणपगरिसारोहणं पुण तुमए इमेसिं कायन्वं, ता कुणसु पसायं परिहरसु अवमाणं,  
 दूण्ण भणियं-महाराय! किमेवमाउलो भवसि?, किं कोऽवि नियडिंभेसु दुव्विणयमासंकेइ?, पेमपरवसहियएसु  
 वा एगमवि अचराहं न मरिसेत्ति?, राइणा भणियं-एवमेवं, जाणामि तुज्झ चित्तचित्तिं लक्खेमि पडिवन्नभरधवल-  
 त्तणं, फेवलं तहा कायन्वं जहा देवो कुमारवइयरं न निसामेइ, इइ भणिण पडिवज्जिऊणं चलिओ चंडवेगो, कमेण  
 गच्छंतो पत्तो आसग्गीवनरिंदसमीवं,

अह पुषागवनरकहियकुमारवइयरनिसामणा रुसिओ । आवद्धभिउडिभीमो रत्तच्छो वेच्छिओ राया ॥ १ ॥

• नायं च जहा पुषागएहिं सिद्धो स वइयरो रत्रो । ताहे कयप्पणामो उवविद्धो सो नियट्टाणे ॥ २ ॥  
 पुट्टो य तओ रत्रा कहिओ नीसेसवइयरो तेण । जह कुमरोहिं पहओ अयाणमाणेहि निरवेक्खं ॥ ३ ॥  
 जइविट्ठु देवऽपरद्धं वालत्तणओ सुएहिं मम किंवि । तहवि पयावइनिवई अहिगं सोगं समुव्वहइ ॥ ४ ॥  
 चूडामणिष सीसेण सासणं तुम्ह धरइ विणयनओ । निभिच्च(म्भंत)भिच्चभावं सविसेसं दंसइ सयावि ॥ ५ ॥  
 न मुणिज्जइ जुवईणं मंजीररयो कयावि तस्स गिहे । मागहलोएणं तुह गुणनिवहं संथुणंतेण ॥ ६ ॥  
 किं बहुणा? महिवइणो मए सुदिट्ठा कया समग्गावि । किं तु नियसामिभत्तीए तुलइ नो कोऽवि तेण सप्तं ॥ ७ ॥

अह आसग्गीवनरिंदेण सुमरियं नेमित्तिगवयणं परिकंपिओ मणेणं, चित्तियं च-अहो भिव्वडियं ताव एगं नेमित्ति-  
 गवयणं, वीयंयिं जइ इत्यनेव हवेज्ज ता निच्छियं अकुसलंति परिभाविऊण आहूओ अवरो दूओ, भणिओ य जहा-  
 गच्छमु रे पयावइस्स सगासे, भणसु य तं मम वयणेण-जेण साळिच्छेत्तेसु करिज्जमाणेसु सबलवाहणो गंतूण केसरि  
 परिकखलहत्ति, जं देवो आणवेइत्ति भणिऊण निग्गओ दूओ, कमेण पत्तो पयावइस्स भवणं, सकारिओ रणणा, पुट्टो  
 य जागमणपयोयणं, साहियं च तेण सीहरक्खणरूवं नरिंदसासणं, अभुवगयं च पयावइणा, सट्टाणे य पेसिऊण  
 दूयं एवं उयालद्धा कुमारा—

पुत्ता ! अकाल एव हि तुम्हेहिं पवोहिओ धुवं मधू । आसग्गीवनरिंदस्स धरिसिओ जमिह सो दूओ ॥ १ ॥

तेणेव अयंडे चिय दारुणरूपा इमा ममावडिया । आणा कयंतविन्भमपंचाणणरक्खणाणुगया ॥ २ ॥

कुमारेहिं भणियं-ताय ! कहं मच्चू पवोहिओ ? , रत्ता भणियं-पुत्ता ! सुणेह, आसग्गीवनरिंदस्स सालिखेत्तस्स केसरी  
करिसगजणं विद्देइ, सो थ पइवरिसं वारोवारएण जहकमं सधनरिंदेहिं रक्खिज्जइ, संपयं पुण धरिसियदूयकुविएण  
आसग्गीवेण अपत्यावेधिय अहं समाइट्ठोऽम्हि, ता एयं मच्चूएपडियोहणंति, तेसिं कहिऊण समाठत्तं पयाणयं, एत्थं-  
तरे विन्नत्तं कुमारेहिं-ताय ! अम्हे वचामो, रत्ता भणियं-पुत्तया ! वालया तुम्हे, न जाणह अज्जवि कज्जाकज्जं, ता विर-  
मह इमाओ अज्जवसायाओ, अहं सयमेव वचिस्सामि, तेहिं भणियं-सवहा मोक्कलह, गंतवमवस्समम्हेहिं, महंतमेयं  
फोऊहलं, केरिसो सो केसरित्ति ? , राइणा भणियं-अरे पुत्ता ! हरिणं कमंडलनिकलंके कुले समुप्पत्ती कुवेरसमइरेगो धण-  
संचओ अविगलं आणाईसरियं कलाकलावंमि विमलंमि विमलं कुसलत्तणं समत्यमुत्तयेसु पवीणआ नीसेसेसु पहरणेसु  
परमो परिस्समो य नीरूमं वीरियं अप्पडिमा रूवलच्छी, एएसिमेगयरंपि उम्मग्गपवत्तणसमत्थं, किं पुण एगत्य  
समयाओ ? , एयाणि य सघाणिवि तुम्ह संति, ता एएहिं हीरमाणणं तुम्हाणं को पडिक्खलणकारी ? , जम्हा  
यद्धमच्छरा वेरिणो उस्सिखला खला अविभावणिज्जागमाओ आवयाओ अचंतं पमत्तचित्ता य तुम्हे, न ज्जाणिज्जइ  
केरिसो विवागो हयइ ? , अओ मुयह गाढग्गहंति, तेहिं भणियं-ताय ! हवउ किंपि, निच्छयं गंतवमम्हेहिं, तओ  
जिवारिज्वमाणावि चलिया कुमारा पहाणराइणा समेया कइवयकरितुरयरहपरियणपरियरिया, पत्ता य तेसु सालिच्छे-

१  
 त्तु जत्थ सो केसरी निवसइ, पुट्टा य तेहिं करिसगा-अरे किह अन्ने राइणो पुर्विं सीहं रक्खियाइया ? , तेहिं भणियं-  
 कुमार ! पयंडगुडाडोवमामुरोहिं पवरकुंजरोहिं पवणाइरेगवेगसुंदरंगोहिं जचतुरंगोहिं उडुंडगंडीवसेल्लभल्लिनारायकुंतपमु-  
 हपहरणहत्थेहिं मुद्धडसत्थेहिं विरइऊण तिउणपावारपरिक्खेवं अचंतमप्पमत्तचित्ता मरणमहाभयवेवंतसवसरिंरा केस-  
 रिगुहामुहनिहियानिमेसनयणा रक्खिसु नराहिया, तहा रक्खमाणणवि पइक्खणं सीहनायवससमुच्छलंतपडिसइयन्न-  
 णेण अयगणियत्तिकयंकुसपहारा करडितडपणट्टमयजला विहडंति करिघडा गाढपलितखलिज्जमाणाइं विदिसो  
 दिसिं फट्टंति तुरयधट्टाइं विमुक्कपोरिसाभिमाणाणि इट्टदेवयमणुसरमाणाणि सवओ पलायंति पायक्काणि, कुमारेण  
 भणियं-अहो महापरकमो अहो अनन्नविप्फुरियं वीरियं अहो ओहामियसयलसुहडदप्पमाहप्पं अहो भुवणच्छ-  
 रियं चरियं तस्स केसरिणो जं तिरियमेत्तस्सवि एवं परिसंकिज्जइ, अरे केत्तियं पुण कालं एवंविहपरिकिलेसेण एस  
 पडिक्खलिज्जइ ? , तेहिं भणियं-कुमार ! जाव सयलंपि करिसणं ण सगिहे पयिसइ, कुमारेण भणियं-भो करिसगा !  
 को वासारत्तदुपिसइसीयवायाभिहओ नियसुहिसयणपमुहपहाणलोयरहिओ चिक्खल्लोलंभि मेइणितले मेहमालाउले  
 दिसिबल्लए अणवरयं निवडंतीसु दिसियद्धमुत्तामणिहारविन्भमासु मुणीणंपि कयमयणवियारासु तंडवियसिंहंडिमंड-  
 लीसु विरहिणीहिययनिहित्तंगारासु वारिधारामु एत्तियं कालं पडिवालेहि ? , ता दंसेह तं पएसं जत्थ सो निवसइत्ति,  
 जं कुमारो आणावेइत्ति भणिऊण दूरट्टिणहिं चेव कहिया सा केसरिगुहा, तओ पुणो पुच्छिया कुमारेण-अरे ! केत्तिओ



तस्स परिवारो?, तेहिं भणियं-कुमार! नियसरीरमेत्तो, कुमारेण भणियं—जइ एवं ता  
 निरत्पयं धी धी वित्थरंति किं पत्थिया विगयलज्जा । नियभुयवलावलेवं गिज्जंतं मागहजणेण? ॥ १ ॥  
 पदुसुहडकोडिसंबुद्धहरिकरिसंमद्दलियमहिवट्टा । असहायं केसरिणं जमिमे न सरंति भयविहुरा ॥ २ ॥  
 एसो जयंमि धन्नो जणणी एयस्स चेव पुत्तमई । जस्स गळगज्जिण्णवि गरुयापि मुयंति नियजीयं ॥ ३ ॥  
 जस्सगनियारियपसरं पोरिसमेयंपिहं परिष्फुरइ । एगागिणोऽवि स कहं न लहइ पंचाणणपसिद्धिं? ॥ ४ ॥  
 इय सुचिरं तं पमंसिऊण गरुयकोऊहलाऊरिच्चमाणमाणसो नियत्थियसेसपरियरो रहवरारूढो चलिओ गुहा-  
 मिमुहं कुमारो, कमेण य म पत्तो गुहादेसं, एत्वंतरे दंसणकोउगेण मिलिओ वडुलोगो, ठिओ उभयपासेसु,  
 फओ महंतो फोलाहलो, जइ कळयलायन्नणजायनिहाविगमो जंभाविदारियरउद्दवयणो परिभुत्तकुरंगरुहिरपाडलु-  
 ग्गारदाढारूढप्पेण संशारुणससिरूळं व विडंयमाणो पडिधुणियरूढारकेमरो सदुब्भडकंवरो उच्चिद्धिरमहल्लंगूलपेल्लि-  
 ताडियधरणितडारावयहिरियदियंतरो पट्टमपाउसमेहोष गच्चंतो उट्ठिओ केसरी, लीलाए मंदं मंदं कुमारदुत्तमव-  
 लोइउं पचो य, तिप्पिदूप्पि निरुययंतो फलभरेण व सस्सं निमुणंतो केयाररक्खिगाजणरासए करंतो तस्साळावं  
 पेच्छंतो काणणरम्मयं ताव गजो जाय नियडिओ चस्सुगोफरे स सारंगाहिवो, तं च दद्रूण चित्तियं कुमारेण—अहो  
 एम महाणुभावो महीए चरणेहिं परिसइ, अहं पुण पयरतुरयसंपग्गहियं विचित्तपहरणपडिहत्थं रणञ्चणिरकिंकिणी-

जालमंपरिचित्तं संदणं अधिरुद्धो, ता विसरिमं जुञ्जं, न जुचमेयं उंचमाणंति भावितो कुवियकयंतजीहाकरालं  
 अयमिहसुमप्यगासं करवालं गदिऊण दाहिणरुरेण वामेण य पडिपुण्णचंदमंडलविन्ममं फुरंतफारतारगाभिरामं फरगं  
 च ओयरिऊण रहाओ ठिओ भूमीए, ताहे पुणोऽवि चित्तेइ-एस वराओ वयणंतरनिगूढदाढाकरपेरंतकुंठकुडिलनह-  
 मेत्ताउहो जहं तु तिक्खग्गखग्गफलगहत्थो, एयमवि न जुत्तिजुत्तंति विभाविऊण खग्गं फलहगं च परिचयइ, एत्थं-  
 तरंमि दद्रूण तारिसं वइसमं तिक्खिदुस्स उप्पन्नगाढकोमो सीहो चित्तेउमाढत्तो—

कह मत्तगहागायंगतुरयरइजोहवूहरयणेणं । रक्खिज्जंतोऽहमहो महायरेणं महीवइहिं ॥ १ ॥

कह मज्झ दंसणपहे कीणासस्स व न कोइ निवडंतो । सुद्धुवि पगिद्धवलदप्पिओऽवि रणकम्मरसिओऽवि ? ॥ २ ॥

कह एण्हिं दुद्धमुहो तत्थवि णवणीयकोमलसरीरो । तत्थविय तुरगरुरिवरपकलपाइकपम्मुको ? ॥ ३ ॥

तत्थवि य अवन्नाए ओयरिऊणं रहाओ पवराओ । अइवियइं लीलाए भासमाणो महिंमि ठिओ ॥ ४ ॥

तत्थेव य समुयत्तावलेयमुक्कप्पहरणाढोवो । मसंगं मं गणंतो एसो पविसइ मम गुहाए ॥ ५ ॥

किं वा जीयंतोहिं नो दीसइ किं सुणिज्जए नेव । जं एरिसावि दावेंति संपयं मज्झ अवमाणं ? ॥ ६ ॥

जइवि दु कुंजरसिरदारणोचिया मज्झ कुडिलनहनिसिहा । तहविहु इमस्स दंसेमि गाढदुब्बियणसाहिफलं ॥ ७ ॥

इय चित्तिऊण गलगज्जियरवेण फोडितोष वंमंडमंडोयरं, पुच्छच्छडाच्छोडणेण दलितोष मेइणीतलं, विडंबिय-

गयणदादामऊहनिवहेण भरंतोच्च गयणंतरालं रत्तनयणपद्मासरेण अयंडनिवडंतविज्जुदंडुडामरं व करंतो दिसिचक-  
 पानं गेगागमणससिसंडुडुलंतकेसरभारेण अंतरे अमायंतं व कोवनिवहं उगिरंतो सज्जियदीहरकमुखासवसवि-  
 मेगभाभोयरत्तणेण अंतरा तुट्टिऊणं व अग्गकाएण गसिउकामो एगहेलाए भुवणजणंकवलणकए कयंतुव्व भासमाणो  
 शुद्धत्ति पत्तो तिविद्वुहुमारस्स मुणालकोमलकरुमलगोयरं, तओ तिविद्वुणा एगेण करेण हेट्टिलोद्वुपुडं अवरणुत्तरोट्टं  
 जणायेण गहिऊण जिण्णपडं व परिमडियपंडुपत्तं व भुज्जतरुतयं व दुहा तडयडत्ति फालिऊण परिमुक्कोत्ति, एत्थं-  
 तरे उक्खिमीहनाओ जयजयरवो यं कओ लोएणं, अन्नं च—

गंधन्यजफनरकसमविजाठरकिन्नोरेहिं गयणंमि । रिफमदंसणसंजायहरिसपप्फुल्लनयणेहिं ॥ १ ॥

पहयाइं पडहकाहलमुयंगडुंदुद्विपमोक्खतूराइं । कओ य जयजयरवो अहो सुजुज्झंति भणिऊण ॥ २ ॥

तियगंगणाहिं पियमियहुसलपदलदामदीहरच्छीहिं । मुफ्फा य कुमुमपुट्टी दसद्ववन्ना भसलमुहला ॥ ३ ॥

मणिमउठरुणयकुण्डलरुडिमुत्तयतुडियहारपमुहाइं । पयराभरणाइं लहुं सुरेहिं दिन्नाइं कुमरस्स ॥ ४ ॥

तथा—गिज्जंतुदामगुण विविहविलागुलमंतगोरजणं । नयंततरुणिसत्थं जायं रणंपि सुपसत्थं ॥ ५ ॥

नो य मीहो तथा दुहाकओउवि गरुयाभिमाणेण परव्वमनरीरो फुरफुरंतो विचित्तेइ-एवं नाम अहं निराउहेण  
 एगागिणा कुमारेमेत्तेण अजुग्घेणं टीलाए विणिहओ, अहो मम फाउरिमत्तणं अहो असात्थं अहो निस्सारसरी-

रत्तणं अहो दइवविपरंमुहया, सब्बहा निरत्थयमुबूढो सारंगरायसहो एत्तियं कालं, दुट्टु दुट्टु एरिसजीविणंति, एवं  
च तस्स फुरुफुरायमाणस्स मुणियतदभिप्पाएण कुमारसारहिणा भणियं महुरसरेणं—

भो भो लीलानिहलियमत्तमायंगुंगंवसमूह ! । सारंगराय ! निप्पडिमसत्तिवित्तासियविपक्ख ! ॥ १ ॥

अविलंधियसज्जियकमनियवलपरिभूयनरवइसहस्स ! । सप्पुरिस ! कीस एवं निरत्थयं अमरिसं वहसि ? ॥ २ ॥

मा मुणमु जहा एएण वालरूयेण विणिहओऽहमिह । जं एसो नियकुलनहयलेक्कचंदो जणाणंदो ॥ ३ ॥

वररायलक्खणधरो समग्गवीरग्गणी गुणावासो । निट्टुरभुयदंडवलो तिविट्ठुनामो वरकुमारो ॥ ४ ॥

भावी भरहद्धवसुंधराएँ सामित्तणेण परिकहिओ । पढमं चिय सुमिणयपाढएहिं किर वासुदेवोत्ति ॥ ५ ॥

तं मिगसीहो भइय ! एसो पुण नरसमूहसीहोत्ति । सीहे सीहेण हए कां अपसिद्धी ? किमवमाणं ? ॥ ६ ॥

अह सो केसरी इमाणि सारहिवयणाणि महुमिव अमयंपिव सवणपुडएहिं सम्मं पाऊण उवसंतचित्तो मरिऊण  
नरगे नेरइओ उववन्नो । सो य किर सारही एत्त काले भगवओ महावीरस्स पत्तितित्थयरत्तस्स पढमो गणहरो  
गोयमनामो भविस्सइ । तिविट्ठुकुमारोऽवि तं सीहचम्मं गहाय पट्टिओ सनयराभिमुहं, गच्छंतेण य भणिया करि-  
सगा, जहा--रे इमं केसरिचम्मं गेणिहऊण समप्पेज्जह घोडयगीवराइणो, भणेज्जह य तं जहा--वीसत्थो निब्भओ  
मुंजेयु सालिभोयणं, जायं संपइ अणावाहंति । पडिवन्नं च करिसगेहिं, तिविट्ठुवि गओ सनयरंति, पयावइं पण-

मिऊण फहिओ सयल्लुचंतो, जाओ पुरे पमोजो । ते य करिसगा गया आसग्गीवसयासे, निवेइओ पयावइसुय-  
 विणासियसीहवइयो, एवमायन्निकण य खुभिओ मणंमि राया, चिंतिउमाढत्तो-अहो पडिपुत्तं नेमिच्छिगाइत्तं संपइ  
 संविहाणगदुगं, ता निच्छियं पयावइसुआओ मम भयं, किं पुण कायवं?, निउडइ इयाणिं जमरायस्स दंडो, विइडइ  
 सुउडगुणरज्जुनिगडियावि रायलच्छी, विलोत्तंति दाणमाणवमीकयावि सेउगा, विवरंमुहे विहिंमि किं किं न चा  
 होइ?, केवलं अज्जवि न मोत्तव्या बुद्धिपुरिसयारा, जेण एएहिं भाविणोऽवि अणत्था उवहणिज्जंति गलियाओवि  
 संपयाओ पुणरवि पाउच्चमंति, तम्हा न जुत्तमुवेक्खणं, जावज्जवि लहुओ वाही ताव चिगिच्छणिज्जो, नहि लहु-  
 ओत्ति जलणफुल्लिगो न उहइ केलासगिरिगरुयंपि दारुरासिं, न वा परिच्चविजमाणोवि दिट्ठिविसभुयंगपोयगो न  
 विणासं पयच्छेज्जा, ता इमं पत्तकालंते पयावइसुए उवल्लोभपुच्चयमिह आणावेऊण विस्संभिऊण य दाणसम्माणा-  
 ईहिं विणासाविज्जंतिच्छि संपहारिऊण य तेसिं आणयणनिमित्तं चाहरिओ दूओ, भणिओ य-अरे पयावइं एवं भणि-  
 ज्जासि-तुमं हि असमत्थो सेवाए, ता सिग्घं कुमारे पेसेहिं जेण तेसिं इयरा सामंतभुत्ती दिज्जइ, जइ पुण न पेसेसि  
 ता जुज्जसज्जो होज्जाहित्ति, जं सामी आणावेइत्ति पडिउज्जिऊण निगगओ नयराओ दूओ, कमेण य पत्तो पोयण-  
 पुरं, दिट्ठो राया, कयसक्कारो उवविट्ठो आसणे, पुच्छिओ य पयावइणा आगमणकारणं, तेण भणियं-राया आस-  
 ग्गीवो आणवेइ-तुमं जराज्जरियसरीरो अचंतं परिणयवओ आपसदाणाणुच्छिओ य ता पेसेसु निवसुए जेण ते

सहत्वेण पूएगि, वरकरितुरगनगरागरगामदाणेण य करेगि गरुयदेसाहिवे, एवमायन्निकुण चित्तिथं वभावइणा—अनु-  
लवलो आसग्गीवो दुराराहणिज्जो असमिक्खियतिकखदंडनिवाडणदुविसहो य, अदिट्टपरभया य मम कुमारा, धिसे-  
सेण तिविदुत्ति विभाविऊण भणिओऽणेण दूओ—भइ ! कुमारा न मुणंति सेवाविहिं न जाणंति वत्तध्वंघिसेसं न लक्खंति  
उचियाणुचियं न खमंति नरिंदाएसमणुट्टिउं, ता अहं सयमेव सवलवाहणो सामिसालं ओलरिगस्सामि, तेण भणियं—न  
एस आपसो पभुस्स, किं वा तुज्झ इमिणा मुणीणांवि दुक्करेण सेवाधम्मणेण ? उवभुंजसु निरंतरमंते उरमज्झगओं जहि-  
च्छियं विसयसोक्खं, कुमाराधि तत्थ यया सपहुपसाएण जइ पाउणंति रायलच्छि ता किमिव अकल्लाणं तुहं हवे-  
ज्जा ? जओ देवो आसग्गीवो सीहवइंयरनिसामणेण परमंसंतुट्टहियओ काराविउं इच्छइ महामंडेलोवभोगं आरोविउं  
समीहेइ समुच्चपीलुखंधे काराविउं वंछइ पाणिग्गंहंणंति, राइणा विचिंतियं—अहो एस दूओ इंदवारुणीफलंपि  
वाहिं रमणीयं अर्द्धिभतरदुहविवागं उभयरुवं भासइ, ता सबहा दुहावहमेयं, सम्मं परिवालोयणिज्जं, अइरहसरुथ-  
फज्जाइं पज्जंतदारुणाइं हवंतीति निच्छिऊण पेसिओ दूओ निययआवासे, ठिओ सयमेगंते, वाहराविवा विसमत्थनि-  
णयकरणतिकखबुद्धिणो मंतिणो, सुहासणासीणा य भणिया—अहो आसग्गीवो मम एवमाणवेइ-कुमारे सिग्घं  
पेसेहित्ति, ता साहेइ किमिह करणिज्जं ? मंतीहिं भणियं—देव ! उहामपरकमो गूढमंतप्पयारो य आसग्गीवो, तुम्हे

१ परमसंतुट्ट परे असंतुट्ट. २ मण्डलं-देवा. यत्रं च ३ पीलु-खणं वृक्षश्च ४ पाणिग्रहणं विवाहः करबन्धश्च

पुण तस्सेव सेवगा अणउरयं आणानिहेसवत्तिणो अप्पवला य, ता को तेण सह विरोहो?, ससत्तीए अणणुरूवकोव-  
करणं हि निदाणं विणासस्सं, राइणा भणियं—जइ एवं ता पेसिज्जंतु कुमारा, मंतीहिं भणियं—देव! असंजायवला  
सेवाविहिअणभिन्ना य कहं पेसिज्जंति?,

अन्नं च—जइविहु अइविसमत्यप्पसाहणे होज्ज कहयि लच्छीयि। तहविहु भुयंगभीमे विलंमि न खियेज्ज कोऽवि करं ॥ १ ॥

अमुणियगम्मागम्गप्पयारमविगलियकलुसदोसं च। नरवइचित्तं सलिलं च कुणइ निन्नेसु नूण रइं ॥ २ ॥

फप्पासकणिक्काणं च सा णो पररुज्जसाहिगा सेवा। उभयत्यविणासणकारिणी उ सेवा नरिंदाणं ॥ ३ ॥

जह भणियविहाणपरंसुहाण पुरिसाण सिट्ठिलचित्ताणं। दुस्साहियव्व विजा विणासमचिरा कुणइ सेवा ॥ ४ ॥

इय देव! नरिय कुमराण जोग्गया क्काऽवि सामिसेवाए। ता संठवेह दूयं सिणेहवग्गूहिं वग्गूहिं ॥ ५ ॥

इइ युत्ते पयावइणा आहूओ नरिंददूओ, भणिओ य सामवयणेहिं, जहा—भइ! गच्छ तुमं साहेसु आसग्गी-  
यस्स, अणुचिया तुम्ह सेवाए कुमारा, पयावई सयमेव ओलग्गिहित्ति, दूएण भणियं—भो पयावइ! किमेवं पित्त-  
पलाविओ इयं पुणरुत्तं वाहरसि?, कुमारे पेसेसु, जुज्जसओ वा हवसु, एस देवस्स आपसोत्ति भणिऊण निग्गओ  
दूओ, अंतरे य दुषयणायत्तणेण रुट्ठेण तिविदुणा कुमारेण निदुरलट्ठिमुट्ठिप्पहारेहिं इणिऊण कंठे घेत्तूण य अवहारेण  
निद्धाडिओ, पत्तो य कमेण आसग्गीवनरिंदमंदिरं, निवेइओ निस्सेसो पयावइवइयरो, तमायत्तिऊण परिकुच्चिओ

राया, सुभिया य सहा, कहं ?—

अणवरयविणिंतुहामसेयविंदुम्भडं मुहं सुहडो । परिमुसइ कोऽवि कोवुग्गमेण अहियं दुरालोयं ॥ १ ॥

नवकुवलयमालाविम्भमंभि निम्मलपहंभि करवाले । निवडइ य भंमररिंछोलिसच्छहा कस्सवियं दिट्ठी ॥ २ ॥

परपक्खकूखोभकरिं कोवसिहाडंवरेण भयजणणिं । पचक्खं नियसत्तिं व कोऽविं सत्तिं करे घरइ ॥ ३ ॥

कस्सवि निडालवद्धं रेडुकडभिउडिभंगदुप्पेच्छं । खयसमयसमुग्गयराहुमंडलं सहइ गयणं व ॥ ४ ॥

केणावि कुलिसनिट्ठुरमुट्ठिपहारेण ताडिया धरणी । अविणीयधारणेणं कयावराहघ कंयेइ ॥ ५ ॥

संभावियरणरसनिस्सरंतरोमंचपीघरकरस्स । चिरपरिहियाइं कस्सवि विहडंति य कणयकडयाइं ॥ ६ ॥

कोऽविडु मच्छरसंभारतरलियं वयणभासणसयणहं । कट्ठेण दसणदट्ठोदुसंपुडेणं खलइ जीहं ॥ ७ ॥

इय ज्ञाया कोवभरुल्लसंतदेहाण विविहकिरियाओ । संगामसंगमुकंठियाण सुहडाण तवेळं ॥ ८ ॥

एत्थंतरे भणियं आसग्गीवेण—अरे उवेक्खियाणं दुरायाराणं एस धिय गई, को तस्स दोसो?, अन्नहा—  
नियधूयापरिणयणावराहकालेऽवि जइ तमहं निगिण्हंतो ता किं एवं पसरं लहंतो, तथा—जो नियधूयं कामेइ  
सो नियसामिंपि दुहइ किमजुत्तं? । किं वा एएण?, इयाणिंपि विणिवाएमि एवं महापावकारिणं, ता रे ताडेह  
पत्याणविजयढक्कं, पगुणीकरावेह कुंजरसाहणं, संजत्तावेह तुरयघट्टाईं, जोत्तावेह संदणगणं, वाहरावेह समग्गं



नखद्वग्गति, वयणाणंतरमेव कथं पगुणं सयलं किंकरजणेण, एत्थंतरे गओ राया मज्जणधरं, परमविभू-  
 ईए कथं मज्जणं, नियंसियाइं कासकुसुमसुंदराइं अंवराइं, वद्धाइं केसेसु सुरदिकुसुमाइं, कओ सवंगिओ चंदणर-  
 सेणंगरागो, विहिओ पुरोहिण्ण असिवोवसमनिमित्तं संतिकम्मविही, खित्ता दोषकखया सिरे, पइट्टिओ पुरओ मंगल-  
 कलसो, दंमियं पयपुण्णभायणं, लिहिया अट्टमंगलयां, उवणीओ य आधोरणेण सिंगारियसरीरो सिंदूरपूरारुणकुंभ-  
 त्थलो गंडयलगलंतमयजलो वइरिदलणदुद्धरो जयकुंजरो, तंमि आरूढो आसग्गीवो, धरियं फारफेणपुंजुज्जलं नियप-  
 रिमंडलविजियपडिपुण्णचंदमंडलं लंवंतमुत्ताइलकलावावचूलयं सिथायवत्तं, टिया य उभयपासेसु चामरग्गाहिणीओ,  
 वंजियाइं दिसिकुंजरगलगज्जिगंभीराइं भंभासुगुंदमइलदक्कापमूहतुराइं, टिओ पत्थाणंमि पत्थिवोत्ति । एत्थंतरे—

चलंतकण्णचामरा पयंडदप्पदुद्धरा, गलंतगंडमंडला तमालनीलसामला ।

जलंघणिज्जयिक्कमा महागिरिंदविन्भमा, रणंतवद्धघंटया महागयाणुपट्टिया ॥ १ ॥

पलंघपुच्छसोहिया असेससिक्खगाहिया, सुवेयतुट्टसामिणो समीरवेगगासिणो ।

विसिट्ठलक्खणंफिया परेण नो निरिक्खिया, दिणिंदयाइविन्भमा पयट्टिया तुरंगमा ॥ २ ॥

विचित्तचित्तवंपुरा महाउंहोइनिग्गरा, जओवलंभपच्चत्ता रणंतकिंकिणीकुला ।

निटीणभूरसत्थया पगिट्ठकेउमत्थया, दुसज्जवेरिमहणा पवाहिया पसंदणा ॥ ३ ॥

सरासिचक्रधारिणो विपक्खसूरदारिणो, ससामिभत्तिमंतया अईव जुत्तिजुत्तया ।

जपकलाभलालसा अर्चितणिज्जसाहसा, सरीरवद्धकंकडा पयट्टिया महाभडा ॥ ४ ॥

अह लाडचोडमरहट्टकच्छकालिंगपसुहनरवइणो । आणामेत्तेणं चिय समुज्झियासेसनियकजा ॥ ५ ॥

सन्नद्धवद्धकवया बहुपहरणसालिणो जयपसिद्धा । आसग्गीवसयासं पत्ता सयलेणवि वलेणं ॥ ६ ॥

एवं च समग्गसंवाहगे जाण द्वावियं रण्णा पयाणयं, चलिओ खंधावारो, गच्छंताण य सहसच्चिय समुच्छलियं  
खरसमीरणंदोलणेणं, निवडियं छत्तं भग्गो दंडो गयणंगणाओ फारफुल्लिगदारुणा पडिया उक्का, दिवसेच्चिय उल्लसिया  
तारया, जायं रुहिरवरिसं, निरब्भंमि चैव अंवरें फुरिया सोयामणी, अविण्णायसरूवो तडत्ति विहडिओ जयकुंजरो, नि-  
न्निमित्तं चिय जलणजालाकलावेण कवलियाइं जचतुरंगमपुच्छाइं, परिगलिया सयमेव भग्गदंडा जयपडाया, जाया य  
पलीणमयजला हत्थिमंडली, अणवरयरेणुवरिसदुरालोयं विच्छाइभूयं दिसाचक्रं, अंसुप्पवाहो मुक्को देवयापडिमाहिं,  
परोप्परं हसियाइं चित्तकम्मरूवाइं, उहुमुहेहिं दीणस्सरं परुन्नं सारमेप्पहिं, एवमाईणि उप्पन्नाणि बहूणि असिवाइंति ।

ताहे असिवनिरिक्खणसंजायमहाभया कुसलमइणो । आसग्गीवणारिंदं भणन्ति विणजोणया सचिवा ॥ १ ॥

देव ! हिमं व विलिज्जइ पयावमेत्तेण तुम्ह पडिवक्खो । किमकंडविट्ठरकरो पारद्धो समरसंवाहो ? ॥ २ ॥

तुह तुरयखरखुब्धुयरयपडलेणं पणट्टकरपसरो । सूरुोवि अंतरिज्जइ को अत्तो जो परिप्फुरइ ? ॥ ३ ॥

ता मुयह विजयजतं नयराभिमुहं लहुं नियत्तेह । असियोवसमनिमित्तं कीरंतु य होमजागाई ॥ ४ ॥

नहु एरिस जमिवेहिं कोसलं किंपि देव ! पेच्छामो । पूरिअंति किमेवं सत्तूण मणोरहा धणियं ? ॥ ५ ॥

एवंगाइत्तिऊण मणियं रत्ता—भो भो किमेव वाउलत्तणं तुम्हे निन्निमित्तं पडिवत्ता ? किं न मुणह मम भुय-  
दंडपरकां ? न वा सुमरह चिरपभूयसमरसम्मदविद्वियपडिवक्खसंपत्तविजयं ? न वा पेच्छह अपरिकलियसंखं भरिय-  
निण्णुत्तयमद्विभिभागं महोदहिमल्लिंषि व चाउहिंसिं पसरियं चाउरंगं वलं ? किमिव अट्टाणे चिय भायह, किं वा  
मनयराभिमुहं मं नियत्तायेह ? न हि पारद्वत्तुपरिचाइणो सलहिज्जंति पुरिसा, न य तहाविहसंदिद्धकइवयअमं-  
गउत्तेत्तेगि सुम्मंति पीरा, जजो—

गहमनचरियं सुमिणाण दंसणं देयवाण माहप्पं । मुणखररसियप्पमुहा सउणा य तहा जणपसिद्धा ॥ १ ॥

उत्तानिउणरुदिराइवरिगपमुहाइं दुन्निमित्ताइं । सघाईं घुणक्खरसंनिभाइं को तेसि भाएज्जा ? ॥ २ ॥

ता पीरा होह, निवाडेगि नीसेसदुन्निमित्तसत्थं मत्थए पयावइस्स, इत्ति भणिऊण विमुगरियनिमित्तिगवयणो  
अपस्संभवियव्यवाए पिणागस्स पडिक्खलाए देवविलसियस्स वारिज्जमाणोऽवि पुराणपुरिसेहिं पडियल्लिज्जमाणोऽवि  
कुमउणेहिं सोररोहं नियत्तिज्जमाणोऽवि अंतेउरजणेण उत्तभंगं मुणाविज्जमाणोऽवि निमित्तपाढगेहिं सयलवलसमेओ  
गंतुं पयट्ठो, फमेण य पत्तो सदेससीमासंरत्तिणं रहावत्तपययदेसं, तदिं च संघारारनियेसं कारायेऊण वाहराविओ

दूओ, भणिंओ य-अरे गच्छुमु पयावइस्स सगासे, भणमु य तं-एस आगओ आसग्गीवो राया जुञ्जसज्जो बट्टइ, सिग्गं संमुहो एहि, कुमारपेसणेण संमाणं वा करेहि, मा अरालेचिय कुलक्खयं जणेसुत्ति, जं देवो आणवेइत्ति पडिच्छिऊण से सासणं नीहरिओ दूओ, कमेण य गओ पयावइस्स मूलं, कहिओ णरिंदाएसो, रुद्धो तिविद्धुकुमारो, भणित्तात्तो य—

रे दूय ! तुममवज्जो निम्भयचित्तो ममोवरोहेण । घोडयगीर्वं गंतुं फुडक्खरं भणसु वयणभिमं ॥ १ ॥

मा होहिसि विगयभओ बहुपरिवारोत्ति चिंतिउं अचिरा । सीहोव मइसिलिंवं एस तिविद्धू तुमं हणिही ॥ २ ॥

अज्जवि पयावइनियो नियनामत्थं फुडं सुमरमाणो । रक्खइ तं जइ परिहरसि निट्ठुरत्तं वहसि पणयं ॥ ३ ॥

अहउभिणिविद्धमईणं मुट्ठु भणियंवि दोसमावहइ । ता किं निरत्थएणं सिक्खादाणेण एएण ? ॥ ४ ॥

दूएण तओ भणियं अज्जवि दुस्सिक्खिया दढं तुम्हे । न मुणह देवस्स वलं तेणेवमसंकमुल्लवह ॥ ५ ॥

अह पयावइणा भणियं-भइ ! वच्च नियनरिंदसगासं, साहेसु य जहा-एस आगओ पयावइत्ति, एवमाइत्तिऊण निग्गओ दूओ, राइणावि काराविओ सेन्नसंवाहो, तओ पक्खरिज्जंतदप्पियवग्गततुरंगमं गुडिज्जंतगयघडं समरपरि-  
हत्थुच्छइंतफारफारकचकं चंडगंडीवगुणज्जणकारमुहलुच्छलंतघणुद्धरं रहारूढपवरवीरं नाणाउहहत्यसमुत्तरंतसुहड-  
सत्थं चलयं चाउरंगं वलं, तेण य परिवुडो पयंडगुडाडोवभासुरकुंजरकंधराधिरूढो नीहरिओ पुराओ पयावई, एत्थं-

ता मुयह विजयजत्तं नयराभिमुहं लहुं नियत्तेह । असिवोवसमनिमित्तं कीरंतु य होमजागाई ॥ ४ ॥

नहु परिस असिनेहिं कोमउं किंवि देव । पेच्छामो । पूरिजंति किमेवं सत्तूण मणोरहा धणियं ? ॥ ५ ॥

एयंगाइत्तिऊण भणियं रत्ता—भो भो किमेव वाउलत्तणं तुम्मे निन्निमित्तं पडिवत्ता?, किं न मुणह मम भुय-  
दंडपरफमं? न वा सुमरह चिरपभूयसमरसम्मद्विहवियपडिवक्खसंपत्तविजयं? न वा पेच्छह अपरिकलियसंखं भरिय-  
निष्णुत्तयमहिविभागं महोदहिसलिलंपि व चाउद्विस्सिं पसरियं चाउरंगं वलं?, किमिव अट्टाणे चिय भायह, किं वा  
सनयराभिमुहं मं नियत्तावेह?, न हि पारद्वयत्थुपरिचाइणो सलहिव्वंति पुरिसा, न य तहाविहसंदिद्धकइवयअमं-  
गलमेत्तेणपि तुम्भंति धीरा, जजो—

गहगणचरियं सुमिणाण दंसणं देवयाण माहप्पं । मुणखररसियप्पमुहा सउणा य तहा जणपसिद्धा ॥ १ ॥

उक्कानिवटणरुहिराइवरिसपमुहाइं दुन्निमित्ताइं । सप्पाइं पुणक्खरसंनिभाइं को तेस्सि भाएज्जा? ॥ २ ॥

ता धीरा होह, निवाडेगि नीसेसदुन्निमित्तसत्थं मत्थए पयावइस्स, इत्ति भणिऊण विमुमरियनिमित्तिगवयणो  
अपस्संभवियच्चयाए विणासस्स पडिक्कळयाए देवविलसियस्स चारिज्जमाणोऽपि पुराणपुरिसेहिं पडिखलिज्जमाणोऽपि  
कुसउणेहिं सोचरोहं नियत्तिज्जमाणोऽपि अंतेउरजणेण छत्तमंगं मुणाविज्जमाणोऽपि निमित्तपाढगेहिं सपलवलसगेओ  
गंतुं पयट्ठो, कमेण य पत्तो सदेससीमासंनत्तिणं रहायत्तपधयदेमं, तहिं च संघावारनिवेसं कारयेज्ज वाहराविओ

दूओ, भणिंओ य-अरे गच्छसु पयावइस्स सगासं, भणसु य तं-एस आगओ आसग्गीवो राया जुञ्जसज्जो वट्टइ,  
सिग्घं संमुहो एहि, कुमारपेसणेण संमाणं वा करेहि, मा अकालेच्चिय कुलक्खयं जणेसुत्ति, जं देवो आणवेइत्ति  
पडिच्छिऊण से सासणं नीहरिओ दूओ, कमेण य गओ पयावइस्स मूलं, कहिओ णरिंदाएसो, रुट्ठो तिविट्ठुकुमारो,  
भणिउमाढत्तो य—

रे दूय ! तुममवज्जो निब्भयचित्तो ममोवरोहेण । घोडयगीयं गंतुं फुडक्खरं भणसु वयणमिमं ॥ १ ॥

मा होहिसि विगयभओ बहुपरिवारोत्ति चिंतिउं अचिरा । सीहोव मइसिलिंवं एस तिविट्ठु तुमं हणिही ॥ २ ॥

अज्जवि पयावइनियो नियनामत्थं फुडं सुमरमाणो । रक्खइ तं जइ परिहरसि निट्ठुरत्तं वहसि पणयं ॥ ३ ॥

अहउभिणिविट्ठमईणं सुट्ठु भणियंपि दोसभावहइ । ता किं निरत्थएणं सिक्खादाणेण एएण ? ॥ ४ ॥

दूएण तओ भणियं अज्जवि दुस्सिक्खिया दढं तुम्हे । न मुणह देवस्स वलं तेणेवमसंकमुल्लवह ॥ ५ ॥

अह पयावइणा भणियं-भइ ! वच नियनरिंदसगासं, साहेसु य जहा-एस आगओ पयावइत्ति, एवमाइन्निऊण  
निग्गओ दूओ, राइणावि काराविओ सेन्नसंवाहो, तओ पक्खरिज्जंतदप्पियवग्गतुरंगमं शुडिज्जंतगयघडं समरपरि-  
हत्युच्छंतफारफारक्कचक्कं चंडगंडीवगुणज्झणकारमुहलुच्छलंतघणुद्धरं रहारूढपवरवीरं नाणाउहहत्यसमुत्थरंतसुहड-  
सत्थं चलयं चाउरंगं वलं, तेण य परिवुडो पयंडगुडाडोवभासुरकुंजरकंधराधिरूढो नीहरिओ पुराओ पयावई, एत्थं-

ता मुयह विजयजय

ननु एरिग जमियेहिं कोमलं किं पि य

एवमाइतिऊण भणियं रत्ता—भो भो किमेव वाउलत्तणं तुम्हे निन्निमित्तं पडियत्ता?, किं न मुणह मम भुय-  
दंडपरफणं? न वा मुमरह विरपभूयसगरसम्मइविइयियपडिवस्ससंपत्तविजयं? न वा पेच्छह अपरिक्कलियसंरं भरिय-  
निष्णुत्तयमहिविभागं महोदहिसल्लिलं पि य चाउदिसिं पमरियं चाउरंगं वलं?, किमिव अट्टाणे धिय भायह, किं वा  
मनयराभिमुदं मं नियत्तायेह?, न हि पारद्वत्तुपरियाइणो सल्लहिवंति पुरिमा, न य तहाविहसंदिद्धरुइययअमं-  
गलमेत्तेणपि मुष्मंति वीरा, जजो—

गहगणचरियं मुमिणाण दंमणं देवयाण माहप्पं । मुणस्वररमियप्पमुहा सउणा य तहा जणपमिद्धा ॥ १ ॥

उक्कानिवठणरुहिराइरिमपमुहाइं दुत्तिमित्ताइं । सपाइं शुणकएरसंनिभाइं को तेसि भाएज्जा? ॥ २ ॥

ता पीरा होह, निपाडेपि नीमेमदुत्तिमित्तसत्थं मत्तए पयावइस्स, इति भणिऊण विमुमरियनिमित्तिगवयणो  
अपस्संभत्रियव्वयाए विणामस्स पडिहूलयाए देवविलसियस्स वारिज्जमाणोऽवि पुराणपुरिमेहिं पडियल्लिज्जमाणोऽवि  
कुमउणेहिं सोयरोहं नियत्तिउगाणोऽवि अंतेउरज्जणेण उत्तमंगं मुणापिज्जमाणोऽवि निमित्तपाट्टेहिं सपलवलसमेओ  
गंतुं पयट्ठो, कमेण य पत्तो सदेमनीमामंरत्तिणं रहाउत्तपययदेसं, तर्हि य सुंधाउरनिरेमं कारावेऊण वाहराविओ

दूओ, भणिओ य-अरे गच्छसु पयावइस्स सगासे, भणसु य तं-एस आगओ आसग्गीवो राया जुञ्जसज्जो वट्टइ, सिग्घं संमुहो एहि, कुमारपेसणेण संमाणं वा करेहि, मा अक्कालेचिय कुलक्खयं जणेमुत्ति, जं देवो आणवेइत्ति पडिच्छिऊण से सासणं नीहरिओ दूओ, कमेण य गओ पयावइस्स मूलं, कहिओ णरिंदाएसो, रुट्ठो तिविड्डुकुमारो, भणित्तात्तो य—

रे दूय ! तुममवज्झो निम्भयचित्तो ममोवरोहेण । घोडयगीपं गंतुं फुडक्खरं भणसु वयणमिमं ॥ १ ॥  
 मा होहिसि विगयभओ बहुपरिवारोत्ति चित्तिउं अचिरा । सीहोव मइसिलिं वं एस तिविड्डू तुमं हणिही ॥ २ ॥  
 अज्जवि पयावइनिवो नियनामत्थं फुडं सुमरमाणो । रक्खइ तं जइ परिहरसि निट्ठुरत्तं वहसि पणयं ॥ ३ ॥  
 अहउभिणिविट्ठमईणं सुट्ठु भणियं पि दोसमावहइ । ता किं निरत्थएणं सिक्खादाणेण एएण ? ॥ ४ ॥  
 दूएण तओ भणियं अज्जवि दुस्सिक्खिया दढं तुम्हे । न मुणह देवस्स वळं तेणेवमसंकमुल्लवह ॥ ५ ॥

अह पयावइणा भणियं-भइ ! वच नियनरिंदसगासं, साहेसु य जहा-एस आगओ पयावइत्ति, एवमाइत्तिऊण निग्गओ दूओ, राइणावि काराविओ सेन्नसंवाहो, तओ पक्खरिज्जंतदप्पियवग्गततुरंगमं गुडिज्जंतगयघडं समरपरि-  
 इत्थुच्छइतफारफारक्कचक्कं चंडगंडीवगुणज्झणकारमुहलुच्छलंतघणुद्धरं रहारुद्धपवरवीरं नाणाउहहत्यसमुत्थरंतसुहड-  
 सत्थं चलयं चाउरंगं वळं, तेण य परिवुडो पयंडगुडाडोवभासुरकुंजरकंधराधिरुद्धो नीहरिओ पुराओ पयावई, एत्थं-



तरे नीलचलंतमहंततालज्जयाणुसारभिलियसामंतपरिगण पवलनीलीनीलयदुल्लनियंसणेण करयलफुरंतहलमुसळ-  
 पहरणेण संगामसंगमुकंखिरेण अयलकुमारेण अणुगम्ममाणमगो आमलगथूलमुत्ताहलहारेण गयणाभोगोव नहसुरस-  
 रिपवाहेण सोहंतवियडवच्छत्यलो तरुणतरणिकिरणसन्निगाससिचयजुयलेण वडवानलजालाकलावेण जलरासिब  
 रेहंतदेहो सवणकयकणयकुंडलकंतिपसरेण तकालसंगमृगुयरायसिरिसरागतिरिच्छच्छिविच्छोहेहिं व भासमाणरयणो  
 पुरो पइद्वियरयणलद्विनिविद्वकणयकविलगरुलकंतिपडलच्छलेण कोवं व उगिरंतो तिविद्वकुमारो, सिग्धं गंतूण मि-  
 लिओ पयावइनरिंदस्स, भणिउमाढत्तो य-ताय ! नियत्तह तुम्हे, देह ममाएसं, कित्तियमेत्तो एसो घोडयंग्गीवो ?,  
 अवणेमि तुम्ह पसाएण एसस्स धिद्वसोंडीरयं, न य बहुसहाओत्ति संकणिज्जं, जओ भोयणमेत्तसहायिणो इमे,  
 परमत्येण एगागी चेव एसो, रायणा भणियं-पुत्त ! लीलाविहाडियसमुकडकेसरिकिसोरस्स अविगणियपडिक्ख-  
 लक्खस्स किं असज्जं तुह परकमस्स ?, केवलं दूरद्विया कोऊहलपेच्छगा एत्थ अम्हे, कुमारेण वुत्तं-एवं होउ,  
 अह विसिद्वसउणोवलंभवहंतपरितोसाणं अणवरयपयाणगेहिं वचंताणं तेसिं तस्स रहावत्तपव्यस्स समीवे संप-  
 त्ताणं अवरोप्परासन्नदंसणवसेण जाए हलवोले परिकप्पियपक्खरगुंडाडोवाइं उद्वियाइं तुरङ्गहत्थिसाहणाइं उद्वयध-  
 यचिंधाइं, संपलग्गाइं उभयवलाइं, तओ-ताडियसरतूरतुद्वजणं भयथरहरंतकायरगणं, उदामवंदिसइपठणुच्छहंतसु-  
 हडं वरघूलिघूसरियरहधयवडं ॥ १ ॥ खरसुरुप्पकप्परियतुरयपक्खरियनियतुरयवट्टलोट्टावियकुंतयरं । आसवारकरु-

अत्रोन्नमिलणजायनिविडसंपट्टं ॥ २ ॥  
 । तिसूळमल्लिसेलभिन्नवेळंतनरं, उत्तालनिरडियळ-  
 न्धघणं । विष्फुरंतकुंतगघायधुम्मियरहियं, सारि-  
 मज्जजुज्जंतजोहपायदुविसहं ॥ ४ ॥ कुंभिकुंभघायसमुळलियरुहिरप्पवहं भूमिवट्टुनिचेट्टपडियसमुत्तंगमायंगरुद्धपहं ।  
 महल्लच्छमल्लमल्लुकमुक्केफारभीसणं, संगामरसियसुहडलोयतोसणं ॥ ५ ॥ काऊण(दंडपडण)विचित्तसमरवावारं ॥  
 घाणुकुदुकघाणुकयाहं, फारकियभडफारकियाहं । कुंतयरभिडियंसमवग्गियाहं, खंग्गाउहंउफखयखग्गियाहं ॥ १ ॥  
 पडिखलियतुरंगतुरंगमेहिं, मेळंतसेल्लभडदुग्गमेहिं । मयगळगिलंतमयग्गिणगंड, अच्चिदुपरोप्परवद्धसुंड ॥ २ ॥

पाउन्भवंतअइघोररोस खणि खणि विमुक्कभीसणनिघोसं ।  
 चाउदिसिं सुहड समोत्थरेविं पहरंतिं समरि नियपाण देवि ॥ ३ ॥  
 नाणाउहहत्यनरिंदवग्ग अवरोप्परंजुज्जितसंपलग्गं ।  
 गयजीविय निवडहिं दंडनाहं, पवहंतरुहिरपहजुय अगाहं ॥ ४ ॥  
 सेसारुणच्छुरणवद्धकच्छु, मह दंसहं आसग्गीवु हत्थु ।  
 इय जपिरु रिउ पडिसत्तुराओ, एत्थंतरि पडिपहरंतु आउ ॥ ५ ॥  
 तो वंगकलिंगनगराहिवेहिं, जुगयं चिय मुक्कमहाउहेहिं ।

पडिखलियउ पयावइ जुज्झमाणु, साहुव जाओ परिचत्तुमाणु ॥ ६ ॥

आसग्गीवह सेत्रेण अइवहुसंखेण हरिकरिसंदणदुद्धरेण ।

निम्महिय परक्कमु पहणिय उज्जमु कयउ पयावइ तक्खणेण ॥ ७ ॥

मुणिवि तं निज्जियं जायकोबुग्गमो, भिउडिभीमाणणो पायडो नं जमो ।

अयलु पयलंतहलमुसलदिवाउहो, सिग्घवेगेण सत्तूण ठिओ संमुहो ॥ ८ ॥

तयणु चिरलद्धजयवायगव्युद्धुरा, ते नरिंदा समुघूढदढमच्छरा ।

सेत्तनारायसरनिरयमेलंतया, अयलपासंमि वचंति वग्गंतया ॥ ९ ॥

हरिसभरतडयडुत्तुट्टकंकडगुणो, सोयते पेच्छिउं वाढमखुभियमणो ।

जंपए रे लहुं चयह चक्खुप्पहं, कीस वचह विणा कारणं जमगिहं ? ॥ १० ॥

किं न भो नियह मह लंगलं सियसिहं, कुवियकीणासजीवं व अइदुस्सहं ।

वइरिवच्छत्थलीविलिहणुडामरं, जस्स कंतीहिं अरुणिज्जए अंवरं ॥ ११ ॥

किं न या मुमलमलिवलयकसिणप्पहं, धरणिमणिसारपरमाणुनिम्मियमुहं ।

जयह तुच्चे जमेवं रणे उज्जया, तेहि चुत्तं अरे तुज्झ का चंगया ? ॥ १२ ॥

जेण दीसंति तुह सन्निहा द्वालिया, धरइ लीलाएँ मुसलंपि किल महिलिया ।

एवमुल्लाविरं वहरिसत्थं वलो, सरइ वेगेण करकलियसियलंगलो ॥ १३ ॥

केऽवि मुट्ठिप्पहारेण ताडइ भडे, अवरि मुसलेण चूरइ सदाहुम्भडे ।

हलसिदग्गेण केसिंपि उरु दारए, अन्नि चलणप्पहारेण मुसुमूरए ॥ १४ ॥

एकघाएण पाडइ महाकुंजरे, तणयपूलं व गयणे खिवइ रहवरे ।

मुयइ करुणाय परिचत्तसयलाउहे, ठाइ निग्गयपयावोऽवि नो से मुहे ॥ १५ ॥

इय निट्ठुरगत्तेण निरुपमसत्तेण निट्ठुरेण बलदेवेण बलु बलु विरियहं ।

तक्खणि विद्धंसिओ भडमउ नासिउ सयलदिसामुह पसरियहं ॥ १६ ॥

एवं चिय पइदिवसं दोणहवि सेत्ताण जुज्झमाणाणं । विविहप्पयारभीमं एयं जावं समरठाणं ॥ १७ ॥

एगत्य पडियनरवइपियंगणाकरुणरुत्तरवभीमं । अन्नत्थ वंदितज्जणसवडंमुहचलियपडिसुहडं ॥ १८ ॥

एगत्य दंतिदसणग्गभिन्नसूरासिलेहहयरहियं । अण्णत्थ भीयकायरनियमुहखित्तंगुलीवल्यं ॥ १९ ॥

एगतो ऊसियकरमाहूयऽण्णोण्णवीरवरपुरिसं, अघत्थोर्मिठविणट्ठमिठपरिभनियगयनिवहं ॥ २० ॥

एगत्युत्तालिमिलंतघोरंवेयालविहियहलबोलं, अन्नत्थ सिवागणसज्जमाणगयजीवनरनिवहं ॥ २१ ॥

एगत्तो दंसणतिकखचकळिज्जंतमहिगयजणोहं, अन्नत्तो भडतोसियमागहगिज्जंतवरचरियं ॥ २२ ॥

इय विहियविविहभीसणकिरिएहिं उभयसेन्नमुहडेहिं । समरंगणं सुराणवि जायं अचंतभयजणं ॥ २३ ॥

किं च—गुणट्टाणनिवडियरुण्णसीसकरचरणजंपतणुखंडं । विहिणो घरं व नज्जइ जयजणघडणुज्जयमइस्स ॥ २४ ॥

एवं च वहइं वासराइं महासम्महेण निवाडियाणेगसुहत्थिसु तिकखनारायनिब्भिन्रकुंभिकुंभत्थलेसुं, चुरियचारु-  
तुंगसिंगरहवरेसु सुसुमूरियनरवइसहस्सेसु जायंतेसु आओहणेसु पेच्छिऊण चहुजणकखयं तिविट्ठुणा भणाविओ  
दूययणेण आसग्गीओ, जहा—किमणेण निरत्थएणं निदोसपरियणकखएणं?, तुमं च अहं च परोप्परवद्धवेरा, ता  
अंगीकरेह नियभुयवलं, सम्मं ठरेहि चित्ताचट्ठं विमुंच कायरत्तं परिचय परपुरिसांयारं दाप्रेहि सहत्थओसल्लं मेलेहि  
त्तरीरसोऊमल्लं पगुणो भवाहि असहाओ मए एगागिणा सह जुज्झुउंति, सम्ममवधारिऊण गओ दूओ, निवेइओ  
आसग्गीवस्स कुमारसंवेसगो, पडियन्नो य राइणा, जाए वीयदिवसे विचित्तपहरणपडिहत्थं जोत्तियपवरतुरयं  
सारहिमेत्तपरियत्तपरियरं संदणमारुहिऊण ओइण्णा रणभूमीए आसग्गीवतितिविट्ठुणो, ठियाइं उभयपासेसु सपहुपरक-  
मावलोयणकोऊहलाइं दोन्निवि वलाइं, रुंदखंदचंडिकोहंडिपमुहदेवउवजाइयसयदाणपरायणाइं निलीणाइं उचपएसेसु  
अंतेउराइं, पेक्खणुंकखिरा य गयणंगणमोगाढा सुरकिंनरकिंपुरिसविज्जाहरा, लंमंतमुक्कजडाडोओ पाणिपरिग्गहिय-  
उत्तगो संगामदंसणुव्वुदगाढहरिसो पइखणअट्टहासे सुयमाणो देवसमूहं च सोवओगं कुणमाणो नियंभिओ अंतरे

नारयणुणी । एतंत्रे आसग्गीवेण भणिओ त्तिवट्टु—

गिरिगुहनिवाससि(खि)त्रे रोगजराजजरंगए सीहे । निहए करुणाठाणे अहो तुमं बलमयं वहसि ॥ १ ॥  
किमहं तं न समत्थो विणासिउं पढममेव लीलाए । किं तु मयमारणे अवयसो सिया तेण नो हणिओ ॥ २ ॥  
जदकहवि दुद्धवयणोत्ति कलिय नो सिक्खविंति तं कुसला । किं एत्तिएणऽवि मुहा परंमुहो सुंदर! नयस्स ॥ ३ ॥  
सयं चिय न कयंतो कुद्धो विद्वइ करचवेडाए । किं तु दुबुद्धी दाउं परस्स हत्थेण मारेइ ॥ ४ ॥  
जं चिय किंचि परूढं धाहुवलं तुज्झ नरजणम्महियं । पक्खुम्भेओव पिपीलियाण तंपि हु वहठाए ॥ ५ ॥  
थेरस्स पयावइपत्थिवस्स पुत्तच्छलेण तं भइ । नूणं विणासपिसुणो समुग्गओ धूमकेउव ॥ ६ ॥  
ताहे त्तिविट्टुणा सो भणिओ बुद्धत्तणस्स तुह पढमो । पाओ पाउम्मूओ दुब्बयणुलावरूवो किं? ॥ ७ ॥  
किं वा सन्निहियकयंतसंगसंजायनिट्टुरसहावो । निम्मेरं थेर! समुल्लवेसि वन्नसि समाहण्यं ॥ ८ ॥  
रणकसवट्टयनिवडियपवरसोडीरिमासुवण्णस्स । अत्तुकरिओ सोहइ नरस्स वन्निज्जमाणोऽवि ॥ ९ ॥  
ता संवरेसु वयणं खणमेकं अंतरे परिभमंतु । तुज्झ महच्चिय चांगाऽरिपक्खमहणां महावेगा ॥ १० ॥  
आसग्गीवेण पुणो भणिओ डिंभोत्ति मज्झ नो घायं । दाउं खमंति हत्था ताहे पहरसु तुमं पढमं ॥ ११ ॥  
त्तिविट्टुणा भणियं—भो घोडयग्गीव! पुरा मम तायस्स तुमं सामिसइमुवहंतो ता तयणुवित्तीए चेव अणइकम-

णिञ्जयणोऽमि अजो अबहिजो होहि एमा निवडइ कयंतदिट्ठिष दुधिसहा विसिहपरंपरत्ति भणिऊण आयन्नमा-  
 क्हिय कोयंडं रणञ्जणाविया पंडचा, मुक्का सलोहा मम्मावेहिगा सलालिन्त्र निडुरा सरधोरणी, तजो आसग्गीवेण  
 धणुपेयहुमलपाए अद्धमग्गपत्तेषिय संडिया तिक्कागुरुप्पेहिं, पुणरवि कुमारेण भिच्चोन्त्र सपक्खो निरवेक्खगामी  
 मित्तो नारायनिवहो, सोऽवि निप्पुण्णजणमणोरहोन्त्र पडिखलिजो आसग्गीवेण, किं बहुणा ?—

जं जं मत्तं किंपिवि खियइ नरिंदस्स संमुहं कुमरो । तं तं आसग्गीरो दक्खत्तणजो पडिक्खलइ ॥ १ ॥

आसग्गीयोऽवि पयंडकोवजो सुषइ पहरणं जमिह । वेज्जोन्त्र रोगजायं कुमरोऽवि तयं पडिहणेइ ॥ २ ॥

अह भरहपाहुवल्लिणोव्य गाढममरिसमरेण पहरंता । खयसमय राहुसणिन्ठारव रेहंति ते दोऽवि ॥ ३ ॥

एवं परोप्परं जुज्झिराण तेमिं पगिट्ठदप्पाणं । सचराचरावि धरणी धरहरिया पयभरकंता ॥ ४ ॥

एत्तयंतरंमि अणउरयखियणजो पहरणुघजो सच्चो । आसग्गीवनरिंदस्स निट्ठिजो सुकयरासिष ॥ ५ ॥

ताहे किंकायन्त्रयवाउलचित्तेण खेयविदुरेण । अविमग्गपत्तररिउदप्पदंसणुवूढ कोवेणं ॥ ६ ॥

आषयपणं व ददपणयचित्तमित्तं व पियकूलत्तं व । विसमापडिणं नरवरेण संमुमरियं चकं ॥ ७ ॥

अह जलणुम्मटपमरंतकिरणमालासहसपल्लवियं । जुगविगमुग्गयमापंडचंडमंडल्यदुप्पेच्छं ॥ ८ ॥

रुद्धमकारुणपणं व मिलियनीसेसविज्जुपडलं व । आसग्गीवस्स शुडत्ति चक्करयणं करे चडियं ॥ ९ ॥

तयणंतरं च पहरिसतडत्तितुदंतवम्मबंधेण । तेण विमुक्कं वहणाट्टयाए सिग्घं तिविद्दुस्स ॥ १० ॥

गंतुं कवाडवियडे वच्छयले तं जवेण कुमरस्स । चिरदंसणुस्सुयं वल्लहं व तुंवेण संलग्गं ॥ ११ ॥

एत्यंतरंमि दढचकतुंघसंघट्टघायवियलंगो । मुच्छानिम्मिलियच्छो पडिओ धरणीयले कुमरो ॥ १२ ॥

आसग्गीववलेणं ताहे संपन्नचहुपमोएणं । जयजयसहुम्मिस्सो पकओ कोलाहलो सहसा ॥ १३ ॥

तथा—जाव य उग्गीरियविधिहपहरणा नावडंति सत्तुभडा । ताव तिविद्दुकुमारेण तक्खणं विगयमुच्छेणं ॥ १४ ॥

भो घोडयगीव । गओडसि नासमहुणत्ति संलवंतेणं । तं चिय तस्साभिमुहं मुक्कं चकं झलहलंतं ॥ १५ ॥

तो तं तालफलंपिव तडत्ति छेत्तूण तिविद्दुस्स सिरे करे ठियं पुण तिविद्दुस्स ॥ १६ ॥

जह निहर्यंमि आसग्गीवे हरिसवसविसप्पमाणसमुचरोमंचेहिं सहसचिय जयजयरवं करंतेहिं सुरासुरेहिं सरसपा-  
रियायतरुर्मजरीनियरसंवलिया सोरभभरगंधलुद्धमिलंतभसलजालमुहला अणवरयत्रिणिंतामंदमयरंदविंदुसंदोहविच्छु-  
रियसयलदिसा कमलकुवलयमालइपमुहा मुक्का पंचवन्नकुमुमवुद्धी, उग्घोसियं च महया सहेण जहा—भो भो पत्थिवा !  
परिचयह कोवकंडुं सुयह दुग्घहदुविणयपणयं परिहरह आसग्गीवपक्खवायं उज्झह असज्झवावारं पणमह सच्चायरेण  
तिविद्दुं, एसो खु एत्थ भरहखेत्ते समग्गवलवंतपुरिसप्पहाणो पुव्वभवसमुवज्जियसुकयसंभारवसविसप्पमाणमहल्लक-  
लाणनिहाणो उप्पन्नो पढमो वासुदेवोत्ति । एवं च आयन्निऊण संभंतविलोयणेहिं दूरपरिमुक्कपहरणपबंधेहिं अहमह-



मिगाए पडिक्खलंतमणिकिरीडकोडिमसिणियकमनहनवहेहिं भालयलवडियकरसंपुडेहिं पंचंगपणिवायपुरस्सरं  
पणमिओ पत्थिवसहस्सेहिं तिचिहू । विन्नत्तो य—

देव ! परायत्तेहिं जुत्ताजुत्तं अयाणमाणेहिं । अम्हेहिं जमवरद्धं तमियाणिं खमह नीसेसं ॥ १ ॥

कुणह पसायं नियवरणनल्लिणसेवापयाणओ अम्हं । मोत्तूण तुमं एकं अत्तो नो विज्जए नाहो ? ॥ २ ॥

एयमायन्निऊण तिविट्ठुणा भणियं—भो भो नरेसरा ! किमेवं जंपह ? को तुम्ह दोसो ? परायत्तचित्ताणं एस-  
चिय गर्ह, ता मुयह पडिभयं, पसंतडिं वडमराइं भुंजह नियनियरज्जाइं, मम छत्तच्छायापरिग्गहियाण पुरंदरोऽवि न  
पहयेइ तुम्हाणंति । एत्थंतरे तिविट्ठुसेवोवगयनरवइयग्गावल्लोयणसंपन्नासग्गीवविणासनिच्छयं समागयं तं पएसमं-  
तेउरं, दिट्ठो छिन्नगलनाडिनिस्सरंतरुहिरपंकविलुत्तगतो रत्तचंदणकयंगराओन्व उवरि परिन्भमंतपिं सियासिपक्खि-  
निवारियरविकरपसरो धरियमहप्पमाणत्तोवमंवं सन्निहिनिवडियपहाणपुरिसवग्गो अत्थाणगओव आ सग्गीवन्नरिंदो ।  
अह अदिट्ठपुण्यं अचंततित्क्खदुक्खाचहं तारिसमवत्थंतरे से पांसिऊण अकंदिउमारद्धमेवमंतेउरं—

हा हा कयंत ! निकरुण ! किं तए पाव एवमायरियं ? । जं एवंविहपुहईपहूऽवि एसो हयास हओ ॥ १ ॥

किं एत्तियाहिं निहयाहिं तुज्झ तिच्ची न सुहडकोडीहिं । उप्पन्ना निप्पुन्नय ! जमेस रायावि संहरिओ ॥ २ ॥

हे चक ! निक्खिय ! कइं सपडुविणासाजसो तए विहिओ ? । तुम्हेहिऽवि किं जक्खा ! उवेक्खियं निग्घिणा एयं ? ॥ ३ ॥

हे काल ! वद्वरवंसजाय तुज्झवि गुणेण किं तेण ? । हा हा रक्खामणिणो वीसत्थविणासगा तुम्हे ॥ ४ ॥  
 धी धी पुरोहियाहम ! चिरकालं तप्पियं तए जलणं । निलज्ज ! कइसु संपइ असिवं किं जं पडिक्खलियं ? ॥ ५ ॥  
 हे अंगरक्खवग्गा ! तुम्हेऽविहु कीस संपइ पलाणा ? । हा हा एगए चिय सबंपि परंमुहं जायं ॥ ६ ॥  
 हा पाणनाह ! संपइ पडिहयपडिवक्खसुहडलक्खंगि । तुमए सग्गोवगए तडक्किही कस्स जयठका ? ॥ ७ ॥  
 हा रायलच्छि ! वेहव्वदूसिए कीस जीवसि श्याणिं ? । इहराणुहवसि दुक्खं दूमिज्जंती कुनाहेहिं ॥ ८ ॥  
 इय विलविरीहिं निइयताडियथणवट्टतुट्टहारहिं । वेहव्वदुक्खभरभज्जिरीहिं पलहत्यवलयाहिं ॥ ९ ॥  
 अणवरयघोरगलियंसुवाहं रुत्तं तहा मयच्छीहिं । जह तहेसगएणं रुत्तं पक्खीणवि गणेणं ॥ १० ॥  
 ताहेऽणुजीविणा परियणेण पम्मसुकपोक्करुत्तेण । आसग्गीवसरीरं खित्तं जालाउले जलणे ॥ ११ ॥

एत्थंतरे अंतैउरीजणवेहव्वदुक्खमसहमाणोव्व पयंडरणकम्मदंसणभयभीओव्व तिकखासिखंडियहयरुंडावलयणु-  
 त्टहरहत्तुरंगोव्व समीरणुदुयरुहिरसीयरासारसंसित्तोव्व आलोहियमंडलो झडत्ति चक्खुगोयरमइकंतो - सहस्स-  
 किरणो, गवलगुलियालिवलंयकज्जलतिभिरपडलपडकयावगुंठणा फुरंततारनयणा अणवरयनिवडंतउकाफुलिं-  
 गुग्गारच्छलेण मणोइरित्तपरिपीयसुहडजणरुहिरगंडूसं व सुयंती महारक्खसिध भयजणणी पसरिया रयणी, ठिओ  
 नियनियट्टाणेषु जणो, कमेण य जाए पहायसमए भणिया तिविहुणा नियपुरिसा-भो भो गच्छह संगामभूमिं,

निरूवेह पहारपरब्बसे जोहनिवहे करेह ओसहघायवंघांइणा परित्ताणं परिमग्गह दुट्टतुरंगमपल्हत्थिए पत्थिवेत्ति-  
 सम्मं निउंजिऊण(अंतेउरेण)समं समग्गनखइवग्गपरियरिओ समेओ पोयणपुरं, तओ नयरलोएण कयं वेजयंती,  
 सहस्साभिरामं ठाणठाणनिउद्धमंचारूढविलासिणीनट्टरमणिज्जं पमुकपुरभिपुक्फुंजोवयारकलियरायमग्गं पहयपडु-  
 पडहपमुहजयतूरनियरं नयरं पविट्ठो महया विभूइए तिविट्ठू, जहोचियठाणेषु ठिओ सेसो परिवारो । तओ कइवय  
 वासराइं तत्थ ठाऊण पुणोऽवि समग्गवलकलिओ चकळत्तधणुमणिमालागयासंखरयणपरिगओ निग्गओ दिसि-  
 विजयनिमित्तं तिविट्ठू, कमेण, पसाहियं भारहद्धखेत्तं, अपणयपुव्वा नामिया पत्थिवा, गाहिया सेवावित्तिं, गहियाइं  
 तेहिंतो करितुरयरणपमुहाइं पहाणपाहुडाइं, एवं च नीसेसमंडलाहियसहस्साणुगम्ममाणमग्गो पेच्छंतो अपुव्वा-  
 पुव्वनयराइं ठाविंतो अंगवंगकलिंगाइसु अन्नन्नरिंदे पत्तो मगहाविसए, तहिं च दिट्ठा कोडिपुरिसंवोज्झा महा-  
 सिला, सा य भुयवलावलेवओ लीलाए वामभुयदंडेण उक्खिविऊण छत्तगं च धरिया सीसोवरिं, अतुलियवलावलोय-  
 णहरिसुप्फुललोयणेहि य कओ नरवईहिं जयजयारवो, पढियं च मागहगणेहिं, कहं?—

देव ! मणालागारो तुज्झ करो कलियरुंदकोडिसिलो । सिरिधरियधरणिवट्टस्स वहइ सेसस्स समसीसिं ॥ १ ॥  
 तुह एवंविहलीलाइएण चित्तं न कंपए कस्स । जइ संबहावि पत्थरविणिम्मिओ होज्ज सो न जणो ? ॥ २ ॥  
 इय मागहेहिं णेगप्पयारवयणेहिं संथुणिज्जंतो । मोत्तूणं कोडिसिलं चलिओ राया सपुरडुत्तं ॥ ३ ॥

गच्छन्तो य पत्तो दंडगारन्नपरिसरं, तर्हि च संधावारनिवेशं काऊण ठिओ कइवय वासराइं, एगया य रयणी-  
 मज्झनिम्भरपमुत्ते सेवगजणे अणुरत्तविरत्तपरिवारचारमुवलंभिउं करकलियचको कयवेसपरियत्तो अणुवलक्खिज्जमाणो  
 जामकरिघडारूढेहिं अंगरक्खेहिं नीहरिओ एगागी वासुदेवो निययगुड्डराओ, अमुणियपयप्पयारो य इओ तओ  
 परिन्भमंतो जाव संधावारनिवेशमइक्कमिऊण गच्छइ ताव निसामेइ थेवदेसंतरियं मंदं मंदं कोलाहलं, तं  
 च निसामिऊणुप्पन्नकोऊहलो पधाविओ तयभिमुहं, कमेण पत्तो एगं वहलतरुपरसंछन्नं काणणं, तर्हि च पत्तस्स  
 उवसंतो सो कोलाहलो, तओ किं विभीसिया एसा? मइविन्भमो वा ममेत्ति जाव चित्तेइ ताव काणणभंतराओ  
 समुट्ठिओ सदुक्खनरधणियसहो, तदणुमाणेण य पुणो पट्ठिओ तिविट्ठू, अह वच्छत्यलविप्फुरंतकोत्थुभमणिमऊहवि-  
 द्दंसियंधयारे जाए तत्थ पएसे थेवंतरगएण हरिणा दिट्ठो रुक्खेण समं विविहवंधणवद्धो पुरिसो, (पुच्छिओ सो  
 उचियायरेण) भो को तुमं? केण वा इममवत्थंतरं पाविओसित्ति?, तेण जंपियं-महाणुभाग! निविडवंधणत्तणओ  
 न सक्केमि परिकहिउं, ता अवणेहि वंधे जेण साहेमित्ति कहिए तिविट्ठुणा चक्खेण निकंतिया वंधा, जाओ वीसत्थो,  
 भणिउं पवत्तो य-अहो निक्कारणपरमवंधुन्नु निसामेहि मम वित्तंतं, अहं रयणसेहरो नाम विज्जाहरो ख्वलावन्नसुं-  
 दराइगुणावढिभूयाए सिंहलरायधूयाए विजयवईनामाए पुवं चिय बहुप्पयारपत्थणाहिं दिन्नाए परिणयणत्थं  
 संपयं समग्गसामग्गीसणाहो जाव तत्थ पट्ठिओ ताव एत्थप्पएसे संपत्तो समाणो वाउवेगाभिहाणेण वेरिणा चि-

जाहरेण सन्वस्तमवहरिऊण दुक्खेण मरुत्ति विभाविंतेण एवं गाढं वंधिऊण चत्तोऽग्निं, तिविद्दुणा भणियं-तुमं  
 विजाहरो द्दोऊण केण कारणेण भूमिगोयरधूर्यं उव्वोद्धुमिच्छसि?, तेण जंपियं-महाभाग! अपुब्बं किंपि से रूवं  
 असरिसं च लायन्नंति, तिविद्दुणा चित्तियं-जइ सच्चं चिय एवंधिहगुणोववेया सा ता मम जोग्गा परिणेउंति विभा-  
 विऊण भणियो एसो-अहो तुमए उव्वुढावि एसा तेण वेरिणा हीरिही, ता किं निरत्यएण तदुवलंभेण?, विजाहरेण  
 जंपियं-सच्चमेयं जइ तुम्ह सत्ती अत्थि ता तुम्हे परिणेह, परिचत्ता मए इयाणिं, पडिबन्नं तिविद्दुणा, कयप्पणामो  
 गओ सद्धानं विजाहरो, हरिणावि सिंहलेसरं अणेगप्पयारोहिं पत्थिऊण परिणीया सा विजयवई धूया, आगओ य  
 निययपुरं, पडिच्छिओ महारायाभिसेओ, जाया वत्तीसं सहस्सा जुवईणं-

अह निचपयद्विसद्वृगीयशंकारमिस्समुरवरये । नडचेडचाहुकारयंकिंकरनरनियंरपरियरिए ॥ १ ॥

सुविमत्तचित्तविच्छित्तिसुंदरे मंदिरे निवसमाणो । अइपडिहयपडिवक्खं तिखंडभरहं च रक्खंतो ॥ २ ॥

भयवसनमंतसामंतमंडलो तरुणिसत्यमज्झगओ । आखंडलोव्व सुंजइ विसए पंचप्पयारेऽवि ॥ ३ ॥

नवरं विजयवईए नामंपिहु नेव गिणहइ तिविद्दु । ईसाविसायवसओ सा य पओसं समुव्वहइ ॥ ४ ॥

एवं वोळंतमि काले अन्नया नियमाहप्पनिहयदुद्धिभरुखाइदुक्खनिवहो समागओ भयवं सेयंसत्तित्ययो, धिरइयं  
 देवोहिं विसालसालवलयपरिक्खित्तं विचित्तमणिमयसिंहासणाभिरामं भवभयत्तसत्तसंताणेकसरणं समोसरणं, तओ

सायंरमित्तमुर्दिंसंदोहथुणिज्जमाणो उवविट्टो सिंहासणे जिणो, एत्थंतरे जिणागमणनिउत्तपुरिसेहिं वद्दाविओ तिविद्ध,  
 कहिओ जिणागमणवइयो, तओ हरिसभरसमुल्लसंतरोमंचेण य दवाचियं पीइदाणं सद्धुवालसकलहोयकोडीओ तेसिं  
 पुरिसाणं, समग्गवल्लमाहणो अचलेण समेओ य गओ वासुदेवो वंदणवडियाए, छत्ताइच्छत्तपमुहं जिणाइसयमवलोइऊण  
 परिचत्तसयलरायचिंधो दूराओ चिय पयचारेण गंतूण तिपयाहिणापयाणपुधयं जयगुरुं नमंसिऊण एवं थोउं पवत्तो—

जय संसारमहोयहियडंतजणजाणवत्त ! जयनाह ! । परमसिधमोक्खकारण ! रणवज्जिय ! विजियमयमाण ! ॥ १ ॥  
 निम्महियमोहमाहप्प ! दुट्टकंदप्पदप्पनिहलण ! । मायाविसवल्लिविणासपरसु जय जय जयप्पवर ! ॥ २ ॥  
 जय संजमसिरिवल्लह कोहमहाजलणसजलजलवाह ! । जय निम्मलकेवलकलियसयलजीवाइयपयत्थ ! ॥ ३ ॥  
 जय विण्हुकुलंवरपुण्णचंद ! मुररायनमियपयकमल ! । निप्पडिमपसमवरपुरपायार ! गुणोहसाहार ! ॥ ४ ॥  
 जय करुणामयसारणिसरिच्छ ! निच्छिन्नकम्मदुममूल ! । दुहसेलदलणदंभोलिसरिसनामग्गहण ! देव ! ॥ ५ ॥  
 नाह ! तुह पायपंकयममंदमयनिवहकंतिमयरंदं । फुलंधयं व धण्णो सयाऽवित्तण्हो समल्लियइ ॥ ६ ॥  
 को तुह जिणवर ! वयणं अमयं व समत्थदोसहरणखमं । पाऊण कुतिरियवक्ककलुससलीलं समीहेइ ॥ ७ ॥  
 जइविद्ध दूरमसारो संसारो तहवि देव ! तुम्हेहिं । विहरंतेहिं मुणिज्जइ.सारो निब्बुइपुरीओऽवि ॥ ८ ॥  
 आसग्गीवाइनरिंदविजयलाभाइ(भेऽवि)नेरिसो नाह ! । जाओ ममप्पमोओ जह दंसणमेत्तओ तुज्झ ॥ ९ ॥

ता पसिय भुवणबंधव । जइवि तुमं सबहा विगयरामो । नियचरणदंसणणुग्गहेण मम तहवि सेयंसं! ॥ १० ॥

एवं च मुचिरं योज्जण सो तिविट्ठनरिंदो, निविट्ठो समुचियट्ठाने, भगवयावि आजोयेणमित्ताणुंसारिणीए' वाणीए  
समारद्धा धम्मदेसणा, जहा-भो भो देवाणुप्पिया! कइकइवि चिरं संसारकंतरमणुपरियट्ठमाणेहिं तुम्हेहिं पा-  
विओ एस मणुयजम्मो, जायं अविकलपंचिदिअत्तणं, संपत्ता निकलंककुलारोगाइया सामग्गी, समुल्लसिया सद्धम्म-  
बुद्धी, ता दुगुञ्जह मिच्छत्ताविरइसंगं समीहह संमत्तनाणचरित्तवित्तं पेच्छह पमायपरपाणिगणदुहविवागं अणुचिं-  
तह खणदिट्ठनट्ठसरूवयं सब्बभावाणं विमंसह पुणो दुल्लहत्तणं आरियखेत्ताइलाभस्सं, अत्रं च—

तुच्छेहियमुहलवभेत्तलालसा कीस वसह निस्संका? । किं तुम्ह कयंतेणं निब्भयपत्तं सयं लिहियं? ॥ १ ॥

किं वा केणवि अजरामरत्तणं तुम्ह दावियं? अहवा । मरणाइदुक्खरहियं ठाणं वा कत्थविय दिट्ठं? ॥ २ ॥

अहवा सासयभावत्तकारणं किं रसायणं लद्धं? । जेणूसुगत्तठाणेऽवि गाढमंदायरा होह ॥ ३ ॥

भो भो देवाणुप्पिया! सद्धम्मोवज्जणे समुज्जमह । परिहरह पावमित्तेहिं संगतिं दुक्खसयजणणिं ॥ ४ ॥

पडिवज्जह निरवज्जं पधज्जं देसविरइमहवावि । निमुणह पसिद्धसिद्धंतदेसणं नोहनिम्महणिं ॥ ५ ॥

अत्तसमं पाणिगणं रक्खह पालेह सीलमकलंकं । साहम्मिएसु रज्जह वज्जह विसएसु य पवित्तिं ॥ ६ ॥

निग्गुणजणं उवेक्खह अत्तुकरिसं सयावि परिहरह । अप्पत्तपुट्ठगणगणमन्मस्सह नासह कसाए ॥ ७ ॥

संतोसं च निसेवह परपरियायं कयावि माऽऽयरह । ईसरिए मा म(जह मा र)जह पावकजेसुं ॥ ८ ॥

दाणाईसु पयट्टह सेवह सुविसुद्धबुद्धिणा गुरुणो । परउवयारे गिज्झह मा मुज्झह बुज्झह सतत्तं ॥ ९ ॥

एवं च भगवओ धम्मकहमायन्निक्कण हरिसुप्फुल्ललयणेहिं केहिंवि परिचत्तपुत्तकलत्तेहिं पडिवन्ना सवधिरई, के-  
हिंवि परिग्गहियं सम्महंसणं, अत्तेहिं अंगीकया देसधिरई, अत्ते य छिन्नसंसया जाया बहवे पाणिणो, हलहरनारा-  
यणेहिंवि अणाचक्खणिज्जं पमोयभरमुद्यहंतैहिं पडिवन्नं सम्मत्तरयणं । अह समइकंताए पोरिसीए वंदिज्जण जयगुरुं  
गया निययायासं । भयवंपि अन्नत्थ चिहरिओ । एवं च वचंतंमि काले अचंतसुहसागरावगाढस्स तिविट्ठुराइणो  
एगया समागया परिभूयक्किन्नरकंठा गायणा, तेहि य पदंसियं गीयकोसलं, हरियं हिययं तिविट्ठुस्स,  
अन्नं च-गीउग्गारो तेसिं जस्स मणागंपि विसइ सवणंमि । उज्झियनियवावारो चित्तलिहिउच्च सो मुणइ ॥ १ ॥

अच्छउ दूरे एयं तिरियाविदु तेसि गेयवसणेणं । निम्भीलिपच्छिणो उच्छहंति नो भोयणाईसु ॥ २ ॥

एवंचिहसुस्सरयागुणेण हरिस्स ते सयावि पासवत्तिणो परमप्पसायठाणं जाया ।

अन्नया य सुसेज्जानिसन्नस्स वासुदेवस्स रयणीसमए समारद्धंतेहिं गेयं, जणिओ वाढं चित्तस्स अक्खेवो, निहागम-  
णकाले य निरूविओ वासुदेवेण सेज्जावालो, जहा-भइ ! जया मम निहा एइ तथा इमे गायणा तुमं विसज्जेज्जासि, जं  
देवो आणेवइ तं फरिस्सामित्ति पडिवज्जियं सेज्जावालेणं, खणंतरेण य आगया राइणो निहा, तेऽवि अविसज्जियत्ति तद्देव



गाइउमारदा, नवरं पच्छिमरयणिसमए पबुद्धेण राइणा ते तहा गायंते निसामिऊण, पुच्छिओ सिज्जावालो-अरे ! कीस  
 एए न विसज्जिया ?, तेण भणियं-देव ! अइसवणसुहत्तणेणं मए खणंतरं पडिवालिया, एयमायन्निऊण जायगाढकोवो  
 आगारसंवरं काऊण तुण्हिको ठिओ तिविहू, उग्गए य कमलसंडपडिवोहणे मायंडमंडले उट्टिऊण सयणीयाओ कयपा-  
 भाइयकायघो निसण्णो अत्थाणमंडवे राया, ठिया य नियनियट्टाणेसु सामंतमंतिसुहडाइणो, एत्थंतरंमि सुंमरिओ रा-  
 इणा रयणियइयरो, आहूओ सेज्जावालो, भणिया य नियपुरिसा-अरे गीयस्स (रत्तत्तणेण ममाणाभंजगस्सेयस्स) तत्त-  
 उयतंवरसं खिवेह सवणेसुत्ति, एयमायन्निऊण नीओ सो तेहिं एगंतदेसे, कट्टियतउयतंवरसेण भरिया फन्ना, महावेयणा-  
 भिमूओ गओ य सो ज्जत्ति पंचत्तं । तिविहूणावि गाढामरिसवसेण निवद्धं निविडं दुहविषागवेयणिज्जं कम्मं । सावि सिंह-  
 लेसरमुया ठाणे ठाणे अत्तणो पराभवं पेच्छंती हरिणा वयणमेत्तेणवि अविगणिज्जंती सुचिरमप्पाणं . झुरिऊण मया  
 तिरिएसु य उववन्ना, सेसं उवरि भन्निही । तिविहूवि कालंतरेण विविहसो रुखमणुभुंजमाणो रञ्जे रट्टे (य) मुच्छाणु-  
 बंधमुषहंतो नियभुयवलेण सेसपुरिसवग्गमवमन्नंतो विविहपाणाइवायकिरियाए महारंभमहापरिग्गहेहिं अइकूरज्जवसा-  
 णेण य परिगलियसम्मत्तरयणो नारगाउयं (निकाइऊण) चुलसीईवाससयसइस्साइं सघाउयं पालिऊण कालमासे  
 कालं किथा उववन्नो सत्तममहीए तमतमाभिहाणाए अप्पइट्टाणंसि नरयावासे लक्खपमाणे पंचधणूसियंसीरो  
 नारगो । अइगाढपावकम्मोहिं पुबभवसंचिएहिं गरुएहिं निहओ विसहतो दुक्खाइं परमतिक्खाइं चाउदिसिनिहुर-

पञ्चसूत्रित्वखखग्गभिज्जमाणंगो अइदीणकरुणसइं पइक्खणं विलवमाणो य ।

किं पुवभवंमि मए कयंति जेणेरिसंमि ठाणंमि । निबंधयारतमसे उववत्तो कुच्छणिज्जंमि ? ॥ १ ॥

एवं विचित्तयंतो खणे खणे घोरवेयणाभिहओ । पञ्चलियगेहमज्झप्पविट्ठपंगुघ विलवेइ ॥ २ ॥

अयलोऽत्रि कयत्तप्पारलोइयकायघो गाढसोगाभिभूओ सुसाणं व भवणं मत्तमाणो अदिट्ठपुवयं पिव पियजणं च अवगणितो विसं विसयं गन्नमाणो बंधुणो बंधणं परिकप्पेमाणो पवरतरुसंडमंडिय नंदणयणे कमलकुवलयकल्हारांधुरासु सरसीसु सिंगारागारचारुवेसासु अंतेउरीसु खणंपि चक्खुमक्खिवत्तो कत्थवि रइं अलभमाणो अचंतं संसारासारयं भावेंतो सेयंसतित्थयरुवइट्ठधम्मवयणाइं चित्तित्तो वइरिभवणं व गिहावासं परिचइउकामो . सयणोवरोहेण कइवयवासराइं ठाऊण गओ धम्मघोसायरियसमीवे, वंदिओ परमाए भत्तीए, सूरिणाऽवि दिवणाणेण णाऊण तस्साभिप्पार्यं समारद्धा धम्मदेसणां, जहा— .

खणसंजोगविओगं खणपरियदंतविविहसुहदुक्खं । नडनच्चियच्च संसारविलसियं चित्तरुवधरं ॥ १ ॥

द्रह्ण को पमायइ जिणिंदधम्मंमि सोक्खहेउम्मि ? । अचंतवल्लहे वा मयंमि को सोयमुवहइ ? ॥ २ ॥

जइ एगस्सेव भवेज्ज एत्थ वल्लहजणेण सह विगमो । ता परिभवोत्ति काउं सोगोऽवि जणेण कीरेज्जा ॥ ३ ॥

जाव थ समग्गभरहाहिवावि भरहाइणो कयंतेणं । विज्झविया दीवा इव पवणेण पयंडवेगेण ॥ ४ ॥

चलंतं कुमारं पेच्छिऊण जायपरगसंतोसो पवररायकुलपसूयाओ कण्णगाओ परिणाविऊण पसत्थवासरे रजे  
अभिसिंचिउं तजो तहाविहाण य सूरीणं पासे पच्चं पडिवच्चइ । पियमित्तस्सवि अप्पडिहयसासणं रजं करित्तस्स  
काळफमेण समुप्पजाइं चउइम खण्णाइं, ताणि य इमाणि—

सेणावइ गाहावइ पुरोहिय तुरय वट्टइ गयित्थी । चकं छत्तं चम्मं मणिं कागणि खग्ग दंडो य ॥ १ ॥

एवं सो पियमित्तो समुप्पज्जजाइरयणो अणेगनरनाहनिवहपरिवरिओ चक्करयणदंसिज्जमाणमग्गो विजयज-  
त्ताए मागहतित्थाभिमुहं संपत्तिओ, कमेण य तस्सादूरदेसं पत्तो समाणो संधाचारनियेसं काऊण मागहतित्थाहि-  
पस्त देवस्त साहणत्वं षट्ठमभत्तं तयोक्कम्मं पडिवच्चइ, तस्स पच्चंते य हयरहजोहपुरिबुडो जोत्तियपवरत्तुरंगं चाउ-  
ग्गंटं रदमारुडो चफाणुमग्गेण केत्तियंपि भूमिमागं गंतूण कुवियरुयंतभूविच्चमं अणेगरणकिरणजालरुचुरियदि-  
सावलयं वामपाणिणा सञ्जीरुयजीवं कोदंडं गिण्हिऊण तहा वच्चसारत्तुंडं चिविहरयणधिरइयपंउदेसं मणिविणि-  
म्भियचक्कवट्ठिनामच्चिधं दाहिणरुणेण सरं आयन्नमाकहिऊण मागहतित्थाहिवस्तं सम्मुहं सुयइ, सोऽपि सरो दुवा-  
ल्लस जोयणाइं गंतूण मागहदेवस्त सहाए नित्तजस्स तस्स पुरओ निपडिओ, तं च सो दट्ठूण निट्ठुरनिडालवट्ठनि-  
विट्ठुगिउडिभीमणवयणो गाढकोयभरारुणनयणो भणिउमाढत्तो—

रे रे कस्म क्वंतेण सुमरियं? कस्स वल्लहं न जियं? । को मज्झ कोवदीवयमिहं च वंछइ पर्यंगोय? ॥ १ ॥

किं केणइ भुवबलदप्यिण देवेण अहव मणुएणं । जक्खेण रक्खसेण व एसो खित्तो सरो होही ? ॥ २ ॥

इय खणमेगं परिचिंत्तिऊण गिण्हइ सरं सहत्थेणं । पेच्छइ य चक्खवट्टिस्स नामयं मणिविणिम्मवियं ॥ ३ ॥

एवं च ववगयसंसओ उवसमियकोवविगारो विविहमहामोलचित्तमणिरवणाभरणनामंकियसरसणाहो पियमित्त-  
चक्खवट्टिणो सगासमुवगंतूण मत्थए अंजलिं काऊण य विजएणं वद्धावेइ, भणइ य-जहाऽहं इयाणिं तुम्ह आणा-  
निदेसवत्ती किंकरनिविसेसो, ता पडिच्छइ इमं पीइदाणंति भणिऊण आभरणाइं सरं च समप्पेइ, चक्खवट्टीवि तं  
सक्कारिऊण सम्माणिऊण य सट्ठाणे विसज्जेइ, रहंपि परावत्तिऊण खंधावारमुवागच्छइ, भोयणाइ काऊण य किंकर-  
पुरिसेहिं मागहदेवस्स अट्टाहियामहिमं कारावेइ । तस्स य पज्जंते चक्काणुमग्गेण खग्गचावनारायकणकप्पणिसू-

हत्थिरयणमारूढो नरिंदो कालपीयरत्तपंडुरवण्णाणेगं चिंध-  
रहवणघणाइयरवेहिं चहिरयंतोष जीवलयं वरदामति-

त्थाभेमुहं वचइ । कमेण य ताहिं पत्तो समाणो पुवविहीए वरदामदेवस्स अट्टमभत्तं रवणपहरणं अट्टाहियामहिमं च  
करेइ । एवं पहासतित्थाहिवस्सऽवि, नवरं पभासतित्थदेवो मालं मउडं मुत्ताजालं कडगतुडियाणि य चक्खवट्टिस्स  
पीइदाणं पयच्छइत्ति । तओ पुणोऽपि जक्खसहस्सपरिवुडेण अंतरिक्खगएण चक्करयणेण दंसिज्जमाणमग्गो चक्खवट्टी  
सिंधुमहानर्इए दाहिणिल्लेणं कूलेणं सिंधूदेविभवणाभिमुहं गओ, तत्थवि अट्टमभत्तं पगिण्हइ तस्स पज्जंते य सिंधु-

देवीए सुहासणत्थाए चलयं सीहासणं, ओहिनाणमुणियचक्रवट्टिसमागमा य नाणामणिकणगरयणभत्तिचित्ताणि  
 दोत्ति भद्दासणाइं कडगाणि तुडिगाणि यत्थाणि पगहिऊण चक्रवट्टिसगासमागया पंजलिउडा विणएण सम-  
 प्पेइ, रायाऽवि तं सक्कारिय सम्माणिय सट्ठाणे विसज्जेइ । तओ पुणरवि चकरयणं वेयहुपवयाभिमुहं गंतुमारद्धं,  
 रायाऽवि सवलयाइणो तदणुसारेण य(गच्छइ)रुमेण य पत्तो वेयहुपवयस्स नियंवदेसं, तत्तयं य खंधावारं निये-  
 नावेइ, वेयडुगिरिकुमारदेवोऽवि पुब्बनाएण चलियासणो विविहालंकारइत्यो सेयं पडिच्छइ । कइवयदिणाणंतरं च  
 तिमिसगुहासमीवमुवागयस्स चफिगो अट्टमभत्ततरचलियासणो कयमालयदेवो भालयलविलुलंतकरकमलो झुडत्ति  
 चक्खुगोयरमागओ, धीरयणजोग्गं रयणाळंकारं अज्ञाणिं य विविहाणि भूसणाइं पणामेइ, आणांनिद्देसं चं बहुम-  
 त्तिऊण गए तंमि राया विजयसेणं सेणावइं रयणभूयं सद्दाविऊण एवं वागरेइ-भो विजयसेण! गच्छाहि तुमं  
 सिंधुमहानईए पचत्थिमिलदेसं नगनगरागराइपरिक्खित्तं सिग्घं साहिऊण एहित्ति, जं देवो आणवेइत्ति' विणएण  
 सासणं पडिच्छिऊण सेणाहिवो विहियतक्कालोचियमज्जगाइवावारो महापरक्कमो तेयंसी मेच्छभासाविसारओ  
 विस्सुयजसो पवरकुंजरखंधाधिरुद्धो सन्नद्धवद्धकवओ उप्पीलियसरासणधणुपट्टो अणेगगणनायगदंडनायगपरिबुडो  
 धरियधवलायवत्तो चलंतविमलचामरो पइयत्तूररवचहिरियदियंतरो सिंधुमहानईतीरमुवागच्छइ ।

ताइ स चम्मरयणं सिंधुमहानइजलंमि वित्थरइ । वारसजोयणमेत्तं नावारुवेण तरणट्ठा ॥ १ ॥

तो तंमि समारूढो हरिकरिपाइकचक्रपरियरिओ । वीसत्यो पवणवसुखसंतसुमहलकलोलं ॥ २ ॥  
 गोपयमिव सिंधुनइं लंघित्ता मेच्छजाइए सधे । आणानिहेसे संठवेइ रयणाइं गिण्हेइ ॥ ३ ॥  
 सामी ! तुम्हे सरणं गई य एमाइ जंपमाणे ते । ठविउं सट्टाणेसुं विणियत्तइ विजयसेणो तो ॥ ४ ॥  
 पियमित्तचक्रवट्टिस्स पांयपंकयजुयं पणमिऊण । रयणाइं समप्पइ सो मिलक्खुविजयं च वज्जरइ ॥ ५ ॥  
 पुणरवि रण्णा भणिओ सेणाहिचई जहा तुमं भइ ! । गच्छसु तिमिसगुहाए कवाडउग्घाडणत्थाए ॥ ६ ॥  
 ताहे तहत्ति सम्मं पडिसुणिऊणं समग्गवलकलिओ । गंतुं गुहासमीवे अट्टमभत्तं तवो कुणइ ॥ ७ ॥  
 अह तिक्खुत्तो पहणइ निविडेणं तिच्चदंडरयणेणं । ते तिमिसगुहाकवाडे महप्पमाणे चइरघडिए ॥ ८ ॥  
 दंडाभिधायपरिपेल्लियाइं कुंचारवं करेताइं । कुकलत्तकहियगुज्झं य ताइं विहडंति वेगेण ॥ ९ ॥  
 तयणंतरं च वलिउं साहइ सो चक्रवट्टिणो वत्तं । सोऽवि य गयमारूढो समग्गसेणाए संजुत्तो ॥ १० ॥  
 चउरंगुलप्पमाणं रोगासिवनासणं मणिं धेत्तुं । चक्काणुमग्गलग्गो तिमिसगुहं विसइ भयराइओ (महराया) ॥ ११ ॥  
 तत्तो तिमिसगुहंतंधयारविच्चंसणट्टमइगरुए । मंडलगे सो विलिहइ कागिणिरयणेण भित्तीसु ॥ १२ ॥  
 ताहे मंडलगमऊहजालउज्जोयहणियतिमिराओ । नीहरइ सुहेण समं सेणाए सो गुहाहिंतो ॥ १३ ॥  
 इओ य वेयहपरभागवत्तिणो विलाया महापरक्कमा अपरिभूयसामत्था कणगरययधगधन्नसमिद्धा नियनियट्टाणेसु

निरसंता बहूनि गंधवनगररुहिरवरिसभूमिकंपपमुहाइं उप्पाइयसचाइं पेच्छंति, तते णं ते ताणि. पेच्छिऊण उच्चि-  
 ग्गा निराणंदा ओहयमणसंकप्पा विणि(दीण)यं पिव अप्पाणं मन्नंता जाव चिट्ठंति ताव सहसधिय उक्किट्ठिसी-  
 हनापकलयलस्येण समुद्रमहणसंकं समुप्पायमाणो निसियकरवालसेल्लभल्लिकुंतपहरणकरोहिं सूरुहिं अणुगम्ममाणो  
 पत्तो तेहिं देमं पियमित्तनरवई, तं च आगयं निसामिऊण ते मिलेच्छा पयंडकोवारुणच्छा परोप्परं मंतंति-भो भो  
 एस कोइ कयंतचोइजो अम्ह पिसयं उयइविउकामो वट्टइ, ता तहा करेमो जहा एस अंतरा चैव विणस्सइत्ति,  
 एयं संपहारित्ता पीडियदुग्धेयकवया विचित्तपहरणइत्था समुद्रुयमगरनरवसहसदूलगरुलाइर्चिधा पोरुसाभिमाण-  
 मुपहंता अहमहमिगाए गंतूण चकिणो अग्गसेत्तेण संपलगा जुज्झुं, तओ य अग्गसेणं हयपरकमं निवडियमु-  
 दडं पडिमगरहपरं रंडियजयतुरंगयग्गं पडिखलियनरवइजणं तेहिं कयं पेच्छिऊण विजयसेणो सेणाहिवई जाय-  
 कोयो कमलामेलगनामं आसरयणं आरुहिऊण कुमलयदलसामळं सवत्थ अप्पडिहयं नरवइइत्थाओ सग्गरयणं  
 च गहिऊण ते विलाए चाउदिसिंपि पसरिए पडिखलइ । किं वहुणा?—

तिमिरंय दिणयरेणं मुयगसमूहोष पक्खिराएणं । सेणाहियेण निहया भीया ते अइगया सगिहं ॥ १ ॥  
 पेत्तूणं परमारं पुत्तकलत्ताइयं च मरणमया । अइदूरमयकंता सिग्घं पिसमेसु ठाणेसु ॥ २ ॥  
 तादे सिंपुनईए कूले परिचत्तसयपावारा । उच्चाणा निवसणा अट्टममत्तं पगिण्हंति ॥ ३ ॥

सत्तुवलहणणहेउं पुर्विपिय पाडिहेरकरणपरे । सुमरंति एगचित्ता कुलदेवे मेहसुहनामे ॥ ४ ॥

अट्टमभत्तस्संते तत्तो चलियासणा सुरा एंति । गयणंगणमोइत्ता भणंति किं सुमरिया अम्हे ? ॥ ५ ॥

सिट्ठं च चिलाएहिं जह अम्हे रिउवलेण पडिहणिया । ता तुम्हे मुसुमूरह रिउपक्खं अम्ह रक्खट्ठा ॥ ६ ॥

देवेहिं तओ भणियं एसो पियमित्तनाम वरचकी । काउमिमस्स विणासं अहो न सक्कोऽवि सक्केइ ॥ ७ ॥

ता भो अणभिभवणिज्जो एस, केवलं तुम्ह पक्खवायमणुसरंता किंपि उवसग्गेभोत्ति निवेइऊण तेसिं अंति-  
याओ ते मेहसुहा अर्क्कमंति, नरवइखंधावारस्स उवरिं मेहनिवहं विउवंति, तओ जुगमुसलमुट्ठिप्पमाणधारहिं  
निरंतरं वारिनिवहं सत्तरत्तं जाय मुयंति । पियमित्तचक्कवट्ठीऽवि तं तहाविहं पिच्छिऊण दिव्वचम्मरयणं परामुसइ,  
तंपिय खिप्पमेव दुवालस जोयणाइं तिरियं पवित्थरइ, तत्थ सो समत्थोऽवि खंधावारो समारुहइ, पुणोऽवि नरिंदो  
नवनवइसहस्सकंचणसलागपरिमंडियं महरिहं विविहभत्तिचित्तं डिंडीरपिट्ठपंडुरं छत्तरयणं खंधावारस्स उवरिं वारस  
जोयणाइं समहियाइं वित्थारेइ, मणिरयणं च किरणजालं मुयंतं सरयरविसरिच्छं छत्तमज्झभागे ठवेइ, गाहावईवि  
चम्मरयणेगदेसंमि तद्विसपइन्ननिप्फण्णपूयाणं सवधण्णणं अणेगकुंभसहस्साइं उवट्ठवेइ, एवं च सो राया सव-  
प्पयारेहिं अणुविग्गो चम्मरयणमारुढो छत्तरयणच्छन्नोवरिमविभागो मणिरयणकओज्जोओ गाहावइउवट्ठावियधन्न-  
निचओ नियभंणगओव सुहेण अच्छेइ । किं बहुणा ?



नवि से लुहा न वाही नेव भयं नेव विज्जए दुक्खं । विजयाहिवस्स रण्णो खंधावारस्सवि तहेव ॥ १ ॥

अह पियमित्तनरिंदो संपत्ते सत्तरत्तपज्जंते । चित्तेइ फो णु एसो जो मं विद्वइ सल्लिलेणं ? ॥ २ ॥

एत्थंतरंमि आवद्धपरियरा विविहपहरणसमेया । सोलस जक्खसहस्सर मेहमुहाणं गया पासे ॥ ३ ॥

भणिया य तेहिं रे रे अप्पत्थियपत्थिया धुवं तुम्हे । जं चक्खवट्ठिणोऽविहु उवसग्गं एवमायरह ॥ ४ ॥

ता मुंचह चक्खुपहं अहवा जुद्धत्थमभिसुहा होह । इइ भणिए मेहमुहा गया चिलायाण पासंमि ॥ ५ ॥

साहंति सधवइयरमसमत्थत्तं च अत्तसत्तीए । नरवइसेवाकजे पेसेंति य ते चिलाएऽवि ॥ ६ ॥

अह मुक्केसहत्था पहरणरहिया नियंसिओल्लपडा । भयवसविसंडुलंगा गंतूण नमंति ते मेच्छा ॥ ७ ॥

कणगं विचित्तरयणे अत्तंपि विसिद्धवत्थुमर्पिंति । पडिवज्जिय तस्सेवं नियावराहं च खामेति ॥ ८ ॥

एवं च पवज्जियसेवा मिलेच्छा सम्भाणिकुण चक्किणा विसज्जिया सट्ठाणेसु, सेणावईवि सिंधुमहानईए वीअखंड-  
साहणत्थं पेसिओ पुषविहीए, तं च साहिऊण पच्छाऽऽगए तंमि पियमित्तो राया चक्काणुमग्गेण पट्ठिओ वेयहा-  
भिसुहं, कमेण य पत्तो पधयनियंवदेसं । तओ भणसीकरेइ उत्तरदाहिणसेठिविज्जाहरे, तेऽविय भयखुभियचित्ता  
नाणाविहकणगरयणपमुहपहाणवत्थुसमप्पणपुषयं नरवइणो सिरसा सासणं पडिच्छंति । सेणावईऽवि पुव्वकमेण गंगा-  
महानईपुषखंडं साहिऊण पासमल्लियइ ॥

पुष्पकमेण पुनरपि खंडगुहं लंघिऊण नरनाहो । चउरंगवलसमेओ गंगापचत्थिमे कूले ॥ १ ॥

खंधावारनिसेसं काऊणं पवररयणपडिपुण्णो । अट्टमभत्तपुरस्सरमह गिण्हइ नव महानिहिणो ॥ २ ॥

मणवंछियत्थकरणेकपचला वहरनिम्मियकवाडा । बहुपुन्नपावणिजां इमेहिं नामेहिं ते नेया ॥ ३ ॥

नेसुप्प पंडुए पिंगले य तह सघरयण महंपउमे । काले य महाकाले माणवग महानिही संखे ॥ ४ ॥

एएसिं चिय चकी निहीणमनिहीणपोरिसारंभो । सकारपुष्पयं कारवेइ अट्टाहियाहिमं ॥ ५ ॥

गंगापुरत्थिमिहं सेणावइणा दुइज्जमवि खंडं । गाहांवइ तत्थ ठिओ भुंजंतो विविहविसयसुहं ॥ ६ ॥

एवं च सो पियमित्तचक्कवट्ठी पसाहियछवखंडो निज्जियपडिवक्खचक्को अप्पणो आणाए ठवेंतो नराहिवे दंसंतो नियपरक्कमं सम्माणंतो सेवगज्जणं विरयंतो दीणाणाहाण अणवरयदानं वत्तीसनरवइसहस्साणुगम्ममाणो पडिनियत्तो मूयानयरीए, पडिच्छिओ दुवालसवारिसिओ महारायाभिसेओ । एवं च कयकायघो वत्तीसाए वत्तीसवद्धनाडयसहस्साणं सोलसण्हं जक्खसहस्साणं तिण्हं तिसट्ठीणं सूयसयाणं अट्टारसण्हं सेणिप्पसेणीणं चउरासीए तुरगसयसहस्साणं चउरासीए पवरकुंजरसयसहस्साणं छण्णउइए मणुसकोडीए वावत्तरीए पुरवरसहस्साणं वत्तीसाए जणवयसहस्साणं छन्नउइए गामकोडीणं नवणउइए दोणमुहसहस्साणं चउवीसाए कच्चडसहस्साणं अडयालीसाए पट्टणसहस्साणं चउवीसाए मडंबसहस्साणं वीसाए आगरसहस्साणं सोलसण्हं खेडसयाणं चउदसण्हं संवाहसह-

पडिहयपडिवक्यं चक्रदिनेफसोकरं, मिउकररमणिजं सज्जणासंसणिजं ।

तुममिव रविर्विरं पुषसेलावलंबं, उदयमिममियार्णि जाइ दोसेकहारणि ॥ १ ॥

इमं च उदयमद्गुंदरं मिलोगमायन्निऊण संभावियापुञ्चलाभो नरचई समुद्विऊण सयणिजाओ कयपाभाइयकायवो  
निसजो सीहासणे । एत्थंतरे समागया उज्जाणवालया, कयप्पणामा विन्नविउमाढत्ता य—देव ! वद्धाविज्जह तुम्हे  
जेण समागया भगवंतो पदुसीसगणसमेया पोट्टिलाभिहाणसूरिणों, समोसरिया य तुम्ह उज्जाणेत्ति । एवमायन्नि-  
ऊण निम्मरं पमोयभरमुण्हंतो दाविऊण तेसिं चिंताइरित्तं पारिओसियं पवरवारणसंधाधिरूढो सव्वपरियणस-  
द्विओ महाविभूर्ईए गओ चणी उज्जाणे, वंदिया सञ्चायरेणं सूरिणो, उवविट्ठो य जहासन्निहियघरणीए,  
जोडियकरसंपुडेण साद्विओ गुरुणो मेहविगमदंसणुम्भूओ सद्धम्मसमुज्जमसंभुहो नियचित्तपरिणामोत्ति, गुरुणा भणियं-  
भो महाराय ! रुसलाणुसारिणी तुज्ज घुद्धी, संपन्नो कम्मविवरो करकमलं निलीणां मोक्सलच्छी, जस्स तुह एवं-  
विहा वासणा, ता महाराय ! तिचिहा पुरिमा भवंति, तंजहा—उत्तिमा मज्झिमा जहन्ना य । तत्थ—

उत्तमपुरिता भवभंगुरत्तणं जाणिऊण णियमईए । परिचत्तगिहकलत्ता परलोयदियं पवजंति ॥ १ ॥

गरुयं रोगायंरुं तदापिहंपि ज विओगदुक्खं च । दद्रूण मज्झिमा पुण कहमवि लग्गंति जिणधम्मो ॥ २ ॥

जे उ जहन्ना ते सपहावि विविहाइर्निमग्गावि । दुफ्फसवपीडियाविहु न गुत्तिमग्गंमि लग्गंति ॥ ३ ॥

करुणोयद्विणा गुरुणा भणिज्जमाणावि विविहवयणेहिं । अच्छउ काउं धम्मं सहहिउंपि यि न सकंति ॥ ४ ॥  
 इय मज्झिमा जहन्ना य हुंति धम्माहिगारिणो न तथा । जह मुणियभवसरूवा सभावओ उत्तिमा पुरिसा ॥ ५ ॥  
 ता भो महायस ! तुमं जोग्गो सवण्णुभणियधम्मस्स । संपइ करेसु सहलं एयायरणेण नियजीयं ॥ ६ ॥  
 नहि वित्रायसरूवे विंतामणिपमुहदिव्वरयणंभि । अग्गहणिच्छा जायइ क(इ)यावि (वि)मुद्धिवुद्धीण ॥ ७ ॥  
 अन्नं च-जललवतरलं जीयं मुरिंदकोदंडविब्भमं पेमं । गयकण्णत्तालचवलं पुण्णंपि सरीरलायण्णं ॥ ८ ॥  
 मारुयपणुण्णपण्णं व भंगुरं सुंदरंपि तारुण्णं । आघयलक्खनिमित्तं वित्तंपि कहंपि पविढत्तं ॥ ९ ॥  
 एएसिं एक्केक्कंपि नूण वेरग्गकारणं गरुयं । सुहवुद्धीणं जायइ किं पुण सवेसिं समवाओ ? ॥ १० ॥  
 अच्छरियमिमं जे एरिसेहिं संवेगभावहेऊहिं । निचं विज्जंतेहिवि न मोक्खमग्गे पयट्ठंति ॥ ११ ॥  
 किं बहुणा कुणसु तुमं संपइ सद्धम्मकम्मपडिवत्तिं । बहुविग्घो सेयत्थो कालविलंबो न ता जुत्तो ॥ १२ ॥  
 एवं सोचा चक्खद्विणा भावसारं चलणेसु निवडिऊण भणिओ गुरू-अवित्तहमेयं, इयाणिं समीहामि अगाराओ  
 अणगारियं पडिवज्जिउं, गुरुणा भणियं-भइ ! मा पडिवंधं करेसु, जुत्तमेयं तुम्हारिसाणं मुणियपरमत्थाणंति बुत्ते  
 वंदिऊण गुरुं गओ नयरीए चक्खद्वी । समाहूया नायरयमंतिसामंतसेणावइपमुहपहाणपुरिसा, भणिया य-भो भो  
 इयाणिं जाया अह गिहपरिचायबुद्धी, काउं वंछामो निग्गंधपावयणपडिवत्तिं, ता समियधं तुच्चेहिं जं मए पुरा

निओइया आणानिहेसे, कारापिया सेवाविहिं, पीडिया समहिगकरगहणेणत्ति, तेहिं भणियं-देव !

पञ्चोपदेहिं पडियं हियं अम्हारिसाण निम्भंतं । जं परिसाइं वयणाइं तुम्ह सोउं न विहडेइ ॥ १ ॥

जणणीजणगा जेणं पढमं उघगारिणो परं जाया । परमुत्तरुत्तरगुणेसु नूणं अम्हे तए ठविया ॥ २ ॥

ता कह इयाणिं तुह चरणकमलसेवाविजिया गेहे । निग्घिणचित्ता अम्हे नियसंता नेव लज्जामो ॥ ३ ॥

जह तुम्हे तह फो वा अघराहपयं तित्तिविस्वही अम्ह । जह इहलोए तह परमवेऽपि ता नाह ! तं सरणं ॥ ४ ॥

एयं भणिए राइणा युत्तं-जइ एयं ता निययगेहेसु गंतूण सट्टाणे पुत्ते ठविऊण य कयसयलकायघा पवरसिविगा-  
धिरूढा ममंतियं पाउम्भबह, तहत्ति पडिपच्चिऊण गया ते सगिहेसु, कयं तफ्फालोचियं फियं, राइणावि  
अभिसिच्चो नियरञ्जे पुत्तो, समप्पिया करितुरगाइणो, कयमज्जणालंकारपरिग्गहो य चारुसिविगाधिरूढो तेहिं सघेहिं-  
वि पघच्चागहणाभिलासीहिं परिमुढो दिज्जंतेसु अणिवारियप्पसरं कणगाइदाणेसु वज्जंतेसु चउधिहत्तरेसु नच्चंतेसु तरुणि-  
सत्येसु युणंतेसु मागदनिपहेसु गओ उज्जाणं, ओयरिओ सिविगाओ, तिपयाहिणीकाऊण वंदिओ सूरी परिचत्ता-  
मरणस्त य दिज्जा से गुरूहिं पघच्चा, अंगीकया य तेण भावसारं ! अह पडियजिणिंदुद्धिसिद्धंतसत्यो गुरुजणपय-  
आराहणुच्चचित्तो परिहरियपमायुम्मायंमायापयंचो षडुविहत्तवक्कम्मासेवक्खीणदेहो ॥

विमल्लगणरूढापं अच्चिणंतो जिणंतो, कुसुमगरपमोक्खं घेरियग्गं समग्गं ।

नियजियमित्र सञ्चे पाणिणो रक्खमाणो, खणामेव अचयता सुत्ततत्तयचित्तं ॥ १ ॥

सुहदुहमणिलेहूसत्तुमिच्चाइएसुं, तुलमिव समरुवं चित्तवित्तिं धरितो ।

तिणमिव पडलग्गं छंडिउं सबसंगं, विहरइ वसुहाए निप्पकंपो महप्पा ॥ २ ॥

तो वासकोडिमेगं पव्वज्जं पालिऊण कयमरणो । सुक्कमि देवलोए जाओ देवो महिहीओ ॥ ३ ॥

इय वीरनाहवरिए सुपवित्ते दुक्खदारुकरवत्ते । सियपुरसंसुहपत्थियमंगलकलसेक्कवरसउणे ॥ ४ ॥

उसभजिणकहियहरिचक्कवट्टिपयपवरलाभपडिवद्धो । जणमणविम्हयजणणो संमत्तो तइयपत्थावो ॥ ५ ॥ जुम्मं ॥

( इति तइओ पत्थावो )

चतुर्थः प्रस्तावः

हरिचक्कवईण इमा भणिया वत्तवया पयत्तेणं । एत्तो नंदणनरवइवित्तंतं भे परिकहामि ॥ १ ॥

अत्थि सयलवसुंधरारमणीरयणकन्नपूरोवमा वेसमणरायहाणिविन्भमा छत्ता नाम नयरी, तत्थ धम्मराओ नयमग्गपव्वत्तणेण कयंतो कोवेण अज्जुण्णो किच्चीए वलभहो भुयवलेण मयलंछणो सोमयाए दिणयरो पयावेण पवणो सरीरसामत्थेण गुरु गुरुबुद्धिविभवेण महुमहो वलिसत्तुदमणेण वम्महो रूवेण सयलजयपायडजसो जियसत्तू नाम राया, तस्स य मयरद्धयपणइणीसमइरेगरूवविभवेऽवि विगयदप्पा इत्थिभावेऽवि दूरपरिचत्तमाया जहत्थाभिहाणा

निजोदया जाणानिहेसे, काराविया सेवाविहिं, पीडिया समदिगकरगहणेणत्ति, तेहिं भणियं-देव !

मज्जोपलेहिं पडियं हियं अम्हारिसाण निम्भंतं । जं परिसाइं वयणाइं तुम्ह सोउं न विहडेइ ॥ १ ॥

जणणीजणगा जेणं पढमं उवगारिणो परं जाया । परमुत्तरुत्तरगुणेसु नूणं अम्हे तए ठविया ॥ २ ॥

ता कह इयार्णिं तुह चरणकमलसेवाविषज्जिया गेहे । निग्घिणचित्ता अम्हे निवसंता नेव लज्जामो ॥ ३ ॥

जह तुम्हे तह को वा अयराहपयं तितिविस्वही अम्ह । जह इहलोए तह परमवेऽवि ता नाह ! तं सरणं ॥ ४ ॥

एयं भणिए राइणा युत्तं-जइ एयं ता निययगेहेसु गंतूण सट्टाणे पुत्ते ठविऊण य कयसयलकायघा पवरसिविगा-  
धिरूढा ममंतियं पाउम्भवह, तहत्ति पडिवज्जिऊण गया ते सगिहेसु, कयं तक्कालोचियं किच्चं, राइणावि  
अभिसिच्चो नियरज्जे पुत्तो, समप्पिया करितुरगाइणो, कयमज्जणालंकारपरिग्गहो य चारुसिविगाधिरूढो तेहिं सवेहिं-  
वि पषज्जागहणाभिलासीहिं परिबुडो दिज्जंतंसेसु अणिवारियप्पसरं कणगाइदाणेसु वज्जंतंसेसु चउविहत्तूरेसु नचंतंसेसु तरुणि-  
सत्पेसु युणंतंसेसु मागहनियहेसु गजो उज्जाणं, ओयरिओ सिविगाओ, तिपयाहिणीकाऊण वंदिओ सूरी परिचत्ता-  
भरणस्स य दित्ता से गुरूहिं पषज्जा, अंगीकया य तेण भावसारं ! अह पडियजिणिंदुद्धिसिद्धंतसत्थो गुरुजणपय-  
आराहणुत्तचित्तो परिहरियपमायुम्मायमायापवंचो बहुविहतयकम्मासेवक्खीणदेहो ॥

विमलगुणरूढायं अज्जिणंतो जिणंतो, कुमुममरपमोक्खं धेरिवग्गं समग्गं ।

नियजियमिय सन्वे पाणिणो रक्खमाणो, खणमिव अचयतो सुत्ततत्तयच्चित्तं ॥ १ ॥

सुहदुदमणिलेहूसत्तुमिच्चाइप्पसुं, तुळमिव समरुवं चित्तचित्तिं धरिंतो ।

त्तिणमिव पडळगं छंडिउं सवसंगं, विहरइ वसुहाए निप्पकंपो महप्पा ॥ २ ॥

तो वासकोडिभेगं पन्वञ्जं पालिऊण कयमरणो । सुंक्कंमि देयलोए जाओ देवो महिहीओ ॥ ३ ॥

इय वीरनाहचरिए सुपविच्चे दुक्खदारुकरवत्ते । सिवपुरसंसुहपत्तियमंगळकलंसेक्खवरसउणे ॥ ४ ॥

उसमजिणकदियहरिचक्खवट्टिपयपवरलाभपडिवद्धो । जणमणविम्हयजणणो संमत्तां तइयपत्थावो ॥ ५ ॥ जुम्मं ॥

( इति तइओ पत्थावो )

चतुर्थः प्रस्तावः

हरिचक्खवट्टेण इमा मणिया वत्तघया पयत्तेणं । एत्तो नंदणनरवइचित्तंतं भे परिक्हामि ॥ १ ॥

अत्थि सयलवसुंधरारमणीरयणकन्नपूरोवमा वेसमणरायहाणिविन्ममा छत्ता नाम नयरी, तत्थ धम्मराओ नयमग्गपन्वत्तणेण कयंतो कोवेण अज्जुण्णो किच्चीए वलभहो सुयवलेण मयलंछणो सोमयाए दिणयरो पयावेण पवणो सरीरसामत्थेण गुरु गुरुद्विविभवेण महुमहो वलिसत्तुदमणेण वम्महो रूपेण सयलजयपायडजसो जियसत्तू नाम राया, तस्स य मयरद्धयपणइणीसमइरेगरूवविभवेऽवि विगयदप्पा इत्थिभावेऽवि दूरपरिचत्तमाया जहत्थाभिहाणा



महा नाम देवी, तीए मर्दि अणुरुवसिसयसोफ्थमणुहवंतस्स राइणो वचंति वासरा, अन्नया य सो पियमित्तो  
जाउयह्णएणं देवलोगाउ चइऊण समुप्यण्णो तीसे गुत्तत्तणेण, कयं च समुचियसमए नंदणोत्ति नामं, धवल-  
पह्णसमहरप पड्डिओ सरीरेणं कळाफळावेण य । अन्नया पिउणा जोगोत्ति कळिऊण निवेसिओ नियपए, जाओ  
सो नंदणो राया, पुब्बपवाहेण थालेइ मेइणी । एअं च तस्स निज्जिणंतस्स सत्तुनिवहं इंदियगणं च वित्थारंतस्स  
दिसामुहेयु निम्मळं जमप्पसारं गुणनिवहं च पणासंतस्स दोससमूहं पिसुणयग्गं च नितस्स समुन्नइं कोसं वंधुजणं  
च परिपालितस्स साट्टुओयं गुरुजणोवएसं च समइकंताइं वउवीसयाससयसइस्साइं । अन्नया य वाहिरुज्जाणे समोसढा  
मयवंतो मीममयजलहितरणतरंडा विमुदसज्जाणाइगुणरयणकरंडा मोहमहामल्लपेल्लणपयंडा कुमयतमोमुमुमूरण-  
पंडमायंडा मिच्छच्चंघजगवयलंपणेकदंडा पडिवोहियमवियकमल्लखंडा सुगहियनामधेया पोट्टिलाभिइणा येरा,  
तओ सो राया विण्णायतदागमणो पियसिययणो समुलसियकवोओ वियंभियसपंगरोमंचकंनुओ समागओ वंद-  
णत्थं । तओ तिययाहिणीकाऊण पढमदंसणुळलियहरिमपगरिसविप्फारियाणं धवलदिट्ठिवायाणं छलेण विल-  
गियसममरमियरुमुमेहि पूयापम्मारंपिव सच्चंगियं गुरुणो फरेमाणो पयलंतनयणाणंदजलेण पक्खाटेउमुवट्टिओप्य  
चरणे चरणेफरसियमाणसो माणमोयरदिओ दिओयएसोवलंभकामो कागोपपायमइम्म गरिणो निपट्टिऊण चरणेयु  
परमपमोयमुव्यइंतो मणिउमाइत्तो—

वज्रिहरहरिसुराणंपि अज्ज मन्नामि अप्पयं अहियं । जं तुम्ह पायपउमं दुल्लहलंभं मए पत्तं ॥ १ ॥  
 ते दूरनिरंतरवित्थरंतमुहनिवहभाइणो मणुया । जे तुम्ह चलणकमले कुणंति भसलत्तणं धन्ना ॥ २ ॥  
 जीयिज्जइ कज्जि एत्तियस्स तुच्छेऽवि जीयलोयंमि । जेण किर कहवि तुम्हारिसेत्थ दीसंति तित्थसमा ॥ ३ ॥  
 उव्वहउ मही भुवणत्तएवि पयडं वसुंधरा नामं । जा अज्जवि तुम्ह सरिच्छपुरिसरयणाइं धारेइ ॥ ४ ॥  
 इय थुणिऊणं विरए भत्तीए नंदणे नरिंदंमि । जोगोत्ति कलिय कहिउं पारद्धो-सूरिणा धम्मो ॥ ५ ॥  
 भो नरवदं! संसारे सुचिरं परिभन्निव दुक्खसंतत्ता । नरयाइगईसु केऽवि पाणिणोऽणंतकालेणं ॥ ६ ॥  
 वालतवायरणाओ अहवावि अकामनिज्जरवसेण । पावंति माणुंसत्तं कहकहवि हु रिद्धिसंजुत्तं ॥ ७ ॥ जुम्मं ॥  
 पत्ते य तंमि अविगणियभवभया चत्तधम्मपडिवंधा । हीलियधम्मायरिया उवहसियविसिद्धजणचेट्ठा ॥ ८ ॥  
 विसएसु पसज्जंती पाणिवहाईसु संपयट्ठंति । भंगुरमवि ससरीरं मन्नंता सासयं मूढा ॥ ९ ॥ जुम्मं ॥  
 अन्ने पुण मणवंछियभोगुवभोगोवलंभभावेऽवि । आणिस्सरियपहाणे विस्संभरनायगत्तेऽवि ॥ १० ॥  
 विसयधामूढाविहु धम्मगिरं सुणिय धम्मगुरुमूले । नरवद! नरसिंहो-इव पवज्जं संपवज्जंति ॥ ११ ॥ जुम्मं ॥  
 अहया पुण्णवसज्जियरज्जदुगुहामलच्छिविच्छडो । नरविक्रमनरनाहो तस्सेव सुओ महासत्तो ॥ १२ ॥  
 एए चिय महणिज्जा पवरं एयाण चेव पुरिसत्तं । जेसिं जणविम्हयकरं चरियं सलहिज्जइ जयंमि ॥ १३ ॥

इमं च सोधा नंदणनराहिवेण जंपियं-भयवं ! को एस नरसीद्धो ? को धा तस्स सुजो नरविक्रमो ? कहां वा  
एमो रज्जुगं लद्धंवि पन्नं पवत्तोत्ति सपित्थरं साहेह, महंतं मे कोउगं, सूरिणा जंपियं-निसामेहि ।

अत्थि कुरुपिसयतिलवभूया अदिद्धपरचफभया जणनिवहाणुगया जयंती नाम नयरी,  
पालेइ तं च ससहरसरिच्छपसरंतकित्तिपन्नारो । निप्पडिमपयावफंतसत्तुपणिवइयकमरुमलो ॥ १ ॥

उत्तुंगतुरयसिंधुरपकलपाइकचकमलरुडिओ । सज्जोव्व सुरपुरिं परमविक्रमो राय नरसिंधो ॥ २ ॥

विसमन्तो इत्थीलोलुओ य दुग्गायवद्धनिघरई । जस्स हरोऽवि न सरिसो तस्स समं कं जणं मणिमो ? ॥ ३ ॥

तस्स य नीसेसअंतेउरप्पहाणा पयणलायण्णावगणियपडिपुण्णचंदमंडला सललियपेत्तहलगइविजियराय-  
हंसा कुम्मुण्णयकमलकोमलपाडलचलणजुयला रायहाणिव्व मयरद्धयनरनाहस्स विसालसाळव्व विमलसीलसाळी-  
णयामहामोत्तभंडस्स भंजूमव्व सन्नरइसोक्खमणिखंडमंडारस्स चंपयमाला नाम भारिया अहेसि, जीसे भंगुरत्तणं  
तिरिच्छच्छिविच्छोहेसु न धम्मकम्मुच्छाहेसु तरलया विमलमणिमुत्ताहारे न विसिद्धलोयववहारे तणुत्तमुदरस्स न  
सरस्स कुडिलत्तं फेसकलावस्स न सप्पणयालावस्स, अवि य—

नियरुयपिजिवसुररज्जुजोव्वणगच्चाए कुवलयच्छीए । उम्मडसिंजारमहासमुद्धदुरिसनेलाए ॥ १ ॥

को तीए मणियविग्गमनेवत्तवच्छेययागुणसमूहं । वण्णेउ तरइ तूरंतजोऽवि जीहासणंपि ? ॥ २ ॥

तथा-नियचक्रसंधिरक्खणवियक्खणो पयइपालणाभिरओ । अन्नोऽन्नवद्धपणओ दूरं संतोससारो य ॥ ३ ॥  
 सुप्पणिहियपणिहियओ पमुणियरिउचक्खुविलवावारो । पडुभत्तो गुणरागी निबूढभरो महारंभो ॥ ४ ॥  
 एक्केकपद्दाणगुणो मंतिजणो बुद्धिसारपमुहो से । अत्थी समत्थनयसत्थ(नि)समणवित्थरियगइप्सरो ॥ ५ ॥  
 जणयरयमसुरफीरंतडमरमयविहुरसुरवहसुहडं । हीरंतपवररणं जो सोचा तियसरायपुरिं ॥ ६ ॥

उवहसइ सुरगुरुंपिव सबुद्धिमाहप्पपडिह्यविपक्खो । तस्स किर मंतिवग्गस्सं भणसु केणोवमं कुणिमो ॥७॥जुम्मं ।  
 एवंविहगुणे मंतिजणे समारोवियरज्जर्चितामहाभरस्स लीलाए चिय धरं धरंतस्स गामागरनगराउलं धरणिमंडलं  
 वसमुवर्णितस्स जायमरणभयवामोहं दुहंतसामंतसमूहं पवत्तयंतस्स दीणाणाहजणमणोवंछियपुरणेकपच्चलाओ महा-  
 दाणसालाओ कारितस्स तुंगसिंगोवहसियहिमसेलसिहरसिंगाहं मयणाइमंदिराहं निसामितस्स धम्मत्थपयासण-  
 समत्थाहं समयसत्थाहं आराहितस्स दुकरतवचरणसलिलपक्खालियपावमलाहं गुरुचरणकमलाहं निवारितस्स ज-  
 णियजणवामोहं धम्मविरोहं सम्मारणितस्स गुणगणोदग्गं पणइसयणवग्गं पुब्वजियसुकयसमुब्भवंतर्चिताइरिचसो-  
 क्खस्स पुरिसत्थसेयणभुल्लयस्सं नयविणयवंतस्स दाणाणंदियवंदिजणसंदोडुग्घुदुल्लहचरियस्स वोळित्ति वासरा तस्स  
 राइणो भुयणपयडस्स । अत्रया य विचित्तचित्तमणहरंमि मंदिरंमि पच्छिमरयणीसमए सुहसेजाए सुत्तस्स तस्स  
 मंदीभूयंमि निदापसरे वियक्खणेण पडियमेक्केण जामरक्खगपुरिसेण—

जे पुषपुरिसवंसप्परोहगाढप्परूढमूलसमं । वेरि कुलकमलनिदलणकुंजरं सयलगुणनिलयं ॥ १ ॥

पुत्तं ठविडं नियए पयंमि पडिवन्नसंजमुज्जोगा । इह परभवे य कह ते पारिविति न निव्वुइं पुरिसा ? ॥ २ ॥ (जुम्मं)

एवं च सोषा चित्तियं रत्ना-अहो दुल्लंभमेयं, जओ मम एत्तियकालेऽपि पउरासुवि पणइणीसु न एकस्सवि कुलालं-  
वणस्स पुत्तस्स लाभो जाओ, अच्छउ सेसं, एवं ठिए य किं फरेमि? किं समाराहेमि?, कत्थ वचामि? कस्स  
साहेमि? को उवाओ? के वा एरिसकंजे सहाया? को यमे पुरिसयारो? का वा पुषकम्मपरिणइत्ति खणं किं-  
फायघयमूढयं अणुभविय तघेलं चेव, अंगीकयसत्तभावो एवं सम्मं परिभाविडं पवत्तो-

परलोयपवत्ताणं जइवि सुएहिं न होइ साहारो । जं सघंसय उयरिं गओवि नगओ दुहं कुणइ ॥ १ ॥

तहविय पुषनराहियसंतइवुच्छेय दुक्खमक्खिवइ । मज्झ मणो पुषनरिंदरक्खिओ कुरुजणवओ य ॥ २ ॥ (जुम्मं)

एत्थंतरे जायाइं समुद्धियभारुंडकारंडवहंसचक्कवायकुलकोलाहलाउलियांइं दिसिमुहाइं वियलंतपभापसरो वि-  
च्छाईभूओ तारयानियरो पसरिया सिंदुरेणुपुंजपिंजरा सूरसारहिपभा ताडियाइं पडहसुरवज्जलरिभंभाभेरीभंकार-  
भासुराइं पमायगंगलतूराइं समुग्गओ कमलसंडपयंडजइविच्छइखंडणुद्वामरकरपसरो दिणयरो, तओ उट्टिऊण स-  
यणिज्जाओ निस्सरिओ वासभवणाओ कयपाभाइयकिथो अंगरक्खपीढमहप्पमुहपहाणपरियणाणुगओ अत्थाणीमंडवे  
गंतूण राया अणेगमणिकिरणविच्छुरियंमि सूरोष पुषपवयसिहरंमि कणयसिहासणंमि निविट्ठो, तयणंतरं च ठियाओ

उभयपासेसु चामरगाहिणीओ निविट्टा य नियनियट्टाणं मंतिसामंतसुहडखंडरक्खपामोक्खा पहाणपुरिसां पडि-  
 ञ्छियाइं पचंतरायपेसियमहरिहपाहुडाइं चित्तियाइं रज्जकजाइं, खणंतरे य पेसियनीसेससामंतपभिइजणो कइव-  
 यपहाणजणपरियरिओ एगंतट्टिओ रयणिवइयरं बुद्धिसारपमुहाण मंतीणं संसिऊण पुच्छिउमेवं समारद्धो-भो  
 मंतिणो ! मुणह तुम्हे समयसत्थाइं बुद्धह तंतमंतपडलाइं पञ्चुवासह विज्जासिद्धे सयंपि सघोवहासुद्धबुद्धिणो विवे-  
 यह गुविलंपि कच्चजायं, ता साहह कहमिमस्स सुयलाभचित्तासायरस्स पारं वच्चिस्सामोत्ति ? खणंतरं च चित्तिय  
 जुत्ताजुत्तं भणियं मंतिवग्गेणं-देव ! सुट्टु सट्टाणे ससुज्जमो, अम्हे पुरावि देवस्स पयमट्टं विन्नविउकामा आसि,  
 संपयं पुण समयेव देवेण सिट्ठे लट्ठं जायं, किं तु देवो अम्हे उवायं पुच्छइ, तत्थ य किं साहेमो ?

अइदिघनाणनयणोवलम्भरूवंमि एत्थ वत्थुंमि । कमुवायविहिं भणिमो ? किं वा पञ्चुत्तरं देमो ? ॥ १ ॥

आगारिंणियगइभणिइगोयरं मिणइ मारिसो अत्थं । एवंविहे य कजे अम्हं को बुद्धिवावारो ? ॥ २ ॥

एयं पुण जाणेमो नियनियकम्माणुरुवट्टाणेषु । जीवा उवायविरहेवि होंति पुत्ताइभावेणं ॥ ३ ॥

इसिऊण भणइ राया जइ एवं जणणिजणगविरहेऽवि । गयणंगणे पइक्खणसुववज्जंतीह किमजुत्तं ? ॥ ४ ॥

कम्मपहाणत्तणओ ता मा एगंतपक्खमणुसरह । जं दवखेत्तकालावि कारणं कज्जसिद्धिमि ॥ ५ ॥

अह भालयलमिलंतकरकमलं जं देवो आणवेइ अवित्तहमेयंति मन्निऊण बुद्धिसारपमुहो मंतिवग्गो भणिउमा-

उत्तो—देव ! जइ एवं ता निसामेहि, अत्थि इहेव साहियपयंडचंडियाविज्जो मुंडमालालंकियविग्गहो निउणो पि-  
 सायसाहणेमु साहसिओ साइणीनिग्गहे कयकरणो खेत्तवालाययारेसु खोइक्खमो कन्नविज्जासु ओसहीसहस्ससंपि-  
 ट्ठरसायणपाणपणासियजराविहुरो विवरपवेसपरितोसियजक्खिणीलक्खपरिभोगप्पयारपरूवणपंडिओ महंघइयवे-  
 सधारी घोरसियो नाम तवस्सी ।

अवि य—आगिट्ठंमि पगिट्ठो खुत्तो पन्नगमहाविसुद्धरणे । विक्खेवकरणदक्खो अमूढलक्खो वसीकरणे ॥ १ ॥

जं सत्थेसु न सिट्ठं चंधुरखुद्धीहिं पुवपुरिसेहिं । जं नो पुव्वकईणवि कहिंपि मइगोयरंमि गयं ॥ २ ॥

जुत्तीहिवि जं विहडइ सुयंपि जं सहहंति नो कुसला । जं सुइरंपि हु विट्ठं संदिज्जइ तंपि दंसेइ ॥ ३ ॥ (जुम्मं)

भणइ य अत्थि असज्झं मज्झं भुवणत्तएवि नो किंपि । जइ सो एयसमत्थो एत्थवि देवो पमाणंति ॥ ४ ॥

एवं सोचा रत्ता कोउहलेण भणिया पहाणपुरिसा—अरे आणेह तं सिग्घमेव, जं देवो आणवेइत्ति भणिकुण  
 निकुखंता ते य रायभवणाओ, गया तस्सासमपयं, पणमिऊण निवेइयं से आगमणप्पओयणं, तओ हरिसुप्फुल्लो-  
 यणो कयक्किचमप्पाणं मन्नंतो तो चलिओ घोरसियो रायपुरिसेहिं समं, पत्तो य रायभवनं, दुवारपालनिवेइओ गओ  
 रायसमीवं, दिन्नासणो उवविट्ठो, सम्माणिओ उचियपडिवत्तीए नरवइणा, खणंतरे य पुच्छिओ एसो—भयवं ! कयरीओ  
 दिसाओ आगमणं ? कत्थ वा गंतव्वं ? किं वा एत्थावत्थाणप्पओयणंति ? घोरसिवेण भणियं—महाराय ! सिरिपवयाओ

आंगजोऽहि, संपयं पुण उत्तरदिसिसुंदरीसवणकन्नपुरे जांलंधरे गन्तुमिच्छामि, जं पुणं पुच्छह अवत्थाणपओयणं तत्थ  
 य तुम्ह दंसणमेव, संपयं एयंपि सिद्धंति, नरवइणा भणियं—भयवं! निरवग्गहा सुणिज्जइ तुम्ह सत्ती मंततंतेसु ता  
 दंसेसु किंपि कोउगं, तओ जं महाराओ निवेयइत्ति पडियजिय तेहिं तेहिं दिट्ठिवंचणदेवयावधारणनरवेहपुप्फवेहनट्ट-  
 मुट्ठिसुहदुक्खपरिजाणणप्पमुहकोऊहलेहिं वसीकयं घोरसिवेणं नरिंदचित्तं, अह अवसरं लद्धिऊण भणियं राइणा-  
 भयवं! किं एएसु चेव कोऊहलेसु तुह विजाणपगरिसो उआहु अन्नत्थवि अत्थि?, सुणिणा भणियं—किमेवमंसं-  
 भावणागन्भंमहारिसज्जाणुचियं वाहरसि?, एगसहेणेव साहेसु जं दुफ्फरंपि कीरइ, तओ राइणा निवेइओ पुत्त-  
 जम्मलाभविसओ वुत्तंतो, घोरसिवेण भणियं—किमेत्तियगेत्तेण किलिंस्ससि?, अहमेयमट्टं अकालेवि अविलंबं पसा-  
 हेमि, राइणा भणियं—जइ एवं ता परमोऽणुग्गहो, केवलं को एत्थ उवाओ?, घोरसिवेण भणियं—एगंते निवे-  
 यइस्सं, तओ उक्खित्ता कुवलयदलसच्छाहा मंतीसु राइणा दिट्ठी, उट्ठिया य इंगियागारकुसला सणियं सणियं नरिं-  
 दपासाओ मंतिणो, जायं विजणं, घोरसिवेण जंपियं—महाराय! कसिणचउहसीनिसिए मए बहुपुप्फफलधूवक्ख-  
 यवलिभक्खपरियरेण तुमए सह भयवं महामसाणडुयासणो तप्पणिज्जो, राइणा चित्तियं—कहं नु मए पुप्फाइपरि-  
 यरेण सह डुयासणो तप्पणिज्जोत्ति?, अवसहोत्ति, अहवा अभिप्पायसाराइं इत्थियणाइं, नो विसंबंधलक्खणदूसण-  
 भावहंति, सुणिणा भणियं—महाराय! सुण्णचक्खुक्खेवो इव लक्खीयसि, राइणा भणियं—ना एवमासंकह, निवेयह



जहा पारदं, मुणिणा भणियं—तओ सो भयवं हुयासणो—उब्भडपयडियरूयो पर्यडजालाकलावभरियनहो । दाही  
तुज्झं वंछियफलनियरं कप्परुक्खोघ ॥ १ ॥ राइणा भणियं—जइ एवं ता सब्बहा आगमिस्सं चउद्दसीनिसाए, एस  
अत्यो साहियघोत्ति, पडिवन्नं च तेण, अह कयकुसुमतंवलदाणसम्माणे सट्टाणंमि गए घोरसिवे राया निव्वत्तियदेव-  
याचरणकमलपूयापडिनत्तीहिं तेहिं तेहिं अस्सदमणाइएहिं विचित्तविणोएहिं अप्पाणं विणोएंतो पइक्खणं दिणाइं  
गणमाणो य कालं गमेइत्ति, कमेण य पत्ताए कसिणचउद्दसीए आहूयं मंतिमंडलं, निवेइयं रहस्सं, पुच्छियं च-संपयं  
किं कायवन्ति?, मंतीहिं पभणियं—देव ! किंपागफलाइंपिव मुहंमि महुराइं परिणइदुहाइं अन्नाइं तदियराइं दुहावि  
दीसंति कज्जाइं, अत्यस्स संसओऽविहु पवित्तिहेउत्ति किं तु निद्धित्तो, अविमुक्काविस्सासेहिं सब्बहा उज्जमेयघं, एवं  
भणिए राइणा कुसुमतंवालाइदाणपुषगं सम्माणिकुण मंतिवग्गो पेसिओ सगिहे, जाए य रयणिसमए सयं कयवे-  
सपरियत्तो नियत्तियपीढमहाइपरियणो समग्गवल्लिफलफुल्लपमुहसाहणपडलसमेओ करकलियत्तिक्खग्गखग्गमंडलो  
घोरसियसमेओ जलक्खिज्जंतो अंगरक्खेहिं अमुणिज्जंतो दासचेडचाडुकारनियरेहिं धारिज्जमाणो पवत्तिज्जमाणो  
य पडिकूलेहिं अणुकूलेहिं य अणेगेहिं सउणेहिं सधंगनिविद्धविसिद्धरक्खामंतक्खरो संपत्तो महीवई महामसाणदेसं ।  
जं च फेरिसं ?—

निलीणविज्जसाहगं पवूढपूयवाहगं, फरोडिकोडिसंकडं, रडंतधूयककडं ।

सिवासहस्रसंकुलं मिलंतजोगिणीकुलं, पभूयभूयभीसणं कुसत्तसत्तनासणं ॥

पधुदुदुसावयं जलंततिषपावयं, भमंतडाइणीगणं पवित्तमंसमग्गणं ॥ १ ॥

कहकहकहट्टहासोपलक्खसगुरुरक्खलक्खदुप्पेच्छं । अइरुक्खरुक्खसंवद्धगिद्धपारद्धघोररवं ॥ २ ॥

उत्तालतालसहुम्मिलंतवेयालविहियहलवोलं । फीलावणं व विहिणा विणिम्मियं जमनरिंदस्स ॥ ३ ॥

तत्थ य निरुविओ सल्लक्खणभूमिमागो घोरसिवेण, खित्तं च वल्लिपिहाणं कया खेत्तवालपडियत्ती सणिया वेइया  
भरिया खाइरंगाराणं मसाणसमुत्थाणं, मणिओ य राया-अहो सो एस अवसरो ता ददमप्पमत्तो ईसाणकोणे  
इत्थसयदेससंनिविट्ठो उत्तरसाहगत्तणं कुणमाणो चिट्ठसु, अणाहूओ य मा पयमवि चलेज्जासित्ति पुणो पुणो निवा-  
रिय पेसिओ नरिंदो, गओ य एसो, घोरसिवेणाधि आलिहियं मंडलं, निसत्तो तर्हि, निवद्धं तर्हि पउमासणं, कयं  
सकलीकरणं, निवेसिजा नासावंसग्गे दिट्ठी, कओ पाणायामो, नायविंदुलवोववेयं आढत्तं मंतसुभरणं, समारूढो  
ज्ञाणपगरिसंमि। इओ य चित्तियं राइणा-अहं किर पुवं सिक्खं गाहिओ मंतीर्हि, जहा-अविस्सासो सव्वत्थ काय-  
वोत्ति, निवारिओ य सघायरं पुणो पुणो एएण जहा अणाहूएण तए नागंतवन्ति, ता समहियायरो य जणइ संकं, न  
एवंविहां कावालियमुणिणो पाएण कुसलासया हवंति, अओ गच्छामि सणियं सणियमेयस्स समीवं, उवलक्खेमि से  
किरियाकलावंति विगप्पिडं जाव पट्ठिओ ताव विप्फुरियं से दक्खिणलोयणं, तओ निच्छियवंछियत्थलाभो करकलिय-

करवालो कसिणपडकयावगुंठणो मंदं मंदं भूमिविमुक्कचरणो गंतूण पुट्टिदेसे ठिओ घोरसिवस्स, सुणिउमाढत्तो य,  
सो य श्शानपगरिसत्तणेण अणावेविराय अवायं अविभाविय पडिकूलत्तं विहिणो अवित्रायतदागमणो नरवइधोभक-  
रणदरूखाइं मंतस्सराइं पुच्चपचित्तविहिणा समुचरितो निसुणिओ रत्ता, परिभावियं चउणेण—अहो एस दुट्टतवस्सी  
मं धोभविहिणां विवलं काऊण सन्निहितनिद्धित्तकत्तियाए परिकुवियकयंतभमुहकोणकुडिलाए विणासिऊण हुयवहं  
तप्पिउं वंछति, पहाणनरोवहारविहिणा हि सिज्झंति दुट्टदेवयाओ, ता किमेत्थ जुत्तं?, अवि य—

एतस्स किं इयारिणं वावडचित्तस्स तिवररग्गेण । कदलीदलं व सीसं लुणामि पासंडिचंडस्स ॥ १ ॥

अहवा दुद्धररिउगंधसिंधुराघायदंतुरग्गेण । रग्गेण मज्झ लज्जिज्जईह घायं करंतेण ॥ २ ॥

केवलमुवेहणिज्जो नयेस एयंमि होइ पत्थावे । जं धोभकरणविहिणा मरणं मह वंछई काउं ॥ ३ ॥

तथापि—श्शानावरोहयक्खित्तचित्तपसरंमि हणिउकामस्स । सग्गं गयावि गुरुणो होहिंति परंमुहा मज्झ ॥ ४ ॥

ता जुत्तमिणं ठाऊण दूरदेसंमि योहिउं एयं । पढमं दिन्नपहारे पडिपहरेउं ममेयंमि ॥ ५ ॥

इय चिंत्तिऊण रण्णा ठाउं दूरे पयंपियं एयं । गिण्हसु करेण सत्थं रे रे पासंडिचंडाल ! ॥ ६ ॥

इइ सोया श्शानेगग्गभंगरोसोवरत्तनयणजुओ । भालयलघडियभडभिउडिभीसणो उट्टिओ सोऽवि ॥ ७ ॥

करकलियनिसियकत्तियनियंतकसिणप्पमोलिज्जडिसंगो । अह तिवग्गव्वघोरं घोरसिवो भणिउमाढत्तो ॥ ८ ॥

रे रे दुष्टनरादिव ! विलज्ज निस्सत्त मा पलाइहिसि । सुयविसयतिकखदुक्खाओ जेण मोएमि तं श्चि ॥ ९ ॥  
 रण्णा पढियं मा गज्ज निष्फलं पहर रे तुमं पढमं । न कयाइवि अम्ह कुले पढमपहारो कओ रिउणो ॥ १० ॥  
 तत्तो विचित्त यग्गणसुनिउणरुणप्पयारकुसलेण । घोरसिवेणं रत्तो पवाहिया कत्तिया कंठे ॥ ११ ॥  
 रत्तायि तक्खणं चिय दक्खत्तणओ इमस्स सत्थजुओ । हत्थो पहारत्तमए वद्धो नियवाहुबंधेण ॥ १२ ॥  
 भुयदंडनिविडपीडणविहंडिवदडपहरणंमि हत्थंमि । मुट्ठिप्पहारपहओ नियाडिओ सो धरणिवट्ठे ॥ १३ ॥  
 ददमंततंसिद्धीणि विहडिया तस्स तंमि समयंमि । विवरंमुहंमि दइये अहया सघं विसंघयइ ॥ १४ ॥  
 अह वीसमिऊण खणं घोरसिवो फुरियवीरिओ सहसा । पारद्धो रत्ता सह जुज्जेउं वाहुजुज्जेणं ॥ १५ ॥  
 मत्ताण व खणमुट्ठीण पडणपरिवत्तणुघलणभीमो । सरहसहसंतभूओ अह जाओ समरसंरंभो ॥ १६ ॥  
 निविडभुयदंडचंडिमसंपीडणविहडियंगवावारो । मुच्छानिमीलियच्छो अह निहओ सो महीवइणा ॥ १७ ॥  
 एत्थंतरंमि तियसंगणार्हिं वियसंतसुरहिकुसुमभरो । जयजयसहुम्मीसो पम्मुफो नरवइसिरंमि ॥ १८ ॥  
 हारद्धहारकंचीकलावमणिमउडमंडियसरीरा । रणज्जणिरमहुरनेउरखपूरियदसदिसाभागा ॥ १९ ॥  
 नवपारियायमंजरिसोरभरइसुम्मिलंतमसलकुला । धरियधवलाययत्ता तहागया देवया एका ॥ २० ॥ जुम्मं ।  
 तीए भणियं नरसिंघ । निच्छियं तंसि चेव नरसिंघो । जेणस महापावो खत्तियखयकारओ निहओ ॥ २१ ॥

रण्णा भणियं कह देवि ! कहसु खत्तियखयंकरो एस ? । मइ जीवन्ते संपइ, पडिभणइ निवन्तओ देवी ॥ २२ ॥  
 एएण किंपि सिद्धिं समीहमाणेण पावसमणेण । हणिया कलिगवंगंगहूणपंचालपमुहनिवा ॥ २३ ॥  
 दिट्ठिप्पयंचमाइंदजालपमुहेहिं कूडकवडेहिं । अच्छरियाइं दावितएण को को न वा नडिओ ? ॥ २४ ॥  
 न य केणवि एस जिओ न यावि एसस्स लक्खियं सीलं । तुमए उभयंपि करं अइह मई निम्मला तुज्झ ॥ २५ ॥  
 इय तुह असरिससाहससुंदरचरिएण हरियहिययाए । मम साहसु किंपि वरं जेणाहं तुज्झ पूरेमि ॥ २६ ॥  
 ताहे मउलियफरकमलसेहरं नामिउं सिरं राया । भणइ तुह दंसणाओऽवि देवि ! अन्नो वरो पवरो ? ॥ २७ ॥  
 भणियं सुरीएँ नरवर ! इयरजणोन्न न जइयि पर्येसि । तद्वि तुह वंछियत्थो होही मज्झाणुभावेण ॥ २८ ॥  
 इय भणिए नखइणा पराएँ मत्तीएँ पणमिया देवी । लच्छिघ पुण्णरहियाण झत्ति अइंसणं पत्ता ॥ २९ ॥  
 नरिंदोऽवि तारिसमच्चमुयं देवीरुवं सहसच्चिय नयणगोयरमइकंतमुवलम्भ चिंताकल्लोलमालाउल्लो एवं परि-  
 भावेइ—किमेयं मुभिणं उयाहु विभीसिया अहवा एसस्स चेव दुट्ठकावालियस्स मायापवंचो किं वा मम मइ-  
 विन्भमो उयाहु अवितहमेयंति ?

इय जाव नियो संदेहदोलमालंविउं विरुप्पेइ । मा कुणसु संसयं ताव वारिओ गंयणवाणीए ॥ १ ॥  
 पोरसिबोवि मत्तो इव मुच्छिओ इन दढदुघणताडिओ इय महापिसायनिप्फंदीकओ इव मुखियसारवक्खरो इव

पियविरहमहागहगहिओ इव दुट्टोसहपाणप्पणट्टचित्तचेयणो इव स्रणंतरं चिट्ठिय सिसिरमारुणण समासासियसरीरो  
 योवोवलद्धचेयणो मंदमंदमुम्मीलियलोयणजुयलो लज्जावसविसंडुलसन्नंगोवंगो अइदीणवयणो दीहमुस्ससिय राया-  
 णमवलोइउं पवत्तो, नरवइणावि दढसंजायकरुणभावेण अइदुक्खिओ एसोत्ति उवलक्खिय भणिओ घोरसिवो-  
 मो किमवलोएसि?, घोरसिवेण सगग्गयं भणियं—महाराय! अवलोएमि नियकम्मपरिणइविलसियं, राइणा  
 भणियं—किमेवं सविसायं जंपसि?, सव्वहा धीरो भव परिहर दुरज्झवसायं परिचय कोवकंडुं विमुंच विजयाभिलासं  
 अणुसर पसमाभिरइं पियसु करुणारसं परिचित्तेसु जुत्ताजुत्तं समुज्झसु खुइजणोचियं वाचारंति, अह समीहियत्व-  
 सिद्धी न जायत्ति सम्मसि ता गिण्हसु इमं परिकुवियकयंतजीहाकरालं नीलपहापडलसामलियसयलदिसिचक्कवालं  
 मम करवालं, करेसु मम सरीरविणासणेण नियसमीहियसिद्धिं, जओ मुक्को मए संपयं पोरिसाभिमाणो तुह कज्जसाह-  
 णट्टाएत्ति । अवि य—

अञ्छउ तरंगभंगुरमसारंगं नियसरीरयं दूरे । जीयंपि हु परहियकारणेण धारिंति सप्पुरिसा ॥ १ ॥

जं पुण पढमं चिय तुज्झ कारणे नो समप्पिओ अप्पा । विहिओ य ज्ञाणविग्घो एयं नणु कारणं तत्थ ॥ २ ॥

मम विरहे एस जणो एसो नीसेससाहुवग्गो य । धम्मन्भंसमवस्सं पाविस्सइ पावलोयाओ ॥ ३ ॥

इण्हि तुह गुरु दुक्खं उवलक्खिय वद्धकक्खडसहायं । निरवेक्खं भज्झ मणो जायं सेसेसु कज्जेसु ॥ ४ ॥

घोरसिवेण भणियं—महाभाग ! मा एवमुल्लवेसु, जीवसु तुमं मज्जीविण्णावि जाव जलहिकुलसेलससितारयदिवायरे,  
 पसीयसु मे, वियरसु एकं पसायंति, राइणा भणियं—किमेवं वाहरसि ?, जीवियदाणाओऽवि किमवरमदेयं ? ता असं-  
 भंतो पत्येसु, घोरसिवेण भणियं—जइ एवं ता अणुजाणसु मम एयंमि पज्जलंतजालासहस्सकवलियसलभकुलसंकुले  
 मिसिमिसंतद्धदद्धकलेवरुच्छलंतविस्सगंधुदुरे मसाणहुयासणे पवेसुज्जमं, हवसु धम्मवंधवो, नन्नहा मे पुव्वविहिय-  
 महापावपव्वयकंतस्स अवस्सं विस्सामो भविस्सइत्ति, रण्णा भणियं—कुओ तुह पुव्वं पावसंभवो ?, जओ कयाइं  
 तुमए विविहाइं तवचरणाइं जापुरियाइं पावमरुखणदक्खाइं मंतज्झाणाइं पूइयाइं देवकमकमलाइं निव्वत्तियाइं  
 वेयरहस्सज्झयणाइं उवासिओ गुरुजणो पवट्टिया धम्ममग्गेसु पाणिणो, ता न सव्वहा वोत्तुमवि जुत्तमेयं भवारिसाणं,  
 घोरसिवेण भणियं—महाराय ! अलमलं मम पासंडिचंडालस्स वीसत्थघाइणो पयडियविचित्तकूडकवडस्स दक्खिन्नर-  
 हियस्स निसायरस्सेव निक्करुणस्स, किंपागतुरुफलस्सेव वाहिरमेत्तरमणीयस्स वगस्सेव सुसंजमियपाणिप्पायप्पया-  
 रस्स भुयंगमस्सेव परच्छिदावलोयणनिरयस्स दुज्जणस्सेव मुहमहुरभासिणो संकित्तणेणं, एवं च सव्वहा विरत्तोऽग्घि  
 पावपंकपडिहत्थाओ नियकडेवराओ, नेव य अन्नो पावविसोहणोवाओ, राइणा भणियं—भो भो किमेवं पुणो पुणो  
 अत्ताणं अत्ताणं व पुरिसं दूसेसि ?, पयडक्खरं निवेणसु नियपुव्ववित्तंतं, घोरसिवेण भणियं—महाराय ! गरुओ एस  
 वुत्तंतो, राइणा भणियं—किमजुत्तं ?, साहेसु, घोरसिवेण भणियं—जइ एवं ता निसामेहि—

अतिथि सुरसरितुसारपवित्रपरिसरुद्देशं विविहायणभवर्णमालाविभूतिसियं समूसियसियवेजयंतीरेहंतसुरमंदिरसिद्धं  
 सिरिभवणं नाम नयरं, तत्थ य पयंडमायंडमंडलुद्दामपयावपरिसोसियविपक्खजलासओ अणेगसमरयावारविडत्तजसो  
 अवंतिसेणो नाम राया अहेसि, जस्स विजयजत्तापत्थियस्स पत्थिवसहस्साणुगम्ममाणमग्गस्स उहंडपुंडरीयपंडुरच्छत्त-  
 च्छाइयगयणाभोगा नट्टदिवसावगासथ सोहंति दस दिसाभागा, जस्स य गजंतमत्तकुंजरगंडत्यलगलंतनिरंतरमयजला-  
 सारजायदुद्धिणंधयारभीयाभिसारियव अणुसरइ कयाडवियडं वच्छत्वलं रायलच्छी, जस्स चउविहाउज्जघोरघोसं मे-  
 होहरसियंपिव सोऊण दूरं पलायंति रायहंसा, जस्स समरंगणेसु रोसारुणाओ पडिसुहडेसु पडिबिंबियाओ पप्फु-  
 लसुकुमारकरवीरकुसुममालाउव रेहिति दिट्ठीओ, तस्स य नियस्सुवलावन्नजोधणगुणावगणियरइप्पवायाओ नीसे-  
 सपणइणीपहाणाओ दुवे भारियाओ अहेसि, पत्तलेहा मणोरमा य, पढमाए जाओ अहमेको पुत्तो वीरसेणो नाम,  
 वियाए पुण विजयसेणोत्ति, गाहिया दोऽवि अहे घणुवेयपरमत्थं कुसलीकया चित्तपत्तच्छेयविणोएसु सिक्ख-  
 विया य खेडयस्सग्गुणवणियं जाणाविया महल्लजुद्धं, किं वहुणा?, मुणाविया सबकलाकलायं, अन्नया य उचिओत्ति  
 परिचिंतिय ठाविओऽहं ताएण जुवरायपए, दिन्ना य मज्झ लाडचोडमरहट्टसोरट्टपमुहा देसा कुमारसुत्तीए, परिपालेमि  
 जुवरायत्तणं, ममंपि अणुमग्गमणुसरइ सुहडाडोवसंकुडा पगलंतगंडत्यला दप्पुदुरसिंधुरघडा, ममावि मग्गओ धावंति  
 तरलतरतुरंगपहकरा, मज्झंपि परसुसेलचंडगंडीवसरविसरकुंतगयापहरणहत्थाइं वित्थरंति चउदिसिंवि पुरिसवलाइंति,

७५



दुइयस्सवि मज्झ सवत्तभाउणो दिन्नाइं तरणण कइवय गामसयाइं, एवं च विसयसुहमणुहवंताणं वचंति वासरा ।

अण्णया खणविपरिणाभधम्मयाए जीवलोयविलसियाणं पइसमयविणाससीलयाए आउयकम्मदलियाणं अप्प-  
डिहयसासणत्तणओ जममहारायस्स सुरिंद्यावचवलायाए पियजणसंपओगसमुब्भवसुहस्स पाविओ अवंतिसेणराया  
पंचत्तंति, कयंमि य तम्मयकिचे मंतिसामंतसरीररक्खप्पामोकखपहाणलोएण निवेसिओऽहं रायपए, पयट्टियाइं  
मए तायस्स सग्गंगयस्स कएण तडियकप्पडियदीणाणाहाणिस्सियविदेसियजणाण महादाणाइं कारावियाइं उचुं-  
गसिंसुंदराइं देवमंदिराइं निरुवियाइं अवारियसत्ताइं, कालकमेण य विगओ मम सोगो, वसीकयं सामंतचकं, नि-  
घासिया नियमंडलविळुंपगा पयट्टिओ पुचपुरिसमग्गो । अन्नया य—

सियसिंधुरखंधगओ विलयाजणधुवमाणसियचमरो । धरियधवलायवत्तो किंकरनरनियरपरियरिओ ॥ १ ॥

उम्मग्गपयट्टुहामतुरयपट्टुक्खउद्वयरओहो । नवराओ निग्गओऽहं वणलच्छीपेच्छणट्टाए ॥ २ ॥

जाव य तत्थ पेच्छामि पुप्फफलसभिद्धवंधुरं तरुणतरुणं परिब्भमामि माहवीलयाहरेसु अवलोएमि कयली-  
दलाणं रुंदत्तणं निरिक्खामि सर्पिडियससिखंडपंडुरं केयइपत्तसंचयं अग्घाएमि अणग्घवउलमालियासुरहिपरिमळं  
करेमि करतलेण सोरभभरलोभमिलंतरणज्झणंतफुळंधयरिंओलिलिहिज्जमाणमयरंदं नवसहयारीमंजरीपुंजं ताव सह-  
सचिय सुणेमि नियपरियणकलयळं । कहं ?—

सामी ! पेच्छह गयणंगणंमि कह वट्टए महाजुज्झं ? । सज्झसकरमइभीमं सुराण विज्जाहराणं वा ॥ १ ॥

एवं सोचा मएवि उत्ताणीकयानिमेसलोयणेण उद्धमवलोयमाणेण दिट्ठा विविहप्पयारेहिं जुज्झमाणा गयणंमि विज्जाहरा, ते य एवं जुज्झंति—

सियमलयसवलसिल्लसूल अवरोप्परु मेळहिं भिंडिमाल । वंचायहि तक्खणि लद्धरक्ख पुण पहरह जय जस सबपक्ख ?

खणु निट्ठुरमुट्ठिहिं उट्ठियंति, खणु पच्छिमभागमणुवयंति ।

खणु जणगजणणि गालीउ देंति, खणु नियसोंडीरिम कित्तयंति ॥ २ ॥

अच्छी निमीलियसुय राहिं चिर साहिय विजयविज्ज, उणु खणे खणे जायहिं जुज्झसज्ज ।

अविगणिय मरण रणरसियचित्त, भुयदंडमहावलमयविलित्त ॥ ३ ॥

इय तेसिं खयरणं परोप्परं जुज्झिराणमेक्केणं । लद्धूण ललं अन्नो पहाओ गुरुमोग्गरेण सिरे ॥ ४ ॥

पडिओ धरणीवट्टे ममंतिए विगयचेयणो सो य । मुच्छानिमीलियच्छो विच्छाओ छिन्नरुक्खोव्व ॥ ५ ॥

एर्यंतरे तयणुमग्गेण चेष कट्ठियनिसियखग्गो पधाविओ इयरो विज्जाहरो तस्स वहनिमित्तं, मुणिओ य मए जहा एसो एयस्स विणासणकए एतित्ति, तओ मए भणिया सहवेहिणो धाणुहिया अंगरक्खा य, जहा—

रे रे रक्खह एयं भूमीत्तलनिवडियं महाभागं । एयं विणासणुज्जुयमित्तं खयरं पडिक्खलह ॥ १ ॥

अग्निनेडपहत्पेहिं तन्मंगं छाश्यं परमडेहिं । ओगामगलभमाणो रुद्धो खयरो तजो भणइ ॥ २ ॥  
 हे मो नरिंद । मुंयसु प्यं मपराहमं नम पदद्व । एखो तु मज्ज चहरी विणासियषो मण्डवस्तं ॥ ३ ॥  
 भणिजो य मण्ड खयरो किं पलनमि तं पिनायगदिबोष । किं एस वत्तधम्मो ? जेणेवमहं करेमिच्छि ॥ ४ ॥  
 किं पारदमिमिन्ना जेजेवं मारिउं मभीहेसि । सो गणइ एस मम दारभोगरसिजोत्ति ता हणिमो ॥ ५ ॥  
 ताहे मण्ड स भणिजो माह् इयरो व होउ नउप्पेमि । मरणागयरह्मणलह्मणं च राईण मत्तवयं ॥ ६ ॥  
 उप्पदमिउडिभंगो रोमारुजनपणजुयलदुण्णेच्छो । फरुमह्मरेहिं खयरो ताहे मं भणिउमाढचो ॥ ७ ॥  
 रे रे दुदुनरादिव । मा योहसु केमरिं सुहपमुत्तं । दिट्ठीविसाहितुंढं कंइयसु मा करग्गेण ॥ ८ ॥  
 जाडाडिभीममग्गिं अयकमसु य मा तुमं पयंगोय । जइ पंछमि चिरफालं रजं फाउं महियलंमि ॥ ९ ॥  
 भणिजो य मण्ड एनो किं रे पाहरसि सुफमत्राय । सप्पुरिमग्गलग्गस्स मज्ज जं होइ तं होउ ॥ १० ॥  
 चिरसात्तवीरिपपवि पेत्तेउरस्समेव मरियपं । ना अयसर दिट्ठिपहायो कुणसु जं तुज्ज पडिहाइ ॥ ११ ॥  
 जइ एवं ता विहिणो मा दाहिमि दूमणं तुमं राय । इय भणिऊण सरोसो खयरो सो गयणमुप्पइजो ॥ १२ ॥  
 तपनंनरं मण्ड निरुविजो गो भूपितउनियदिजो पिच्चाहरो जाव जज्जवि मजीयो ताहे काराविया  
 पंइजरनण्डडापदाना मिगितोयपारा मंसादियाइं मरीरुमंसाहजनिउणेहिं पुरिसेहिं सयंगमं, मणंन्तरेण उट्ठा तेण

चेयणा उम्मीलियं नयणनलिनं अवलोदयं दिसिमंडलं आंलविओ पासवत्ती परियणो—भो भो महायस ! कहमेहमिह  
 महीवट्टे निवडिओ ? , कथ वा वेरिविज्जाहरो ? , को वा एस देसो ? , किंणामं इमं नयरं ? को वा एसो छत्तच्छायानि-  
 वारियरविकरपसरो परिचलंतधवलचामरजुयलो मज्झकए नरनियरं वावारित्तो पुरो संठिओ चिट्ठइ महायसो नराहिव-  
 इत्ति ? , इमं च सोचा निवेइयं से परियणेण गयणपडणाओ आरब्भ सबं जहावित्तंति । तओ सो खयरो दीहं नीससिय  
 मम पञ्चासन्ने ठाऊण जोडिय करसंपुडं विन्नविउमाढत्तो—महाभाग ! धन्ना सा महिमहिला जीसे तं पई कयलक्खणा  
 इमे भिचा सेवंति जे तुह चरणकमलं धन्ना ते सुहडा जे तुह कजे तणं च नवि गणंति नियजीवियं, अहो ते परो-  
 वयारित्तणं अहो सप्पुरिसकम्माणुवत्तित्तणं अहो नियकज्जनिरवेक्खया अहो सरणागयवच्छलत्तणं, न सव्वहा मम  
 मणागंषि पीडसुप्पाएइ सत्तुपराभवो जं तुमं सयमेव पुरिसरयणभूओ दिट्ठोसि, मए भणियं—महाभाग ! अणवेक्खिय-  
 जुत्ताजुत्तयियारो हयविही जं तुम्हारिसाणवि निवडंति एरिसीओ आवयाओ, अणुभूयपुवमवि पावंति विसमं  
 दसाविवागं, सव्वहा असरिसमिमं जेण न कयाइं रंभायंभो सहइ मत्तमायंगंडयलकंद्दुवुच्छेयं, (न रेहइ जुज्जमाणो  
 मुणालतंतू ) पासंमि, को पुण साहेसु एत्थ वइयरो ? , खयरेण भणियं—किमेत्थ कहियवं ? , पच्चक्खमेव दिट्ठं महा-  
 णुभागेणं, मए भणियं—सम्मं निवेएसु, खयरेण भणियं—जइ कोऊहलं ता निसामेसु—

कलहोयकूलकोडीविराडो रयणकोडिविच्छुरिओ । वेयङ्गिरी तुमएवि निमुणिओ भरहखेत्तंमि ॥ १ ॥

गुरसिद्धजह्वरसखसकिंनरकिंपुरिसमिहुणरमणिजो । सुरहिवरकुसुमतरुसंडमंडिउद्दामदिसिनिवहो ॥ २ ॥  
 विज्जाहररमणीजणरमणीयं विजियसधपुरसोहं । तत्थऽत्थि गयणवल्लभनयरं नामेण सुपसिद्धं ॥ ३ ॥  
 तत्थ य राया नियसइ समग्गविज्जासहस्सवलकलिओ । पणमंतखंयरमणिमउडकिरीडटिविडिक्खिग्गकमो ॥ ४ ॥  
 नियवलतुलियासंडलपरकमो गुरुपयावहयसत्तू । तिहुयणविकखायजसो नामेणं विजयरओत्ति ॥ ५ ॥  
 रूवाइगुणसमिद्धाए तस्स भज्जाए हियवदइयाए । कंतिमईए पुत्तत्तणेण जाओ अहं एको ॥ ६ ॥  
 पकओ पुरे पमोओ मह जम्मे तत्थ खयरराएणं । करिणो मोत्तूण परे विमोइया वंधणेहिंतो ॥ ७ ॥  
 अह सुपसत्थंमि दिणे सम्माणिय पणइसयणगुरुवग्गं । जयसेहरोत्ति नामं ठवियं मंम गुरुजणेणंति ॥ ८ ॥  
 गयणंगणपरिसक्खणपमोक्खविज्जाओ गाहिओ अहयं । अह तरुणभावपत्तो गुरुहिं परिणाविओ भज्जं ॥ ९ ॥  
 पउमावइत्ति नामेण पवरविज्जाहरिंदिकुलजायं । रूवाइगुणगेणंण विजयपडायंक् कामस्स ॥ १० ॥ जुम्मं ।  
 एस पुण वइरिखयरौ रहनेउरचक्खयालपुरणहुणो । सिरिसमरसिंहनामस्स अत्तओ अमरतेओत्ति ॥ ११ ॥  
 चालवयस्सो मम गाढरूढपेमाणुबंधसन्वस्सो । विस्सासपयं सधेसु पुच्छणिज्जो य कजेसु ॥ १२ ॥  
 सहसयणपाणभोयणचंक्रमणट्टाणकरणनिरयाणं । अहं दोण्हवि कालो वोलइ दढमेक्कचित्ताणं ॥ १३ ॥  
 अह परियणेण मज्झं निवेइयं एगया रहट्टाणे । जह एम तुज्झ मित्तो विरूवचारी कलत्तंमि ॥ १४ ॥

असहहणाओ मए स परियणो वारिओ खरगिराहिं । अघडंतमेवमन्नं न भासियव्वं मह पुरोत्ति ॥ १५ ॥  
 सयमवि दिट्ठं जं जुत्तिसंगयं तं वयंति सप्पुरिसा । सहसत्ति भासियाई पच्छाऽपत्थं वारिंति ॥ १६ ॥  
 रविकरपसरोव जणे घणपडलच्छाइओऽवि विप्फुरिओ । अह एस वइयरो गोविओऽवि पणयाणुरोहेण ॥ १७ ॥  
 रायभवणाओ सगिहंमि एगया आगओऽमिह पेच्छामि । सयमेव तं कुमित्तं अणज्जकज्जंमि आसत्तं ॥ १८ ॥  
 ददूण तं तहद्वियमेगंते जाय चिंत्तिउं लग्गो । नियपरियणपरियरिओ तावेस पलाइओ झत्ति ॥ १९ ॥  
 अहमवि पहरणसहिओ निययोवपहाणपुरिसपरियरिओ । तस्साणुपहे लग्गो सोऽवि य अहंसणं पत्तो ॥ २० ॥  
 मणपवणजइणवेगेण जाय पत्तोऽमिह एत्थ ठाणंमि । ता एस महापायो मम पंडिओ चक्खुमग्गंमि ॥ २१ ॥  
 परियणपुरिसावि मए सयलासु दिसासु पेसिया पुवं । एथस्स विणासकए अहमेओ एत्थ संपत्तो ॥ २२ ॥  
 असहायं मं ददुं एसो सहसत्ति जुज्झिउं लग्गो । एत्तो अन्नं सव्वं जायं तुम्हंपि पचक्खं ॥ २३ ॥  
 एत्थंतरंमि सन्नाहकरणदढगूढकायदुद्धरिसा । भूमियलं पेक्खंता खयर तत्थागया तुरियं ॥ २४ ॥  
 पुट्टा य मए साहह किं भो तुज्झं समागमणकज्जं ? । तेहिं कहियं सामी इह सुवइ निवडिओ अम्हं ॥ २५ ॥  
 सो दंसिओ य तेसिं तो ते ददूण तस्स पडियरणं । अचंतहरिसियमणा मं पइ भणिउं समाढत्ता ॥ २६ ॥  
 संमं कयं नराहिव । जमेवमेयस्स पालणा विहिया । जं एयकए वाढं परितप्पइ खयरनरनाहो ॥ २७ ॥

एयस्त्र मग्गणकए सघत्ववि पेसिया खयरसुहडा । जं एको चिय पुत्तो एसो सिरियवरताहस्स ॥ २८ ॥

ता जयसेहरकुमरं पेसह एयं जहा समप्पेमो । सुहिसयणजेणणिजणयाण दंसणुकंठियमणाणं ॥ २९ ॥

भणियो मए स खयो कुमार ! तुह परियणो भणइ किंपि । ता साह तुमं चिय किं पुणेसि पञ्चुत्तरं देमो ॥ ३० ॥

कुमरेण तओ मणियं एगत्तो तुञ्ज अमरिसो पणओ । एगत्तो गुरुविरहो दोन्निऽवि दोलंति मह हिययं ॥ ३१ ॥

ताहे विसिद्धभोयणदिघंमुयरयणभायणाईहिं । सम्माणिकण कुमरो सट्ठानं पेसिओ स मए ॥ ३२ ॥

तेणावि भणियमेयं नरिंद ! काएण एस वचिस्सं । हिययं तु निगडजडियं व तुम्ह पासे परिच्चसिही ॥ ३३ ॥

वरमत्थसओ वरमन्नदेसगमणं वरं मरणदुक्खं । सज्जणविरहो पुण तिक्खदुक्खलक्खंपि जक्खिवइ ॥ ३४ ॥

इय भणिउं सोगगलंतनयणजलविंदुधोयगंडयलो । काऊण मम पणामं सपरियणो अइगओ गयणं ॥ ३५ ॥

अहंपि तेसिं गयणुप्पयणसामत्थमवल्लोइंतो पुवदिट्ठसगरवावारसंरंभमणुचित्तयंतो चित्तयंतो केत्तियंपि वेलं विलंबि  
नियरज्जकजाइं अणुचित्तिउं पवत्तो, विसुमरियं च मम भोगपमुहकज्ज कोडिकरणपसत्तस्स तं गयणनिवडियविज्जाहरमार-  
णउज्जयदुट्ठखयरस्स सामरिसं वयणं । एगया व रयणीए जाव कइवयपहाणजणपरियरिओ नियदेससुत्थासुत्थपरिभाव-  
भावणेण य रायंतररदस्सायन्नणेण य गयतुरयगुणवन्नणेण य किन्नराणुकारिगायणजणपारद्धकागलीगीयसवणेण य  
साधरपणचिरवारविलासिणीचित्तपयक्खेवनिरिक्खणेण य नम्भालावकरणेण य विंदुचुयपहेलियापणहुत्तरजाणणेण य

विणोयंतो चिद्वामि ताव अयंढविहडियवंभंडभंडुडामरो जुभंतपणचिरभेरवपह्यडमडमेंतडमरुयनिनायनिद्रो खरंनहर-  
निहारियमयगलगलगज्वियदारुणो पासपरिवत्तिभवणभित्तिपरिफालणसमुच्छलंतपडिसद्वयसहस्सदुविसहो समुद्विओ  
इल्लोलोत्ति, तं चं सोऊण विष्फारिनयणजुयलो सयलदिसिमंडलमहमवलोयमाणो पेच्छामि तडिदंडपयंडकरवाल-  
यावडकरे भवणंगणमभिसरंते हणहणहणत्ति भणंते विजाहरे, ते य दद्वणमम परियणो भयभरथरहरंतसरीरो करुणाइं  
दीणाइं वयणाइं समुल्लविंतो सयलदिसासु सिग्घं पलाओत्ति, ताहे पहरणरहिओ एगागीवि ठाऊणाइं तेसिं संमुहं  
जंपिउमेवं पवत्तो य-रेरे किं गलगहियन्त्र निरत्थयं विरसमारसह? के तुच्चे? केण पेसिया? किं वा आगमणकज्जं?,  
तेहिं भणियं-रे रे नरिंदाहम! तइया अम्ह पडुणो सत्तुरक्खणेण वयणमवगणिय संपयं धिद्वयाए अयाणमाणो इव के  
तुच्चे केण पेसिया किं वा आगमणकज्जंति पुच्छसि, जइ पुण विसेसकहणेण तूससि ता निसामेहि, अम्हे विजा-  
हरा रहनेउरचकत्रालपुरविजाहरनरिंदसिरिसमरसिंघनंदणेण वेरिखयरसमप्पणपरुडगाढकोवानलेन सिरिअमरते-  
यकुमरेण तुह दुघिणयतरुफलदंसणत्थं पेसियत्ति, मए भणियं-जइ एवं ता जहाइट्टं उवचिद्वहत्ति, तओ अखयसरीरं  
चेव मं गहिऊण उप्पइया ते गयणमग्गेण, गया य दूरदेसं, मुक्को य अहं एगत्थ भुयंगभीमे गिरिनिगुंजे, भणियं च  
मए-किं रे! एवं मुंचह? जं नेव पहरह, तेहिं भणियं-एत्तिया चेव पडुणो आणा, पडुचित्ताणुवत्तणं हि सेवगस्स  
यम्मो, एवं भणिय उप्पइया ते तओ ठाणाओ। अहंपि कोइलकुलगवलगुलियसामलासु सयलदिसासु केत्तरिकि-



सोरनिहयनिहारियसारंगपमुक्कविरसारावभीसणेसु काणणेसु वणमहिसावगाहिजंतपल्लसमुच्छलंतपंकपडलदुग्गेसु म-  
गोसु तरुवरसाहासंहरिसवसनिवडंतदहणनिदज्झमाणेसु वेणुगहणेसु पज्जलंतपईवसिहाभीसणविप्फुरंतरत्तलोयणेसु  
इओ तओ वियरंतेसु निसायरणेसु वराहतिरूपदाहुक्किण्णलेट्टुनियरुचावचासु वणत्थलीसु अमुणियमग्गुम्मग्गो  
विमूढदिसाभागो असोढपयप्पयारो एकंमि गुरुतरुरे समारुहिउं साहाए पमुत्तोमिह, दुट्टमहिलव्व कट्टेण समा-  
गया निहा, पच्छिमरयणिसमए य जामकरिघडव्व पासमल्लीणा चित्ता पवोहमंगलतूरेहिं पिय रसियं पुराणसि-  
यालेहिं मागहेहिं व पढियं सुयगणेहिं, अह उइयंमि सयलतिहुयणभुनणप्पईवंमि दिवायरंमि उट्टिऊण कयपाभाइ-  
यकिचो ओयरिऊण तरुवराओ एकदिसाए पयट्टो गंतुं, खणंतरेण य तरुणतरुचक्कलाववद्धपरियरो कोदंडकंडवावड-  
करो नियपणइणीए अणुगम्ममाणो गुंजाफलमालियामेत्तकयाभरणो भुयंगकंचुयनिव्वत्तियकेसकलावसंजमणो त-  
वखणविणिवाइयसिहंडिससिहमुहविरइयकन्नपूरो दिट्टो एको पुलिंदो, सो य पुच्छिओ मए-भो महाणुभाग ! का एसा  
अडवी ? को वा नियसिहरग्गभग्गरविरइतुरयमग्गो एस गिरिवरो ? का वा नयरगामिणी वत्तिणित्ति ? , पुलिंदेण भ-  
णियं-अणामिया नाम एसा अडवी, सज्झाभिहाणो य एस गिरिवरो, एसावि वित्तिणी कंचणपुरनयरमणुत्तरएत्ति ।  
तओ लग्गोऽहं तीए वत्तणीए तावसतवस्सीव कंदमूलफलेहिं पाणवित्तिं करितो पत्तो कइवयवासरेहिं कंचणपुरं,  
तत्थ य मुणिवरो इव निप्पडिवद्धो वीयरगो इव सव्वसं-इओ ठाऊण कइवय दिणाणि पेच्छंतो पुव्वट्टाणाइं अव-

लेपंतो गामागरे निरुर्वितो धम्मियजणकारावियाइं समुत्तुंगसुंदरागाराइं सुरमंदिराइं कप्पडिओ इव दाणसाळोसु पा-  
णर्वित्तिं कुणमाणो अणवरयपयाणएहिं पत्तो सरज्जसीमासन्नियेसं, तत्थ य कइवयदिणाणि धीसमिय पुणरवि चळिओ  
नियनपराभिमुहं । इत्तेण य सुणिऊण नियलडुभाउणो विजयसेणस्स संपत्तरज्जस्स विभववित्थरं चित्थियं मए—नूणं  
विजयसेणेणाहिद्धियंमि रज्जे न जुत्तं तत्थ मे गमणं । जेण—

पुवकयधम्मकम्माणुमावओ पाविऊण रज्जसिरिं । चित्तामणिव्व दाउं को वंळइ वळहस्सावि ? ॥ १ ॥

पिच्छामि तहाविय मित्तमंतिसामंतवयणविन्नासं । जं नहं नणु रज्जं तं दिट्ठं हरणकालेऽवि ॥ २ ॥

इह चित्तयंतो पत्तो कमेण सिरिभवणनयरं, अलक्खिज्जमाणो पुरजणेण पविट्ठो सहपंसुकीलियस्स सोमदत्ता-  
भिहाणस्स वयंसस्स गिहे, सो य ममं दट्ठण झडत्ति जायपच्चभिन्नाणो सहरिसं पाएसु निवडिय गाढं परुत्तो,  
मणिउमाढत्तो—

तुह विरहे मम नरवर! वरिसं व दिणं न जाइ पज्जंतं । हिमहारचंदचंदणरसावि दूरं तर्वित्ति तणुं ॥ १ ॥

भवणं पेयवणं पिय पणइणिवग्गो य डाइणिगणोव्व । सयणावि भुयंगा इव न मणंपि मणा सुहार्वित्ति ॥ २ ॥

एत्थियदिणाइं लोएण धारिओ कहवि गुरुनिरोहेण । जंतो इण्हि विदेसे जइ नाह! तुमं न इतोऽसि ॥ ३ ॥

तो एयं वरभवणं एसो धणवित्थरो इमे तुरया । एसो किंकरवग्गो पडिवज्जसु तं महीनाह! ॥ ४ ॥

एमाइं पणयसाराइं वयणाइं भासंतो भणिओ मए सोमदत्तो-पियवयंस ! किं सोयविहुरो-ह्वसि ? किं वा निय-  
 भवणघणाइयं समप्पेसि ? किमेवं तुह पणयसारो पयडीभविस्सइ ? को वा अत्तो ममाओवि तुह पाणप्पिओ ? किं  
 वा तुह दंसणाओऽवि अन्नं ममेहागमणप्पओयणं ? ता घीरो भव, अच्छउ सच्चस्ससमप्पणं, तुह जीवियंपि ममायत्तं  
 चेव, तओ काराविओऽहं षहाणविलेणभोयणवमुहं कायवं, खणंतरेण पुच्छिओ मए-पियवयंस ! साहेसु किमि-  
 यारिणं कायवं ?, सोमदत्तेण भणियं-देव ! किं निवेदेमि ?, मं एकं पमोत्तुणं अत्ते सवे ऽवि मंतिसामंता दढपक्खवाया  
 विजयसेणे, नेच्छंति नाममवि तुह संतियं भणिउं, जइ सो कहवि आगमिस्सइ तहावि एयस्स चेव रज्जं, जओ एयस्स  
 मुद्धा मत्ती अम्ह दढं वसवत्ती थेवंपि वयणं न विलंघेइत्ति, विजयसेणो पुण नियसरीरमेत्तेण तुम्ह विरहे वाढं परि-  
 तम्मइ, भणइ य-जइ एइ जेट्टभाया ता धुवं समप्पेभि रज्जधुरं, जहाजेट्टरज्जपालणमेव अम्ह कुलधम्मोत्ति, एवं ठिए  
 किंपि न जाणिज्जइ जुत्ताजुत्तं, ता एत्थेव अलक्खिज्जमाणो तुमं चिट्ठसु कइवयदिणाणि जाव उवलक्खेमि नरिंदाईण  
 चित्तं, मए भणियं-एवं ह्वउत्ति, तओ सोमदत्तेण सामेण य दंडेण य भेएण य उवप्पयाणेण य आढत्ता मंतिसामं-  
 तादओ भेइउं, निट्टुरवज्जगंठिंपिव न य केणवि भिज्जंति उवाएणं, नाओ य तेहिं समागमणवइयरो, निवारिया य  
 रायदुवारपाला जहा न सोमदत्तस्स रायभवणे पवेसो दायवोत्ति, विजयसेणस्सवि सिट्ठं जहा तुम्ह जेट्टभायां  
 पंचत्तं गओत्ति निसामिज्जइत्ति, तेणावि एवं निसामिय, कओ महासोगो; पयट्टियाइं मयकिचाइंति, एवंति. मह

रञ्जकञ्चविसयं जं जमुवायं घडेइ सो निउणो । दइवो पडिकूलो इव तं तं विहडेइ निक्करुणो ॥ १ ॥ अन्नया य गाढवि-  
साययसविसंठुलेण मुणियपरमत्येण भणियं सोमदत्तेण-देव ! निम्मज्जाएहिं मंतिसामंताईहिं तुम्ह पंचत्तगमणवत्ता  
नियत्तिया राइणो पुरो, ता जइ कहंवि रायवाडियाए निग्गयस्स विजयसेणस्स दंसणपहे ठाऊण नियदंसणं  
टावेसि ता जुत्तं होइत्ति, जओ तुम्ह दंसणं वाढमभिकंखइ एसो, पडिवत्तं च मए एयं तदणुरोहेण, अन्नया य  
पवरकरेणुगायंधगओ निग्गओ विहारजत्ताए विजयसेणो, पासायसिहरमारुहिऊण य ठिओ अहं से चक्खुगोयरे,  
झडत्ति दिट्ठोऽहमणेण, सागयं २ चिरागयबंधवस्सत्ति हरिसुफुल्ललयणो य जाव सो वाहरिउं पवत्तो ताव तक्करणा  
चेव मंतिसामंतपगुहेहिं रइया अंचरे अंतरवडा, कओ हलओलो, नियत्तिओ विहारजत्ताओ राया । भणियं च-

असियं तुह किंयि इमं जं देव । पिसायदंसणं जायं । किं पंचत्तगयजणो दीसइ य कयावि पच्चक्खो ? ॥ १ ॥

ता लहु गच्छइ भवणं संतिं कारेइ देह भूयवलिं । पारंभइ होमविहिं सुमरइ मच्चुंजयं मंतं ॥ २ ॥

वियरमु सुवण्णदाणं माहणसमगाण तक्कुयजणाणं । एवं कहिए सिग्घं मिंठेणं चोइया करिणी ॥ ३ ॥

भवणंमि तओ गंतुं जं जइ भणियं तहेव नीसेसं । अइमुद्धबुद्धिभावा करावियं विजयसेणेण ॥ ४ ॥

अहं पुण निरुच्छाहो निराणंदो ववगयधीरिभभावो अवयरिय तओ ठाणाओ सोमदत्तस्स अकहमाणो चेव  
पच्छन्नदेसे ठाऊण चित्तिउमाढत्तो, कहं ?—

अणवरयकणयवियरणपरितोसियमाणसावि कह पावा । सामंता मत्ता इव पुरद्वियंपिहु मुणंति न मं ? ॥ १ ॥  
 कह वाऽवराहमणेण (सहणेण) भूरिसोगु(मइ) सपयंमि ठवियावि । न गणंति मंतिणो मं तणं व पम्मुक्कमज्जाया ? ॥ २ ॥  
 कह नयरमहत्तरया उवयरिया णेगसोऽवि कज्जेसु । माणंति न मं सप्पणयवयणमेत्तेण विहयासा ? ॥ ३ ॥  
 जयसेहरकुमरो सो विज्जाहररायसुकुलजाओऽवि । तह उवयरिओऽवि कहं उवेहए मं तदियरोव्व ? ॥ ४ ॥

होउ वा, किं एएण विगप्पिण्ण?, अत्तहियमियाणि कीरइ मुच्चइ इमं नयरं गम्मइ अन्नत्थ देसे ओलविगज्जइ  
 अन्नो गरुओ नरवइत्ति, अहवा सयलजयपयडपरफमस्स सिरिअवंतिसेणमहानराहिवस्स सुओ होऊण कइवय दिणाइं  
 रज्जरिद्धिमुदुरमणुभविय कहमियाणि अन्नस्स हेट्ठा ठाइस्सामित्ति सब्बहा न जुत्तं परिचिंत्तिउं, भेरवपडणेण अत्त-  
 परिचाओ चेव संपयं मे सब्बोवाहिविसुद्धोत्ति निच्छिऊण निग्गओ नयराओ लग्गो भेरवपडणाभिसुहं, वत्तिणीए  
 अखंडपयाणेहिं पवचंतो संपत्तो तरुणतरुसंडमंडियं उब्भडसिहंडितंडवाडंवररमणिज्जं हंससारसकर्पिजलकोकिलकु-  
 लकलकलरवमुहलं पुंनागनागजंबुजंविनिवंचंपयासोयसोहियपरिसरुहेसं भेरवपडणपचासन्नं एफमुववणं, दिट्ठो  
 य तत्थं अणेगज्जणनमंसिज्जमाणचरणो सल्लक्खणनरसिरकवालमेत्तपरियरो मंतज्झाणपरायणो करकमलकलियजो-  
 गदंडो समत्थनाणविन्नाणपरमपगरिसपत्तो ससाहसपरितोसियवेयालो महाकालो नाम जोगायरिओ, पणमिओ य मए  
 सपायरेणं दिन्नासीसो य निविट्ठो संनिहियधरणिवट्ठे, अत्तलोइओऽहं तेण सिणिद्धाए दिट्ठीए, खणंतरे संभासिओ य-

भइ ! उद्विग्गचित्तो इव लक्खीयसि, ता किं भट्टलच्छीविच्छट्ठोत्ति उयाहु विदेसागओत्ति, अन्नं वा किंपिं कारणं ?  
 मए भणियं-भयवं ! अम्हारिसा पुत्तरहिया पाणिणो पए पए उद्विग्गचित्ता चेव, कित्तियाइं कारणाइं साहिज्जंति ?  
 तेण जंपियं-तहावि विसेसयरं सोउमिच्छामि, मए भणियं-भयवं ! किं एएण ज्ञाणविग्घकारएण नियवइयरसाह-  
 णेण ? महाकालेण भणियं-किं तुज्झ ज्ञाणचित्ताए ? जहाइट्ठं कुणसु, तओ मए विज्जाहरावलोयणं च जुज्झनिवडि-  
 यखयररक्खणं च महाडविनिवाडणं च नियनगरागमणं च मंतिसामंतपमुहजणावमाणणं च रज्जावहारदुक्खं च  
 उवयरियविज्जाहरोवेक्खणं च नयरनिग्गमणं च भेरवपडणं पडुच समागमणं च सिट्ठमेयस्स, अह महाकालेण  
 भणियं-अहो विरुद्धकारित्तणं हयविहिणो जमेरिसे असमसाहसधणे जणे विणिम्मिय एरिसत्तिकखदुक्खभायणं  
 करेइ, अहवा—

साहसधणाण हिययं दुक्खं गरुयंपि सहइ निवडंतं । इयराण दुहलवेणवि विहडइ जरसिप्पिणिपुडं व ॥ १ ॥  
 जह निवडइ गुरुदुक्खं तहेव सोक्खंपि संभवइ तेसिं । इयराण तुल्लसुहदुक्खसंभवो निचकालंपि ॥ २ ॥  
 कस्स व निरंतरायं सोक्खं ? कस्सेव नायया इंति ? । को वूसिओ खलेहिं नो ? कस्स व संठिया लच्छी ? ॥ ३ ॥  
 इय नाउं चय सोयं पुणोऽवि तुह वंछियाइं होहिंति । सूरुोऽवि रयणितमनियरविगमओ पावए उदयं ॥ ४ ॥  
 जं पुण तुमए भणियं भेरवपडणं करेमि मरणट्ठं । तं बुहजणपडिसिद्धं सत्तियधम्मे विरुद्धं च ॥ ५ ॥

जेण-वंभणसमणधिय मरणकज्जमञ्जुमंति नो धीरा । विहिविहडियंपि कज्जं घडंति ते बुद्धिविह्वेणं ॥ ६ ॥

तहा-चत्तविसायपिसायं अणलसमविमुक्कविक्रमेकरसं । अणुसरइ सिरी दूरं गयावि पुरिसं हरिसियइ ॥ ७ ॥

तओ मए भणियं-भयवं । विमूढचित्तलक्खो म्हि संपयं, न जाणामि जुत्ताजुत्तं न मुणामि उवायं न समीहेमि

रत्तधम्मं न वियारेमि जणनिंदं न लक्खेमि सुहदुक्खं, सवहा कुलालदढदंडचालियचकाधिरूढं व मम भणो न

मणागंपि फत्थवि जवत्थाणं पावइ, तो भयवं । तुमं चेव साहेहि, किं कायघं ? को वा उवाओ समीहियत्थसि-

द्धीए?, महाकालेण भणियं-वच्छ ! पवज्जसु मम पघज्जं, आराहेसु चरणरुमलं, अन्भस्सेसु जोगमगं, होहिंति

गुरुभत्तीए मणोरहसिद्धीओ, तओ भयसंभंतो इव सरणागयवच्छलं दालिहाभिभूओ इव कप्पंपायवं महारोगपी-

डिओ इव परमवेज्जं पहीणचक्खुवलो इव पहदेसगं सवायरेण तमाराहिउं पवत्तो, दूरमागरिसियं च विणएण मए

तस्स चित्तं, निउत्तोऽहमेको तेण नियरहस्सठाणेसु सिक्खाविओ निस्सेसाइं आगिट्ठिपमुहाइं कोऊहलाइं, अन्नया

य पसत्थेसु तिहिनक्खत्तमुहुत्तेसु परमपमोयमुषहंतेण तेण एगंते उवइट्ठो मम तइलोक्कविजओ मंतो, कहिओ साहण-

विही जहा-अट्ठोत्तरसयपहाणखत्तिएहिं मसाणहुयासणो तप्पणिज्जो, कायघं दिसिदेवयावलिवियरणं, पवहियघं

अणवरयमंतसुमरणं, तओ एस सिज्झिहिई, काही य एगच्छत्तधरणियलरज्जदाणं, पडियत्तो य मए विणयपणएण,

समाढत्तो य साहिउं, गओ कलिंगपमुहेसु देसेसु, आरद्धो व जहालाभं खत्तियनरुत्तमेहिं होमो जाव एत्तियं कालंति ।

ता नरसेहर ! नरसिंघ जं तए पुच्छियं पुरा आसि । किं अप्पाणं निंदसि इणमो नणु कारणं तत्थ ॥ १ ॥  
 भयवसविसंडुलंगा सारंगा इव विचित्तकूडेहिं । जं सत्ता विद्विया तमियार्णि ददइ मह हियये ॥ २ ॥  
 दुज्झाणकलुसवुद्धित्तणेण पुवं न याणियं एयं । तुह दंसणेण इण्हिं विवेयरयणं समुल्लसियं ॥ ३ ॥  
 नरसिंहेणं भणियं सच्चं पावं कयं तए भूरि । जं कीडियाणवि वहे पावं गुरु किमु नरिंदाणं १, ॥ ४ ॥  
 तेसि विणासे जम्हा धम्मम्भंसो य सीमविगमो य । अवरोप्परं च जुज्झं विलयाजणसीलविलओ य ॥ ५ ॥  
 ता ठाणे तुह दुच्चरियगरिहणं धम्मगोयरा बुद्धी । एयं ठिएऽवि जलणप्पवेसणं तुज्झ नो जुत्तं ॥ ६ ॥  
 तित्थेसु वच्च कुरु देवपूयणं मुंच निंदियं भावं । पायच्छित्तं पडिवज्ज सुगुरुसयासे पयत्तेण ॥ ७ ॥  
 निंदसु पइक्खणं दुक्कयाइं निसुणेसु धम्मसत्त्वाइं । उत्तमसंसर्गिं कुणसु चयसु तिवं कसायं च ॥ ८ ॥  
 ईसाविसायमुच्छिद भिंद विसमविसयतरुनियरं । नियजीयनिद्विसेसं नीसेसं पेच्छ पाणिगणं ॥ ९ ॥  
 पसमरसं पियसु सया दूरं परिहरसु खुदचरियाइं । जुत्ताजुत्त वियारसु सबकजेसु जत्तेणं ॥ १० ॥  
 खणपरिणइधम्मत्तं चित्तेसु भवंमि सबवत्थूणं । नियसुकयदुकयसच्चिवत्तणं च लक्खेसु परजम्मे ॥ ११ ॥  
 इय जयमाणस्स सया सुद्धी तुज्झं भविस्सइ अवस्सं । जलणपवेसं सलभा कुणंति कुसला उ न कयावि ॥ १२ ॥  
 एयं संठविऊण मरणदुरज्झवसायाओ घोरसिचं जाव विरओ नरिंदो ताव पहयपडहसुरवपमुहत्तूरनिनायवहि-



रियदियंतरा विचित्तमणिभूसणकिरणकच्चुरियमसाणंगणा गयणाओ ओयरिया विज्जाहरा, परमपमोयमुवहंता निव-  
डिया घोरसिवचरणेषु, भणिउमाढत्ता य-देव ! अम्हे गयणवल्लहपुराहिवविजयरायविज्जाहरिंदसुएण सिरिजयसे-  
हररायकुमारेण पेसिया तुम्ह आणयणनिमित्तं, ता कुणह पसायं, आरुहह इमं समुद्दुयविजयवेजयंतीसहस्साभि-  
रामं डज्जंतकसिणागरुकप्पूरपूरसुरहिधुवधूमंधयारियदिसाभोगं भणिकणगरयणरइयविचित्तविच्छित्तिभित्तिभागं कुसु-  
मावयंसाभिहाणं वरविमाणं, घोरसिवेण भणियं-भो विज्जाहरा ! मुयह मम विसए पडिवंधं, अन्नोऽहमियाणिं विगय-  
भोगपिवासो, विजणविहारेसु रण्णेषु जाया निवासवुद्धी वद्धा मिगकुलेसु सयणसंबंधसद्धा पलीणो मायामोहो  
जलणजालाकलावकवलियमिव पेच्छामि जीवलयं, ता जहागयं गच्छह तुम्हे, जहादिट्ठं च से निवेएज्जहत्ति, विज्जा-  
हरेहिं भणियं-मा भणह एयं, जओ जहिणाओ तुम्ह पासाओ गओ जयसेहरकुमारो तदिणादारब्भ जाओ रहने-  
उरचकवालपुरनाहेण सिरिसमरसिंधखेयराहिवइणा सह महासमरसरंभो निवडिया अणेगसुहडा, कहमवि महाक-  
ट्टेण निप्पिट्ठो सो अमरतेयाभिहाणो दुट्ठमित्तो, घडिया इयाणिं परोप्परं संधी, कयाइं अन्नोऽन्नघरेसु भोयणवत्य-  
दाणाइं, अओ एत्तियफालं नियकज्जकोडिवावडत्तणेण संपयमेव नाओ तुम्ह अडविनिवाडणपामोक्खो वइयरो,  
कुमारेण तओ अचंतजायतिषसोगसंदग्गेण विसज्जिया अम्हे सव्वासु दिसासु तुम्हावलयणत्थं, भणिया य-अरे  
सिग्घं जत्थ पेच्छह तं महाणुभायं तत्तो सब्बहा आणेज्जह, नन्नहा भोयणमहं करिस्साभि, तओ सब्बत्थ निउणं निउणं

निरुवंता पत्ता एत्तियं भूमिनागं, एत्थ आगएहि य निंसामिओ तुम्ह सद्दो, को पुण भीसणे मसाणे एत्तियवेळं  
 होदित्ति कोऊदलेण मुणंतेहिं कुमारपचाणयणकालागएहिं पुरा तुम्ह निसुयसदाणुमाणेण पच्चभिन्नायत्ति, ता कुणह  
 पसायं जयसेहरकुमारजीवियदाणेण, एत्थंतरे विण्णायपरमत्थेण भणियं पत्थियेण-मो महासत्त ! परिचय फरुस-  
 भायं, पणयभंगभीरुणि भवंति सण्डुरिसहिययाणि ता अंगीकरेसु एएसि पत्थयं, घोरसिवेण भणियं-महाराय !  
 वाढं विरत्तं मम रजादीहिंतो चित्तं, गाढपावनिबंधणं खु एयं, रण्णा भणियं-मा भेवं जंपेसु, जओ-

सत्रायं दिसओ विसिट्ठमुणिणो पालितयस्साणिसं, सासित्तस्स विसिट्ठनीइ मणुए दाणाइं दित्तस्स य ।

धम्मो होइ निरस्स वस्समइणो रजेऽवि संचिट्ठओ, नो साहुस्स स सत्थवज्जियविहीजुत्तस्स गुत्तस्सवि ॥ १ ॥

घोरसिवेण भणियं-महाराय ! एवमेवं, राइणा भणियं-जइ एवं ता गच्छह तुब्भे, पडिच्छह [वि]जयसेहरकुमार-  
 पूयापडियत्ति, घोरसिवेण भणियं-महाराओ निवेयइ तं कीरइत्ति, तओ पहरिसिया विजाहरा, सायरं पणमिडं  
 तेहिं राया विन्नत्तो-अहो महायस ! परमत्थेण तुब्भेहिं दिन्नं अह पडुणो जीवियं, अह पमुक्ककवालपमुहकुर्लिगो-  
 यरणो विओगवेयणावसविसप्पमाणनयणंसुधाराघोयवयणो घोरसिवो गाढमालिगिय नरवइं सगग्गयगिरं  
 भणिउमाढत्तो-

कुब्भमतिमिरुम्भामियलोयणपसरेण तुज्झ अवरद्धं । जं किंपि पावमइणा तमियाणिं खमसु मम सधं ॥ १ ॥

सीसो इव दासो इव रिणिओ इव किंफरो इव तुहाहं । ता साहसु किं करणीयमुत्तरं राय नरसिंह ! ॥ २ ॥

रत्ना भणियं जइया नियरज्जसिरिं समग्गमणुहवसि । मम संतोसनिमित्तं तइया साहिज्जसु सवत्तं ॥ ३ ॥

एवं काहंति पयंपिऊण विज्जाहरेहिं परियरिओ । दिवविमाणारूढो सो झत्ति गओ जहाभिमयं ॥ ४ ॥

रायावि पत्ततिहुयणरायसिरिवित्थरं पिव सयलसुकयसंचयपत्तोवचयंपिव समत्थपसत्थतित्थदंसणपूयं पिव अप्पाणं मन्नंतो पाणिपइट्टियखग्गरयणो गओ नियभवणं, निसण्णो सेज्जाए सुत्तो खणंतरं समागभा निहा, निसावसाणे य रणज्झणंतमणिनेउररपाणुमग्गलग्गचकंगसलियचंकमणा अणायरसट्ठाणणिउत्तलट्ठकंचीकलावप्पमुहाभरणा सहरिस-पधावियखुज्जियामणिपुलिंदिपमोक्खचेडीयाचकवालपरिवुडा पविट्ठा चंपयमाला देवी, दिट्ठो राया निहावसनिस्स-हसेज्जाविमुक्कसवंगोवंगो, भणियं चऽणाए-परिणीयपुत्तिओ इव हयसत्तू इव विट्ठत्तदविणोव परिपट्ठियसवसत्थोव निब्भयं सुयइ नरनाहो, अह खणंतरे पवज्जियाइं पाभाइयमंगलतूराइं पयडीहूयाइं दिसिमुहाइं, पट्ठियं मागहेण-लंघेउं विसमंषि दोसजलहिं गंजित्तु दोसायरं, गोत्तं पायडिउं सवीरियवसा चंकंमिउं भीसणे ।

आसाअंगसमुब्भवेण महसा सारेण संपूरिउं, सूरु देव । तुमं पिवोदयसिरिं पावेइ सोहावहं ॥ १ ॥

एवं च निसामित्ता पबुद्धो राया, चिंतिउमाढत्तो य-अहो सारस्सयंपिव वयणं जहावित्तवत्तुगन्भं कहं पट्ठियं माग्गहेण १, एवमेव पुणो पुणो परिभावेमाणो उट्ठिओ सरणाओ, अवलोइया य हरिसवसवियसंतनयणसहस्सपत्ता

देवी चंपयमाला, पुढा य सा आगमणपथोयणं, भणियं च तीए-देव ! अज्ज पच्छिमद्वजामे सेसरयणीए सुहंपसु-  
 ताए सुमिणयंमि सहसचिय वयणंमि पविसमाणो मए अनणुप्पमाणो मणिरयणमालालंकिओ पवणसमुदुयंचला-  
 भिरामो फलिहमयडिंडिरपंडुरडंडोयसोहिओ महज्जओ दिट्ठो, एवंविहं च अदिट्ठपुषं सुमिणं पासिऊण पडिवुद्धा  
 समाणी समागया तुम्ह पासंसि सुमिणमुभासुभफलजाणणत्थं, ता साहिउमरिहइ देवो एयस्स फलंति, रत्ता  
 भणियं-देवि ! विसिट्ठो तए सुमिणो दिट्ठो, ता निच्छियं होही तुह चउसमुहमेहलावलयमहिमहिलापइस्स कुल-  
 केउस्स पुत्तस्स लाभो, जं तुम्हे वयह अवितहमेयंति पडिवज्जिय निघट्ठा देवीए उत्तरीयंमि निट्ठरा सउणगंठी,  
 यणंतरं च मिहोफहाहिं विगमिय गया देवी निययभयणं, रायावि कयपाभाइयकायघो निसण्णो सभामंडवंमि  
 अह पदममेय गाढकोउहलाउलिज्जमाणमाणसा समागया बुद्धिसागरपमुहा गंतिणो, भूमितलविज्जुलियमउलिगंडला  
 नियडिया चरणेसु, दिन्नासणा निविट्ठा सट्ठाणेसु, विन्नविउमाढत्ता य-देव ! अज्ज चउजामावि सहस्सजामघ कहमवि  
 पभाया जम्ह रयणी घोरसिचमुणिअइयरोवलंभसमूगत्तणेणं, जइवि किंपि पसंतवयणावलोयणाइलिं गोवगया कज्जसिद्धी  
 चट्ठइ तहावि विसेसेण तुम्हेहिं साहिज्जमाणिं सोउमिच्छामो, ता पसियउ देवो रयणिवइयरनिवेयणेणंति, ताहे तेसिं  
 ययणाणुरोहओ ईसिं विहरियं फाउं जहा घोरसियेण समं मसाणदेसंमि संपत्तो जह वित्ताओ छोभमायरमाणो  
 जहा प सो भणियो गिण्हसु सत्थं जह तेण कत्तिया पाहिया कंठे जह पडिरुद्धो पाहू सकत्तिओ जह महीयले

निहजो जह उद्विओ पुणोऽविहु निष्फंदो जह हओ पच्छा सुरसुंदरीहिं खित्तो जह कुसुमभरो समागया देवी जह  
 दिन्नो तीए वरो जह सा अइंसणं पत्ता जहा घोरसियो निघेयमुपगओ पद्विओ य मरणत्यं जह पुघवइयरो तेण  
 संठिओ ( निवेइओ ) जह व संठिओ जह परिचियविज्जाहरविमाणमारुहिय सो गओ नगिउं संखेवेणं तह नरवरेण  
 सिद्धं समत्पं पि, सोचेमं हरिसिओ मंतिवग्गो, पयट्टिओ य नपरीए महंतूसवोत्ति ।

अह अन्नया कयाई चंपयमालाएँ रायमहिलाए । दुहिसत्तरक्खणंमी दीणाणाहाण दाणे य ॥ १ ॥

देवगुरुपूयणंमी पणईणं चित्तियत्थदाणे य । उप्पण्णो दोहलओ विसिद्धगच्चाणुभावेण ॥ २ ॥ जुम्मं ।

चित्तेइ य सा एवं ताओ घन्नाओ जम्मयाउ इहं । इय युत्तदोहलाओ जाओ गन्मं वहंति सुहं ॥ ३ ॥

एवं च अपुञ्जंतदोहलयसंकप्पवसेण कसिणपक्खमयलंछणमुत्तिघ कसित्तणमणुभविउं पवत्ता देवी । अन्नया य

पुट्टा नरवइणा-देवि । किमेवं पइदिणं कसित्तणं पावेसि?, साहेसु एयकारणं, गाढनिबंधे सिद्धं तीए नियमणवंछियं,  
 ताहे परं पमोयमुपहंतेण विसेसयरं पुरियं नरिंदेण, माणियडोहला य घरणिघ निहाणसंचयं दिसघ नलिणीनाहं  
 सुहंसुहेणं गन्मं वहमाणी देवी कालं गमेइ, अण्णया य पडिपुण्णेसु नवसु मासेसु अद्धट्टमराइंदिएसु सुभेसु तिहि-  
 करणनक्खत्तमुदुत्तेसु पुरंदरदिसिघ दिणयरं कोमलपाडलकरपडिपुण्णसघंगोवंगमुंदरं पुत्तं पसूया । तओ सहरिसं  
 गयाओ नरिंदमयणंमि चेडीयाओ, दिट्ठो राया, भणिओ प-देव! वद्दाविज्वसि जएण विजएण य तुमं, जओ

इयार्णि चैव पसूया देवी चंपयमाला, जाओ य समुज्जोतियसयलदिसामंडलो तेयरासिब पुत्तोत्ति, इमं च सोच्चो नरि-  
 देण दिन्नं तासिं भूरि पारिओसियं, कओ दासित्तविगभो, आहूया पहाणपुरिसा, समादिट्ठा य जहा पयट्ठेह नीसेस-  
 नयरीए तियचउफचचरेसु खंदमुगुंदसूरिंदगयमुहमंदिरेसु य परममहूसवं, वियरह अणिवारियपसरं कणयदाणं मुयह  
 चारगाहिंतो जणंति बुत्ते जं देवो जाणवेइत्ति भणिरुण पुरीए, पारद्धं तेहिं वद्धावणयं ।

कहं चिय?,—पंचप्पयारयन्नयविरइयमुपसत्थसत्थियसमूहं । विक्खित्तकस्यदोवापवालसोहंतमहिवीढं ॥ १ ॥

रहसपणचिरतरुणिगणवच्छत्थलनुट्टहारसिरिनियरं । अन्नोन्नावहरियपुण्णपत्तवट्टंतहलवोलं ॥ २ ॥

पडिभवणदारविरइयवंदणमालासहस्सरमणिज्जं । कमलपिहाणामलपुन्नकलसरेहंतगेहमुहं ॥ ३ ॥

वज्रंताउज्जसमुच्छलंतघणघोरघोसभरियदिसं । चिन्ताइरित्तदिज्जंतदविणसंतोसियत्थिगणं ॥ ४ ॥

पमुइयनीसेसजणं कुलथेरीकीरमाणमंगलं । इय नरवइकयतोसं वद्धावणयं कयं तत्थ ॥ ५ ॥

एत्थंतरे मंतिसामंतसेणाचइसत्थवाहपगुहा पहाणलोया गहियविबिहतुरयरयणसंदणपमोक्खविसिट्ठवत्थुवित्थरा  
 गंचूण नरवइं वद्धाविंसु ?

इओ य सो घोरसिचो विज्जाहरेहिं नेऊण समप्पिओ जयसेहरस्स कुमारस्स, तेणावि पिउणोव गुरुणोव तदागमणे  
 कओ परममहूसवो, पुट्ठो य एसो पढमदंसणाओ आरच्च सधवुत्तंतं, धरिओ ण्हाणविलेवणभोयणदिधंसुयदाणपुरस्सरं

कश्यपि वासराइं, अन्नदियहे चाउरंगसेणासण्णाहेण जयसेहरकुमारेण गंतूण सिरिभवणंमि नगरे विजयसेणरणो  
दंसिऊण जहावित्तं संसिऊण य दुइंतमंतिसागंतुर्सिखलदलणपुव्वं सो घोरसिवो सहत्येण निवेसिओ रायपए, विजय-  
सेणोऽवि ठपिओ जुवरायत्ते, एवं कयसायवो जहागयं पडिगओ जयसेहरो, घोरसिवोऽवि पुव्वंपिव भुंजिउं पवत्तो  
नियरज्जंति । अजया तेण सुमरिऊण नरसिंहनरवइणो रज्जसंपत्तिवुत्तंतनिवेयणं पुव्वकालपडिवत्तं तक्खणंचिय विसज्जिया  
पहाणपुरिसा तिसिद्धपाहुडसमेया नरसिंघनरवइणो समीने नियवइयरनिवेयणत्थं, पत्ता य ते अणवरयपयाणएहिं  
जयंतीनयरिपरिसरुइसं, निसुणिया य रत्ता, पवेसिया य महाविभूर्इए, समण्णियाइं रत्तो तेहिं पाहुडाइं, साहिओ  
घोरसिवनरवइसमाइइवुत्तंतो, हरिसिओ राया, सम्माणिया उच्चियपडिवत्तीए, पेसिया य सट्ठाणंमि ।

अन्नदियसे य समारद्धो कुमारस्स नामकरणमहसवो, समाहओ कुलथेरीजणो, तओ वज्जंतेसु चउव्विहाउज्जेसु  
नचंतेसु तरुणीसत्थेसु मंगलमुहलेसु वारविलयाजणेसु पढंतेसु मागहेसु पइद्वियं कुमारस्स पुव्वपुरिसक्कमागयं नरवि-  
क्कमोत्ति नामं, कालकमेण य विइकंतवालभावो नीसेसविज्जापारयस्स लेहायरियस्स चेडयचकालपरिवुडो महा-  
विभूर्इए पढणत्थगुवणीओ, अरालक्खेवेण य बुद्धिपरिसेण जाओ एसो कलासु कुसलो, कइं चिय?—

पत्तद्वो धणुवेए कुसलो नीसेसमलविज्जामु । कयकिचो करणेसुं विचित्तचित्तेसु निउणमई ॥ १ ॥

परमावलक्खणम्मी वियक्खणो जाणओ समयसत्थे । पत्तच्छेये छेओ निम्माओ सहमग्गेसु ॥ २ ॥

निउणो मंतवियारे तंतपओगेषु कुसलवुद्धी य । पुरिसंकरितुरयनारीगिहलक्खणवोहनिउणो य ॥ ३ ॥

आउज्जनट्टज्यप्पओगवहुभेयगेयचउरो य । किं बहुणा?, सवत्थवि गुरुव सो पगरिसं पत्तो ॥ ४ ॥

एवं च गहियकलाकलावं कुमरं येत्तूण गओ कलायरिओ नरवइसमीवं, अचुद्धिओ परमायरेणं नरवइणा, द्वावियास-  
णो उवविट्ठो पुट्ठो य-किमागमणकारणंति, कलायरिण भणियं-देव ! एस तुम्ह कुमारो गाहिओ नीसेसकलाओ गुरुगु-  
रुव पत्तो परमपगरिसं, न एत्तो उत्तरेण गाहियवमत्थि, ता अणुजाणेउ देवो अम्हे सट्ठाणगमणायत्ति, अह अकालक्खे-  
वसिक्खिवकुमारकलाकोसलसवणपवहुमाणहरिसभरनिम्भरेण नरवइणा आचंदकालियसासणनिवद्धदसग्गहारदा-  
णेण पवरचाभीयरयणरासिवियरणेण विसिट्ठवत्थफुल्लतंबोलसहत्थसमप्पणेण य सम्माणिऊण परमायरेणं पेत्तिओ  
कलायरिओ सट्ठाणं, कुमारोऽवि निउत्तो गयतुरयवाहीयालीसु समकरणत्थं, सो य दढासणबंधधीरयाए महावलेण  
य जाममेत्तेणवि सममुवणेइ सत्त मत्तसिंधुरे पवणजवणवेगे परमजवे चउइस तुरंगमे अट्ट महामल्ले य, एवं च राया  
असमवाहुवलेण य मइपगरिसेण य कलाकोसल्लेण य नयपालणेण य विणयपवत्तणेण य समओचियजाणणेण य  
असरिससाहसत्तणेण य मयणाइरेयरूवविभवेण य जणवच्छलत्तणेण य वाढमक्खित्तचित्तो कुमारमेक्कमेव पढावेइ  
मंगलपाडेसु लेहेइ चित्तभित्तिसु निसामेइ कित्तीसु गायावेइ गीएसु अभिणचावेइ नट्टेसु, अविय-

रुदेवि दुहुसीलेऽवि रूचरहिणऽवि गुणविहीणेऽवि । लोओ पुत्ते पणयं किंपि अपुघं पयासेइ ॥ १ ॥



किं पुन चिरकालसमुन्भवमि नीसेसगुणगणिनिहिमि । सकुलभुद्धरणखमे न होज्ज नेहो नरवइस्स? ॥ २ ॥

एगया य अत्थाणमंडवनिसत्रंमि नरयइमि पायपीढासीणे कुमारे नियनियट्ठाणनिविट्ठेसु मंतिसामंतेसु समारद्धंमि  
गायणजणे मणोहारिसरेण गेए पणचिरंमि चित्तपयक्खेवनट्टविहिवियक्खणे वारविलासिणीजणे पचासन्नमागंतूण  
विन्नवियं पडिहारेण-देव ! हरिसपुरनयराहिवइस्स देवसेणभूवइस्स दूओ दुवारे देवदरिसणं समीहेइ, राइणा  
भणियं-भइ ! सिग्घं पवेसेहि, जं देवो आणवेइत्ति भणिऊण पवेसिओ अणेण, कया से उचियपडिवत्ती, पुट्टो य  
आगमणप्पओयणं, दूएण जंपियं-देव ! हरिसपुरपहुणा देवसेणनरिंदेण ख्वजोवणगुणोवहसियनागकन्नगाए निय-  
सुयाए सीलवइनामाए वरनिख्वणत्थं पेसिओऽम्हि तुम्ह पासे, रण्णा जंपियं-भइ ! पेच्छसु पायपीढासीणं कुमारं,  
परिभावेसु य किमणुख्वो वरो न वत्ति, दूएण भणियं-देव ! विन्नवणीयं अत्थि किंची, रत्ता भणियं-विन्नवेसु, दूएण  
जंपियं-जइ एवं ता निसामेसु, अत्थि अम्ह नराहिवस्स देवसेणस्स समग्गवीरवग्गपहाणो कालमेहो नाम  
महामल्लो, तस्स य किं वन्निज्जइ वलपगरिसंमि?, तथाहि-

दढकढिणकायवणमहिसजूहनाहेण सह सरोसेणं । सीसेण संपलग्गइ जुज्जेउं सो वलमएणं ॥ १ ॥

मुंडादंडे धेत्तूण पाणिणा मत्तदंतिनाहंपि । तद्धिणपसूयसुरहीसुयं व कहेइ लीलाए ॥ २ ॥

भारसयसंकलंपि हु तोडइ हेलाए जुण्णरज्जुं व । नियमुट्ठिपहारेण य सिलंपि सो जजरं कुणइ ॥ ३ ॥

मंसस्स विरुद्धं किर लोहं एयंपि तत्थ विवरीयं । जं नाराया सित्तावि तस्स वार्हिपि न छिवंति ॥ ४ ॥

इय सो नियगाढयलावलेवओ तिहुयणं जरत्तणं व । मन्नंतो भमइ पुरे निरंकुसो मत्तहत्थिव्व ॥ ५ ॥

अन्नया य तस्स पसिद्धिमसहमाणा समागया देसंतराओ मत्ता, दिट्ठो तेहिं राया, साहियं आगमणपओयणं, समाहूओ य रण्णा कालमेहमत्तो, निवेइओ से तव्वइयरो, अब्भुवगयं तेण तेहिं समं जुज्झं, सज्जीहूया दोवि पम्खा, कओ अक्खाडओ, विरइया उभयपासेसु मंचा, निविट्ठो अवलोयणकोऊहलेण नीसेसअंतेउरसमेओ नरवई पुरपहाणपुरिसवग्गो य, समाढत्तं च भुयाहि य अट्टपायइयाहिं च वंधेहि य विसंभकरणपओगेहिं मत्तेहिं सह तेण जुज्झउं, सणंतरेण य दट्ठमुट्ठिप्पहारेहिं निहया कालमेहेण देसंतरागया मत्ता, कओ लोणेण जयजयसहो, दिन्नं से नरिंदेण विजयपत्तं, सम्माणिओ विचित्तवत्थाभरणेहिं, गओ नियनियट्ठाणेसु नयरजणो, रावावि अंतेउरपरियरिओ संपत्तो नियमंदिरं, वीयदिवसे य सव्वालंकारविभूसिया काऊण देवीए पउमावईए पेसिया सीलवई कण्णगा पिउणो पायवडणत्थं, चेडीचक्कवालपरिवुडा य सा पत्ता नरिंदसगासे, निवडिया चरणेसु, निवेसिया रण्णा उच्छंगे, पुच्छिया य-पुत्ति ! केण कारणेण आगयाऽसि ? तीए भणियं-ताय ! तुम्ह पायपडणनिमित्तं अम्मगाय पेसियम्हि, राइणा चिंतियं-अहो वरजोगत्ति कलिऊणं नूणं देवीए पेसिया, ता किमियाणिं कायव्वं ?-

एकं चिय मह तणया परूढपणयाएँ अग्गमहिंसीए । एसा वररस जोग्गा को पुण एयाएँ होज्ज वरो ? ॥ १ ॥

एयाए चित्तचित्तिं अविद्याणिय जइ वरेज्ज निवपुत्तो । जो वा सो वा आजम्म दुक्खिया होज्ज ता एसा ॥ २ ॥

इति परिभाविऊण पुच्छिया सा नरवइणा-पुत्ति ! को तुज्ज वरो दिज्जइ ? किं सुरुवो उयाहु समरंगणसवडंसुह-  
सुहडपडिक्खलणपयंडपरकमो किं वा समरभीरुओत्ति, तओ ईसिं विहसिऊण भणियं तीए-ताओ जाणइ, राइणा  
भणियं-पुत्ति ! अवरोहकयकज्जाइं न सुहावहाइं होंति ता सम्ममणुचित्तिय भणसु, तीए भणियं-ताय ! जइ एवं  
ता जो एयं कालमेहमल्लं नियमुयवलेण महियपरकमं करेज्जा सो मम वरो होज्जत्ति, राइणा चित्तियं-अहो वलाणु-  
रागिणी मम तणया, को पुण समत्थो एयस्स वइयरस्स ?, भणिया व सा-पुत्ति ! मा कुणसु एवं, अतुलमल्लो खु  
एसो, ता अन्नं वरं पत्थेसु, तीए भणियं-ताय ! जइ परं हुयासणो अन्नोत्ति, इय तीए निच्छयमुवलब्भ रत्ता पेसिया  
सघनरवईणं दूया, निवेयाविओ एस बुत्तंतो, एयं च अणव्भुवगच्छमाणा नरवइकुमारा एवं पयंपंति-

को वोहेज्ज कयंतं ? को वा हालाहलं विसं भक्खे ? । को कालमेहमल्लेण जुज्झितं सह पवजेज्जा ? ॥ १ ॥

तेण न कज्जं रज्जेण किंपि न कज्जं च तीए भज्जाए । जा लब्भइ खित्तसंसयजीवियघेहिं कट्टेण ॥ २ ॥

एवं च निब्भग्गजणमणोरहेहिं असिद्धकज्जेहिं चेव पडिनियत्तिऊण दूएहिं रण्णो कहिओ मल्लजुज्झाणव्भुवग-  
मगव्भो नीसेसनरेसरकुमारबुत्तंतो, तं च सोऊण गाढसोगाउलो जाओ देवसेणनरवई, एत्थंतरे विन्नत्तो मंतिसामं-  
तेहिं-देव ! किमेयं उच्छन्नच्छाहा होह, अज्जवि देवेण अण्णिवेओ चिट्ठइ कुरुदेसाहिवनरवइसुओ नरविक्रमकुमारो,

राइणा भणियं-सोऽवि एवं चेव परंमुहो हविस्सइ, मंतिसामंतेहिं वुत्तं-देव ! मा एवं जंपह, जाओ अपोरिसे(परिमे)ओ  
 तस्स बलपगरिसो असंभावणिज्जो निजुद्धपरिस्समो अणाइक्खणिज्जा मल्लधिच्चाए कोसल्लया, किं बहुणा ?, नरसिंहनरवइ-  
 साहसतोसियाए भगवईए जो दिण्णो तस्स किं वन्नियधं ?, सरीरमेत्तेण चेव सो नररूवो सेसगुणेहिं निच्छियं देवोत्ति,  
 एवं च समायणिज्जण संजायहरिसेण देवेण पेसिओऽहं तुम्ह समीवे, ता देव ! एवं तं विण्णवणिज्जंति, राइणा भणियं-  
 भइ ! वररयणपुत्रकेसरिगुहव सेसाहिमत्थयमणिव समगं चिय भयहरिसे जणेइ विण्णत्तिया तुज्झ, दूएण कहियं-  
 देव ! एवमेयं, तओ राइणा अद्धच्छीए पेच्छियं कुमारवयणं, कुमारोऽवि तक्खणं चिय उट्ठिओ निवडिओ रण्णो  
 चरणेसु, भणिउमाढत्तो य-ताय ! समाइसह किं कीरउत्ति ?, राइणा भणियं-कुमार ! निसुणियं तए दूयवयणं ?,  
 केरिसो वा तुह भुयदंडपरकमो ?, कुमारेण भणियं-ताओ जाणइ, तओ राइणा जोग्गयभुवलब्भ अब्भुवगयं मल्ल-  
 जुज्झं, सम्माणिकुण सट्ठाणं पेसिओ दूओ, गओ जहागयं, निवेइयं च तेण जहावित्तं देवसेणारण्णो, जाओ से परमो  
 पमोओ, निरूवियं परिणयणजोग्गं लग्गं, पेसिया य वरागरिसगा पहानपुरिसा, अणवरयपयाणएहिं पत्ता जयंति-  
 नयरिं, विरइओ आवासो, अणुखवसमए दिट्ठो राया, सिट्ठं नियकज्जं, तओ पउरकरितुरगमुहडकोडिपरिवुडो पेसिओ  
 तेहिं समं कुमारी, पत्तो कालकमेण हरिसपुरनगरसमीवे,

तो तं इंतं नाउं, रत्ता काराविओ पयत्तेणं । वंसग्गवद्धधयर्चिधबंधुरो ज्जत्ति नयरमहो ॥ १ ॥

विहिया नरोहिं कुसलेहि कुसुमछटाडोवसुंदरा मग्गा । खित्ता य कुसुमपवरा रणज्झणिरभमंतभमरउला ॥ २ ॥

नचंतनाडइजा तालायरकहगपवररमणिजा । जाया चउक्कचररचउम्मुहंप्पमुहदेसावि ॥ ३ ॥

ठाणे ठाणे रइया दसद्ववण्णेहिं सुरभिकुसुमेहिं । विच्छित्तिविचित्ताओ लंवंतुद्दामदामाओ ॥ ४ ॥

भवणंपि तस्स जोग्गं निरुवियं सत्तभूमियं रम्मं । चंदणरसलिहियपसत्थसत्थियं थंभसयकलियं ॥ ५ ॥

तं नत्थि जं न विहियं कुमरागमणे पुरंमि नरवइणा । अहवा हरिसुकरिसा पुरिसा किं किं न कुवंति ? ॥ ६ ॥

एत्थंतरे समागया पहाणपुरिसा, पणमिऊण भणियं तेहिं—देव ! वद्धाविज्जह तुब्भे पुरसमीवसभागयकुमारकु-  
सलोदंतसवणेण, तओ समुद्ध्यविजयवेजयंतीसहस्साभिरामाए चाउरंगिणीए सेणाए समेओ सियसिंधुरखंधाधि-  
रूढो पडिपुण्णचंदमंडलाणुकारिणा उत्तेण धरिज्जमाणेणं निग्गओ राया कुमाराभिमुहं, खणंतरेण दिट्ठो कुमारो  
समालिं गिओ गाढपणयं पुट्ठो य सरीरारोग्गयं, दइण कुमारसरीरसंठाणसिंरिं चित्थियं रण्णा—निच्छियं इयाणिं विण-  
स्सइ कालमेहमल्लस्स वाहुवलमडप्फरोत्ति, अह मुहुत्तमेत्तमणुगच्छिय पुवनिउत्तनियनियट्ठाणेसु पेसिओ कुमारप-  
रियरो, कुमारोऽपि विमुक्को तंमि चैव पासाए, दवावियाइं करितुरयाईणं जोग्गासणाइं, कुमारस्सवि कए पेसिया  
पउरवंजणभक्खभोयणसमिद्धा रसवई, कयं च अन्नंपि तक्कालोचियं करणिज्जं, आहूया य अवरणहसमए पहाणपुरिसा,  
भणिया य—भो गंतूण निवेयह कुमारस्स जहा एसा अम्ह सुया वलाणुराणिणी, ता दंसेह कालमेहमल्लस्स विजएण

नियसामर्त्यन्ति, जं देवो आणवेइत्ति भणिकुण ते गया कुमारसमीवे, निवेइओ तस्स नीसेत्तवइयरो, अच्चुवगओ  
 कुमारेण, ततो वीथदियसे आढत्तो अक्खाडयपरिक्खेवो निवद्धा मंचा परमकोऊहलाउलिज्जमाणमाणसो मिलिओ  
 नयरजणो, ठिओ मंचंमि संतेउरो नरवई, आरूढा य एक्खदेसंमि चेडीचक्खवालपरिवुडा पाणिपइट्टियलट्टपप्फुलफुड-  
 माला सीलमई रायमुया, पडिक्खलिओ सघत्थ जणसंचारो, कओ अंगरक्खेहिं परिक्खेवो, वज्जियं पलयकालगजं-  
 तपक्खुहियपुक्खलावत्तपगज्जिररवगंभीरं चउच्चिहमाउज्जं, जाओ अवसरो, मंचाओ तओ कुमारो गाहुप्पीडियनियं-  
 सियकडिओ दढवद्धेसपासो पमुक्काभरणसंभारो कुलधेरीकयरक्खो जलणुच्चभडगुरुपयावदुप्पेक्खो संनिहियपाडिहे-  
 रोव भासुरो झत्ति अवयरिओ, तहा—

कंठतडुच्चभडपरिहियपयतलविलुलंतविमलवणमालो । आवद्धमलवलओ गजंतो पलयमेहोव ॥ १ ॥

मयभिंभलरत्तञ्चो गवुद्धुरकंधरो तुरियचवलं । पेच्छयजणपरियरिओ संपत्तो कालमेहोवि ॥ २ ॥

१ मल्ल ! मेल्लसु लहुं पुव्वज्जियविजयगवमेत्ताहे । अणुसरसु ममं सिग्घं अह भणिओ सो कुमारेण ॥ ३ ॥

सोउं कुमारवयणं जरोव गवो झडत्ति तस्स गओ । अणुचिंतिउं च लग्गो जुत्ताजुत्तं सबुद्धीए ॥ ४ ॥

कहं?—जइ एस मए विजिओ एयजणाओ तहावि नो कुसलं । अह एएणु जिओऽहं वित्तिच्छेओ तओऽवस्सं ॥ ५ ॥

अतुलवलविकमस्स उ इमस्स विजएऽवि मज्झ संदेहो । ता उभयपासरज्जुव संकडं एयमावडियं ॥ ६ ॥



पुत्ति । पवित्रं मीलं पाळेज्जसु मा करेज्जसु कुसंगं । अणुवत्तिज्जसु गुरुजणमवणिज्जसु दुष्णिणयभावं ॥ २ ॥

मेरिज्जसु नयमगं मियमदुरक्खरगिरं वण्जासि । जाराहेज्जसु सपियं देवो भत्ता कुलवह्णं ॥ ३ ॥

कुमारोऽपि इमं पुत्तो एसा एसा सुया ममं इत्था । छायाय सहयरी जह हवइ सया तह तए कियं ॥ ४ ॥

इय सिपय्यपिउं राया धूयं निरहग्गिदूमियसरीसे । अणुगमिऊण कुमारं नियनयराभिमुहमह चलिओ ॥ ५ ॥

कुमारोऽपि पेच्छंतो नगनगरागरगामकाणणरमणिज्जं मेइणिं सारिंतो विसमपलीनिलीणे भिल्लाहिवइणो  
पयइंतो पुपनीईओ अवलोयंतो तावसजणनिसेविए अणवरयडज्जंतपयमदुसमिहमहोसहिंसमुच्छलंतजहलधूमपडल-  
कयमेहसंरुसिहंडितंडवाडंवररमणिजे आसमपए, पइदिणपयाणएहिं संपत्तो जयंतीए नयरीए वाहिरुज्जाणे, वद्धाविओ  
नरसिंपनरवई, काराविया नयरसोहा, जाया समुदुयविचित्तचीणंसुयचिंधयंधुरा रायमग्गा, जह पसत्यंमि मुहुत्ते  
अंतंउरपुरप्पहाणजणपरियरिण्ण नरिंदेण अणुगम्ममाणो नरविकमो नवरिं पविसिउभारद्धो, ठिया य रायमग्गोभय-  
पासपासायमालासु तदवलोयणकोऊहलाउला कुमुमुम्भिस्सक्खयहत्था लोयसत्था, जाया य कुमारूवपलोयणपा-  
उन्मयंतविचिहवियाराण जुवईजणाण विन्भमा । कहं चिय ?—

दइण कारि पडिजुवइकंतगंडत्यलंतसंकंतं । कुमुमक्खएहिं ताडइ ईसाइंतिव्व रायसुयं ॥ १ ॥

पवियंभियकुमुमाउहवसवियसियलोयणा पलोयंती । न मुणइ सकडिलंपिडु पवणेणायट्टियं अचरा ॥ २ ॥



कुमरपलोयणरामूडमाणसा निचला गिहग्गया । अनिलचलंचलचूडा काविडु रेहइ पडायव ॥ ३ ॥

अम्मे ! जामि पलोइदुं दसदिसं कोलाहला सुवण, सा मा गच्छ मयच्छि ! निच्छियमिमो सो एइ रण्णो सुओ ।

दिट्ठे जम्मि पणट्टनिच्चुइमणा मुद्धावरा मग्ग(ङ्ग)णा, वट्टंती विच सासुयाएँ पुरओ अन्ना इमं जपइ ॥ ४ ॥

इय एवं सविलासाहिं नयरनारीहिं सच्चिज्जंतो । कुमरो वहसमेओ संपत्तो निययभवणंमि ॥ ५ ॥

तहिं गएण य कया सविसेसं गुरुजणाण पणामाइपडिवत्ती, समप्पिओ य रण्णा अंचरतलमणुलिहंतो निययभव-  
णनिच्चिसेसो पासाओ कुमारस्स, तत्थ ट्ठिओ य सो सक्को इच देवलोए धरणो इच पायाले विसयमुहं भुंजंतो  
कालं गमेइ, अन्तरंतरा य तुरगवाहियालिं च मत्तसिंधुरदमणं च मल्लजुज्झम्भसणं च राहावेहकोऊहलं च धम्मसत्य-  
सवणं च देसंतरनयरवत्तानिसामणं च गुरुचरणनिसेवणं च मग्गणजणमणोरहपूरणं च करेइत्ति । अह कुमारस्स का-  
लकमेण सीलमईए सह विसयमुहं भुंजमाणस्स कुसुमसेहरविजयसेहरनामाणो जाया दोन्नि पुत्ता, ते य वल्लहा पिया-  
महस्स, विविहप्पयारेहिं उवलालिज्जमाणा वट्टंति । अन्नया राइणो समीवे निसन्नंमि नरविक्रमे जहोचियठाणनिवि-  
ट्टंमि सेवगजणे मयभरसंभरियसच्छंदजमुणावणविहारो तडयडारावतोडियनिविडघडणुत्तरतारसयप्पमाणलोहनिगडो  
सयखंडचुन्नियमहालाणखंभो निइयकरप्पहाराहयारोहगवग्गो पहाचिओ नयरमज्झेण जयकुंजरो उम्मूलियगरुयहुममो-  
डियगुरुविडवकडयडरउदो कुंभत्थलपणोल्लणपाडियसुरभणसिहरग्गो अइकट्ठिणकरप्फालणविहाडिउहामतुंगपागारो

अइयेगुचालियकरतालविह्वियभसलउलो जइरभसभरपहावणसपखकुलसेलचलिकयसंको दढदंतदंडताडणढलढ-  
 लियहालयसमूहो करघायदंतवेहणचरणुप्पीडणनिवाडियजणोहो सव्वत्थ भमइ भीमो जमोव्व जुगविगमसमयंमि, अह  
 मंदरमहिज्जमाणमहोयहिघोसघोरे समुच्छलिए तियचउक्कचचरेसु जणाणं अकंदियरवे पुच्छियं नरवइणा-भो भो  
 किमेवं नयरे कोलाहलो सुम्मइत्ति?, जणेण भणियं-देव! एत्त तुम्ह जयकुंजरो भग्गालाणखंभो नयरं विह्वेइ,  
 एवं सोचा विसज्जिया कुमारपसुहा पहाणलोया जयकुंजरगहणनिमित्तं, भणिया य-अरे! सव्वहा सत्थघायं परिहरं-  
 तेहिं एयस्स घट्टियव्वं, एवं च पडिवज्जिय गया ते तदभिमुहं, न य पेच्छंति कमवि उपायं जेण हत्थी वसमुवग-  
 च्छइत्ति, एत्थंतरे वेलामासवत्तिणी गुरुगम्भभारवसविसंतुलनिवडंतचरणा गाढपाणभयकंपंतसरीरज्ज्ठी इओ तओ  
 य धावंती एगा कुलंगणा दिट्ठा जयकुंजरेण, तओ उलालियकरग्गो पवणवेगेण धाविओ तीसे अभिमुहो, सावि  
 कुंजरं तथा सिग्गमागच्छंतं पेच्छिऊण सज्झसभरनिरुद्धपयप्पयारा कलुणाइं दीणाइं विलविडं पयत्ता, कहां चिय?-  
 हं माइ भाय ताया तायह मं मा उवेक्खह इयाणिं । एसो मम वहणट्ठा दुट्ठकरी पासमल्लियइ ॥ १ ॥  
 हं हो पेच्छगलोया ! निक्करुणा करिवरं पडिक्खलह । गुरुगम्भभरकंता एसा संपइ विवज्जामि ॥ २ ॥  
 अहह कहां पावकरी एसो सो आगओ मम समीवे । निस्तरणा नित्ताणा कमुवायं संपइ सरामि ? ॥ ३ ॥  
 किं कोऽपि महापुरिसो परोवयारत्थधरियनियपाणो । एत्थ न पेच्छइ सहसा मं दुक्खत्तं विणस्संतिं ॥ ४ ॥

इय दीणकलुणवयणाइं णेगसो भासिऊण खणमेकं । मुच्छानिमीलियच्छी धसत्ति सा महियले पडिया ॥ ५ ॥  
सोवि करिरो दढरोसभरत्तणेत्तो संपत्तो तीसे थेवंतरेण, दिट्ठा य सा कुमारेण भयवसभूमिनिस्तहनिवडियंगी,  
चित्तियं च-अजुत्तमजुत्तमियाणि उवेहणं एयाए, जओ—

एफं अवला एसा अन्नं गुरुगम्भमारविवसंगी । अन्नं पुण मुच्छाए निमीलियच्छी धरणिपडिया ॥ १ ॥

अन्नं च पुणो तायस्स एस जयकुंजरो अतीव पिओ । सत्थेण न हंतवरो विसमभिमं निवडियं कज्जं ॥ २ ॥

अहवा रुसउ ताओ जं भवइ तं करेउ मम इण्हि । हंतवरो एस करी दुव्वलजणपालणं धम्मो ॥ ३ ॥

इय निच्छिऊण निविडवद्धुगुलंचलो तुरंगाओ अवयरिऊण अवलोइज्जंतो नरनारीजणेण निवारिजंतो पासव-  
त्तिपरियणेण पडियलिज्जमाणो अंगरक्खेहिं निरयेक्खो निवजीवियस्स सिग्घं पधाविऊण मेहस्स व मयजलासार-  
पसमियरयनियरस्स कयगंभीरगलगज्जियस्स सहस्सनयणोव थेवंतरेणासंपत्तस्स जयकुंजरस्स करणप्पओ-  
गवसेण आरूढो पट्टिदेसंमि कुमारो, ताडिओ य कुलिसनिट्टरेण मुट्ठिप्पहारेण करी कुंभत्वलंमि, अह सरयरं रोस-  
मुवागओ मणागंपि अनियत्तंतो नारीवहाओ सो कुमारेण जमजीहादुव्विसहाए खग्घेणूए आहओ सव्वसत्तीए  
कुंभजुयलंतराले, तओ पढमुग्गमंतरविमंडलाओव करपसरो खरपवणपणुन्नकमलसंडाओव मयरंदनीसंदो महागिरि-  
गेरुयागराओव निम्भरसलिलुप्पीलो कुंभत्वलाओ से चूदो महारुहिरप्पवाहो, सहसच्चिय विगयनयणोवलंभो चिहलं-

घलीभूओ मओ इव मुच्छिओ इव दडपाससहस्ससंजमिओ इव निचलो ठिओ करी, तओ अवयरिऊण कुमारेण संठेविया  
सा भूमिगया इत्थिया, विमुक्का य समीहियपएसंमि, सयंपि गओ नियमंदिरं, सोऽवि करिवरो गहिओ आरोहेहिं,  
पारदो अणवरयजलघडसहस्सखेवेण सिसिरोपयारो, पयट्टाचियाइं पायविसोहणाइं, महाविमहेण नीओ निययावासे,  
नियेइयं नरवइणो जहाचित्तं, रुट्ठो राया, परं सौयमुवागओ, भणिउमाढत्तो य—

रे रे वचह पुरिसा । निस्सारह तं सुयं दुरायारं । जयकुंजरेऽवि निहय अज्जवि इह वसइ जोऽलज्जो ॥ १ ॥

जघो साहसतुट्ठाएँ तीए देवीएँ मुंदरो दित्तो । पुत्तो अमित्तरूवो देवाविहु विप्पयारंति ॥ २ ॥

नूणं मूढो लोओ तम्मइ पुत्तस्स जो निमित्तंमि । न सुणइ एवंविहदोससाहणे पयडसत्तुत्तं ॥ ३ ॥

अन्नाणविलसियमिणं गइं अपुत्तस्स जं निवारंति । इहलोयप्पडिणीओ परलोयसुहो कइं होज्जा ? ॥ ४ ॥

नीसेसरज्जसारं एयं जयकुंजरं हणंतेण । कइ मह सावेक्खत्तं पुत्तेण पयासियं भणसु ? ॥ ५ ॥

ता जह पुधं एकेण रक्खियं खोणिवलयमक्खंडं । रक्खिस्सामि तहेण्हिं निस्सारह वेरियं एयं ॥ ६ ॥

जो एरिसं अणत्थं वीसत्थो कुणइ वसइ निस्संको । सो नूण ममंपि विणासिऊण रज्जंपिहु हरेज्जा ॥ ७ ॥

इय पुणरुत्तं नरवइस्स निच्छयमुवलब्भ विमणदुम्मणा गया कुमारसमीवं रायपुरिसा, तं च यणमिऊण सामव-  
यणा निविट्ठा एगदेसे, पलोइऊण य तेसिं मुहसोइं भणियं कुमारेण—किं भो ! गाढमुचिग्गा दीसह ?, साहह किमेत्थ

कारणं ? खणंतरं निरुद्धकंठं चिद्विय दीहुणहुणहमुक्नीसासपुरस्सरं दुस्सहविरहविहुरनिस्सरंतवाहप्पवाहं परामुसियलो-  
यणजुयलं भणियं पुरिसेहिं-कुमार ! निम्भग्गसिरसेहरा किं साहेमो ? कुमारेण भणियं-कहं चिय ? पुरिसेहिं भणियं-  
जेण तुम्हेहिं सह दुस्सहो दीहविरहो भविस्सइत्ति, इंगियाकारकुसलत्तणओ परियाणिऊण तेसिमभिप्पायं भणियं  
कुमारेण-किं कुविओ ताओ निधिसयमाणवेइ ? रायपुरिसेहिं भणियं-रुहमेयं परुसक्खरं देवदुल्लहाणं तुम्ह भणि-  
ज्जइ ? सयमेव जाणह तुम्हे जमेत्थ पत्तकालं, तओ वत्थतंबोलाइणा पूइऊण रायपुरिसा सट्टाणे पेसिया कुमारेण,  
वाहराविया य निययसेवगा, भणिया य-भो महाणुभावा ! वारणसिरवियारणकुविण्ण ताएण निधिसओ आणत्तोम्हि,  
ता गच्छह नियट्टाणेसु तुम्हे, अवसरे पुणरवि एज्जहत्ति, सम्माणिऊण सप्पणयं पेसिया, देवी य सीलमई भणिया,  
जहा-गच्छसु पिए ! तुमंपि पियहरं, यत्थावे पुणरवि एज्जाहि, सा य खणमवि विओगदुक्खमसहमाणी जमुणाजलस-  
च्छहं सकज्जलं नयणवाहप्पवाहं मुंचंती रोविउं पयत्ता, संठविया कुमारेण तेहिं तेहिं मडुरवयणेहिं, नेच्छइ य सा खण-  
मवि विओगं, तओ भणिया कुमारेण-पिए ! दुग्गा मग्गा आजम्मसुहलालियाणं दढमजोग्गा य, असंजायसरीरवला  
वालजुयलपरियुडा य तंसि, ता विरम सबहा ममणुग्गहं कुणमाणी इमाओ असग्गहाओत्ति, सीलमईए भणियं-  
अज्जपुत्त ! तइया ताएण तुह किमुवइट्टं ? कुमारेण भणियं-न सरामि, सीलमईए जंपियं-मम एकचिय धूया एसा  
अचंत्तं निबुइटाणं छायघ सहचरी जह हवइ सया तह तए किचंति, कुमारेण भणियं-पिए ! ममरियमियमिगार्णि,

तीए जंपियं-ता कीस नियत्तेसि मं ? कुमारेण भणियं-मग्गगाढपरिस्समकारणेण नियत्तेमि, जइ पुण अवस्समेवांगंतवं  
मए समं ता पउणा भवसु, विमुंचसु भवणनिवासाभिरइं परिचय सुकुमारत्तणंति, सीलमईए भणियं-एसा समसुह-  
दुक्खसहा जाया पगुणस्सि, तथो करकलियमरासणो पिट्टिप्पएसवद्धतोणीरो सुयजुयलसमेयाए सीलमईए सहिओ  
सुहपसुत्तेसु नयरलोएसु पसंतेसु गीयरवेसु सट्टाणनिविट्ठेसु अंगरक्खेसु पमत्तेसु जामकरिघडाधिरूढेसु सुहडेसु इओ  
तओ पेसिएसु नियचेडगेसु नीहरिओ नयराओ कुमारो, अविच्छिन्नप्ययाणंएहि परं रजंतरं गंतुं पवत्तो य ।

इओ य आयत्तिज्जण कुमारस्स विदेसगमणं सयलोऽपि नयगीजणो मुक्ककंठं विलविउमारद्धो, मंतिणोऽपि परिच-  
त्तनीसेसरज्जवावारा हरियसवस्ससारा इव विमणदुम्मणा गंतूण नरनाहं उवलंभिउं पवत्ता, कइं विय ?

तिलतुसमित्तंपिहु नियपओयणं अम्ह सारिहं देवो । पुर्विं करिसु इण्ह पव्वयमेत्तेऽपि नो पुट्ठा ॥ १ ॥  
ता देव ! जुत्तयेयं काउं किं तुम्ह थेवकजेऽपि ? । रज्जभरधरणधीरो जमेस निवासिओ कुमरो ॥ २ ॥  
किं एगदुट्टकुंजरकएण नियजीयनिच्चिसेसस्स । पुत्तस्स एरिसगई विहिया केणावि नरवइणा ? ॥ ३ ॥  
किं वा विंझमहागिरिपरिसरधरणीए कुंजरकुलाइं । हरियाइं तकरेहिं जं देवो ववसिओ एवं ॥ ४ ॥  
इत्थीए रक्खणओ किमजुत्तं नणु कयं कुमारेण ? । नियडिंभदुट्टचेट्ठावि जणेइ जणयस्स संतोसं ॥ ५ ॥  
पररज्जेसु य अजसो अम्हाण पयासिओ तए नूणं । जह नरसिंधनराहिवरज्जमुवेक्खंति गुरुणो य ॥ ६ ॥

ता गिण्हह नियमुहं सह भवणधणेहिं मोक्कलह अम्हे । न सहिस्सामो एत्तियमवजसरयफंसणं देव ! ॥ ७ ॥

इय मंतीहिं भणिण राया संजायचित्तसंतावो । अचुभुवगयनियदोसो ताहे ते भणिउमाढत्तो ॥ ८ ॥

मरिसह मम अवराहं जमपुच्छिय एरिसं कयं कज्जं । नो कोवभराओ जओ जुत्ताजुत्तं मए नायं ॥ ९ ॥

जह तुम्भे भणह तहा न कोऽवि दोसेऽवि चयइ नियपुत्तं । इय वइयरळउमेणं मन्ने लच्छीए छलिओऽहं ॥ १० ॥

जं पुण इय दोसाओ मंतित्तविमोयणं कुणह तुम्भे । एसेव निरंजणसामिभत्तिजुत्ताण होइ मई ॥ ११ ॥

केवलमेफो पुत्तो रज्जसमत्थो गओ विदेसंमि । तुम्हेवि उवेक्खह मं उभयं सोढुं न सक्कोऽहं ॥ १२ ॥

ता संपयं पसीयह रज्जं चित्तेह लहह कुमरस्स । सबत्थावि पउत्तिं एत्तो रोसेण पज्जत्तं ॥ १३ ॥

एवं गाढनिबंधेण पडिवन्नं मंतिजणेणमेयं, पेसिया य सयलदिसासु वरतुरयाधिरूढा पुरिसनियरा कुमारन्नेसण-  
निमित्तं, गया य सद्यत्थ, निरूविओ सधजत्तेण, न केणवि दिसाभागमेत्तंपि वियाणियं, तओ कइवयचासराइं  
वियरिय तेसु तेसु ठाणेषु अकयकज्जेहिं चेव नियत्तिऊण तेहिं सिट्ठो सभानिचिट्ठस्स मंतिजणसमेयस्स नरिंदस्स  
कुमाराणुवलंभवुत्तंतो, तं च सोचा अचंतं सोगं कुणंतो राया वागरिओ मंतीहिं-देव ! अलं परिदेविण्ण, न  
कयाइ करतलाओ विगलिओ पुणोवि पाविज्जइ चिंतामणी, न य दढकुनयदंडताडिया पुणोऽवि मंदिरे निवसइ  
रायत् च्ठी, न गाढमकारणावमाणिओ नियत्तइ सप्पुरिसजणो, राइणा भणियं-जइ पढममेव सो तुम्हेहिं नियत्तिओ

होंतो ता जुत्तं हुत्तं, मंतीहिं भणियं—जइ मूलेऽवि से न रोसुण्णायणं देवो करंतो ता जुत्ततरं हुत्तं । अवि य—

कज्जविणासे जाए जइ बुद्धी वंधुरा पवित्थरइ । तहं जइ पढमं चिय होज्ज देव ! ता किं न पज्जत्तं ? ॥ १ ॥

घसा सबुद्धिविभयेण जाणित्तं वत्थु तस्स य सरूवं । पढमं चिय सुग्गहियं कुणंति सप्पस्स वयणं व ॥ २ ॥

रत्ता बुत्तं सत्तं एयमहो केवलं बहुसणाहो । जाणेण विणा कह सो दूरपहं पाविओ होही ? ॥ ३ ॥

मंतीहिं तओ भणियं जेणेसा विहडणा कया देव ! । सो दूरेऽवि नएज्जा नूण कुमारं लहुं दइवो ॥ ४ ॥

एवं चिरं परितप्पिय पुणोवि चारपुरिसे[हिं] कुमारवत्ताजाणणत्थं पेसिय नियनियठाणेसु गया मंतिणो, रायावि सुयविरहवेयणाविधुराए चंपयमालाए देवीए संठवणनिमित्तमंतेउरं गओत्ति ॥

इओ य सो कुमारो कमकमेण गच्छंतो चिरकमलवणविहारुद्धिग्गाए लच्छिदेवीए तुट्ठेण पयावइणा निवासनिमित्तं य विरइए नाणाविहतएणतरुसामलियसयलरविकरपसरे अणेगकोडीसरीयजणसंकुले संदणपुरवेलाउले संपत्तो, अवि-याणमाणो य तहाविहं गेहंतरं गोपुरपचासन्नस्स पाडलाभिहाणमालागारस्स मंदिरंमि पविट्ठो, दिट्ठो य सो पाड-लेण विज्ञाओ य विसिद्धागिईए जहा नूणं कोई एस महापुरिसोत्ति, तओ अब्भुट्ठिऊण सपणयं कया उचियपडिवत्ती, दंसिओ गिहस्स एगदेशो, निकारणवच्छल्लघाए य भायरं व तं उवयरिउमाढत्तो, कुमारोऽवि तत्थट्ठिओ सजूहभ-ट्ठोवपवंगमो दिणगमणियं कुणंतो अच्छइ । अज्जया य पुवसगाणियंमि. निट्ठियंमि दविणजाए पाडलेण भणियं—कुमार !



महायस निव्यवसायाणं केरिसो निव्वाहो?, ता परिचयसु आलस्सं, गिण्हसु ममारामस्स एगदेसं, समुच्चिणसु कुमुमाइं, गुंधिऊण य त्रिचिहमालाओ विक्किणसु रायमग्गंमि जहा सुहेण चैव निव्वहइ तुह परिग्गहोत्ति ।

तओ-जह जह वाएइ विही विसरिसकरणेहिं निट्ठुरं पडहं । धीरा पहसितवयणा नयंति तहा तह चैव ॥ १ ॥  
इय चिंतिकुण स्वत्तधम्माणणुरूपि तयणुरोहेण पडिवन्नमेयं कुमारेण, पइदियहं च सह सीलमईए मालागारो-  
वदंसियकाणणेगदेसतरुकुमुमाइं उच्चिणिय नियगेहमागंतूण मालाओ विरएइ, पाडलगभज्जाए य समं सीलमइं तच्चिकय-  
निमित्तं रायमग्गे पेसेइ, उप्पज्जइ बहू अत्थो, एवं च पइदिणं पुप्फविक्रयकरणेणं सुहेण संपज्जइ निव्वाहो, अन्नया  
पप्फुल्लविइल्लमालाओ गहाय सीलवई गया रायमग्गे, अह तीसे रूचेण जोवणेण य लायण्णेण य सोहग्गेण य अक्खि-  
त्तचित्तो समागओ एगो कोडीसरीओ देहिलो नाम नावावणिओ, भणिया य तेण-भइ! केत्तिएण इमाओ मालाओ  
उच्चंति?, तीए भणियं-पंचहिं सुवण्णधरणेहिं, तओ

दानेन वैराण्युपयान्ति नाशं, दानेन भूतानि वशीभवन्ति । दानेन कीर्तिर्भवतीदुशुभ्रा, दानात्परं नो वरमस्ति वस्तु ॥ १ ॥  
इय चिंतितेण तीसे चित्तावहरणत्वं समप्पिया तेण त्तिण्णि दीणारा, सहरिसाए तीए गहिकुण समप्पियाओ  
कुल्लमालाओ, विणएण भणिया य सा-भइ! इओ दिणाओ आरब्भ मा अन्नस्स दादिसि, समहिगतस्सुल्लेणावि अहमेव  
गहिस्सामि, पडिवन्नं च तीए, गयाइं दोन्निवि नियनियगेहेसु, एवं पइदिणं सो तीए सगासाओ पुप्फमालाओ गि-

षड्, साऽवि समहिगदविणलोभेण तस्स चैवं दलयइ । अत्रया परतीरगमणनिमित्तं नाणाविहअमुलभंडभरियं जोणवत्त  
 ठावियं अणेण समुदतीरे, सावि भणिया, जहा-कळेऽहं परतीरे गमिस्सामि, तग्हा तुमे समुदतीरे अमुगंमि पएसे  
 आगंतूग नीसेसाइं कुंदवेइलनवमालईपाडलाइमुत्तयचंपयपमुहाइं कुमुमाइं समप्पेज्जासि, अहं ते चउग्गुणं मोलं  
 दवाविस्सामि, पडिवन्नं च तीए हट्टहिययाए, न मुणिओ कोऽवि परमत्थो, वीयदिवसे गया समग्गकुसुममालाओ  
 गहिऊण निहिट्टट्टाणे, दिट्ठो सो वणिओ जाणवत्ताधिरूढो, पणामियाइं तीए कुमुमाइं, पसारिओ तेण हत्थो, तीएवि  
 समप्पणं(णत्थं)पलंविद्या मुणालकोमला नियभुयलया, तेणवि हरिसभरनिभ्रंणेण सकुमुममाला चैव गहिऊणं आरो-  
 विया सीलवई जाणवत्ते, उविखत्ता उवरिगाए, एत्थंतरे वज्जावियाइं मंगलतूराइं पयट्टियं पवहणं विमुक्का सियवडा  
 याहियाइं आपहयाइं चंडगंडीवविमुक्ककंडंय वेणेण गंतुं पवत्तं जाणवत्तं । इओ य सो नरविक्रमकुमारो अचंतं तदणाग-  
 मणकालविलंबुधिग्गचित्तो इओ तओ सीलमइं पलोइउं पवत्तो, तं अपेच्छमाणेण च तेण पुट्टा पाडिवेसिया, अवलो-  
 इओ रायमग्गो, सम्मं निरिक्खिया तियचउक्कचचरा, अवलोइयाइं सयलदेवउलभवनकाणणाइं, निवेइया वत्ता पाड-  
 लयमालागारस्स, तेणावि सघायरेण गवेसिया सीलमईसवट्टाणेसु, कत्थविय पउत्तिमपावमाणेण सिग्घमेव नियत्तिय  
 भणिओ कुमारो-महायस ! धीरो भव, परिचयसु कायरत्तं, कुमारेण भणियं-भइ ! न किंपि मस कायरत्तं, केवलं एए वालए  
 जणणीविओगवसविसंडुलं रोयमाणे न सकेमि पेच्छिउं, पाडलेण भणियं-एवं ठिएवि पुरिसाय(सयार)त्तं कायच्चं, ता

पुषदिसिनिभागे तीसे अत्रेसणनिमित्तं अहं गच्छामि, तुमं पुण पुत्तसमेओ चिय उत्तरदिसिहुत्तं इमाए नईए उभयकूलेसु  
उज्झरेसु य दरीसु य दुत्तडीसु य विसमप्पवेसेसु य अवलोइज्जासित्ति, एवं करेमिच्चि पडिवज्जिय पुत्तजुयलसमेओ चेव  
गओ नरविफ्फमो नईए पासदेसंमि, ते य पुत्तए मणागंपि सन्निहिममुंचमाणे संठविय चित्तिउमारद्धो । कहां चिय ?—

किं होज्ज केणवि हडा ? वसीकया वावि केणवि नरेण ? । किं वा सरीरपीडाए होज्ज कत्थवि निसन्ना सा ॥ १ ॥

किं वा ममावमाणं किंपि हु दद्वुण विलयमावन्ना । पुरिसंतरंमि अहवा जाओ तीसे पणयभावो ॥ २ ॥

सुमरामि न तावडवमाणकारणं होउ वाडवमाणेऽवि । नो सा चएज्ज पुत्तं अवचनेहो जओ गरुओ ॥ ३ ॥

संभवइ न एयंपिहु जमन्नपुरिसं मणेऽवि चित्तेज्जा । कह तारिसकुलजाया सीलं मइलेज्ज ससिधवलं ? ॥ ४ ॥

अहवा जुवईण मणं कुडंगगुविलं क एव जाणेज्जा ? । वाहिंदंसियपणयाण कवडभरियाण मज्झंमि ? ॥ ५ ॥

अन्नं वयंति पुयं पच्छा पुण वाहरंति गिरमन्नं । अन्नं धरंति हियए साभिप्पेयं करंति पुणो ॥ ६ ॥

गयणे गणंति गहगणमुयहिंमि जलंपि जे परिमिणंति । पेच्छंति भावि कज्जं न तेऽवि जाणंति जुवइयणं ॥ ७ ॥

सद्यं चिय जुवईओ एरिसियाओ न एत्व संदेहो । केवलमेयाए मए दिट्ठं लहुयंपि नो विलियं ॥ ८ ॥

ता सपहा न उवेहणिज्जा होइ एसत्ति निच्छिऊण पुत्ते य नईकूले संठविय परकूलत्रेसणट्टाए पविट्ठो नईए, पत्तो  
य : ज्जुयारे, एत्थंतरे अघंतपडिणियत्तणओ ह्यविहिस्स अघटंतवत्थसंपडणसीलयाए भवियवयानिओगस्स ब्रह्मवत्त-

णओ वेणीयकम्मस्स गिरिसिरवरिसणवसविसप्पमाणसल्लिप्पवाहेण पुरिया तक्खणेण नई, जाया अगाहा, खलिओ पयप्पयारो पवाहिओ तरुपुल्लववारिपूरेण नरविक्रमकुमारो नीओ दूरप्पणसं, अह कहवि कुसलकम्मवसओ पाविय-  
मणेण फलंगं, तंनिस्साए अवयरिओ तीरे तीए, नुवणो तरुवरच्छायाए, चिंतिउं पवत्तो—

कह नियनयरशाओ ? कहेत्थ वासो ? कहिं गया भज्जा ? । कह पुत्तेहि विओगो ? कह वा नइवेगवहणं च ? ॥ १ ॥

खरपवणाहयजरतिणनियरो विव देवया दिसिवलिव । एकपए चिय कह मज्झ परियरो विसरिओ श्चत्ति ? ॥ २ ॥

हे दइव ! तुज्झ पणओ एसोऽहं खिवसु सबहुक्खाइं । मज्झं सयणजणाओ जेणऽन्नजणो सुहं वसइ ॥ ३ ॥

एत्थंतरे पचासन्नजयवद्धणनयराहिवई किच्चिवम्मनामो नरवई अनिवत्तगसुलवेयणाए अपुत्तो सहसा पंचत्तमुवगओ, तओ मिलिआ मंतिसामंताइणो लोया, कओ पंचदिवाभिसेओ, रज्जारिहं च पुरिसं सबत्थ मग्गिउं पवत्ता, खणं-  
तरेण नयरच्चंतरे रज्जारिहमपेच्छंताणि वाहिं अवलोयणट्ठा निग्गयाणि पंच दिवाणि, गंतुं पयट्ठाणि य तमुहेसं जत्थ  
सो चिंताउरो नरविक्रमकुमारो निवसइ, अह तदग्गामिणं पयंडसुंडादंडुडामरं वेगेण पवरकुंजरमिन्तं दहूण विग-  
प्पियं एवं कुमारेण—

मत्ते पुवच्चत्थं श्याणि दइवो समीहए काउं । कहमन्नहेइ इत्थी दूरुलालियकरो एज्जा ? ॥ १ ॥

अहया एउ इमो लहु कुणउ य मणवंछियं जहा मज्झं । ससुयदइयविरहपमोक्खदुक्खवोच्छेयणं होइ ॥ २ ॥

अह गलगर्जि घणघोसत्रिन्भमं कुंजरेण काऊण । नियपट्टीए ठविओ इत्ति कुमारो करग्गेण ॥ ३ ॥

हयहेसियं च जायं जयतूररवो वियंभिओ सहसा । सामंतमंतिलोएण परिवुडो तो गओ नयरं ॥ ४ ॥

जाओ पुरे पमोओ अपणयपुधावि पत्थिवा पणया । नरविक्रमेण रज्जं अत्तायत्तं कयं सबं ॥ ५ ॥

नरसिंघनिद्विसेसा जाया करित्तुरयरयणभंडारा । सक्कोव देवलोए विलसइ सो विविहकीलाहिं ॥ ६ ॥

केवलमेको चिय फुरइ तस्स हिययंमि नट्टसळं व । दइयासुयदीहरविरहवइयरो दुस्सहो अणिसं ॥ ७ ॥

अत्रया जयवद्धणनयरासन्नज्जाणे अणेगसीसपरिवुडो सीहोव दुद्धरिसो सूरुव निहियतमपसरो चंदोव सोम-  
सरीरो मंदरो इव थिरो जच्चकणगं व परिकखमो दूरविवज्जियराओवि अणंतराओ धरियपयडजमवओवि नीसे-  
ससत्तरक्खणवद्धलक्खो समिइवावारियमणपसरोऽवि सया पसंतचित्तो छत्तीसगुणमहामणिरोहणभूमिध धीनि-  
हाणं व पच्चक्खधम्मरासिध भुवणभवणेक्कदीवोव सिवपंथसत्थयाहोव कम्मतरुनियरहववाहोव दढजा-  
यदप्पकंदप्पसप्पसन्नागदमणिध ससमयपरसमयजलप्पवाहसिंधुध लोयचक्खुध नियनियविसंडुलकरणकुरंगे-  
कपासोव मिच्छत्तजलाउलभवसमुहनिवडंतजंतुवोहित्थो पंचविहायारमहाभरेक्कनित्थारणसमत्थो जइधम्मे असमत्थे  
सावयधम्मंमि संठवमाणो इयरे पुण जइधम्मे सिद्धंतपसिद्धनाएणं अपुवापुवजिणभवणाइं वंदमाणो गाणाणुगामं  
विह तो आगंतूण समंतभदाभिहाणो सूरुी समोसरिओत्ति, जाया नयरे पसिद्धी, जहा असेसगुणगणावासो सूरुी

आगओ, तओ कोऊहलेण य भवनिव्वेणत्ति य संदेहपुच्छणेणं य बहुमाणेण य धम्मसवणनिमित्तेण य नियनियद-  
रिसणाभिप्पायविमरिसेण य समागया वहवे मंतिसामंतसेट्टिसेणावइसत्थवाहदंडनाहप्पमुहा नयरलोया, निवडिया  
चरणेसु, निविट्ठा जहासंनिहिया धरणिवट्ठे, सूरीवि पुवभवज्जियगुरुकम्मजलणजालालितचगत्तेसु करुणामयवुट्ठिपिव  
दिट्ठिं सत्तेसु पेसंतो मंदरगिरिमंधमहिज्जमाणखीरोयरवगंभीरेण सहेण सद्धम्मदेसणं काउमारदो, कहं ?—

खरपवणपणुन्नकुसग्गलग्गजलविंदुचंचलं जीयं । सुररायचावचवलं खणेणवि गलइ सरीरवलं ॥ १ ॥

पेम्मंपि तुंगगिरिसिरसरंतसरियातरंगमिव तरलं । लच्छीवि छड्डणुट्टमरवंछिरी पेच्छइ छलाइं ॥ २ ॥

पयडपयट्टियदारुणविविहवियारा महासमुद्दे व । निवडंति आवया आवयव निचं सरीरंमि ॥ ३ ॥

मणिमंततंतदिबोसहीण वाचारणेवि अविणासं । भुंजंता देंति दुहं विसया विसवल्लरीउव ॥ ४ ॥

मिच्छत्तमोहमोहियमईहिं कीरंति जाइं पावाइं । भवसयपरंपरामुवि वेरिष मुयंति नो ताई ॥ ५ ॥

पियपुत्तकलत्ताईण जाण कज्जेसु वट्टियं वडुसो । परलोयपयट्टाणं ताणिवि नो हुंति ताणाय ॥ ६ ॥

इय भो नाउं जिणधम्ममणुदिणं सरह सरहसं कुसला । जावज्जवि वज्जमहासणिव निवडइ न तुम्ह जरा ॥ ७ ॥

तीसे पडणे पुण छिन्नपक्खपुडया विहंगवग्गव । उह्वियदाढामुयगव हरियरज्जा णरिंदव ॥ ८ ॥

सच्छंदगमणपरभीइजणणसन्वत्थसाहणविहीणा । चिररिद्धिं सुमरंता सुचिरं तुम्हे किलिस्सिहिह ॥ ९ ॥

पञ्चतं एत्तो जंपिण जइ कामियाइं सोक्खाइं । भोत्तुं वंछह ता वीयरायवयणे समुज्जमह ॥ १० ॥

इय संसारनिस्सारत्तणपरिकहणेण पडिबुद्धा बहवे पाणिणो । वीयदिवसे य समायन्नियसूरिसमागमणवुत्तंतो सम-  
ग्गयतुरयनरनियरपरियरिओ भारियासुयसंपओगपुच्छणकए समागओ नरविक्रमनराहिवो, तओ वंदिऊण सूरिं  
चिंतिउमाढत्तो—अहो एयस्स भुवणच्छरियभूयं रुवं विसुक्कामयवुट्ठी दिट्ठी सजलघणघोसमुंदरो सरो नीसेसपसत्थल-  
क्खणजुत्तं गत्तं पाणिगणकयरई भारई, तथा—

तमनिग्गहिओ चंदो तवंमि मंदा रुई दिणयरस्स । गिरिविहियाभिभवो सायरोऽवि को हुज्ज एयसमो ? ॥ १ ॥  
तं नत्थि जं न जाणइ भूयं भव्वं भविस्समवि वत्थुं । ता होइ पुच्छणिज्जो नियदइयापुत्तवुत्तंतं ॥ २ ॥

इय निच्छिऊण उवविट्ठो उचियासणे राया, गुरुणावि पारद्धा धम्मकहा, पुणरवि पडिबुद्धा पभूयपाणिणो,  
राइणावि पत्थावमुवल्लभ पुच्छिओ सूरि—भयवं! निच्छियं मए, जहा—तं नत्थि जं न जाणह तुब्भे, ता काऊणाणुकंपं  
साहह कइया भारियाए सुएहि य सह मम समागमो भविस्सइत्ति, गुरुणा भणियं—महाराय ! धम्मज्जमेण तदंतरा-  
इयकम्मक्खओवसमो जया होहिइ, राइणा भणियं—भयवं! जाणामि एयं, केवलं दुस्सहविओगविहुरो न सक्केमि  
धम्मज्जमं काउं, चित्तनिरोहसव्वपेक्खो हि धम्मलक्खो कहमम्हारिसेहिं साहिउं तीरइ?, ता सबहा कुणह पसायं,  
निदेयह अयरमुवायंति, गुरुणा भणियं—जइ एयं ता पज्जुवासेसु पइदिणं मुणिजणं, एयं सु परमोवाओ वंछियकज्ज-

सिद्धीप, जओ-विहडइ निविडकम्मनिगडंपि डु भिंदइ दुग्गइ, लडु फल्लाणवंल्लिसुद्धासइ चासइ दुक्खसंवरं ।

वंल्लइ लच्छि पास परिसप्पणु दप्पणु जिम पभासए, सुणिजणसंगमेवि किं किं जणु जं नवि सोक्खु पासए ? ॥१॥

तओ रोगिणव्व वेज्जोवइट्ठोसहं पंथपरिच्चट्ठेण व्व सुमग्गदेसणं तण्हाभिभूएण व्व विमलसल्लिलपडिपुण्णमहास-  
रोवरनिवेयणं राइणा संममच्चुवगयमिमं गुरुवयणं, गओ य पणमिज्जण सट्ठाणं ।

इओ य ते दोवि तस्स सुया नदीए कूलंमि निलीणा तण्हालुहाभिभूया जाव खणंतरं चिट्ठंति ताव एगो गोउल्लिओ  
दहिमहियाणि णयरे विक्किणिज्जण समागओ तत्थ पएसे, पेच्छइ देवकुमारनिधिसेसरूवे करुणसरं रुयमाणे ते दोउवि

दारगे, तओ पुच्छिया तेण-रे पुत्तगा ! कीय रोयह ? , केण तुम्भे एत्थ ठविया ? को वा तुम्ह एत्थ सयणज्जणोत्ति ?

जेट्ठेण साहिओ सवो पुव्वुत्तंतो, अइ अणाहत्ति परिकलिज्जण तेण

तेहिं पयारोहिं उवलोमिज्जण य नीया ते नियगोउल्लंमि, सगप्पिया य

नियदइयाए, सावि उदरुम्भवे इव परिपालेइ सब्वजत्तेण, उवयरइ खंडखज्जाइपमुहविसिद्धवत्थुप्पयाणेण अणवरयं,

सोउवि गोउलाहिवई किल जयवद्धणनयराहिवस्स संवद्धोत्ति अन्नया कयाइ तेहिं दोहिवि पुत्तेहिं समेओ महामुल्लं

पाहुडमा दाय नरविक्रमनरिंदंसणत्थं समागओ जयवद्धणनयरं, दिट्ठो य नरवई, पणमिज्जो सब्बायरेणं, सगप्पियं पाहुडं,

दिज्जो राइणा सहत्थेण तंवल्लो, पुट्ठो व्व सयलमुत्थासुत्थवत्ताओ, एत्थंतरे विवडिया दोसु तेसु पुत्तेसु राइणो दिट्ठी,



जाओ गाठं पमोओ, परिभावियं च जहा धुयं एए मम तणयत्ति, तद्वावि पुच्छामि एयं-को पुणं एत्थं वइयरोत्ति  
परिभाविय पुट्टो गोउलाहियई, कस्स भो एए पुत्तगत्ति?, तेण भणियं-देव! मम संवंधिणो, गेहिणीए आवालका-  
लाओ उ वट्ठियत्ति, राइणा भणियं-संमं साहेसु, जायसंखोभेण तेण सिट्ठो नईकूलाओ आरब्भ सयलो वुत्तंतो, एयमाय-  
न्निऊण राइणा परमहरिसपगरिसमुव्वहंतेण ते दोउवि दारगा गाढमालिं गिय उच्छंगे निवेसिया, गोउलनायणेण भणियं-  
देव! पुरावि मए विविहचेट्ठाहिं नाया एए जहा कस्सइ सामंतस्स वा सेणावइस्स वा नरवइस्स वा मग्गे गच्छंतस्स  
केणावि विसमपओगेण पन्भट्टा होहिंति, कहमन्नहा एएसिं पइदिणंपि मट्ठियाघडियदोघट्टघडभेडणेण य कित्तिम-  
तुरयघट्टपयट्टणेण य संपिडियसरिडयपरिरुप्पियसंदणवाहणेण य वुद्धिपइट्ठियकट्टलट्टिसग्गुव्वहंणेण य चाउरंगसेणा-  
संमहुद्दामसंगामपरिरुप्पणेण य डिंमाण गामागरनगरपसायदाणेण य विविहा कीलां अहेसि?, न य एयंविहा चेट्टा  
पागंधसुयाण होइ, तथा सन्ववेलासु मम तुम्ह दंसणत्वमेतस्स एयाणवि नरिंदभवणदंसणकए गाढनिच्चंधो आसि,  
केवलमहं यावत्तिऊण विसिद्धयत्तदाणेण दिट्ठिवंचणेण य पुरा एंतो, इण्हि पुण गाढनिच्चंधं काऊण मम खणंपि पुट्ठिं  
अमुंचमाणा समागयत्ति, अहो महाणुभावेण कहं ममोवयरियंति चिंतंतेण रत्ता परमपमोयभरनिच्चरंगेण दिन्नं तस्स  
तं चेव गोउलं गामसयं च आचंद्रकालियं सासणनिवद्धं मुत्तीए, पभूयवत्ततं वोलाइणा य पूइऊण पेसिओ सट्टाणंति।  
मयंपि पुत्तज्जुयलपरियरिओ गओ सरिसमीवं, वंदित्ता परमायरेणं निवेइओ पुत्तसमागमवुत्तंतो, सरिणा भणियं-महा-

राय ! सुमरिसि पुव्वभणियं अम्ह वयणं ? राइणा भणियं—भयवं ! नियनामंपिव सुमरांमि, सुरिणा भणियं—महाभाग !  
 केत्तियमेत्तमेयं ? गुरुजणयज्जुवासणेण तं नत्थि जं न सिज्झइत्ति, रत्ता भणियं—अवितहमेयं, किं पवक्खेवि अणुववन्नं  
 भणिज्जइ ? पत्तीयसु इयाणि एक्केण दइयवियोगदुक्खयोच्छेयणेणं, गुरुणा भणियं—मा ऊसुगो होसु, एवंपि पडिव-  
 ज्जिय पणमिऊण थ सन्नायरेण गओ राया सट्ठाणं ।

इत्तं गंतुं पवत्तो समु-  
 हंमि, गं विसमभावडियंति  
 जंपिऊण थ अकंडनिवडिययज्जदंडताडियव्व मुच्छानिमीलियच्छी परसुच्छिन्नव्व चंपगलया निवडिया जाणवत्तभूमितले,  
 समासासिया पासवत्तिणा परियणेण सिसिरोवयारेहिं, खणंतरेण लद्धचेयणा गाढसुयपिययमवियोगवसविसंडुळा  
 गलंतनयणजलप्पवाहा विलविउमेवं पवत्ता—

हा भुवणपयडपोरिस ताय । सजीयस्स संनिहं दड्ढं । किमुवेहसि अइदुहियं नियदुहियं संपयं एयं ? ॥ १ ॥

नरासिहनराहिय ! नियवहुंपि किमुवेहसे अणज्जेण । एवंपि हीरमाणिं ? हा हा विपरंसुहो दइवो ॥ २ ॥

हा पाणनाह ! हा गोत्तदेवया हा समत्थदिसिनाहा । रक्खह रक्खह एयं हीरंती पावमिच्छेणं ॥ ३ ॥

एवमाइणि करुणाइं जंपंती सा संभासिया नावावणिण्ण—भदे ! कीस एवं विलवसि ? , धीरा भव, नाहं सुमि-

गेवि तुह पडिकूलकारी, जओ एसा समुद्रुरा रिद्धी तुहायत्ता, एसोऽहं दासनिन्विसेसो, ता पडिचञ्जसु सामिणीसहं,  
 यावारेसु नियवुद्धीए गेहकृजेसु एयं परियणंति, सीलमईए भणियं—

अवसर दिट्ठिपहाओ निट्ठुर! पाविट्ठ! धिट्ठ! दुचेट्ठ! । अहवा सासनरोहेण जीवियं लहु चइस्सामि ॥ १ ॥

रे रे खच्चियकुलसंभयंपि आजम्मसुद्धसीलंपि । मं एवमुल्लवंतो नियजीयस्सवि न लजेसि? ॥ २ ॥

किंच—खिज्जउ देहं निहरउ जीवियं पडउ दुक्खरिंछोली । नियतायदिन्ननामत्थविहडणं नेव काहामि ॥ ३ ॥

इय तीए निच्छयमुवळम्म निवारियं तेण भच्चपाणं, छुहापिवासासामिमूयाएवि च परिचत्तो तीए नियनिच्छओ,  
 एत्थंतरे तीए विसुद्धसीलपरिपालणतुट्ठाए सण्णिहियसमुद्देवयाए खित्तं महावत्ते तस्स जाणवत्तं, कओ जुगंतसम-  
 यदारुणो समीरणो, समुल्लासिया कुलसिहरविच्चमा जलकळोला, विउवियाइं गयणे घोरायाराइं गंधच्चनयराइं,  
 दंसिया गहिरगज्जिरपभीसणा फुरंतफारविज्जुपुंजर्पिजरा जलहरा, तओ वाउलीहओ कन्नघारो, जाया विहत्था  
 सुहडसत्था, ठिया विमणदुम्मणा अवलुवाहगजणा, चाढं वाउलीभूओ नाचावणिओ, एत्थंतरे गयणट्ठियाए  
 जंपियं देवीए—

रे रे जइ दुट्ठवणियतणय! णयविरहिय हियकाम कामगइह दहणसारिच्छ रिंछोच्च तुच्छपेत्थय छयळगळधणसमाण  
 माणपजणगरहणिज्जसील! सीलमई धरिसिहसि एवं ता पाव! पावेसि इयानिं विणासंति सोचा पंडुरपडपाउ-

रणो कयपूयावित्यरो विणयपणओ करकळियधूवदहणो सो विन्नविडं समाढत्तो-देवि! ममेकं दोसं दासस्त य  
 खमसु परिहरसु कोवं न पुणो काहामीमं, पणए न परंमुह्य देवा, ताहे भणियं देवीए-रे तुमं जइ सुहेण पाळि-  
 हिसि नियजणणिनिविसेसं एयं ता जीवसि हयास !, तेण तहत्ति सच्चं पडिवत्तं गाढभववसट्टेण, उवसंहरियं देवीए  
 डमरं अहंसणं च गया । अह जाओ अणुकूलो पवणो, मग्गेण लग्गं जाणवत्तं, हरिसिया कज्जधाराइणो जणा, परि-  
 तुट्टो सो वणिओ, पडिओ सघायरेण चलणेसु सीलमईए, खामिया नियदुच्चरियं, भणिया य सा-सुयणु! मा काहिसि  
 सघहा सोगं, अचिरेण तहा काहामि जहा मिलसि नियपिययमस्त, काराविया य पाणवित्तिं, समप्पिया निरुवह्व-  
 निवासनिमित्तमेक्का उच्चरिणा, तओ पइदिणं मायरं य भयणिं य देवयं य गुरुं य सार्मिं व वत्थेण य भोयणेण य मेसहेण  
 य तंबोलेण य संमं पडियरमाणो पत्तो परतीरं, विक्किणियाइं निययमंडाइं पाविओ मूरिअत्थसंचओ निवत्तिवासे-  
 सकज्जो वळिओ सनयरामिमुहं, अंतरे आगच्छंतस्स अणणुकूलपवणपणोल्लियं लग्गं जयवद्धणनयरपरिसरंमि बोहित्यं,  
 तओ विमुक्का नंगरा पाडिओ सियवडो उत्तरिओ वडुकिंरुत्तरपरियरिओ सो वाणिओ, गओ विचित्ताइं महरिहाइं  
 परतीरभवाइं पाहुडाइं गहाय नरविक्रमनराहिवस्स दंसणत्थं, पडिहारनिवेइओ य यविट्टो रायभवणं, दिट्टो राया, सम-  
 प्पियाइं पाहुडाइं, कओ राइणा सम्माणो, तओ समुइलंधणवइयरनिवेयणेण परतीरनयररायसरूवत्तरकहणेण नियक-  
 याणगगुणदोसपडणेण य ठिओ नरवइस्स समीये पहरमेकं, एत्थंतरे पणमिऊण विन्नत्तं तेण-देव ! सुत्तं पवहणं समागच्छइ

रयणी ता अणुजाणह ममं गमणायत्ति, राइणावि पिययमाविओगविहुरेण एस चेव अञ्ज दीहंरनिसांए विणोयकारी  
 ह्यउत्ति परिचिंतयंतेण भणिओ सो-भइ ! वीसत्यो इहेव चिट्ठसु, नियपहाणपुरिसेहिं रक्खावइस्सामि तुइ जाण-  
 पत्तं, जं देवो आणवेइत्ति भणिऊण पडिवन्नं तेण, विसज्जिया य राइणा नियपहाणपुरिसा पवहणरक्खणत्तयं, एत्तयंतरे  
 उट्ठिया दोवि कुमारा, विन्नत्तं च तेहिं, जहा-त्ताय ! अदिट्ठपुषं अम्ह पवहणं, गाढं च कोउयं तहंसणे, ता अणु-  
 जाणउ ताओ जेण गच्छागोत्ति, तन्निच्छयमुवलम्भ अणुजाया य नरिंदेण, गया य अंगरक्खनरपरिक्खित्ता ते जाण-  
 पत्ते, तं च इओ तओ निरिक्खिऊण पमुत्ता तत्थेव । अह पच्छिमरयणिसमए पडिवुद्धा परोप्परं वत्ता काउमारंद्धा,  
 खणंतरेण लहुएण भाउणा पुट्ठो जेठो भाया-अहो भाय ! कहसु किंपि अपुषं अक्खाणयं, इह द्वियाण न झिज्जइ  
 कहमपि विभावरी, जेठभाउणा भणियं-भइ ! किमत्तेण अक्खाणयसवणेण ?, एयं चिय अप्पणोत्तणयं अक्खाण-  
 यमपुषं निसुणेहि, तेण जंपियं-एयमवि साहेहि, तओ

करकलियहुमुममाला जह जणणी रायमग्गमणुपत्ता । जह वलिया नो पुणरवि जह नयरे मग्गिया बहुसो ॥ १ ॥  
 जह ताओवि दुहत्तो अम्हेहिं समं गओ नईकूले । जह परतीरनिरूयणकएण सलिलंमि ओगाढो ॥ २ ॥  
 जह सरियनीरपूरप्पयाहिओ दूरदेसमणुपत्तो । जह अम्हे गोउलिएण गोउलं पाविया विवसा ॥ ३ ॥  
 जह सुहिं संपत्ता रायउले जह गया तओ अम्हे । रायावलोयणत्तयं जह विन्नाया य ताएणं ॥ ४ ॥

जह वा महलकोऊहलेण एत्थागया तहा सधं । अक्खाणयमप्पणं उवइहं लहुगभाउस्त ॥ ५ ॥

एयं च कहिज्जमाणमामूलाओ निसुणियं समग्गमवि समीवदेससंठियाए सीलमईए, तओ अपुधं अणाइक्खणिज्जं केवलमणुभवगम्मं नियसुयसाहियवइयरपरिन्नायसमुत्थहरिसपगरिसमुघहंती समुचरोमंचुचाइयकंचुया सुयसिणेहव-सपगलंतथणसुहसुद्धदुद्धधारा एह चिरकालपत्तगा पुत्तगा ! नियजणणिं गाढमालिंगहत्ति भणंती गया तेसिं पंचा-सन्नं, निवेइओ पुववित्तंतो, विन्नाया जेइपुत्तेण, तओ गाढं कंठमवलंविय चिरविरहदुहावेगसूयगविसंडुलवयणगव्भं निव्वहरं सपुत्तावि रोविउं पवत्ता, विन्नायपरमत्थेण मुहुत्तमेत्तं विलंविय समासासिया कुमारपरियणेण, अह उग्ग-यंमि दिणयरे परियणमज्झाओ एगेण पुरिसेण तुरियं गंतूण भणिओ नरविक्रमो-देव ! तुम्ह दइया कुमारेहिं एयस्स चेव नावावाणियस्स जाणवत्ते पत्तत्ति, तओ हरिसभरनिव्वरहियएण सविस्सयं पुच्छिओ राइणा एसो-भद्द ! को एस वुत्तंतोत्ति ? तेणवि संजायभएण भणियं-देव ! वियरसु मे अभयदाणेणप्पसायं जेण जहा वित्तं निवेएमि, पडिवन्नं नरिंदेण, तओ पढमाणुरागाओ आरब्भ जाणवत्तारोवणकंदणोचलोभणदेवयाभेसणप्पसुहो साहिओ नीसेसो वुत्तंतो, एयगायन्निज्जण य नरवइणा समग्गघणजाणवत्तसहिओ निव्विसओ आणत्तो सो वाणियगो, सीलमईवि देवीं करेणुगाखंधगया धरियसियच्छत्ता चामरेहिं वीइज्जमाणी पएपए पडिच्छंती नयरजणकयं पूयासकारं ठाणे ठाणे वियर-माणा दीणाणाहाण कणगदाणं पवेसिया परमविभुईए निययमंदिरं, काराविओ पुरे अंहुदिवसिओ महूसवो, अह

ण्हवियविलित्ताए नियंसियामलमहग्घवत्याए सुयजुयलपरिवुडाए पमोयभरनिम्भरंगीए सीलमईए पुरओ पुवणु-  
 भूयं क्हं क्हंतेण तीसे य हरणपमुहं वित्तंत्तं निसुणमाणेण रण्णा मालागारस्स तस्स पाडलयनामधेयस्स सच्चरिय-  
 मणुय्यारं तहाविहं सुमरियं झत्ति, तो भणिया सीलमई-पिए! पियाविहु न एरिसो होइ जारिसओ स महप्पा  
 मालागारो सिणेहपरो, भणियं सीलमईए-सचमिणं चाह!, ता कुण पसायं सुसमिद्धिवियरणेणं महाणुभावस्स  
 तस्स तुमं, फलमेयं चिय लच्छीए नाह! संझम्भरागचवलाए जं पूरिज्जंति भणोरहाओ उवयारिलोगस्स ।

इय सोच्चा से वयणं रण्णा संदणपुराउ सो सिग्घं । आणाविकुण ठयिओ चोडयविसए महाराओ ॥ १ ॥

दिज्जो से भंडारो समप्पिया करितुरंगरहजोहा । किं बहुणा? अत्तसमो सोऽवि कओ तेण नरवइणा ॥ २ ॥

अन्नदिवसे य भज्जासु यसमेओ नरविक्रमो महया रिद्धिसमुदएणं गओ उज्जाणे, दिट्ठो सूरी, सच्चाधरेण पणमिकुण  
 पसाहिओ समीहियसंपत्तिवइयरो, गुरुणा भणियं-महाराय ! एरिसकल्लाणवल्लिनिबंधणाणि मुणिजणचरणसेवणाणि,  
 राइणा चिंतियं-अहो अमोहं गुरुवयणं, अहो जिणधम्मस्स माहप्पं, सब्बह्य धन्नोऽहं जस्स मे एवंविहेण मुणि-  
 णाहेण समं संगमो जाओ, एवं च चिंतयंतेण रत्ता उवज्जियं सुगइकप्पतरुस्स सम्मत्तस्स वीयंति, गुरुणा भणियं-  
 महाराय! पडिवज्जमु निच्छइयं संपइ जिणधम्मं, राइणा भणियं-भयवं! दढमप्पमत्तुत्तमसच्चजणजोग्गो जिणधम्मो,  
 कहमम्हारिसजणा सक्कंति अणुपालिउं?, गुरुणा नायं-अज्जवि चिट्ठरो मोहयंठी दढनिबंधणा मिच्छत्तवासणा

तिष्ठाणुर्वंधो विप्रयपडिवंधो सवणमेत्ता विसेसधम्मवत्ता, चम्हा जहाभद्गत्तयेव एयस्स इण्हमुच्चियंति. चिंत्तिकण  
 युत्तो सो-महाराय । जइ एवं ता पज्जुवासेज्ज सुसाट्टणो पसंसेज्जसु जिणधम्मं अणुमोएज्जसु तप्पडिवत्ते भवजणे,  
 पत्तियमेत्तेणपि होही दढरुम्मनिगमो, एवंति पडियज्जिक्कण गजो राया सट्टाणंमि ।

निप्पचवायमउत्ते मोगे मुंजेति पंचरूयेवि । सयत्त्व जायकित्ती नरविक्रमनरचई ताहे ॥ १ ॥

सूरीवि धम्ममग्गे आरोयिय मूरि भषपाणिगणे । सीसगणसंपरिबुडो नयराउ विहरिजो वार्हि ॥ २ ॥

पटिवोहेतो सूरुव भषकमलाइं वयणकिरणेहि । काळकमेण पत्तो जयंतिनयरिं विहारेण ॥ ३ ॥

उग्गहभणुजाणाविय नयरीए वार्हि चंपगुजाणे । सद्धम्मकम्मउज्जुयजइजणसहिजो ठिजो मयवं ॥ ४ ॥

जाया गुरे पसिद्धी सिद्धंतविस्सारजो जहा सूरी । इह आगउत्ति ताहे चंदणवडियाए नयरिजणो ॥ ५ ॥

अंतैउरेण सहिजो हरिकरिरहजोहवूहपरिकिण्णो । नरसिंहमूमिनाहोवि आगजो सुरिपासंमि ॥ ६ ॥

सायरमह विणमंतुत्तिगंगमणिमउडलीढपयपीठं । पणमिय मुणिजणसहियं गुरुमुवविट्ठो धरणिवट्ठे ॥ ७ ॥

संसारामारयागच्चा, तज्जो सद्धम्मदेसणा । गुरुणा काउमाढत्ता, मोहविद्धंसकारिणी ॥ ८ ॥

बहा—रळयासिंधुनिम्मग्गवडवीयं व दुल्लहं । को माणुसत्तं संपप्प, पमाएज्ज वियक्कणो ? ॥ ९ ॥

खणोडवि नाउकम्मस्स, जाइ जेणाविणस्सरो । तेणेस मुच्छिजो लोजो, निरुविग्गो कइं भवे ? ॥ १० ॥



भवेज्ज कोऽचि किं धीमं, निहाकरणलालसो । मंदिरे ह्ववाहुग्गजालामालापलीविण्ण ? ॥ ११ ॥  
 विण्णसे सुहग्गम्मेवि, सप्पाहेओ पयट्ठइ । दुग्गेऽणंते भवट्ठाणे, जे न किंपि समीहण्ण ॥ १२ ॥  
 हण्ण से नियवुद्धीण, ठाणे ठाणे विसीयइ । अन्ने सोक्खे न पावेइ, सिद्धिसद्धम्मसंवले ॥ १३ ॥  
 वलेण तेण किं कज्जं?, किं वा तेण धणेणवि ? । न जं सद्धम्ममग्गस्स, उवयारे निजुज्जइ ? ॥ १४ ॥  
 जएज्ज सव्वहा धम्मे, पमायपरिहारओ । जीवघायनिवित्तिमि, पवित्तिमि सुहेसु य ॥ १५ ॥  
 सुयाइमोहसंवद्धा, पावं कुव्वंति पाणिणो । तेण पावेण संतत्ता, निवडंति अहो गइं ॥ १६ ॥  
 गइंदा इव वज्झंति, जोणिलक्खेसु णेगसो । किं किं दुक्खं न पेक्खंति, ते तिक्खमवियक्खणा ? ॥ १७ ॥  
 तम्हा एवं नाउं जइधम्मं सव्वहा समायरह । एसो खु तिघदुहजलणसमणघणवरिसणसमो जं ॥ १८ ॥  
 सग्गापवग्गमंदिररोहणनिस्सेणिदंडसारिच्छो । कम्ममुच्चडविडविविहाडणेकधारुक्कडकुहाडो ॥ १९ ॥  
 अचिरेण दिन्ननिस्सेससारनिस्सेयसो सुहत्थीहिं । अणुसरियवो सम्मं सुसत्तिजुत्तेहिं सत्तेहिं ॥ २० ॥  
 रत्ता भणियं भयवं ! जं तुच्चे वयह तं पवज्जामि । जाव नियरज्जभारप्पणेण सुत्थं करेमि जणं ॥ २१ ॥  
 गुरुणा भणियं जुत्तं एयं तुम्हं भवेकभीयाणं । निविग्गं कुणह लहुं चयह पमायं पयत्तेण ॥ २२ ॥  
 अह गुरुं पणमिऊण गओ राया सभवणं कयमणंतरकरणिज्जं आहूया मंतिणो कहिओ निययाभिप्पाओ अवगओ

मंतीहिं, एत्वंतरे समागया कुमारचारोवलंभनिमित्तं पुषपेसिया गूढपुरिसा, पणमिओ तेहिं राया, निवेइओ नयरनि-  
 गमाओ आरब्भ जयवद्धणपुररज्जलाभपजंतो सधो कुमारखुचंतो, तुट्टो राया, दिन्नं च चित्तियाइरित्तं तेसिं चित्तं, पेसिया  
 य कुमाराणयणनिमित्तं बुद्धिसागरपमुहा मंतिणो, अणवरयप्पयाणएहिं पत्ता य ते जयवद्धणपुरं, नरविक्रमोवि नाऊण  
 तेसिमागमणं सपरियणो निग्गओ अभिमुहो, पवेसिया वड्डविच्छडेणं, कया जणगनिव्विसेसा पडिवत्ती, पुट्टा य उचि-  
 यसमए आगमणप्पओज्जणं, निवेइयं तेहिं जहा—पव्वज्जापडिवज्जणाभिलासो राया, तुमंमि नियरज्जभरारोवणमणोरहो  
 य देवस्स, अओ तुम्हाणयणनिमित्तं पेसियम्हि, इमं सोच्चा तक्खणमेव तत्थ रज्जे जेट्टपुत्तं ठविऊण समग्गनियखंधा-  
 चारसमेओ चलिओ नरविक्रमो समं मंतीहिं, कालकमेण पत्तो जयंतिनयरिपरिसरं, विन्नायतदागमणो दूरं संसुहमागओ  
 नरसिंहनरवई समं चंपगमालाए देवीए, तओ दूराओ चेव नरविक्रमो जणगमागच्छंतं पेच्छिऊण हरिसुप्फुल्ललयणो  
 उयरिऊण करिवराओ मंतिजणसमेओ गंतूण निवडिओ चलणेसु जणयस्स जणणीएय, तेहिवि चिरदंसणुप्पन्नाणं-  
 दसंदिरच्छेहिं गाढमालिंकिऊण निवेसिओ नियउच्छंगे, पुट्टो य सरीरारोग्गयं, खणंतरे य पविट्टाईं नियमंदिरं,  
 पत्थावे पुट्टो नरवइणा नरविक्रमो पुरीगमणकालाओ आरब्भ पुव्ववइयरं, साहिओ नरविक्रमेण समत्थोऽवि, एवं  
 च चिरकालदंसणसमुच्चवसुहसंदोहमणुहवंताण गया कइवि वासरा, अन्नदियहे य भणिओ राइणा नरविक्रमो—पुत्त !  
 पुव्वपुरिसपवित्तियवत्तिणीपरिपालणेण उस्सिखलजणताडणेण य एत्तियं कालं जाव मए पालियं रज्जं, इयाणिं पुण

ममार्हितो सरीरबलेण य पुन्नपगारसेण य विक्रमेण य समत्थो तुमं ता अंगीकरेसु रज्जमहामरं, परिवालेसु पुण्वपे-  
चाहेण जणवयं, अहं पुण पुण्वपुरिसायरियं धम्ममग्गं अणुचरिस्सामि, कुमारेण भणियं-ताय ! विरमह इमांओ  
अज्झवसायाओ, तुम्ह दंसणुस्सुओ चिरकालेण अहमिहमागओ, नवि य अज्जवि एस पत्यावो पत्थुयवत्थुस्स, निव-  
सह ताव सगेहे चिय कइवय वरिसाहं, राइणा भणियं-वच्छ ! किं न पेच्छसि जायविमलपलियसंगमुत्तिमंगं ? न  
वा निरुवेसि विसंतुलसयलट्ठिं सरीरलट्ठिं ? न निरिक्खसि धेवपयासेवि चलंतिं दंतपंतिं ? न विभावेसि वत्थुवि-  
ल्लोयणावलियं लोयणजुयलं ? न कलयसि वलिपडलसंतयं सरीरत्तयं ? न वा मुणसि समत्थकज्जासाहणजायसंदेहं  
देहं ? एवं च पच्छिमदिसावलंवि विंबं व रविणो रयणीविराममलिणं मंडलं व ससिणो गाढजरत्तणपत्तं पत्तं व तरुणो  
जायसूरत्थमणसंभावनं वणं व कमलाण पच्चट्टलट्टपुण्वसोहं अप्पाणप्पाणमवल्लोइऊण कइं खणमवि बोहे वसामि ?  
ता मुयसु पडिवंधं पडिवज्जसु मम वयणं भवसु धम्मसहाओ, तओ तायनिच्छयमुवलच्च नरविक्रमो अणुभूयपुण्व-  
दुक्खकंतो वज्जताडिओ इव लेप्पवडिओ इव पत्थरुक्कीरिओ इव चित्तलिहिओ इव खणं ठाऊण वाढं रोविडं चवत्तो,  
समासासिओ य रत्ता कोमलवयणेहिं, पडिवत्तो य तेण महाकट्टेण रज्जाभिसेओ, समागए च पसत्थवासरे सब्बसा-  
मग्गीए संतिसामंतमित्तयप्पमुहमहाजणसमक्खं निवेसिओ नरविक्रमो विनयसीहासणंमि, कओ अट्टोत्तरकलस-  
सएणं महाविभूर्इए रायाभिसेओ, पणमिओ च रत्ता मंडलाहिवपुरंपहाणलोयपरियरिण, भणिओ च सब्बावरेण

वच्छ ! जइवि नयविणयसचाइगुणगणमणिमहोयही तुमं तइवि किंपि भणेज्जसि, एसा हि रायलन्ठी अपडमंध-  
 च णं अमज्जपाणं मयज्जणं सूरससहरकरप्पसरासज्जमंधयारं, ता तहाकइंपि वट्टिजासि जहा न मइलिज्जइ ससहर-  
 धवलं नियकुलं, जहा न खंडिज्जइ दूरप्परूढो पयावपायवो, जहा न पमिलायइ नीइरुमलिणो, जहा न उरिंसखली-  
 हवंति खला, जहा न विरचंति पयइणो, जहा करभरोहिं न पीडिज्जइ जणवउत्ति, एवं च वट्टमाणस्स पुत्त ! इहलोए  
 इच्छिया होहिंति सवलवंछियत्थसिद्धीओ, किमंग पुण परलोएत्ति ?, एवं सिक्खविऊण नरसिंघनरवई पट्टिओ समंत-  
 भइसूरिसमीवंमि, तओ पउणाविआ नरविक्रमनरवइणा सहस्सवाहिणी सिविगा से निक्खमणनिमित्तं, कयमंज्जणो-  
 वयारो सव्वालंकारविभूसिओ समारूढो तत्थ नरसिंहनरवई, उक्खित्ता पवराभरणविभूसियसरीरोहिं सुइनेवत्थेहिं  
 पवरपुरिसेहिं सिविगा, तओ दिज्जंतेहिं महादाणेहिं वज्जंतेहिं चउन्विहाउज्जेहिं पढंतेहिं मागहसत्थेहिं गायंतेहिं  
 गायणेहिं मंगलमुहरसुहीहिं नयरनारीहिं पणधिराहिं वारविलियाहिं महाविभूईए निग्गओ नवरीओ, पतो सूरि-  
 सगासं, ओयरिऊण सिविगाओ तिपयाहिणपुव्वं पडिओ गुरुचलणेसु—

भालयलघडियकरसंपुडेण भणिओ गुरु तओ रण्णा । भयवं ! तायसु इण्ह जिणिंददिक्खापयाणेण ॥ १ ॥

पडियत्रंमि य गुरुणा पुव्वुत्तरदिसिसमुज्झियाहरणो । एगनियंसियवत्थो पसंतवहंतसुहलेसो ॥ २ ॥

सिद्धंतभणियजुत्तीए तत्थ-सूरीहिं गाहिओ सम्मं । पवज्जं निरवज्जं कम्ममहासेलवज्जसमं ॥ ३ ॥

मणिओ य जहा भइय ! एसा संसारसिंधुनावध । तुमए गहिया दिक्खा ता सम्मं उज्जमिज्जामु ॥ ४ ॥

मा काहिसि खणमेकंपि पावमित्तेहिं दुहनिमित्तेहिं । संसर्गिं दुक्खेहिं विसयकसाएहिं सह भइ ! ॥ ५ ॥

एवं चंमियधं भोत्तधं एवमेव सइयधं । एवं भासेयधं इचाइ निवेइयं गुरुणा ॥ ६ ॥

संमं संपडिवज्जियं छट्ठमखमणकरणखीणंगो । अप्पडिवद्धविहारं विहरिय गामागराईसु ॥ ७ ॥

अहिगयजइधम्मविही विहियाणुट्ठाणनिचतल्लिच्छो । लच्छिध संजमं रक्खिऊण निम्महियकम्मंसो ॥ ८ ॥

सो मोक्खपयं पत्तो नरविक्रमनरवईवि तस्स सुओ । उवभुंजिय रज्जदुगं निययपए ठविय पुत्तं च ॥ ९ ॥

पावियसम्मत्तगुणो पज्जंते पालिऊण पव्वज्जं । कयदुक्करतवचरणो महिंदरूपे सुरो जाओ ॥ १० ॥

इय नंदण ! नरपुंगव ! चरियं एएसिं पुरिससीहाण । तुज्झ मए परिकहियं जं तुमए पुच्छिअं आसि ॥ ११ ॥

सोऊण इमं तुममवि नरिंद ! धम्मे तहुज्जमं कुणसु । जह उत्तिमपुरिसाणं अचिरेण निदंसणं होसि ॥ १२ ॥

इमं च सोचा राया जायपव्वजापरिणामो गुरुं विन्नविउं पवत्तो-भयवं । तुमं महातावतवियस्स व अमयधारा-  
वरिसो छुहाभिभूयस्सु व सुन्नखज्जगावणो दोगचचक्कंतस्स व चिंतामणी दुरालोयंधयारगिरिगुहागयस्स व पयास-  
दीवो नीरनिहिनिहित्तस्स व समासासदीवो वियडाडवीपडियस्स व पसत्थसत्थनाहो मह कइकइवि चक्खुगोयरं  
गओ, ता इयारिणिं परमपहु ! करुणाकुलभवण ! एयं पवाहओ अणाइयं अणवदग्गं अपरिच्छेयमिच्छाजलुप्पीलपडि-

दत्तं मोहमहावत्तदुत्तरिष्ठं निरंतरुम्भवंतजम्मणमरणकलोलमालाउलं कसायकलुसपंकसंकुलं विपरंतविविहायंकनक-  
 चलाउलं विचारगोअरुत्तिण्णऽण्णाणतिमिरभरगुविलं पयइदुग्गेज्झमज्झं पयइभीसणं पयइविवागदारुणं पयइ-  
 निग्गुणं पयइकिलेसायासाइदुक्खसंखोहकारणं रणं व कायरारणं सव्वहा चिंतिज्जमाणमवि परमरोमुद्धोसजणगं भव-  
 समुहं निरवज्जपव्वजाजाणवत्तेण सुवद्धेण नाणदंसणविहिसंछाइयच्छिट्टेणं संवरवज्जलेवेणं संममाविद्धेण तवपवणज-  
 वेणं अणुलम्भेणं वेरग्गमग्गंमि अक्खोभेण विसुत्तियावीईहिं पडिपुण्णेण अणेगसीलंगरणसहस्सेहिं तुम्हेहिं कन्न-  
 धारेहिं इत्ति समुत्तरिउं समीहामित्ति, सूरिणा भणियं-महाराय ! मा पडिवंधं करेहि, तओ नंदणनरिंदो पुत्तारो-  
 वियरज्जभारो धाहिं व मोत्तुण रायलच्छिं विहगोव्व पंजराओ घरवासाओ निक्खंतो, जाओ य तिगुत्तिगुत्तो पंचसमि-  
 इजुत्तो जियपरीसहो निहयपंचिंदियपसरो समणो समियपावोत्ति । तओ कमेण अहिगवएकारसंगो कडाणं कम्माणं  
 पुर्व्वि दुप्पडिक्कंताणं खयणत्थं मासंमासेण अणिक्खित्तेणं कायरदुरणुचरेणं घोरेणं तवोकम्भेणं अप्पाणं सोसित्तो  
 अप्पडिवद्धविहारेणं विहरइ । तित्थयरत्तलाभवीयभूयाइं वीसइ ठाणाइं सम्मं फासेइ य, कइं ?—

सव्वजगजीवबंधुरबंधवभूए जिणे जियकसायं । सिवपंथसत्यवादे तत्थाहिं गिराहिं थुणमाणो ॥ १ ॥

पचमयजरमरणमए सिवमयलमणंतमक्खयं पत्ते । परमेसरे य सिद्धे समिद्धसोकखे नमंसंतो ॥ २ ॥

सज्जाणघरणदंसणमहाभरुद्धरणपथलसहायं । चाउच्चं संघं एकं सरणंति मज्जंतो ॥ ३ ॥



एषसिपि तहाविहभावयवसजायदुत्थचित्ताणं । ओसहदाणाईहिं समाहिभावं च जणमाणो ॥ १७ ॥

अक्खरपयगाहसिलोगमेत्तयं सवया अपुवसुयं । अहिगयसुत्तथोऽविदु सुयाणुरागेण पढमाणो ॥ १८ ॥

भत्तिं तह बहुमाणं तदिदुत्थाण सम्मभावणयं । विहिगहणं चिय निचं सुयस्स सम्मं पयासितो ॥ १९ ॥

भघाण धम्मरुहणेण पइदिणं पवयणुत्तइं परमं । सियवायसाहणेण य कुणमाणो सुद्वचित्तेणं ॥ २० ॥

सो नंदणसुणिवसहो इय वीसइटाणगाइं फासित्ता । तित्थपरनामगोत्तं कम्मं वंधेइ परमप्पा ॥ २१ ॥

अह पमायपरिहारपरायणो एणं वाससयसहस्सं समणपरियागं पाउणित्ता पञ्चंतसमए य सम्ममालोइयनिय-  
दुचरियवग्गो समुचारियपंचमहवओ खामियसवसत्तसंताणो मासियसंलेहणासंलिहियसरीरो पंचनमोकारपरायणो  
मरिऊण समाहीए समुप्पन्नो पाणयकप्पे पुप्फुत्तरवडिंसए विमाणे देवोत्ति ॥

ताहे सो सरभसभाविरेण नियपरियणेण परियरिओ । विलसइ तत्थ विमाणे अयराइं वीसइं जाव ॥ १ ॥

आउयकम्मविगने य तत्तो चविऊण इहेव जंबुदीवे दीवे भारहे खेत्ते माहणकुंडग्गामे सन्निवेसे सयलवेयविज्जावियक्ख-  
णस्स उसभदत्तस्स माहणस्स देवाणंदाए भारियाए गन्धे सो नंदणदेवजीवो मिरियभवकयकुलप्पसंसणदोससमुवज्जि-  
यनीयगोयकम्मसामत्येणं आसाढसुद्धलट्ठीए हत्थुत्तरे नक्खत्ते पाउच्चूओ पुत्तत्तणेणंति, दिट्ठा य तीए रयणीए सुहप-  
सुत्ताए गर्यवसदाइणो चउदस महासुमिणा, तओ अदिदुपुत्तहाविहसुविणोवलंभजायहरिसा गया उसहदत्तस्स



माहणस्त नगासे, सिद्धा घउइसवि सुमिणा, उसहदत्तेणवि ते सम्ममणुचितिंऊण भणियं—

तुज्झ पिण्णं! घणलामो पंचविहविसिद्धभोगलामो य । होही नीरोगत्तं नूणं पयाणुमावेण ॥ १ ॥

रिउजउसामाघव्वणचउवेयवियक्खणं जणपसिद्धं । जणिहिसि पुत्तं च तुमं समहिगनवमासपज्जंते ॥ २ ॥

इय सा निसामिऊणं पहिद्धचित्ता विमुक्ककुविगप्पा । निययावासमुवगया सम्मं गम्मं समुच्चहइ ॥ ३ ॥

जहियसं चिय चिंतामणिव्व गम्मे जिगो समोइत्तो । करितुरगरयणनिग्घो तहिवसं चिय न माइ गिहे ॥ ४ ॥

अणवरयहोमकरणुच्छलंतधूमोलिसामलं गयणं । उन्नयमेहासंरुं कुणइ अकालेऽवि हंसाणं ॥ ५ ॥

अह भयवजो गम्भगयस्त विइफंतेसु चायासीदियसेसु वट्टंते य तियासीत्तमदिणंमि सोहम्मकप्पवासी देविंदो सोहम्माए  
समाए निसत्तो वत्तीसाए विमाणसयसहस्साणं चउरासीए सामाणियसाहस्सीणं तायत्तीसाए तायत्तीसाणं चउण्हं  
लोगपालाणं अट्टण्हं अग्गमहिस्सीणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाहिंविणं चउण्हं चउरासीणं  
आयरफ्फुदेवसाहस्सीणं अत्तेमिपि देवाणं देवीण य सामित्तमणुपालेमाणो इमं च जंतुहीवं दीवं विउलेणं अक्खलिय-  
पमरेण जोहिनाणेण करकमलनिलीणमुत्ताहलं व अवलोपमाणो भयवंतं चरिमत्तित्थयरं भाहणपणइणीकुच्छीमयं  
वेच्छइ, तजो आणंदवियसियनयणरुमलो हरिसवससमुच्छलियरोमंचंचियसरीरो संममसट्टाणचलियरुडगतुडियके-  
ऊरकिरीडकुंडलाइभूसणो तक्खणविमुक्कमीहासणो पायपीढाजो पचोरइइ, वेरुलियवरिट्टरिट्टरत्तरयणखंडमंडियाजो

पाउयाओ विमुंचइ, एगसाडियं उत्तरासंगं करेइ, निडालतड घडियकरसपुडों सत्तट्ट पयाइं तित्थयराभिमुहं जणुगंच्छइ,  
तओ वामजाणुं अंचित्ता दाहिणजाणुं धरणियले निहट्टु तिकसुत्तो मुद्धानं धरणियले निवाडेइ, तदा मत्थए अजलिं  
काऊण सुचिरं पराए मत्तीए संयुणइ, कहं ?—

तुह नमो जिण ! निहयारिवग्ग ! भयवंत णाह ! आइगर ॥ तित्थयर सयं चिय जायवोध ! पुरिसोत्तम ! पसिद्ध ! ॥ १ ॥

भवभीममहाडविपडियपाणिगणसत्थवाह गयवाह । सिव मयलमणंतमुहं संपावियकाम गयकाम । ॥ २ ॥

परमेसर तत्थ गओपि ताव अक्खलियनाणनयणेण । एत्थ गर्यपिहु पणयं मं पेच्छसु किंकरसरिच्छं ॥ ३ ॥

एवं च युणिऊण पुषाभिमुहसीहासणनिसन्नस्स देविंदस्स एवरुवो संकप्पो समुप्पन्नो—अहो तित्थयरा भयवंतो न  
कयाइ तुच्छकुलेसु दरिदकुलेसु किवणकुलेसु भिक्खागकुलेसु उप्पज्जिसु वा उप्पज्जंति वा उप्पज्जिस्संति वा, किं तु उग्ग-  
भोगराइन्नखत्तियइक्खागहरिवंसाइएसु सयलमुवणसलाहणिजेसु, केवलं कहवि कम्मवसेण हीणकुलेसु अवपरियाविय  
मयवंतो अजोणीनिकखंता चेव सकेहिं उत्तमकुलेसु संहरिज्जंति, जओ तीयपच्चुप्पन्नाणागयाणं सुरिंदाणं जीयमेयं,  
एवं च जुत्तं ममावि इमं चरिमत्तित्थयरं इमाउ माहणकुलाओ कासयगोत्तस्स सिद्धत्थनरिंदस्स घसिद्धगोत्ताए तिस-  
लाए कुच्छिसि संकामिउं, तिसलागन्मपि देवाणंदाए कुच्छिसिंति, एवं संपेहिंत्ता पायत्ताणीयाहिवइं—हरिणेगमेसिं  
तिसलाकुच्छिसिं गम्भोवसंहरणत्थं निरुवेइ, सो य हरिणेगमेसी सक्काएसेणं उत्तरवेउवियरूयधरो मणपवणजइणीए

गर्दप संपत्तो देवाणंदाए माहणीए समीवं, ओंसोयणीदाणपुव्वगं च तीसे अवहरइ भयवं गम्भाओ, माहणीवि  
 त्कयणं चिय वयणकमलेण ते चउदसवि महासुमिणे पडिनियत्तमाणे पेच्छिऊण ववगयनिहा निहयताडियउरपंजरा  
 जरावेगविहुरियव नित्थामसरीरा अवहरिओ मम गम्भोत्ति सुचिरं अप्पाणं निंदंती करयलनिवेसियकवोला परमसो-  
 गसंभारं काउमारद्धा ॥

- इओ य इहेव जंबुदीवे भारहवासतिलयभूयं समुत्तुंगपायारपडिहयविपक्खपक्खुक्खेवं विचित्तपासायसहस्तसिहर-  
 रुद्धिसावगासं खत्तियकुंडग्गामं नाम नगरं, तत्थ य कसिणत्तणं कलयंठिकंठेसु सघावहारलोवो सहसत्थेसु कंटगु-  
 प्पत्ती कमलनालेसु कुडिलचं कोदंडदंडेसु निट्ठुरत्तं तरुणीपओहरेसु मित्तविरोहो रयणियरस्स वंधो य सारणिसलि-  
 लेसु । जहिं च पढमाभासी पियंओ करुणापरो वेसमणोव्व अणवरयदाणरसिओ महातरुव्व सउणजणकयपक्ख-  
 वाओ पारद्विलुद्धव्व कयसारमेयसंगहो गेवेज्जयसुरजणोव्व अणिंदो सारयसलिलं अरुलुसो नियसइ लोओ । जत्थ  
 य चउदिसिंपि अणवरयवहंतउरहट्टपडिमुहमुक्कसलिलसिचमाणाइं सव्वोउयफुल्लफुलमणहराइं जंबूजंबीरखजूरता-  
 लतमालपमुहतरुसंडमंडियाइं परिभूयनंदणवणाइं सोहंति काणगाइं, जं च संकेयठाणं व तिहुयणलच्छीए समुप्पत्तिभू-  
 मिव्व विविहच्छेरयाणं लीलाभयणं व सिंगारस्स आवासोव्व धम्मस्स मुहमंडणं व वसुंधरारमणीए । तत्थ य पुरंदरोव्व  
 छिन्नभूधरपक्खो मुणिव्व समरसोवओगो सुरवारणोव्व दाणसित्तकरो जलनिहिं व समज्जायाणुवत्ती अणेगनरिंदमउ-

लिमालानमंसियकमकमलो भुवणपसिद्धो सिद्धत्यो नाम नरिंदो ।

हरिपीलुपरिक्खित्तं भमंतविहिरगमदिसिपरिकलियं । सुत्तंपि वसंतंपि नज्जइ जस्सारिजगभरणं ॥ १ ॥  
एगेसु पलाणेसुं जयत्तूरवेण सत्तुसु परेसुं । पणमंतेसुं जेणं समरसुहं नेव संपत्तं ॥ २ ॥

तस्स य वम्महस्स व रई मडुमदणस्सेव लच्छी सव्वंतेउरपहाणा रूवाइगुणगणाभिरामा तिसळा नाम देवी,  
जहत्थाभिहाणो य नंदिवद्धणो नाम पुत्तो सुदंसणा य धूया, अह आसोयवडुलेतरसीए अद्धरत्तसमए हत्थुत्तर-  
नक्खत्ते सुकुमालहंसतूलीपडलसुंदरंमि दहिंपिंडपंडुरपडपच्छाइयंमि गंगापुलिणविसाले सयणिजे सुहपसुत्ताए तिस-  
ळादेवीए पुव्वगम्भं देवाणंदाकुच्छिमि संकामिऊण दिवसत्तीए सो पुव्वभणिओ हरिणेगमेसिदेवो असुभपोग्गलाय-  
णयणपुव्वयं जिणं कुच्छीए मोत्तूण पणमिऊण य जहागयं पडिगओ, गम्भाणुभावेण य सा तिसळादेवी पच्छिमरय-  
णीसमयंमि चउइस सुमिणाणि पासइ, कइं चिय?—

करडतडगलियमयसलिलगंधुद्धुरं, गुलुगुलंतं सुदंतं महासिंधुरं ।

वसहसुळासिसुइलं वपुच्छच्छडं, चारुसिगं सुतुंगं रवेणुम्भडं ॥ १ ॥

घुसिणरसरागकेसरसडाडंवरं, केसरिं कंठरवभरियगयणंतरं ।

कुंभिकरकलियकलसेहि कयमज्जणं, लच्छिमुद्दामकामत्थियुयसासणं ॥ २ ॥

मालईमल्लियाकमलरेहंतयं, मालममिलानमलिवलयलीढंतवं ।

किरणजालं मुयंतं ससिं सुंदरं, निहयतमपसरमइरुगगयं दिशयरं ॥ ३ ॥

फलिहडंडगगलोलंतसियधयवडं, पुन्नकलसं च सुहकमलगंधुम्भडं ।

कुमुयकल्हाररम्भं महंतं सरं, बहुलकलोलमालाउरं सायरं ॥ ४ ॥

विविहमणियंभसालं विमाणं धरं, कंतिकच्चुरियगयणं च रयणुकरं ।

धूमरहियं तथा दुयवहं सुमिणए, देवि धयणंमिं पविसंतयं पेच्छए ॥ ५ ॥

पेच्छिऊण य इमे सुमिणे हरिसुद्धुसियरोमकूवा परमाणंदमुबहती गया सिद्धत्यपत्थिवसमीवं, कहिओ चउइस-  
महासुमिणोवलंमयइयरो, तेणावि नियमइविभवाणुसारैण संमं चित्तिऊण मणियं-सुंदरि ! सयलनरिंदसंदोहवदणिज्जो  
निरुवफमविफमफंतसजुचको निप्पडिमपयावपरिभूयरविमंडलो निरुवमसत्तो पुत्तो ते भविस्सइ, सायरं पडिच्छिऊण  
य इमं अणाइक्खणिज्जभूरिहरिसपन्भारमंयरगई गया नियमवणं, तहिं च देवगुरुसंवद्धाहिं मंगल्लाहिं असिंवोवघाय-  
दक्खाहिं सुहावहाहिं कहाहिं रयणिसेसमइवाहिउं पउत्तत्ति, राइणावि जाए पमायसमए समाहूया अट्टंगनिमित्तस-  
त्यपरमत्थवियवखणा नेमित्तिगा, आसणदाणपुव्वयं सक्कारिऊण पवरवत्थाइणा निवेइओ देवीदिट्ठचउइससुमिणवुत्तंतो,  
तओ ते सम्मं निच्छिऊण परोप्परं जहापट्ठियमत्थं मण्णिउमारद्धा-देव ! एवारिससुमिणाणुभावेण नूणमुप्पज्जिही

धम्मपरचक्रवृत्ती त्रिभुवनपूयणिजपायवीढो नियकुलनहयलमिर्यको अणुवमचरिओ तित्ययरो तुम्ह पुत्तोत्ति, एवमाय-  
 ज्जिऊण परमहरिममुषहंतेण राइणा दवाधियं तेसिं जासत्तपुरिससंतइदालिह्विह्वकरं मणोरहपहाइकंतं दविणजायं,  
 विसज्विया य नियनियठाणेमु, निवेशो य एस वइयरो देवीए, जाओ य परमो पमोओ तीसे। एवं च पइदिणपुज्जं-  
 तमणोरहाए जिणाणुभावेण दूरपलीणरोगाए सुररमणीसरिच्छवटंतविलासाए वट्टिउमारद्धो गन्धो, तयणुभावेण य  
 एवं सा सोहिउं पउत्ता—

अंतरनिहितवररणसंचया फलिहमयपरित्तिय । संकंतफारदिणनाहमंडला मेरुभित्तिव ॥ १ ॥

अंतद्वियमुत्ताहलरेहंतुदामजलहिवेलघ । पढमुग्गमंतससहरपसाहिया गयणलच्छिघ ॥ २ ॥

अंतोपिफुरणसमुलसंतसोयामणीनिवहकिन्ना । उन्मडघणंतघणपडलपुन्ननवपाउससिरिव ॥ ३ ॥

इय गम्भगयजिणिंदाणुभायसोहंतकंतसघंगा । नवकप्पहुमलइयघ मणहरां रेहए देवी ॥ ४ ॥

जद्विसं च भयवं मुषणमहासरेफरायहंसो तिसलादेवीए उदरकमलमइगवो तद्विसाओवि सुरवइययणेण तिरियजं-  
 मगा देवा विविहाइं मधानिहाणाइं सिद्धत्यनरिंदभुवणंमि मुज्जो मुज्जो परिकिखवंति, तंपि नायकुलं घणेणं घन्नेणं रज्जेणं  
 रट्ठेणं घलेणं माहणेणं कोट्टागारेणं पीइसफारेणं वाढमभिवहुइ, सिद्धत्यनराहिवस्सवि अचंतवाहुवलदप्पिणो तहाविह-  
 विसमपपमु. संठिया अपणयपुन्वावि घसमुवगया पचंतद्वियावि नराहिंवा । अन्नवासरे भगवओ अम्मापिऊणं एया-

रूचो वियप्पो स णो, जहा-जप्पभिई एस गच्चो संभूओ तप्पभिई धणकणमाइरज्जविभवेणं अम्हे बहामो, ता जइया एस जाअ भविस्सइ तइया एयस्स इमं गुणनिष्फण्णं वद्धमाणोत्ति नामधेयं वयं करिस्सामोत्ति, एवरूपाइं मणोरहसयाइं परिरुप्पयंति ॥

अह भगवं भुवणपहू नाणत्तयपरिगओ महाभागो । करुणापरेक्कचित्तो समुहविरत्तो महासत्तो ॥ १ ॥

चलणप्फंदणरूइं संहरिउं सव्यगंगवावारं । सेलेसिपवन्नो इव अणुंरुंपट्टा सजणणीए ॥ २ ॥

तह कहवि वसइ गन्भे जह नियजणणीवि नो मुणइ सम्मं । तइलोकविम्हयकरो गरुयाणं कोऽवि वाचारो ॥ ३ ॥

नवरं तिसलादेवी तहट्टिए जिणवरे विचित्तेइ । किं गल्लिओ मम गच्चो ? उयाहु देवेहिं अवहरिओ ? ॥ ४ ॥

किं मज्झेवि विणट्टो ? किं वा केणावि धंभिओ होज्जा ? । अहवा निप्पुन्नाणं रयणं किं करयले वसइ ? ॥ ५ ॥

जइ सच्चं चिय विगओ एसो ता निच्छयं निए पाणे । नीसेसदुक्खलक्खेक्कभायणेऽविहु परिचयामि ॥ ६ ॥

अट्टज्झाणोवगया करयलपल्हत्थिएण वयणेण । अघंतदुक्खवसया दूरुज्झियमंडणाभरणा ॥ ७ ॥

परिचत्तसमुत्ताया महियलकयरुक्खचक्खुविकखेवा । दीहुस्सासनिवारियसुहसोरभमिलियभसलकुला ॥ ८ ॥

इय भूरिसोगसंभारतरलिया गल्लियकेसपासा य । हिययंतो रोवंती देवी जावऽच्छए ताव ॥ ९ ॥

सिद्धत्तरायभवणंपि तक्खणं विमणद्रम्मणं जायं । उच्चसंतमइंगरं उवरयवरगीयनिग्घोसं ॥ १० ॥

अह भयवं एवंविह्वइयरमुवलक्सिऊण नाणेण । अंगं अगावयवं चालइ जणणीसुहट्टाप ॥ ११ ॥

ताहे तुद्धा देवी हरिसवसुल्लसिरलोयणकवोला । जायं झडत्ति भवणंपि राइणो पमुइयजणोहं ॥ १२ ॥

तत्तो भयवं चिंतइ गम्भुम्मवमेत्तओऽवि कह जाओ । जणणीजणगाणमहो पडिबंधो कोऽवि अइगरुओ ? ॥ १३ ॥

जं गम्भनिष्कंपमेत्तेणधि एरिसा विसमरूवा । नियसंवेयणगम्मा एएसि दसा समावडिया ॥ १४ ॥

जइ पुण जीवंतेसुधि समणत्तणमहमहो पवज्जिस्सं । तो मम विरहेण धुवं एए जीयं चइस्संति ॥ १५ ॥

इय चिंतिकुण भयवं संतोसट्ठं सजणणिजणगाणं । इयरजणाणवि एवं ठिइं व लट्ठं पइट्ठंतो ॥ १६ ॥

जीवंतेसुं अम्मापिईसु नाहं मुणी भविस्सामि । इय गम्भगओऽवि जिणो पडिवज्जइ नियममइगरुयं ॥ १७ ॥

अह सा तिसलादेवी गम्भफुरणसंपत्तपरमपमोया ण्हाया नियंसियमहग्घचीणंसुया सरसचंदणकयंगराया आवि-  
द्वपवररयणा तं गम्भं नाइउण्हेहिं नाइसीएहिं नाइतित्तेहिं नाइकडुएहिं नाइकसाएहिं नाइअंविळेहिं नाइमहुरेहिं  
सधोउयसुहावहेहिं भोयणेहिं परिवालयंती पूरियडोइला निम्भया पसंता सुहेण भवणतलसमारूढा कयाइ पवर-  
नाडयपेच्छणेण कयाइ पुराणपुरिसचरियायद्वणेण कयाइ विचित्तकोऊहलावलोयणेण कयाइ सहीजणपरिहासकर-  
णेण कयाइ उज्जाणविहारविणोएण कयाइ दुक्खियजणत्तणिज्जपुंजवियरणेण कयाइ नयरसोहानिरिक्खणेण कयाइ  
यंधुजणसम्माणणेण कयाइ धम्मसंबद्धकहावियारणेण दिणाइं गमेइत्ति ।



अन्नया य निष्कण्णसस्सोवसोहिए पणद्धरोगमारिपमुहाणिट्ठे जणवए नियनियघम्मकरणुजएसु समणलोएसु उयगंतपयंडुद्धमरेसु परोप्परं नराहिवेसु पमुक्कचाडभडचोरभयासु विलसंतीसु पयासु रेणुपडलविगमरमणिज्जासु जणमणाणंददाइणीसु सयलदिसासु उज्जाणतरुजुसुमसंबंधगंधुद्धुरेसु पयाहिणावत्तपरिभमणरमणिज्जेसु मंदं मंदं वायंतेसु समीरणेसु परमत्रिजयसाहगेसु सघसउणेसु गंभीरघोसासु सयं चिययज्जंतीसु विजयडुंढुभीसु चेत्तसुद्धतेरसीए सुरभव-  
चवणकालाओ आरब्भ नवण्हं मासाणं अद्धट्टमाण य राइंदियाणं विइकंताणं उच्चट्टाणं गएसु महागहेसु अद्धरत्त-  
सगए हत्थुत्तराजोगमुवागए चंदे तिसलादेवी पुषदिसिघ पयासियसयलजीवलयं भयवंतं दिणयरं व भवियजणरहं-  
गमिणुणरुयपरमसंतोसं पसूयत्ति ।

तयणंतं च पवरपंचवण्णरयणविणिम्मियविधिहविमाणमालारूढेहिं पहयपडुपडहपमुहजयतूरेहिं उक्कुट्टिसीहना-  
यकलयलमुहलेहिं पवराभरणमणिविन्दुरियगयणंगणेहिं पहरिससमुल्लसंतसरीरेहिं अणेगेहिं देवेहिं देवीहि य इंतैहिं  
पडिनियत्तमाणेहि य देवलयपुरिंपिव रमणिज्जं अमंदाणंदसंदोहजणगं च कुंडग्गामनयरं जायंति । सिद्धत्थरायभवणे  
य वेसमणवयणाणुवत्तिणो जंभगा सुरा रयणरुणगयत्थाहरणत्रासं वरिसंति, पत्तपुष्कफलगंधचुण्णवासं च मुयंति ।

अह जाए सूइकम्मपत्थावे अहोलोगवत्थवा चउसामाणियसहस्सपरिवुडा सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणियाहि-  
वईहिं परियारिया-भोगंरुरा भोगवई, सुभोगा भोगमालिणी । तोयधारा विचित्ता य, पुष्कमाला अणिंदिया ॥ १ ॥

एजाओ अट्ट दिसाकुमारीओ जिणाणुभावचलियासणाओ ओहिन्नाणेण जिणजम्मवइयरं नाऊण दिवविमाणासू-  
ढाओ सधिहीए जिणजणणिसमीवमागच्छंति, तिपयाहिणीकाऊण य जिणमायरं पराए भत्तीए थुणंति, कहां चिय ?-

तुम्ह महायसि । रामाजणेकसिररयणत्रिभमे नमिमो । पयकमलं निम्मलकोमलंगुलीपवरदलकलियं ॥ १ ॥

इत्थीणं मज्झे चंगिमाए लद्धा तए पढमरेहा । तुमए चिय निम्महिओ महिलालहुयत्तणकलंको ॥ २ ॥

पुत्तवईणं मज्झे तुमए चिय पापियं विजयपत्तं । मिच्छत्तंधजणस्सालंघणहेऊ तुमं जाया ॥ ३ ॥

सरयनिसायरकरनियरहारगोरो जसो तुमार्हितो । आसंसारं परिभमउ निम्भरं दससुवि दिसासु ॥ ४ ॥

गूढोचिय सुयपसवे परमाणंदं जणो समुवहइ । तुज्झ सरित्था धूयावि पुत्तकोडिंपि परिभवइ ॥ ५ ॥

तिहुयणपणमियचलणो जीए कुच्चिंमि घाढमुषुढो । कलणाइकंतवलो चरिमजिणिंदो जयाणंदो ॥ ६ ॥

इय सुइरं जिणजणणिं पणमिय परमायरेण जंपंति । देवि ! नहु भाइयवं अम्हे जं दिसिकुमारीओ ॥ ७ ॥

परमेसरस्स भुवणेकचक्खुणो जिणवरस्स एयस्स । निययहिगारऽणुरूवं जम्मणमहिमं करिस्सामो ॥ ८ ॥

एवं भणिऊण तित्थयरजम्मणभवणस्स समंतओ जोयणपरिमंडलं भूभागं ववगयतणकट्टपत्तकयवरं दुरुस्तारिया-  
सुइदुरभिगंधपोग्गलं तवरणं विउधिणं मणहरेणं सबोउयकुसुमगंधाणुवासिएणं संवट्टगपवणेणं काऊण भगवओ  
तित्थयरस्स तिसलादेवीए य अदूरे गायंतीओ चिट्ठंति ।

एवं विय चलियासणपउत्तदिबोहिमुणियपरमत्था । उद्धुदिसावासाओ देवीओ इमा तओ इंति ॥ १ ॥  
 मेहंकरा मेहवई, सुमेहा मेहमालिणी । सुवच्छा वच्छमिच्चा य, वारिसेणा वलाहगा ॥ २ ॥  
 तो निहयरयं वेउधिपण मेहेण महियलं काउं । गंधंघलुद्धफुलंधयाउलं पुप्फवरिसं च ॥ ३ ॥  
 जिणवरगुणगणमइकोमलेण सुइसोक्खकरणदक्खेण । अइदूरंमि ठियाओ गायंति सरेण मडुरेण ॥ ४ ॥  
 अह पोरत्थिमरुयगट्ठिईओ अट्ठवि दिसाकुमारीओ । बहुपरियणपरियरिवाओ एयाओ आगया झत्ति ॥ ५ ॥  
 नंदुत्तरा य नंदा, आणंदा नंदिवद्धणा । विजया य येजयंती, जयंती अपराजिया ॥ ६ ॥  
 रविमंडलसारिच्छं हत्थे धरिऊण दप्पणं ताहे । पुषदिंसिंमि ठियाओ किच्चिंति गुणे जिणवरस्स ॥ ७ ॥  
 अह दाहिणरुयगनिवासिणीओ अट्ठवि दिसाकुमारीओ । नायजिणजम्मणाओ इंति विमाणेहिं एयाओ ॥ ८ ॥  
 समाहारा पइन्ना य, सुप्पबुद्धा जसोहरा । उच्छिमई सेसवई, चित्तगुत्ता वसुंधरा ॥ ९ ॥  
 करपल्लवेण कलि(गहि)उं भिगारं सुरहिचारिपरिपुत्रं । दक्खिणपासे पड्डुणो गुणधवणपरा परिवसंति ॥ १० ॥  
 अह पच्छिमरुयगगया अट्ठेव पुणो दिसाकुमारीओ । भत्तिभरनिम्भराओ इमाओ पविसंति जिणगेहे ॥ ११ ॥  
 इलादेवी सुरादेवी, पुहवी पउमावई । एगनासा नवमिया, मद्दा सीया य अट्ठमी ॥ १२ ॥  
 करफलयतालियंटा विसट्ठकंदोद्वदीहरच्छीओ । पच्छिमदिसिम्मि ठाउं थुणंति जिणनाहगुणनिवहं ॥ १३ ॥

अह उत्तरिखरुयगामिहाणगिरिवासिणीओ अट्टेव । आगच्छंति इमाओ देवीओ दिसाकुमारीओ ॥ १४ ॥  
 अलंबुसा मिस्सकेसी, पुंडरीकी य वारुणी । हासा सवप्पभा चेव, हिरिदेवी सिरी तहा ॥ १५ ॥  
 वंदित्ता जिणजणणीं पेत्तुं सियचामरं करग्गेण । उत्तरदिसिम्मि गुरुणो पुवकमेणं परिवसंति ॥ १६ ॥  
 अह पिदिसिरुयगपवयवत्यवा चउ दिसाकुमारीओ । चित्ता य चित्तकणगा सतेय सोयामणीनाम ॥ १७ ॥  
 नमिउं तिसलादेवीं जिणं च विदिसालु चउमुवि निलीणा । सुंदरपईवहत्या जिणगुणनिवहं पगायंति ॥ १८ ॥  
 मज्झिमरुयगद्विइओ पुणोवि चत्तारि दिसिकुमारीओ । देवी रुया रुयंसा सुरुया रुयगावई नामा ॥ १९ ॥  
 आगंतुणं पुवकमेण नाभिं जिणस्स कप्पेति । चउरंगुलपरिवज्जं ताहे वियरं परिखणिंति ॥ २० ॥  
 तं नाभिनाळमह तत्थ ठाविउं पंचवण्णरयणेहिं । पूरिंति तं समग्गं तदुवरि पीढं च वंधंति ॥ २१ ॥  
 पीढस्सोपरि हरियालिगं च वियरंति नीळमणिरम्मं । लोयणजाणंदयरि दिघाए देवसत्तीए ॥ २२ ॥  
 तयणंतरं तिन्नि कयलीहराइं विउवंति, तेसिं च मज्झभागे पवरपंचप्पयारमणिविणिम्मियकोट्टिमतलाइं विच्छि-  
 त्तिचिचरंगावलीमणहराइं दुवारदेसठवियपुण्णकणयकलसाइं दिवख्वरेहंतसालमंजियाभिरामाइं दाहिणपुवुत्तरदिसालु  
 तिणिण चउसालगवणाइं विसालाइं विरयंति, तेसिं च मज्झभागे महग्घमणिसंडमंडियाइं नियकिरणजालमुत्तिय-  
 सुरिंदकोदंडाइं कणगसेलसिलाविच्छिन्नाइं तिणिण सीहासणाइं ठवेति, तओ तित्थयरं करयलपुडेणं तित्थयरज-

जणिं च पाहाहिं पेत्तूण परमायरेण दाहिणदिसिचाउसालसीहासणे निसियावेति, तओ सयपागसहस्सपागतेछेहिं  
 पहाणगंधुदुरेहिं तेमिं सरीरमन्भंगिति, गंधुघट्टणेणं उघट्टेति, तओ पुषट्टिईए जिणं जणणिं च पुषदिसिचाउसाल-  
 सिंहासणंमि आरोविऊण गंधोदएण पुप्फोदएण मुद्धोदएण मज्जिऊण पवरमणिरयणाभरणसंभारेण विभूसियसरीराइं  
 काऊण परमायरेण पुषविहीए उत्तरदिमिचाउसालसिंहासणे निवेसिति, नवरं नियकिंकरेहिं चोछहिमवंताओ  
 गोमीसचंद्रणदारुगाणि आणाविऊण अरणिनिम्महणुट्टिण जलणेण संतिनिमित्तं होमं च करेति, नियपभावपरिर-  
 विस्ययस्मवि भगवओ जीयंति काऊण रक्खापोट्टलियं वंधिऊण रयणपाहाणगे सवणमूले ताडिति, एवं भणंति य-

सत्तहुलपपयाऊ अप्पडिहयमासणो हवसु देव । । गयरोगसोगदुक्खो पणईयणपूरियासो य ॥ १ ॥

इय भणिऊण पडिद्धा जम्मणगेहे ठविच्चु जिणजणणिं । गायंति जिणिंदगुणे तिसलापासे समत्तीणा ॥ २ ॥

इय जम्मस्स य कायपवित्थरो तित्थनाहभत्तीए । वेगेण समत्थिज्जइ छप्पन्नदिसाकुमारीहिं ॥ ३ ॥

एत्थंतरे सोहम्मकप्पाहियइस्म सफस्स सीहासणं चलइ, तच्चलणेण ओहिनाणेण भगवओ तित्थयरस्स जम्मं मुणिऊण  
 समंभमं सफो सीहासणाओ उट्टेइ, सत्तट्टपयाणुगमणपुषयं परमाए भत्तीए तत्थट्टिओऽवि जिणं थुणिऊण पाइत्ताणी-  
 याहियइं हरिणेगमेसिं देवं आणवेइ-अहो भइ ! गच्छसु सोहम्माए सभाए मेघोपघोरघोसं जोयणपरिमंडलं सुघो-  
 सपंटं तिरसुत्तो ताडित्तो महया सदेणं एवमुग्घोसेहि-सफो जंबुदीवमारहखेत्तसमुम्भवस्स जिणस्स जम्मणमहिमं

फाडं पट्टिओ, ता भो देवा । तुम्हे सघवलेणं सघविभूर्हणं सघनाडण्हिं सघालंकारविभूसाणं दिवच्छरागणेणं परिवुडा  
 पवरविमाणाइं आरूढा मम सयासं पाउम्भवहत्ति, एवं भणिणं हरिणेगमेसी देवे देवरण्णो वयणं विणण्णं पडिसु-  
 णित्ता तुरियगईणं सोहम्मसभाणं गंतूण सुघोसं घंटं तिक्खुत्तो ताडेइ, तीसे य पयंडनिग्घोसवसुच्छलंतपडिसद्वयप-  
 डिफलणवसेण अत्ताइं एगूणाइं वत्तीसं घंटासयसहस्साइं समकालं रणञ्जणारवं काउमारद्दाइं, एवं च दिसि दिसि  
 समुम्भवंतपडिनिग्घोसवहिरियदियंतरो सोहमरुप्पो समुप्पन्नोत्ति । एत्थंतरे—

पंचविहविसयसेयापमत्तचित्ता समंतओ देवा । तं एगकालवज्जिरघंटागणगुरुसरं सोउं ॥ १ ॥  
 चिंतंति सघओ किंचि (च) फुट्टवंभंडरवसमो घोरो । फालिहविमाणमालापडिफलणचउग्गुणीभूओ ? ॥ २ ॥  
 आपूरितोष दिसावगासमखिलं चराचरं लोणं । सहेगसरुवंपिय कुणमाणो निययमहिमाए ॥ ३ ॥  
 संसुद्धमुद्धतियसंगणाहिं भयवेगतरलियच्छीहिं । हा नाह । रक्ख रक्खत्ति जंपिरीहिं सुणिजंतो ॥ ४ ॥  
 दणुवइरणगुमरणतुट्टतियसवंठोहकंठरवभीमो । अणिवारियं वियंभइ जयघंटारणरणारावो ॥ ५ ॥  
 इय चिंतावससिदिलियदइयादढकंठवाहुपासंमि । सघत्तो सुरनियहे जायम्मि विमूढहिययंमि ॥ ६ ॥  
 यणमेत्तस्सजवसाणे समत्थघंटारवंमि उवसंते । हरिणेगमेसिदेवो भणइ सुरे अवहिण जाए ॥ ७ ॥  
 भो भो तियसा । सफो तुम्हे आणवइ जह लहुं एह । जेण जिणजम्ममज्जणमहूसवो कीरण इण्हिं ॥ ८ ॥

इय आणत्तियमायन्निकुण परिमुक्तेसचावारा । मुणियजिणनाहमज्जणमहसवा हरिसिया तियसा ॥ ९ ॥  
तो मज्जणपोक्खरिणीए जंति, बहुविहजलेण मज्जणु करेति । कप्पूरमिस्सचंदणरसेण, आळिपहि देहु सुबंधुरेण ॥ १ ॥  
अइकोमलनिम्मलदूसजुअळ, परिहंति वियंभियकंतिपडळ । अह कंठपइट्टियलट्टहार, दूरुज्झियफामुयजणचियार ॥ २ ॥  
अइसुरद्धिकुसुमनिम्मवियदाम, नवपारियायमंजरिसणाम । बंधंति सुगंधसमिद्ध सीसि, तक्खणकयकुंचिरचारुकेसि ३

मणिमउडकिरणविञ्चुरियगयण, नियरूवमडप्फरहसियमयण ।

वरकडयतुडियभूसियसरीर, तणुकंतिपसरपरिभूयसूर ॥ ४ ॥

फिवि मगरमरालयसन्निसन्न, फिवि हरिणवसहसिहिप्पवन्न ।

आरुहवि केवि कुंजरि महंति, केवि तुंगतुरए वेगे वयंति ॥ ५ ॥

चीणंसुयार्चिघसहस्सरम्म, अयलोयणिमेत्तह दिन्नसम्म ।

आरुहवि चलय फिवि वरविमाणि, किंकिणिरवमुहरि महप्पमाणि ॥ ६ ॥

सहुलसरहहरिपट्टि चडिय, फिवि पट्टियवेगेऽन्नोन्न घडिय ।

इय सुरसमूहह सधे वलेण, सुरवइ समीवमागय जवेण ॥ ७ ॥

एत्थंतरे खंभसहस्ससंनिचिहं फलिहमणिघडियसालभंजियाभिरामदारदेसं अणेगळंबंतमुत्ताहलमाळं पवरबहरवे-

इगापरिस्त्रत्तपेरंतविभागं रणंतघंटावलीमहुरसरसुहयं पवणकंपमाणनिविडजयपडागापयडं सिहरं व तिरियलो-  
यमहामंदिरस्त फळं व पुषकयपुन्नमहापायवस्त तिहुयणसारपरमाणुविणिम्मियं व सयलविभूइविच्छडाखंडमंडा-  
गारं सोलसभेयरयणरासिघडियं व सुरवइवयणसंभंतपालकामरविउवियं जोयणसयसहस्सविच्छिण्णं पंचजोयण-  
सयसमुवेहं वरविमाणमारूढो अणेगदेवदेविकोडिपरियुडो पत्थिओ पुरंदरो, तओ पवणविजइणीए गईए तिरियम-  
संखेज्जाणं दीयसमुहाणं मज्झंमज्जेणं नंदीसराभिहाणदीवस्त दाहिणपुरत्थिमिले रइकरपवए आगंतूण तं दिवं  
देविहिं विमाणवित्थारं व पडिसंहरिऊण जेणेव जंबुदीवो जेणेव दाहिणडुभरहं जेणेव भगवओ जम्मणभवणं तेणेव  
उवागच्छइ, तयणंतरं च तेण दिघेण विमाणेण तिकुसुत्तो आयाहिणपयाहिणं भगवओ जम्मणभवणस्स काऊण विमाणं  
उत्तरपुरच्छिमे दिसिभागे ठवेइ, तओ अट्टहिं अग्गमहिसीहिं चुलसीइए सामाणियसाहस्सीहिं समेओ जत्थ भयवं  
तित्थयरो तित्थयरजणणी य तार्हिं आलोएइ, पणामं करेमाणो पविसइ, सार्मिं समायरं तिपयाहिणपुवयं वंदइ,  
वंदिचा सविसेसं तिसलादेविं धुणइ, कइं ?—

जयसि तुमं देवि ! सगोत्तगयणपडिपुन्नचंदनवजुण्हे ! । सुविसुद्धसीलसालीणयाइ गुणरयणवरधरणि ! ॥ १ ॥

तिहुयणचिंतामणिकुच्छिधारिए ! तं धुवं जगे धत्ता । तुज्झं चिय सुहफलओ पसंसणिओ मणुयजम्मो ॥ २ ॥

पत्तियभेत्तेणं चिय तुमए उलंघिउव भवजलही । परमासीसट्ठाणं जायासि मुणीसराणंपि ॥ ३ ॥



एवं च शुणिकुण ओसोयणिदाणपुष्यं तक्खणविउषियजिणपडिरुयं च ठविऊण तिसलादेवीसमीये सयं पंच सरिरे  
 विउषइ, तओ एगेण परमसुइभूओ सरससुरभिगोसीसचंदणपंकपंडुरोधरे करकमले कयप्पणामो सवहुमाणं तित्थयरं  
 संठयेइ, एगेण य तस्सेव य पिट्ठिदेसट्ठिओ हरट्टहासकुसुमप्पगासं चामीयरचारुदंडं पुंडरीयं धरेइ, दोहि य रूवेहिं  
 भगवओ उभयपासेसु सुरसरिवारिप्पवाहविब्भमे चामरे मंदं मंदं चालेइ, एगेण पुरओ ठिओ धारासहस्सभीसणं  
 समुच्छलंतफिरणपडलं सरयसूरमंडलं य दिसिवलयमुज्जोर्वितं पयंडपडिवक्खविकखेवदारुणं कुलिसमुवहइ । एवं च  
 पंचरूपेहिं समायरियनियनियकायषो अणेगदेवदेवीहिं परियरिओ-

संपत्तपावणिञ्चं समत्थतित्थोहदंसणपवित्तं । अप्पाणं मन्नंतो हरिसेणंगे अमायंतो ॥ १ ॥

मंदरसेलाभिमुहं फंठपलंवंतरयणयणमालो । पयलंतदिषकुंडजुयलो आखंडलो चलिओ ॥ २ ॥

सिग्घाए दिघाए देग्घईए कमेण गच्छंतो । जोयणलक्खु घत्तं संपत्तो मंदरगिरिदं ॥ ३ ॥

जस्सावट्ठियरूपा पडिर्विवियसिहरकाणणाभोगा । विमलपरिमंडला दप्पणव रेहंति ससिसूरा ॥ ४ ॥

जस्स रमणीयारंजियाइं गंधघदेवमिहुणाइं । उज्झियनियठाणाइं सिहरेसु मुहं परिवसंति ॥ ५ ॥

नाणाविहफलभरभंगुरग्गसाहाइं जत्थ रेहंति । सघोउयक्खुसुमसमिद्धिसुंदराइं तरुयणाइं ॥ ६ ॥

क्खियिणो य कणगपरिहाणिवज्जिओ सज्जणोघ अइत्तुंगो । सुमुणिघ एगरूवो जो निच्चं सिद्धिखेत्तं व ॥ ७ ॥

एगत्थुन्नयनयमेघगज्जिपरितुट्टनीलकंटो जो । अन्नत्थ किन्नरारद्दगेयमुइनिचलकुरंगो ॥ ८ ॥  
 एगत्तो मरगयनिस्सरंतकिरणोलिसामलियगयणो । अन्नत्तो रवितावियफलिहोवलगलियजलणकणो ॥ ९ ॥  
 तत्थ एवंविहे मंदरगिरिंभि नीहारगोकखीरहारुज्जलाए अइपंडुकंवलसिलाए विचित्तरयणप्पभापडलजलपक्खा-  
 लियंभि अभिसेयसिंहासणे पुवाभिमुहो सुरिंदो उच्छंगनिवेसियजिणो उवविसइ, एत्थंतरे जिणपुन्नमाहप्पचलियासणा  
 ओहिनाणविन्नायजहट्ठियपरमट्ठा नियनियसेणाहिवइताडियघंटाखपडिवोहियसुरयपमत्ततियसगंगा तक्कालविउच्चि-  
 यपवरविमाणारूढा सघालंकाररेहंतसरीरा ईसाणप्पमुहा चंदसूरपज्जंता एगत्तीसंपि समागया सुरिंदा, कयपणामा  
 य द्विया सट्ठाणेषु, एत्थ य पत्थावे अच्चुयतियसाहिवेण भणिया नियदेवा-अहो सिग्घमुवणमेह महरिहं पसत्थं  
 तित्थयराभिसेयं, तथो ते पद्धिट्ठचित्ता अट्टोत्तरसहस्सं सुवन्नकलसाण अट्टोत्तरसहस्सं कलहोयमयाणं एवं मणिमयाणं  
 सुवन्नरूपमयाणं रूपमणिमयाणं सुवन्नरूपमणिमयाणं भोमेयगाणं अट्टसहस्सं रयणकलसाणं, एवं भिगाराणं  
 पत्तेयं पत्तेयमट्टसहस्सं विउच्चित्ता गया खीरोयसमुदं भरिया खीरसलिलेण सयलकलसा, गहियाइं उप्पलकुमुयसय-  
 पत्तसहस्सपत्ताइं,

एवं पसत्थलित्थाण मागहाईण वरजईणं च । सलिलं महोसहीजो सुकुमारा महिया जा य ॥ १ ॥

वक्खारसेलकुलपघणसु सोमणसनंदणवणेषु । अंतरनइहरणसु य जाणि य कुसुमोसहिफलाइं ॥ २ ॥

एवं च शुण्णिकुण औसोयणिदाणपुव्वगं तक्खणविउच्चियजिणपडिरूवं च ठविऊण तिसलादेवीसमीवे सयं पंच सरीरे विउव्वइ, तओ एगेण परमसुइभूओ सरससुरभिगोसी सचंदणपंकपंडुरोयरे करकमले कयप्पणामो सवहुमाणं तित्थयरं संठवेइ, एगेण य तस्सेव य पिट्ठिदेसट्ठिओ हरट्टहासकुसुमप्पगासं चामीयरचारुदंडं पुंडरीयं धरेइ, दोहि य रूवेहिं भगवओ उभयपासेसु मुरसरिवारिप्पवाइविच्चमे चामरे मंदं मंदं चालेइ, एगेण पुरओ ठिओ धारासहस्सभीसणं समुच्छलंतकिरणपडलं सरयसूरमंडलं व दिसिचलयमुज्जोवितं पयंडपडिचक्खविकखेवदारुणं कुलिसमुव्वहइ । एवं च पंचरूवेहिं समायरियनियनियकायवो अणेगदेवदेवीहिं परियरिओ-

संपत्तपावणिज्जं समत्थतित्थोहदंसणपवित्तं । अप्पाणं मन्नंतो हरिसेणंगे अमार्यंतो ॥ १ ॥

मंदरसेलाभिमुहं कंठपलंवंतरयणवणमालो । पयलंतदिवकुंडजुयलो आखंडलो चलिओ ॥ २ ॥

सिग्घाए दिघाए देवगईए कमेण गच्छंतो । जोयणलक्खुचत्तं संपत्तो मंदरगिरिंदं ॥ ३ ॥

जस्सावट्टियरूया पडिर्विचियसिहरकाणणाभोगा । विमलपरिमंडला दप्पणव रेहंति ससिसूरा ॥ ४ ॥

जस्स रमणीयारंजियाइं गंधवदेवमिहुणाइं । उज्झियनियठाणाइं सिहरेसु मुहं परिवसंति ॥ ५ ॥

नाणाविहफलभरभंगुरग्गसाहाइं जत्थ रेहंति । सवोउयकुसुमसमिद्धिसुंदराइं तरुवणाइं ॥ ६ ॥

किविणो व कणगपरिहाणिवज्जिओ सज्जणोव्व अइतुंगो । सुमुणिव्व एगरूवो जो निच्चं सिद्धिखेत्तं व ॥ ७ ॥

एगत्पुत्रयनवमेघगजिपरितुद्वनीलकंडो जो । अन्नत्थ किन्नरारद्धगेयसुइनिचलकुरंगो ॥ ८ ॥

एगत्तो मरगयनिस्तरंतकिरणोलिसामलियगयणो । अन्नत्तो रवितावियफलहोवलगलियजलणकणो ॥ ९ ॥

तत्थ एयंविहे मंदरगिरिंनि नीहारगोफ्खीरहारुज्जलाए अइयंडुकंवलसिलाए विचिचंरयणप्पभापडलजलपक्खा-  
लियंमि अभिसेयसिंहासणे पुवाभिमुहो सुरिंदो उच्छंगनियेसियजिणो उवविसइ, एत्थंतरे जिणपुत्रमाहप्पचलियासणा  
ओदिनाणविनायजहद्वियपरमट्टा नियनियसेणाहिवइताडियघंटाखण्डिवोदियसुरयपमत्ततियसंगणा तंक्कालविउधि-  
यपवरविमाणारूढा सबालंकाररेहंतसरीरा ईसाणप्पमुहा चंदसूरपज्जंता एगत्तीसंपि समागया सुरिंदा, कययणात्ता  
य द्विया सट्टाणेषु, एत्थ य पत्थावे अच्चुयतियसाहिवेण भणिया नियदेवा—अहो सिग्घमुवणमेह महरिहं पसत्थं  
तित्थयराभिसेयं, तओ ते पहिद्वित्ता अट्टोत्तरसहस्सं सुवन्नकलसाण अट्टोत्तरसहस्सं कलहोयमयाणं एवं मणिमयाणं  
सुवन्नरूपमयाणं रूपमणिमयाणं सुवन्नरूपमणिमयाणं भोमेयगाणं अट्टसहस्सं रमणकलसाणं, एवं भिंगाराणं  
पत्तेयं पत्तेयमट्टसहस्सं विउवित्ता गया खीरोयसमुहं भरिया खीरसलिलेण सयलकलसा, गहियाइं उप्पलकुसुयसय-  
पत्तसहस्सपत्ताइं,

एवं पसत्थतित्थाण मागहाईण वरनईणं च । सलिलं महोसहीओ सुकुमारा मद्विया जा य ॥ १ ॥

वक्खारसेलकुलपवएसु सोमणसनंदणवणेषु । अंतरनइहरएसु य जाणि य कुसुमोसहिफलाइं ॥ २ ॥

आदाय तादं खीरोयसलिलपडिपुन्नपुन्नकलसा य । अञ्चुयसुराहिवइणो विणयप्पणया समप्पेति ॥ ३ ॥  
 अह सो अञ्चुयदेविंदो दहूण अभिसेयसमग्गसामग्गिं जायहरिसो सिग्घमासणाओ उट्टित्ता दसहिं सामाणिय-  
 सहस्सेहिं तायत्तीसाए तायत्तीसेहिं चउहिं लोगपालेहिं तिहिं परिसाहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणियावईहिं  
 चत्तालीसाए आयरक्खदेवसहस्सेहिं संपरिवुडो तेहिं विमलतित्थुत्थखीरनीरपरिपुत्तेहिं विमलकमलपिद्दाणेहिं  
 गोसीसचंदणपमुहपद्दाणवत्थुगन्धिणेहिं सब्बोसहीरससणाहेहिं बहुसहस्ससंखेहिं महप्पमाणेहिं कलसेहिं विउवि-  
 एहिं साभाविएहिं य परेणं पमोएणं भगवओ भुवणिक्कबंधवस्स चरमतित्थयरस्स जंममज्जणमहसवं काउं समुवट्ठि-  
 ओत्ति । पत्तंतेरे चित्तियं सुरिदेण, जहा—

लहुयसरीरत्तणओ कहेस तित्थेसरो जलुप्पीलं । सहिही सुरसत्थेणं समकालमहो खिविज्जंतं ? ॥ १ ॥

एत्तियकुंभजलुप्पीलपेल्लिओ गरुयगंडसेलोऽवि । पल्हत्थिज्जइ नूणं किमेत्थ जुत्तं न याणेमो ? ॥ २ ॥

इय एयं कयसंकं सक्कं ओहीएँ जिणवरो नाउं । चालइ मेरुं चलणंगुलीए वलदंसणट्ठाए ॥ ३ ॥

तच्चालणे य—चंगतुंगिमरुद्धगयणग्गपरिकंपिय, सिहरसयकडयडंततडवियडविहडिय ।

टलटलियटोलोवलविच्छिन्नटंकदोत्तडविनिवडिय ॥ १ ॥

कंदरगयकेसरिविहियगलगच्चियरवभीम । पवियंभियवूउहिसिहिं पडिसइय निस्सीम ॥ २ ॥

तथा-चलिरमंदरभारसंमगसिरनभिरमुयगाहिवइ दूरमुफदुद्धरु धरायलु, विडुलंतकुडसेलगणु तुट्टवंधु डोलिभो विसंडुडु।  
 उस्सिखलभयभरविहुर उद्वयसुंढादंड अनिवारण दिसिधारणवि गमणि पयट्ट पयंड ॥ ४ ॥  
 खुभियदारुणमच्छकच्छवयपुच्छच्छडताडणेण उच्छलंतकछोल-संकुलगयणंगणविगयसिहमुकमेरवियरंतमहिजल ।  
 अइवेगप्पवणप्पहय हल्लियसयलसमुद्ध । नज्जइ जगबोलण भणिय चाउदिसिहिं रउहु ॥ ५ ॥  
 सूरससहरतारयाणंपि विवरंगुहपट्टियइं तक्खणेण सबइं विमाणइं, भयभीएण सुरगणेण अइजवेण उज्झियसगणइं ।  
 विमणंभणुसुरवहुनिवहु जाउ विसंडुलचेट्टु, मरगासंकिउ खयरजणु गिरिकंदरिहिं पइहु ॥ ६ ॥  
 एवं वियंभमाणे तिहुयणसंखोहे पंचनमोकारसुमरणपरायणे चारणमुणिगणे विविहाउहनिवहमणुसरंते अंगरक्ख-  
 सुरसमूहे पयंडकोवुड्ढमरभीमो घडियनिडालभिउडिभासुरो करकलियकुलिसो सुराहिवो भणिउमाढत्तो-अहो सो  
 एस सत्तिकम्मसमारंभेऽवि वेयालसमुद्धासो भोयणपढमकवलकवलणेऽवि मच्छियासत्तिवाओ पुत्तिमाचंदपढमुग्गमेवि  
 दाढाकडप्पदुप्पिच्छो विडप्पागमो जं सयलमंगलालयस्स अणप्पमाहप्पवलणिहाणस्स तित्थेसरस्सवि जम्मणमहूसव-  
 समए परिसो विग्घो समुवट्टिओ, केण पुण अकालकुवियकर्यंतसंगमूसएण देवेण दाणवेण य जक्खेण रक्खसेण  
 नियमुयसामत्थवित्त्यारदंसणट्टयाए वा जिणमहिमावलयणमच्छरेण वा भुवणसंखोहदंसणकोऊहलेण वा कओ हवेज्जत्ति  
 जायसंसजो जोहिज्जाणं पउंजइ । तओ दिक्कनाणमुणियजिणचळणचंपणुक्कंपियमेरुवइयरो तक्खणसंहरियकोवुग्गमो

निंदियनियकुवियप्पो खामिऊणं बहुप्पयारं भगवंतं जिणेसरं पाणिपरिगहियकलसे तियसे भणिउमाठत्तो-  
मो भो विवुहा।—

जह सिरिरिसहजिणिंदो ण्हविओ पुधिं इहेव तियसेहिं । तह चरिमतित्यनाहंपि न्हवह मोत्तूण कुवियप्पं ॥ १ ॥  
य्यसरुववळच्चिय निम्मंतं जेण सव्वजिणनाहा । तणुगुरुलहुयत्तं पुण न कारणं वीरिउल्लासे ॥ २ ॥

एवं च सुरपइवयणाणंतरमेव समकालं निवडियं सयलकलसेहितो सारयससिमऊहजालं च गयणसुरसरिजलपडलं  
च तुसारहारधवलं जिणोवरि खीरोयहिजलं, एवं च पवट्टे जिणाभिसेगे—

इंदुहीपडहभंभाहुडुजाउलं, वेणुवीणारवुम्मिस्सहयमइलं । झलरीकरडकंसारवचंधुरं, घोरगंभीरभेरीनिनायुद्धुरं ॥ १ ॥

काहलारावसंबद्धखरमुहिसरं पूरियासंयसंखुत्थरवनिम्मरं ।

पलयकाले च गज्वंतघणवंदयं, ताडियं सुरेहिं चाउधिहाउज्जयं ॥ २ ॥

हरिसभरनिम्मरुन्मिन्नरोमंचया, केवि संथुणहिं जिणु तियस नचंतया ।

अवरि वरसुरहिं मंदारकुसुमुकरं, सुयहिं गंधषभसलापलीकच्चुरं ॥ ३ ॥

केवि फोडित्ति मल्लघ तियइं सुरा, सिंइनायं च मुंचंति हरिसुद्धुरा ।

कुणहिं गलगज्जियं अवरि हयहेसियं, केवि य किर रासयं दित्ति करणंचियं ॥ ४ ॥

अत्रि हरिसेण विरइति गलदहरं, केवि सुद्धीहिं ताडिति विस्संभरं ।  
केइ कलसे य खीरोयजलपूरिए, तक्खणं निंति त्तियसाण हत्थंतिए ॥ ५ ॥ ॥

इय जहिं सुरसंघेण निहणियविग्घेण वट्टिज्जइ सघायरेण ।

तहिं जिणवरमज्जणि भवभयतज्जणि किं वत्तिज्जइ मारिसिण ? ॥ ६ ॥

जिणाभिसेगे य वट्टमाणे सघे सुरिंदा छत्तचामरधूयकडुच्छूयपुप्फगंधहत्या पुरओ पमोयपुलइयंगो आणंदवियसि-  
यच्छा ठिया । अह अशुयसुरेसरे जिणं णहविऊण विरए पाणयाइणो देविंदा नियनियपरिवारपरियरिया महाविभ-  
वेणं सोहम्माहिवइं मोत्तूण तीसंपि कमेण जिणं अभिसिंचंति । तयणंतरं च ईसाणिंदो भयवंतं उच्छंगे धरितो सिंहा-  
सणे निसीयइ, सोहम्माहिवईवि चउद्दिहिं तित्थयरस्स चत्तारि धवलवसहे संखदलुज्जले रमणिज्जसरीरे विउच्चइ,  
तेसिं च अट्टसिंगगेहिंतो अट्टखीरोयसलिलधाराओ उट्टं गयणंगणगामिणीओ पुणो अहोनिवडणेण एगीभूयाओ  
काऊण जिणुत्तमंगे संठवेइ, अत्तेहि य बहुएहिं खीरोयकलससहस्सेहिं अभिसिंचइ, एवं कमेण निवत्तिए मज्जण मह-  
सवे परमपमोयभरपुलइयंगो सोहम्मसुरनाहो सुकुमालगंधकासाईए जिणदेहं लूहिऊण गोसीसचंदणुम्मीसघुसिणेणं  
अंगमालिंपइ, सियसुरभिकुसुमेहिं पूयावित्थरं विरएइ, सवालंकारविभूसियं च करेइ, पुरओ य ससिकलाधवलेहिं  
अक्खेहिं दप्पणभदासणवद्धमाणकलसमच्छसिरिवच्छसत्थियनंदावत्तलक्खणे अट्टमंगलके समालिहइ, वडलतिलयकण-



वीरकुंदमल्लियासोयचूपमंजरिपारियायपमुहं पंचवणकुसुमनिवरमाजाणुमेत्तं सुयद्, नाणाविहमणिमत्तिविचित्तदंडेण  
 वइरामयकहुच्छुपणं पवरगंधामिरामं धूवमुक्खिवद्, पज्जलंतदीवियाचक्कालमणहरं आरत्तियमंगलपईवं च समुत्तारेद्,  
 एवं च कयंमि सद्यकायवे हरिसुक्करिसनभिरसिरनिवडियकुसुमच्चियमहीयलं कोमलमुयमुणालअंदोलणमणिकंरुणरवा-  
 उलं उन्मडकरणवेगरिखोलिरमुत्तावलिकलाययं तयणु सुरासुरोहिं सदायरेण जिणपुरओ पणच्चियं, नच्चिऊण भत्तिभर-  
 निन्मरा भयवंतं थोउं एवमारद्धा—

जय मुवणत्तयवंदिय ! लीलाचलणग्गघालियगिरिंद ! । भवकूरमज्झनिवडंतजंतुनित्थारणसमत्थ ॥ १ ॥

परमेसर सरणागयपरूढदढवज्जर्पजर जिणिंद । वम्महकुरंगकेसरि मन्डरतमपसरदिवसयर ! ॥ २ ॥

सच्चं चिय सिद्धत्थो क्हं न सामिय ! जहत्थयनामत्थो ? । चिंतामणिसारिच्छो जस्स सुओ तं विसालच्छो ॥ ३ ॥

अच्चंतमविरहपरायणंपि अइपुन्नवंतमप्पाणं । मण्णेमो जिण ! जं तुज्झ मज्जणे एवमुवयरिया ॥ ४ ॥

भइं भारहखेत्तस्स नाह ! तं जत्थ पाविओ जम्मं । घरणीवि वंदणिज्जा जा वहिही तुज्झ कमकमलं ॥ ५ ॥

जइ तुह पयसेवाए जिणिंद ! फलमत्थि ता सया कालं । एवंविहपरममहं अह्मे पेच्छंतया होमो ॥ ६ ॥

इय चउविहदेवनिकायसामिणो जिणवरं थुणेऊण नियनियठाणेसु गया मोच्छं सोहम्मसुरनाहं, गए थ सट्ठाणं  
 देविंदे सोहम्माहिवई कयसन्वकायव्वो जिणिंदं करसंपुडेण गहिऊण अणेमुदेवकोडाकोडिपरिबुडो गंतूण जिण-

जम्मपरंमि पडिरुवं ओसोवणिं च अयणित्ता तिसलादेविसमीये निसियोवेइ, एगं च पवरं देवदूसजुयलं कुंडलजुयलं च  
ऊसीसगमूलंमि ठवेइ, एगं च पंचयन्नियरणविच्छिचिमणहरं जचकंचणविणिम्मियं लवंतमुचाहलायचूलयं लंबूसयं  
मगयओ अभिरमणत्तिमिचं अवलोयंमि ओलंवेइ, जं अवलोयंतो जिणो सुहेण चफखुक्खेवं करेइ, तजो सको वेसमणं  
आणवेइ—जहा भो! सिग्घमेव वचीसं हिरन्नकोडीओ वचीसं सुवन्नकोडीओ वचीसं नंदाइं वचीसं भदाइं अत्राणि य  
विसिद्धवत्थुणि मगयओ जम्मणभवणे उवणमेहि, सोऽवि जंभगदेवेहिं सव्वं तहत्ति निषत्तेइ, पुणरवि देविंदो निय-  
त्तिपसेहिंतो सव्वत्थ एयं उग्घोसावेइ—भो भो भवणवइयाणमंतरजोइसियवेमाणिया देवा देवीओ य! सुणंहु  
भयंतो—जो किर तित्थयरस्स तित्थयरजणणीए वा असियमणिद्धं काउं संपहारेही तस्स अवस्सं अज्जगमंजरिन्व  
उत्तिमंगं सहस्सहा तडित्ति फुट्टिहित्ति, एयं च सव्वं काऊण विहिं भगवंतं पणमिऊण उप्पइओ नीलुप्पलसामलं  
गयणं पुरंदरो ॥

अह उग्घयंमि दिणयरे पगासीभूयासु सयलदिसासु पज्जिएसु गंभीरघोसेसु जयतूरेसु सुहपडिबुद्धा तिसला  
पेच्छइ सध्यालंकारविभुसियं पवरसुरहिपारियायमंजरीपरिमलमिलंतालिवलयसामलियसरीरं सुरहिगोसीसचंदणरस-  
कयंगरामं जिणेसरं, इओ य सिद्धत्थनरिंदो सहरिसपधाविण्ण चेडीजणेण साहियतिहुयणच्छेरयरूवसुयजम्ममइसवो  
वेचीजणरस अवणियदासत्तमायो आसत्तवेणिधंछियत्थसमत्थरणरासिदाणजणियाणंदो मणइ, जह—भो पुरिसा!

गच्छह तुन्मे सन्नत्य नयरे तियचउक्कचचरेसु कयवरावणयणपुञ्चयं वारिवरिसपसमियरयमणहरेसु कुंकुमर्पिजरियधर-  
णियलेसु कुणह पंचप्पवारपुप्फपुंजोवयारं, अगुरुतुरुक्ककुंदुरुक्कधूवधूमंधयारियदिसिमुहाओ पइट्टह ठाणे ठाणे कणग-  
धूवघडियाओ, पवरमणिमुत्ताजालरेहंतमज्झभागे नचंततरुणीचरणकिंकिणीकलरवाऊरियदिसिमुहे गायंतगायण-  
जणे ऊसियविपिहवेजयंतीसहस्सोवसोहिप समंतओ समुत्तुंगधोरथंभावलीसुसिलिट्टलट्टाववद्धे मंचाइमंचे संचएह,  
पडिभवणदुवारं च विसिट्टपइट्टाणगपइट्टिए सहस्सपत्तपउमपिहियाणणे कुसुममालुम्मालिए सरसचंदणपंकपंडुरि-  
ओदरे विमलसलिलपुत्ते पुत्रकुंभे निवेसह, सयलपएसेसु य कहगतालायरनडपेच्छणयाइ पयट्टावेह, नयरदुवारेसु य  
नवचंदणमालाउ वंधेह, जूयसहस्सं चक्कसहस्सं च उब्भवेह, उस्सुकं उक्करं अचाडभडपवेसं ववगयधरणिजं माणबु-  
ट्टिजुत्तं विमुक्कचारगागारनिरुद्धावराहकारिनरनियरं पुरं च कारवेहत्तिं, जं देवो आणवेइत्ति सविणयं पडिसुणि-  
ऊण वयणं गया पुरिसा, सविसेसो य साहिओ नरिंदाएसो, तओ—

हरिसपणचिरतरुणीकरंगुलीगलियमुहियाजालं । जालुब्भडधयमहुसित्तसंतिहोमानलाउलियं ॥ १ ॥

आउलियचित्तमग्गणघणलामनिमित्तविहियहलवोलं । हलवोलसवणधात्रियनरवइजणदिज्जमाणघणं ॥ २ ॥

घणवियरणसुण्णीकयनिहाणपक्खित्ततियसतवणिज्जं । तवणिज्जपुंजर्पिजरवीणंमुयच्चिंधसयरम्मं ॥ ३ ॥

रम्ममहीयलविलिहियपसत्थसत्थियसहस्ससोहंतं । सोत्तंत्तकंतपरवरनरजणकीरंतमंगळं ॥ ४ ॥

मंगलरुणवाउलपुरोहियारद्वदेवयापूर्यं । पूयावलिकखेवणपीणियनिस्सेसपक्खिगणं ॥ ५ ॥

गर्णणाइकंतसमुच्छलंतमहिदूररूढनिहिनिवहं । वहवंपविरत्तपसंतलोयपारंभियविलासं ॥ ६ ॥

लामुल्लासिरकुलथेरिनारिपारद्वचथरीगीयं । गीयथियक्खणगायणमुस्तरसरपूरियदियंतं ॥ ७ ॥

इय कुंडग्गामपुरं सवाहिरम्भंतरं समचेण । तित्थाहियजम्ममहूसवमि जायं सुरपुरं व ॥ ८ ॥

एयं च पुरंमहूसये पयट्ठे समाणे सिद्धत्थनरिंदो ण्हाओ कयालंकारपरिग्गहो नियंसियमहग्घपद्दाणवत्थो निसण्णो अ-  
त्थाणमंडवे, पत्थंतरे समागया भंतिसामंतसेट्ठिपमुहा विसिद्धलोया, निवडिया चलणेमु, भणिउमाढत्ता य-देव ! विजयणं  
घणागमेणं रज्जविट्थारेणं सरीरारोगत्तणेणं वद्धाविज्जह तुम्भे, जेसिं तिहुयणेकचूडामणी नियकुलनहयलमियंको एसो  
पुत्तो पसूओत्ति जंपिऊण समप्पियाओ तेहिं पवरकरित्तरयरणरासीओ, राइणावि ते सम्माणिऊण पुप्फवत्थगंधालं-  
काराइदाणेण विसज्जिया नियनियट्ठानेसु, खणंतरेसु य दंसणूसुओ पत्थावमुवलब्भ पत्थिवो उट्ठिओ अत्थाणाओ, गओ  
य मणिहुट्ठिमलिहिज्जमाणसुरंगरंगावलीसत्थियं दुवारदेसनिवेसियलोहरक्खं उन्भवियमहंतमुसलजूसरं विविहरक्खा-  
परिक्खेवसस्सिरीयं जिणजम्मणभवणं, दिट्ठो य तत्थ रयणरासिघ सरयदिणयरोव एगट्ठियसवत्तेयपुंजोव समुज्जोइय-  
मंदिरम्भंतरो जिणवरो, तं च दट्ठुण चित्तिउमाढत्तो-अहो पढमदिवसजायस्सवि अपुवा सरीरकंती अनण्णसरिसरू-  
वसंपया अविभावणिज्जं लायणं निम्मेरसुंदरं अभग्गं सोहग्गं, ता सव्वा पुण्णपगरिसागरं मम कुलं जत्थ पसूयमेवं-

विहं पुत्रयणंति विभाविऊण मणिया तिसलादेवी—

पेच्छसु नियसुयपसरंतकंतिपम्भारविजियपहपडले । कज्जलसिहापदीवे परिगोर्वितोव अत्ताणं ॥ १ ॥

पुवं बहुसोवि मए दिट्ठमिमं मंदिरं विसालच्छि । किं तु पमोयमियारिं किंपि असरिच्छमावहइ ॥ २ ॥

संचुण्णियचामीयरचुण्णयसरिसेण कंतिनिवहेण । एगसरूवा कीरंति उभयगिहचित्तमितीओ ॥ ३ ॥

इय एवमाइकहाहिं नरिंदो देवी य विगमिऊण भगवओ पढमदेवसियं ठितिवडियं करिंति, तइयदिवसे य तरुणतरणिताराहिवविंवाइं दंसेंति, कमेण य जाए छट्ठवासरे रायकुलसंवहिय्याहिं अविणट्टलट्टपंचिदियाहिं नीरोग-सरीराहिं जीवंतपणनाहाहिं कुंकुमपंकालितवयणकमलाहिं कंठकंदलावलंबियसुरहिमालइमालाहिं कुलविलयाहिं अंब-तजायचित्तसंतोसाहिं जागरमहूसवं पयट्टेइ, आगए य एक्कारसदिवसे जहाभणियविहाणेण सुइजायकम्ममयणेंति, चारसदिवसंमि नाणाविहवंजणसमेयं बहुप्पगारखंडखज्जपरिपुन्नं विविहपाणयपरियरियं सुगंधगंधट्टोयणसूयसंपन्नं रसबइं निघत्तावेति, तयणंतरं कारियणहाणविलेवणाळंकाराणं नायखत्तियाणं पणयजणपुरप्पहाणलोगाणं परमायरेण भोयणं पणामेंति, खणंतरेण य आयन्ताणं सुइभूयाणं वीसत्थाणं सुहासणगयाणं तत्थ गंधमल्लालंकारेहिं सम्माणियाणं तेसिं पुरओ सिद्धत्थनराहिवो एवं वयासी-भो भो पहाणलोया ! पुवंपि मम एस संकप्पो समुप्पज्जित्था जहा-जदि-वसं एस कुमारो देवीए गम्भं संकंतो. तदिवसाओवि करितुरयकोसकोट्टागाररज्जेहिं सुहिसयणपरियणेहिं परमं

घुह्मिहसुवागओ, अओ मए एयस्स वद्धमाणोत्ति नामधेयं कायवन्ति, तग्हा इयाणिपि तुग्ह समक्खं एयमेव नामं  
 हयउत्ति, तेहिं भणियं-देव ! जुत्तमेयं, गुणनिप्फन्ननामधेजे विज्जमाणंमि कीस न जहद्वियमभिहाणं कीरइत्ति?,  
 एवं तेहिं जंपिए पइद्वियं जयगुरुणो वद्धमाणोत्ति नामं, जाओ परमप्पमोओ, पुरंदरेणावि अयलो भयभेरवोवसग्गेहिं  
 खंतिखमो य इतिकऊण वरं महावीरोत्ति नामधेयं से कयंति, इय निघत्तियाभिहाणो सुरसंकामियकामियपवर-  
 रसाए निययंगुलीए पाणेण कयभोयणकायवो जयगुरू पंचहिं धायीहिं परियरिओ अंतेउरीजणेण सायरं चैव ला-  
 लिज्जमाणो अम्मापियरेहिं बहुप्पयारं चरणचंकमणं काराविज्जमाणो चेडचडयरेणं पइक्खणमुल्लाविज्जमाणो सायरं  
 देवदेयीविदेण पज्जुवासिज्जमाणो निरंतरं गीएहिं गिज्जमाणो पाढेहिं पढिज्जमाणो चित्तेहिं उचलिद्विज्जमाणो दंसणू-  
 सुएहिं लोएहिं अहमहमिगाए पलोएज्जमाणो गिरिकंदरगउव कप्पपायवो वद्धिउमारद्वोत्ति कमेण य पडिपुन्न-  
 सरीरावयवो ताविच्छगुच्छसच्छहपरूढसिणिद्धमुद्धरुहसिहंडो विसुद्धपवुद्धवुद्धिपगरिसागिट्टलट्टभासाविसेसविसारओ  
 पडिपुन्नसुयसायरपारगामी ओहिन्नाणमुणियचक्खुगोयराइकंतवत्थुवित्थारो अत्तुच्छसुइनेवत्थधरो सयललोयलोयणाणं-  
 दजणणं देसुणद्ववरिसपज्जायं कुमारत्तणमणुपत्तो समाणो भययं वालभावसुलहत्तणओ कीडारईए अणेगेहिं समव-  
 षहिं मंत्तिसामंतसेट्ठिसेणावइसुएहिं खेड्विहिवियक्खणेहिं समं पारद्धो रुक्खखेड्डेण अभिरमिउं, तत्थ य एसा  
 वत्था-जो रुक्खेसु सिग्घं आरुहइ उत्तरइ य सो सेसाइं डिंभाइं पट्टीए आरुहिरुण वाहेइ, इओ य सोहम्मे

देवलोए सोहस्माए २ राए अणेगदेवकोडिंपरिवुडंस्स सहस्सनयणंस्स पुरओ जायंतेसु तियसेहिं संमं विविहसमुखावेसु  
 धीरत्तणगुणवन्नणपर्यावे भणियं पुरंदरेण-भो भो सुरा ! अपुवं किंपि भयवओ वद्धमांणसामिस्स वालत्तणमणुपत्तस्सवि  
 धीरत्तणं सरीरपरक्कमो य, जं न तीरइ केणावि वलपगरिसकलिण देवेण दाणवेण वा समयेव पुरंदरेण वा भेसिउं,  
 परक्कमेण वा पराजिणिउंति । एवं च निसामिऊण एगो सुरो अचंतकिलिट्टचित्तत्तणओ अतुच्छमिच्छत्तुच्छाइय-  
 विवेयत्तणओ य चिंतिउमारदो, कहं ?—

जह तह जंपियंरम्मं सच्छंदुहामचिट्ठियसणाहं । मुक्खाववायसंकं धन्ना पावंति सामित्तं ॥ १ ॥

किं संमविज्ज एयं जं वालंपिहु न खोभिउं सक्का । अविचिंतणिज्जमाहप्पसालिणो देवदणुवइणो ? ॥ २ ॥

अहया हत्यट्ठियकंकणस्स किं दप्पणेण परिमिणणं ? । गंतूण सयं चिय तस्स धीरिमं लहुं परिकखामिं ॥ ३ ॥

एवं संकप्पिऊण जत्थ सामी अभिरमइ तत्थ आगंतूण तरुवरस्स हिट्टओ खोभणत्थं एयं महापमाणसरीरं अंज-  
 णपुंजगवलगुलियापडलकसिणप्पभोलिसामलियवणनिगुंजं तंवचूडंचूडाइरेगरत्तलोयणं विज्जुदंडचंचलललंतलोलजी-  
 हाजुयलं उक्कडकुडिलवट्टुलकपखडफडाडोवकरणदच्छं जुगक्खयत्तुभियसमीरघोरघोसं अणाकलियपयंडरोस्सवेगं  
 तुरियगमणं संमुहमित्तं दिग्गमहाभिसं सप्परुयं विउवइ, सामीवि तं तहारुवं लीलाए अवलोइऊण जुजरज्जुखंडं व  
 वामहत्थेण उहं दूरे निच्छुमइ, ताहे देवो विचितेइ-एसो एत्थ न ताव छल्लिओ । अह पुणोऽवि सामी तिंदूसएण

अभिरमद्, सो य देवो घिट्टिममवलंविऊण आगामियमवायमविमाऊण य चालयरूवं विउविऊण सामिणां सद्धिं  
 रमिउमारदो, अह जिणेण वियक्खणत्तणओ पराजिया सवेऽवि वालगा पट्टिण समारुहिऊण समाढत्ता वाहिउं,  
 अह वाहिणसु सयलेसु तेसु समागओ सुरकुमारस्सवि वारओ, पणामिया तेण सहरिसं पट्टी, आरूढो य तत्थ वद्ध-  
 माणसामी, तओ सो देवो सामिभेसणट्ठं तं पिसायरूवं विउवित्ता पवट्टिउमाढत्तो, केरिसं पुण तस्स रूवं ?—खरफ-  
 रुसां सूयरपालसन्निभासे केसा घडीसंठाणसंठियं उत्तिमंगं उट्टियाकभल्लखल्लयमज्झं निडालवट्ठं कविलजडिललोमाओ  
 ममुहाओ, मरुकूवयगंभीरं फुरंतपिंगलपभाजालं लोयणजुयलं, जमलचुल्लिमहल्लं चिविडं च नासापुडं, रुंदगिरिकंदरा-  
 गारं कवोलमंडलं, घोडगपुच्छसच्छहाओ दाढियाओ, करहस्स व दूरपलंविरे ओट्टजुयलं, कुंजरस्स व वाहिं निग्गया  
 कुडिलभीसणा दसणा, अनिलंदोलियपडायघ चंचला निसियकरवालदीहा जीहा, सुक्खणुसरिसा कंधरा, कोट्टिगा-  
 णुरूवाओ दोवि वाहाओ, सुप्पचप्पडं पाणिसंपुडं, सिलापुत्तगांघमाओ करंगुलीओ, पुराणसिप्पिपुडरुक्खा अंगुलीणं  
 नहा, पयडनसाजालजडिलं पंसुयंतराले पसुत्तघोरंतविसहरं उरट्टिपुंजरं, अलिंजरागारं उयरं, मुट्टिगेज्झा ठाणट्टाणभग्गा  
 फडी, वालुंकीफलपलंबिरा वसणा, करिवरंगप्परूढं मेढं, दीहवीभच्छावियन्नरोमावलीपरिखित्तं तालतरुदीहरं जंघा-  
 जुगं, नीसाहपत्थरविच्छिन्ना चलणा, कुद्दालदारुणा चरणंगुलीणं नहा । अवि य—

विगरालविडं वियवयणकंदरुग्गिरियजलणजालोहं । चलणतलपहयभूयलचालियपासायसिहररगं ॥ १ ॥



पद्मपत्रारिगदीहतरमुवग्गडासलियसूररहपसरं । परिमुकमहंतदृष्टहासपावडियदढदाढं ॥ २ ॥  
 कंठपठंरिरापतलविलगापीमच्छसरदयणमालं । नउलकयकृष्णपूरं जन्नोइयकयमहागण्यं ॥ ३ ॥  
 उद्धभियपिषयणम्मनियसुणं रुहिरमंगठित्ततणुं । अइपोरजराजज्वरजयगरपरिवदखंपतलं ॥ ४ ॥  
 परममयमुत्तं नचंतं फहरुहंति पहसंतं । उद्धिं च करितं भीसणसदेण भामंतं ॥ ५ ॥  
 इय तम्म भीसणं त्रिणपरेण रिद्धं महापिसापसु । पइखणपियहुमाणं रूरमसिमेहतममामं ॥ ६ ॥  
 तओ गुणियरुइयरपियारेण त्रिणेण सपहा असंभतेण सो पहओ हेलाए पट्टियदंमि मुट्टीए, करयलकुलिसजणि-  
 यसारीरामिपानोय विरममारसंतो अडत्ति पत्तो मडहत्तणं, निरुवफमकायत्तणओ चेव न सयमिक्करमुयगओ, नवरं  
 निरिच्छपगुराहिरइयणो जायपग्गयायो नियदुच्चरियनुत्तियंगो सयायरं पणमिऊण जिणं पट्टिउमाढत्तो—  
 हा बुद्धु दुदु तइओयनाह । एयं मए सनायरियं । सखंपि न सहदियं सहस्सनयणस्सं जं वयणं ॥ १ ॥  
 तम्मउणुरूपं संपह संपत्तोऽहं फलं इमं भीमं । अवगन्नियगुरुययणाण अहव किर केत्तियं एयं ? ॥ २ ॥  
 गंगारमहाभयमपि जो तं पिदययि देय । टीलाए । मग्गारिसे भयकरे तुह तस्म ह्येज्ज का गणजा ? ॥ ३ ॥  
 वपा—चलणंगुठिचानियकणयत्तेउ बोधियमहत्तमहिगोल । जस्म किर चाललीलाइयंपि वित्तं भमकेइ ॥ १ ॥  
 तस्सपिय तुग्गु तइओयनाह । जो विद्धमं न याणामि । सो नामभेत्तओ चिब विबुद्धोऽहं न उण किरियाए ॥ २ ॥

एवंविहस्त दुविणयविलसियं रामसु एकवारं मं । पयइपऽवि डु जं पणयवच्छला हुंति सम्पुरिसा ॥ ३ ॥  
 इय खामित्ता मुवणेकबंधवं पणमिऊण सो तियसो । गयणयलं उप्पइओ चलंतमणिकुंडलाभरणो ॥ ४ ॥  
 भययंपि खणं एकं कीलित्ता ताहिं ताहिं कीलाहिं । चेडमुइडंगरक्खेहिं परिबुडो नियगिहंमि गओ ॥ ५ ॥  
 अह समहिगऽद्वयच्छरपच्चाए जयगुरुंमि जायंमि । हरिसियमणो नरिंदो तिसलाए पुरो इमं भणइ ॥ ६ ॥  
 देवि ! कुमारो संपइ गहणसमत्थो फलाकलायस्स । वट्टइ ता उवणिज्जउ लेहायरियस्स पढणत्थं ॥ ७ ॥  
 इय भणिए देवीए जएकनाहो महाविभूर्इए । ण्हविओ पसत्थत्तित्थुत्थसलिलभरिण्हिं कलसेहिं ॥ ८ ॥  
 नासानीसासोज्झं चक्खुहरं हरिणलंछणच्छायं । परिहाविओ य पवरं सुकुमारं देवदूसजुयं ॥ ९ ॥  
 मणिमउडकउयकुंडलतुडियपमोक्खेहिं भूसणेहिं च । सुरवरसमप्पिण्हिं अलंकिओ तक्खणं चैव ॥ १० ॥  
 सिद्धत्थनरिंदेणवि. नीसेसकलाकलायकुसलमई । अज्झावगो महप्पा पाहरिओ निययभवणंमि ॥ ११ ॥  
 एगं महप्पमाणं उवियं सिंहासणं च तस्स कए । अन्नं च थेववित्थरमुवणीयं जयगुरुनिमित्तं ॥ १२ ॥  
 अह जाव नोवणिज्जइ सामी अज्झावगस्स पढणत्थं । सकस्स ताव चळियं सिंघासणममलमणिरुइरं ॥ १३ ॥  
 ता ओहिन्नाणेणं मुणिउं जयनाहपढणवुत्तंतं । चित्तेइ अहह मोहो कट्ट विलसइ जणणिजणमाणं ? ॥ १४ ॥  
 जं सयलसत्थपरमत्थजाणगं जयगुरुंपि पढणत्थं । अज्झावगस्स संपइ समप्पिउं अभिलसंतित्ति ॥ १५ ॥

सको इय चिंततो आगंतुणं महप्पमाणंमि । सिंहासणंमि ठविउं नाहं परमाणं भत्तीए ॥ १६ ॥

पंदित्ता जोडियपाणिसंपुडो सहसत्थपरमत्थं । आपुच्छिउं पवत्तो सामीऽविय वोत्तुमारद्धो ॥ १७ ॥

सोऽपि उवज्झाओ परमं विम्हियमुच्चहंतो तं कहितं एग्गचित्तो निसामेइ, जणणिजणगाइणो य विम्हियमणा जाया । जह सहसत्थपयत्थे कहिऊण ठिओ, ताहे सक्केण साहियं तेसिं—जह जाइसरणाणुगओ आगन्भवांसाओऽवि नाणत्तयपरिग्गहिओ एस भयवं, पाणिपइट्ठियं लट्ठमणिं व सधं वत्थुं नियमईए मुणइ, ता किमेवं अणत्थजो संरंभो कजो ?, एवमायत्तिऊण विम्हियमणा परं पमोयमुवगया जणणिजणगा, पुरंदरोऽवि जिणं नमिउं दिवं गओ, तेणपुण उवज्झाएण जे केऽपि पयत्था भयवओ चागरंतस्स सम्ममवधारिया तयणुसारेण सुसिलिट्ठं विरइयं इंदवागरणंति । भय- वंपि निरुवसग्गं कगेण पत्तो तरुणत्तणं, तयणुभावेण य तस्स सुसिणिद्धसुहुमकसिणकुंचिरकेसपासेण विराइयं छत्ता- गारमुत्तिमंगं, सवणमूलावलंघिणा नलिणेणं व नयणजुयलेणोयसोहियं वयणं, अच्चंतसस्सिरीएण रयणेणं व सिरिवच्छेण पसाहियं कणयसेलसिलापिडुलं वच्छत्थलं, गंभीरदक्खिणावत्ताए सप्पुरिसचित्तवित्तीएष नाभीए अलंकियं झसाणु- रूवमुयरं, हंसतणुरुहकोमलेहिं लोमेहिं करिकराणुरूयं मंडियं जंघाजुयलं, अंगुलीदलग्गविष्फुरंतनहावलीए चिंताम- णिपरंपराएष सोहियं जयपडागामगरमच्छाइलक्खणलंछियं चरणकमलं ।

अत्तं च—भाविरमपायमासंकिऊण मत्ते जिणस्स पढमंपि । हिययाओ नीहरिउं ठियं व केसेसु कुडिलत्तं ॥ १ ॥

रागोविहु थेवुप्पन्नपणयभावोऽवि भाविभयभीओ । वाढं कुणइ व वासं करचरणतलाधरतलेसु ॥ २ ॥

एवं च भयवंतं तरुणत्तणमुवगयं रूवविणिज्जियदेवदाणविंदसंदोहं नाऊण सेसमहीवईहिं नियनियधूयापाणि-  
ग्गहत्थं पेसिया वरगपुरिसा सिद्धत्थनरिंदसमीवे, विन्नत्तो य तेहिं राया, जहा-देव ! अस्से वद्धमाणकुमाररूवाइरेगरं-  
जियमणेहिं नरिंदेहिं अप्पणप्पणधूयावरणत्थं तुम्ह सगासे पेसिया ता साहेह किमिह पशुत्तरं?, रत्ता जंपियं-सम्म-  
मालोचिऊण कहिस्सं, वचह ताव तुम्हे निययावासेसु, एवं भणिए अवकंता ते पुरिसा, नरिंदेणवि साहिओ एस  
वइयरो तिसलादेवीए, एयं च आयन्निऊण हरिसभरनिम्भराए जंपियं तीए-देव ! तुम्ह पुत्तपसाएण पाचियाइं  
मए पावणिज्जाइं, अणुभूयाइं अणुभूयपुवसुहाइं, जइ पुण इण्हिं तस्स वीवाहमहूसवं पेच्छामि ता कयकिचा  
होमि, रत्ता बुत्तं-जइ एवं ता देवि ! वचसु कुमारसमीचं, पन्नवेसु य तं विवाहनिमित्तं, देवीए भणियं-महाराय !  
न जुज्जइ पढमं चिय तत्थ मह गंतुं, लज्जापहाणो हि कुमारजणो होइ, ता सिक्खविऊण पेसिजंतु तप्पणइणो, एवं  
बुत्ते रत्ता पेसिया कुमारसमीवे पाणिग्गहणपड्विज्जावणत्थं पणइणो, तेहि य गंतूण सविणयं जयगुरुणो साहिओ  
तदादेसो, तं सोचा भगवया भणियं-भो महाणुभाव ! किं न मुणह मम चित्तविर्त्तिं ? नोवलक्खह विसयविरागं ?  
न जाणह गिहवासपरिहरणाभिलासं ? जेणेवमुल्लवह पाणिग्गहणविसए, तेहिं भणियं-कुमार ! मुणेमो सधं, किंतु  
अणुवत्तणिज्जं अम्मतायाण वयणं अलंघणिज्जा नियपणइणो, न खलु दुल्लहो पच्छिमकाले गिहपरिचायभावो, न यावि

पुण्यमणोरहा पडिहूलिस्संति पुणो तुम्हाभिस्पेयं अम्मापिउणो, भगवथा भणियं-पाणिग्गहणमंतरेणावि पुवं चिय  
अम्भुवगयं मए इमं-जं न जणणीजणगेसु जीवंतेसु सधचिरइं पडिवज्जिस्सामि, ता जइ एवं ठिए मइ संतोसमुव-  
हंति जणणिजणगा किमकल्लाणं ह्येज्जा?, का वा पाणिग्गहस्स लट्ठया?, जेण पेच्छह पयडच्चिय विवाहसमए कलस-  
परंपराठवणमिसेण दंसिज्जइ उत्तरोत्तरदुहाण पावपबंधो, पज्जलंतजलणच्छलेण पयडिज्जइ महामोहवियंभणं, गयणय-  
लविलसंतधूमपडलनिभेण कहिज्जइ अत्तणो लहुयत्तणं, चउमंडलगावत्तणवयएसेण परुविज्जइ चउगइयं संसारभमणं,  
पयमहुपमुहवत्थुहुणणकवडेण दाविज्जइ सयलगुणगणदहणं, तरुणीजणभणिज्जमाणमंगललउमेणरियंउग्गिरियंभाविज्जइ  
चाउदिसमजसो, फंटावलंबियकुसुममांलाभायाए परुविज्जइ समीववत्तिणी दुक्खदंदोली, चंदणरसंगरागमिसेण सूइज्जइ  
तपस्खणं चिय कम्ममलावलेणो, फन्नगापाणिग्गहणकइयवेण दाविज्जइ अट्टकम्ममहामोलमंडकिणणत्थं हृत्यसन्नंति ।

किं बहुणा ?-जं जं विवाहसमए विहिं पलोएमि सुहुमवुद्धीए । सो सो चिंतिज्जंतो रोमुद्धोसं जणइ मज्झं ॥ १ ॥

ता सुयह मोहपसरं अणुजाणह मं विणा विवाहेण । एवं चिय निज्जसंतं अम्मापिउनिबुइकएण ॥ २ ॥

एवं भणिए पट्टणा तो ते जंपंति विणयपणयंगा । तुम्हारिसाण काउं एयं नो जुज्जइ कुमार ! ॥ ३ ॥

पणइयणपर्यणाभंगभीरुणो जं सयावि सण्णुरिसा । निषकज्जपवित्तिपरंमुहा य पयईए जायंति ॥ ४ ॥

तदा-किं उसभजिणवरेणं पाणिग्गहणाइ नो कयं पुर्वि ? । किं वा न चक्किलच्छी परिमुत्ता संतिपमुहेहिं ? ॥ ५ ॥

इय एवं जंपंतेसु तेसु कंचुइजणेण परियरिया । तिसलादेवी सयमेव आंगया भगवओ मूले ॥ ६ ॥

अह सत्तट्ट पयाइं अणुगंतुं संसुहं जिणो तीसे । आसणदाणप्पमुहं पडिवत्तिं कारवइ सवं ॥ ७ ॥

अण्णोण्णघडियकरसंपुडं च देविं पडुच्च भगवंतो । जंपइ अम्मो ! साहह आगमणं किंनिमित्तंति ॥ ८ ॥

देवीए जंपियं-पुत्त ! तुह दंसणाओऽवि किमन्नं निमित्तं ?, जओ एत्तिएण वसइ जीवलोगो भरियं दिसावलयं सुहावहा रायलच्छी संतोसभावहइ गेहं निवुइं उवजणइ पणइजणो विगयंधयारं तिहुयणं, ता किमवरं वरं साहेमि निमित्तंति, एवमाइत्तिउण भगवया चित्तियं-अहो अणाइक्खणिज्जो कोऽवि जणणीजणस्सावचे सिणेहो, अतुहं किंपि वच्छल्लं, असरिसा कावि अवलोयणाभिरई, जं सया चक्खुगोयरगएवि मए अम्वा ईसिअहंसणेऽवि संपइ एवं संतप्पइत्ति विगप्पिऊण पुणो भणियां देवी-अम्मो ! तहावि साहेसु किंपि पओयणं ?, तिसलाए भणियं-पुत्त ! जइ एवं ता पडिवज्जसु विवाहमहूसवं, जओ एयनिमित्तं एसो पणइजणो अम्हेहिं तुज्झ पासे पेसिओ, तुह विभाहुफंठिओ खु नराहिवो नयरजणो य, ममावि एत्तियमेव संपयं अपत्तपुवं सुहं, पडिपुन्ना सुहाणुभावेण सेसमणोरहत्ति, भगवयावि आगम्भकालाओऽवि मम एस पइन्नाविसेसो-जं अम्मापिऊणं अप्पत्तियकारिणी पवज्जावि न कायवत्ति चित्तिऊण निरभिलासेणवि अच्चुवगयं तयाइहं, परित्तुट्ठा य देवी समं परिजणेण, निवेइओ एस वइयरो नरिंदस्स ।

एत्यंतरे सिद्धत्थरायमुवट्ठिओ पडिहारो निवडिऊण चलणेसु विन्नविडमाहत्तो य-देव । समरवीराभिहाणराइणो दूओ

दुवारदेमे तुम्ह दंसणमुओ चिट्ठइ, तत्थ को आपसो?, राइणा भणियं—लहुं पवेसेहि, जं देवो जाणवेइत्ति भणिकण  
पवेसिओ पडिहारेण, पणमिओ य तेण राया, उवविट्ठो य दिन्नासणो, पत्यावे य पुट्ठो नरिदेण, जहा—भइ! किं आग-  
मणकारणं?, दूएण भणियं—देव! निसामेसु, अत्थिय नियसोभापराजियकुवेरपुरे वसंतपुरनयरे समरंगणपरितोसिय-  
सुरऽच्छरामत्थो जहत्त्यामिहाणो समरवीरो नाम राया, तस्स य नियपाणनिधिसेसा पउमावईए पणइणीए कुञ्चि-  
संभूया जसोयानाम कज्ञगा, सा य कहं जसोयत्ति नाममणुपत्तत्ति निसामेह कारणं, किर इमीए जम्मसमए देवो  
समरवीरो रयणीए सुहपसुत्तो पभायसमए सुमिणं पासइ—जहाऽहं अंगरक्खिगापरिक्खित्तगतोहिं विविहपहरणकरेहिं  
सुहडेहिं परिकरिणहिं तरलतुरंगमेहिं गुडियाहिं गयघडाहिं नाणाविहपहरणजोहजुत्तेहिं पहाणरहवरेहिं परिवेठ्ठिओ  
रायंपि मत्तहुंजराधिरुद्धो उज्जाणमइगओ, तत्थ य ठियस्स सहसच्चिय पाठच्चुओ हलवोलो, अंतरंतरा नच्चंति  
केऽवि सुहडा केऽवि पलायंति केऽविं य महीवले धूलीधूसरा रुलंति पडंति विजयचिंघाइं विहडंति जयतूराइं,  
एयं च असमंजसं दहूण मए इओ तओ डोउंतं गहियं नियलत्तं हत्थेण, पत्तो एगो महाविजयद्धओ, सोऽवि संठ-  
विओ सारिओ य, एवंविहं च सुमिणं पासित्ता पडिबुद्धो संभंतचित्तो पभायसमए सुमिणपाठगे सहावेत्ता तेसिं  
सुमिणं परिरुहेइ, तेहिं य सिद्धं—देव! पंचहिं कारणेहिं सुमिणोवलंभो हवइ, तंजहा—अणुभूएण दिट्ठेण चिंतिएण  
पयइवियारेण देवयायसेण वा, तत्थ न सुणिज्जइ तुम्हाणं एगहिंतो केणावि कारणेण सुमिणोवलंभो जाओत्ति, राइणा

मणियं-एवमेयं, न सम्मं उवलम्भेमि कारणं, तेहिं बुत्तं-जइ एवं ता करेह सद्यं सुविणगं, जहा दिट्ठट्ठिईए संवसा-  
मग्गिं काऊण गच्छह उज्जाणं, को दोसो?, न सुणिज्जइ कोऽवि परमत्थो, एवंपि कीरमाणे कयावि गुणो होज्जा,  
साभिप्पाओ य किंपि एस डोळंतच्छत्तघरणविजयचिंधलामोत्ति बुत्ते राइणा पडिवज्जिऊण तेसिं वयणं ताडाविया  
सन्नाहमेरी, तीए सहायत्तणेण तरूखणादेव कयसघसंनाहो नरवइसमीवमुवगओ सामंतवग्गो परिचत्तसेसवावारो  
पुरो ठिओ जोहसमूहो, पासमलीणा करितुरयाइणो, तओ चाउरंगवलकलिओ पहाणहत्थिकंधराधिरूढो नयरदूरव-  
त्तिणं गओ नंदणुज्जाणं, तत्थ य रयणिदिट्ठमुमिणभीसणत्तणं चित्तंतस्स तक्खणफुरियवामनयणपिसुणियानिद्धघड-  
णस्स किंपि अरइविगारमणुसालीणस्स वज्झयिच्चीए काणणमणुपेच्छंतस्स नरिंदस्स सच्चिय पुवदिणपेसियचारपुरिससू-  
इयपत्थावो चिरपरूढवेरसाहणगाढामरिसो अमुणियतद्विसनरवइवइयरो जुज्झसज्जो पद्यंतसामंतो दुज्जोहणाभि-  
हाणो पमुत्तो उज्जाणसमीयं, दिन्नो परिवेढो, जाओ हलवोलो, लक्खियतदागमणो य निग्गओ उज्जाणवाहिं नरिंदो,  
दिट्ठो य पडिरिउणा संगामसज्जो रायां, तओ किं वियाणियं ममागमणमणेणंति शुभियचित्तेणवि दुज्जोहणेण पारदं  
रत्ता सह पहरिउं । अह-

निसियरग्गफप्पियपयंडं नरमुंडमंडियाभोगं । दट्ठोद्ववद्वमोग्गरनिप्पिट्ठुकिट्ठरहनियहं ॥ १ ॥

कुंतग्गभिन्नकुंजरकुंभत्थलगलियमोत्तियसमूहं । तफालमिलियवेयालकिलिकिलारावभयजणगं ॥ २ ॥



नियतंतच्छतघयर्चिधनिचयसंचन्नमेदणीवट्टं । उच्चट्टसहत्थिविहम्ममाणनियपवरपरिवारं ॥ ३ ॥

करितुरयथायनिस्सरियरुहिरपूरिजमाणमहिगत्तं । रणतूरखुन्नचिरकबंधपेच्छणयभीसणयं ॥ ४ ॥

इय धोरसमरवावारमेकहेलाए काउमचिरेण । सिरिसमरवीररणा वट्टो सो नागपासेण ॥ ५ ॥

भणिओ य सुमर रे इट्टदेवयं एस वट्टसि जमस्त । संपइ पाहुणगो तं दुचरियरहंमि आरूढो ॥ ६ ॥

दुज्जोहणेण भणियं भो नरवर ! कीस वाहरसि एवं ? । पारंभे चिय समरस्स सुमरणिज्जं मए सरियं ॥ ७ ॥

नियकुलकमाणुरुवं अणुचेट्टसु संपयं विगयसंको । देहेण कयं देहोऽवि सहउ को एत्थ अणुतावो ? ॥ ८ ॥

एवं च आयन्निऊण पडिवन्नकरुणाभावेण समरवीररत्ना नीओ नीयमंदिरं, उच्चोडिया बंधा, काराविओ ण्हाणभो-  
यणाइयं, समप्पियाइं समरगहियाणि करितुरयाइणि, तेणावि अंगीकया सेवावित्ती, तओ जाओ राइणो परमसं-  
तोसो, पसरिओ चाउहिंसिं जसोत्ति, भणियं च रत्ना-अहो मम इमीए कन्नगाए पसवकालेऽवि एरिसो जसो दिण्णो,  
तम्हा होउ एयाए जसोयत्ति जहत्यभिहाणंति बुत्ते महया रिद्धिसमुदएणं कयं एवमेव से नामं ।

अह सा चंदलेहव वट्टंती पत्ता कमेण जोघणं, अन्नया पुट्टो राइणा नेमित्तिओ-को इमीए पाणिग्गाहो भविस्सइत्ति ?,  
तेणावि साहियं-देव । सिरिवच्छलंछियवच्छयलो सयलसुरासुरनमियकरकमलो अट्टसहस्तलक्खणधरो पुरिसप्पवरो नि-  
च्छियं एयाए पई होदित्ति, एवं निसुणिए ठिओ नरिंदस्स हियए तुम्ह कुमारो, तओ आहूओ मेघनाओ नाम सेणावई

समप्पिया तस्स जसोयकन्नगा, दिन्नो सयंवरविद्याहजोग्गो महंतो ह्यगयकणगाइविच्छडो, भणियो य जहा-भह !  
गच्छमु तुरियं, कारयेसु पाणिग्गहणमहिमंति, तओ नरवइवयणाणंतरमेव चलिओ अरुखलियपयाणगेहिं एसो, अहं  
पुण एयकज्जनियेयणत्वमेव पढमं चिय तुम्ह पासे पेसिओत्ति, ता देव ! एयं तं आगमणकारणं । रत्ता भणियं-भह !  
सम्मं कयं, अणुरूवमेयं, पयट्टिज्जउ अकालपरिहीणं वंछियत्थो, दूएण जंपियं-देव ! कहं न पयट्टिज्जइ जेण विद्याह-  
लग्गंपि आसन्नं वट्टइत्ति युत्ते रत्ता सेसनरवइवरगपुरिसा सम्माणिकण विसज्जिया नियनियट्टाणेसु, अन्नदिवसे य  
समागथा सा रायकन्नगा वद्धाविओ नरिंदो दवाविओ तीसे निवासनिमित्तं समुत्तुंगसत्तभूमिगो पासाओ पेसिया  
रसवई काराविया अन्नावि त्कालोचिया पडिवत्ती, पसत्थमुत्तुत्ते य कयपवरसिंगारो अणेगसामंतसुहडपरिवुडो आगओ  
मेहनाओ सेणावई, पणमिओ अणेण राया, पुच्छिओ य कुसलोदंतं, राइणाऽवि तस्स दवावियं आसणं तं वोलाइदाण-  
पुषयं च पुट्टो समरवीरनरेसरसरीरकुसलवत्तं, सविणयं साहिया य तेण, अह विविहसंरुहाहिं गमिऊण खणमेकं रत्ता  
अब्भणुत्ताओ समाणो उट्ठिओ मेहनाओ, गओ य निययावासे, समारद्धो विद्याहोवक्कमो, वंधाविया मंचा, जहोचियं  
विरइयाइं आसणाइं, निरूविया विविहकम्मेषु किंकरा, परिकप्पियं वेइगाविमाणं । तं च केरिसं १-

मरगयमणिचच्चिकिय सुवण्णवरकलसविरयणारम्मं । अइनिम्मलरंभागब्भखंभउद्धूयविजयपडं ॥ १ ॥

परिमुक्कुसुमपुंजोवयारपरिभमिरभमररवसुहरं । निम्मलमुत्ताहलभरियचारुमणिकोट्टिमचउकं ॥ २ ॥

चउदिसिपिमुकदप्यणपडिर्विवियफामिणीवयणकमलं । ठाणट्टाणनिवेशियवरमणिपडिहणियसंतमसं ॥ ३ ॥

गरुडमणिपसरियकिरणपडलविञ्चुरियमहियलाभोयं । नवगोमयरसलित्तं व रेहए वेइयाभवणं ॥ ४ ॥

एवं च निषत्तिऊणं तक्कालोचियफायपं मेहनाहेण कहावियं सिद्धत्थरत्तो, जहा-समीवमागयं वट्टइ पसत्थं हत्थ-  
ग्गहणमुदुत्तं, ता कुमारं पेत्तूण सिग्घमागच्छहत्ति । राइणावि एवमायन्निऊण भणिया तिसला-देवि ! सिग्घं करेहि  
कुमारस्स पुंयगाई फायपं, आसत्तो वहइ समओत्ति, एवं सोचा देयीए परमायरेण विविहप्पयारेहिं मंगलसहपुरस्सरं  
पुंस्त्रिऊण सपोसहीहिं ण्हविओ कुमारो, नियंसाविओ महामोळं धवलदुगुल्लजुयलं, करराविओ सघं फायघविहिं,

अविय-गोसीसगुरभिचंदणविलेयणापंडुरो जिणो सहइ । सरयनिसायरजोणहाएँ धवलिओ कंचणगिरिघ ॥ १ ॥

फसिणपणकेसपासो रेहइ सो कुमुमगुच्छसंछत्तो । पप्फुरियतारतारोवसोहिओ गयणभागोघ ॥ २ ॥

सट्टाणपिणद्धविचित्तरयणनवभूसणच्चहियसोहो । जंगमभावमुवंगओ रोहणसेलोघ पडिहाइ ॥ ३ ॥

सामावियावि सोहा न तीरण जिणवरस्स साहेउं । किं पुण विसेसमंडणमंडियदेहस्स तत्थ खणे ? ॥ ४ ॥

एवं च कयउचियफायपे कुमारे निवेशयं राइणो, तेणावि निउत्ता नियपुरिसा-अरे पयट्टेह नगरमहसवं भेलेह  
नायखत्तियवग्गं समप्पेह कुमारस्स पसाहियसरीरं जयकुंजरं जेण गम्मइ विवाहट्टाणंमि, जं देवो आणवेइत्ति भणि-  
ऊण गया पुरिसा, निषत्तिओ नरिंदाएसो, तओ धवलपसाहियकरिवरारूढो पवणपणचंतधयवडुग्घायसुंदररहवरा-

रुद्राय लोयपरियरिओ गणहरनट्टोवयारकुसलनचंतावरोहसुंदरीचंदनिरुद्रायमग्गो चञ्चंतमंगलतूररवाजरियसयलदि-  
 सामुहो सिद्धत्यनराहिवेण जेट्टभाउगनंदिवदणजुवराएण य अणुगम्ममाणो सिरिवद्धमाणकुमारो सायरमवलोयण-  
 विस्तत्तचित्तेण भवणमालातलसंठिएण पुरजणेण दंसिज्जंतो अंगुलिसहस्सेहिं पुज्जमाणो आसीससएहिं अग्घविज्ज-  
 माणो अक्खयसम्मिस्सकुसुमबुट्टिवरिसेहिं संपत्तो कमेण विवाहमंडवंति, अह मंडवदुवारेचिय पडिरुद्धो पडिहार-  
 जणेण सामन्नलोओ, पविट्टो पहाणलोएण समं अर्न्भतरंमि, विलयाजणेण ओमिलणपुवगं इत्ति विविहं पसाहिया  
 सा जसोयवररायकज्ञावि, तथाहि—

रमणफलगंमि तीसे आवद्धा पंचरायमणिकंची । अइविच्छिन्ने गयणंगणंमि हरिधणुहलेहव ॥ १ ॥  
 नयणेहिं कज्जलुम्मिस्सिरोहिं सइदीहरोहिं निद्धेहिं । पचक्खा सरयसरिच्च सहइ सा नीलनलिणेहिं ॥ २ ॥  
 फंठतलंमि य तीसे लोलंतो नवसरो वरो हारो । वयणिंदुविन्भमागयतारावलिलीलमुवइइ ॥ ३ ॥  
 तीसे जावयरसपंकपाडलं कोमलं चलणजुयलं । पलवजुयं व नज्जइ वम्महकंकिलसाहिस्स ॥ ४ ॥  
 भालतलंमि य तीसे लिहिओ गोरोयणाएँ वरतिलओ । तह दससु अंगुलीसु आविद्धं मुहियाजालं ॥ ५ ॥  
 इय सविसेसपसाहणपसरंतसरीरकंतिरंमणिज्जं । मंजुमणिनेउरारवसवणागयहंसखलियगई ॥ ६ ॥  
 मणिकुट्टिमपडिविचियमुहकमला मत्तकुंजरगईए । चलिया चेडीचकेण परिवुडा सा नरिंदसुया ॥ ७ ॥

पञ्चा य तक्खणागयपुरोहियारद्वजलणंकम्मंमि । नचवंदणमालामणहरंमि वरवेइगाभवणे ॥ ८ ॥

तत्तो पाणिग्गहणं पारदं गीयमंगलसणाहं । सयलतइलोकदावियपरमाणंदं महिहीण ॥ ९ ॥

एत्थंतरे उभयपक्खेहिवि काराविओं जणाणमुवयारो दावियाइं मिगनाभिपमुहसुरह्मिगंधविलेवणाइं सरभसरुंटंत-  
लप्पयपयनिवेसभञ्जिराइं कुमुमदामाइं सुरह्मिगंधवंधुरा पडिवासा भूरिकप्पूरपारीपहाणाइं पूगीफलसणाहाइं नागवल्ली-  
दलाइं देवंगधीणद्वचीणदोगुलपट्टपमुहाइं परवत्थाइं केयूरकुंडलकिरीडतुडियकडयाइणो आभरणविसेसा सिंधुतुरु-  
फवल्लीयवच्चरकंयोजाइमुखेत्तजायाओ तुरयवंदुराओ मंदभहाइविसिट्ठवंसप्पसूया महागयविसेसा, एत्थंतरे जलणे हुणि-  
ज्जमाणंमि महुययाईहिं कन्नावराण वित्तं चउत्पमंडलगपरिभमणं, ताहे सेणावइणा आणंदुच्छलियवहलपुलएण कोडी-  
वत्तीसं पवररुवस्स कणगस्स कुंडलकडिसुत्तयमणिकिरीडपमुहं तमाभरणं कचोलसिप्पिथालाइयं च कलहोयमयमंडं  
अइदूरदेससंभूयचित्तचेलाइं भूरिभेयाइं कन्नाए पाणिविमोयणंमि दिन्नाइं कुमरस्स, सिद्धत्यनरिंदेणवि बहुगाए  
कणगवत्यलंकारा परितोसमुघइंतेण वियरिया भुवगदुल्लंभा ।

एवं च सुरासुरनरपरितोसकारण वित्ते विवाहमहसवे कए भोयणाइसकारंमि सट्टाणेसु पडिनियत्तंमि रायलोए  
नियनयरमुवगयंमि मेहनायसेणावइंमि ससहरकरगोरपासायसिहरसंठियस्स उचियसमए दिव्वविसयमणुभुंजमाणस्स  
पुन्नपगरिसुप्पज्वंतर्चितियत्यस्स देवगणोवणिज्जमाणपवरवत्थगंधमलविलेवणालंकारस्स ववगयरोगायंकस्स कयाइ

सेवागयतुंवरुसमारद्धकलरवपंचमुग्गारसवणेण कयाइवि सायरपणचिरसुरवद्वपेच्छणयावलयणेण कयाइ गंभीरजण-  
विवायनिन्नयकरणेण कयाइ जणणिजणगसमीवगमणेण भगवओ वोळित्ति वासरा ।

अह गएसु कित्तिएसुवि संवच्छेसुवि आवन्नसत्ता जाया जसोवा, कालकमेण य पसूया सुकुमारचरणकरयलं चारु-  
रुवोवसोहंतसरीरावयवं तेयसिरिं व पचक्खं दारियं, कयं च समुचियसमए पियदंसणत्ति से नामं, सा य सायरमुव-  
टाळिज्जमाणा पवड्डिउमारद्धत्ति । अह भगवओवि वट्टमाणंमि अट्टावीसइने चरिसे पालियनिकलंकपासजिणपणीव-  
धम्मा अम्मापियरो कुससंधारयमारुहित्ता कयभत्तपचक्खाणा अपच्छिमसंलेहणाशुसियसरीरा तइयभवे अवरवि-  
देहंमि अवस्सपावियवनिवुइणो कालं कारुण अचुयकप्पे देवत्तेण उववन्ना, ततो सोगाउरेण नंदिवद्धणपमुहेण  
रायलोएण कओ तेसिं सरीरसक्कारो, कयतक्कालोचियकायवे य सट्टाणट्टियंमि तंमि अणिहं दहुं अपारंतोव पत्विओ  
अत्यमणगिरिं दिणयरो, सडणिकोलाहलरवेण रोविउमारद्धव संज्ञा, निस्सरंतभमररिंलोळिच्छलेण अंमुजालं व सुकं  
कमलायरोहिं, सडुक्खमहिलाजणमणुसासिउं व पयट्टा रयणी, विरहानलसंतत्तगत्तं रायलोयं निवविउकामोघ  
समुग्गओ ताराहिवो, अहापभायाए रयणीए समुग्गयंमि दिणयरे अशंतदुस्सहसोगावेगविचससरीरं पिव विरह-  
विदुरतेउरीपरिगयं नीसेससयणयग्गपरिवुडं नंदिवद्धणजुमरायं पेच्छिऊण भणियं भगवया-भो परिचयह सोयं,  
अणुचितह परमत्थं, निरत्थओ खु सोगो, जओ-अणिवारियसच्छंदसंचरणदुल्लिओ पंचाणणोघ कयंतो सुमिणगं व

गणदिद्वन्द्वं संजोगविलसियं माइंदजालरमियं पिय मुहुत्तमेत्तसुंदरं पेम्मं कोदंडलट्टिव गुणाणुगयावि कुडिळा कज्ज-  
परिणई संश्रुम्मगगोष अचिरायत्थाणं धणं महाभुयंगा इव दुत्तिमारा विविहरोगायंका, ता सबहा नत्थि किंपि  
एत्थं संसारे सोयणिव्वं पडिंघट्टाणं वा पवलं, एक्कं चिय अणुसरह विवेयं परिचयह भोगपिसायं कुणह कायवं,  
मवसाहारणो हि एस वइयोत्ति । एयं ते निसामिऊण वयणुपेमाणुवंधा सिद्धिलियसोयावेया जायत्ति ।

अन्नदियसे य जोइससत्थपरमत्यत्रियक्खणनिमित्तिगोवइट्टपसत्यमुहुत्तंमि पहाणलोगेण अणेगपयारेहिं भणिओऽवि  
जयगुरू जाय न पडियच्चइ रच्चं ताव नंदियद्वणो जभिसित्तो सिद्धत्वराइणो पए, पणमिओ नायक्खत्तियवग्गेणं  
पहु मत्तिओ नयरकारणिएहिं परियरिजो मामंतेहिं पडिवण्णो सेवगजणेणं पूइओ पचंतराईहिं, एवं जाओ  
गो महाराओत्ति ।

अन्नया व तं मयणवग्गाणुगयं भयवं भण्डिउमाडत्तो-भो पडिगुन्ना मम संपयं सुवपडियन्ना पइन्ना, कयं च सघं  
फरणिच्चं, ता सिद्धिलेह नेहगंठिं, होह धम्ममहाइणो, अणुमत्तेह मम सबविरइगहणत्वंति, अह वज्जासणिनिवडणदु-  
पिसहं निसामिऊण वयणमेयं भणियं तेहिं-कुमारवर ! अच्चवि महारायसोगो तहट्टिओ चेव अम्हाणं नट्टसत्तं व  
विइवइ हिययं, किं गुण अकाले चिय तुम्हेहिं सह विओगो खयक्खारावसेगोष दुस्सहो?, अहो मंदभग्गसिर-  
सेहरा अम्हे जेसिं उत्तरोत्तरा निवडइ दुक्खदंदोलित्ति भणिऊण रोविउं पवत्ता, बहुप्पयारं च सासिया महुरवय-

नेहिं भगवया, कहकहवि निरुद्धवाहृपवाहा य तक्कालचउग्गुणीभूयं संताववेगं निरुंभिऊण भणिउमाठत्ता—अहो परमे-  
 सर! करुणापरो हवसु अरुह जीवियवे, परिहरसु संपयं सधविरइवंछं, एयंपि काऊण तुमए पाणिणो रक्खणिज्जा, ते  
 य जइ पढमंपि दुस्सहविओगकरवत्तभिज्जमाणहियया रक्खिज्जिस्संति ता किमजुत्तं होज्जा?, तुम्हेहिं रहिया नूणं  
 अचगयलोयणच अमुणियग्ग्माग्ग्मविभागा षड्देसिगा इव अणाहा खणमेत्तंपि न संधीरेमो अप्पाणंति, भगवया  
 भणियं—जइ एवं ता सम्ममालोचिऊण भणह—केत्तियकालेण तुब्भे ममं दिक्ख्वागहणत्थमणुमन्निस्सह?, तेहिं  
 भणियं—संवच्छरदुगेणं अइग्गएणंति, भगवया जंपियं—एवं होउ, परं मम भोयणाइसु न तुम्हेहिं विसेसर्चिता कायघा,  
 तेहिं भणियं—एवं करिस्सामो, तओ तद्दिणाओ आरब्भ परिचत्तसधसावज्जवावारो सीओदग्गपरिवज्जणपरायणो  
 फासुयाहारभोई दुक्कवंभचेरपरिपालणपरो परिमुक्कण्हाणविलेवणपमुहसरीरसकारो फासुओदगेण कयहत्थपायपक्खा-  
 लणाइकायघो जिणिंदो ठिओ वरिसमेगं ॥ तर्हि च—

परिमुक्कभरणोऽविहु ण्हाणविलेवणविज्जिओऽवि जिणो । जुगवुग्गयवारससूरतेयलच्छि समुघहइ ॥ १ ॥

सयणोवरोहणेहेण धरियगिहसरिसधज्जवेसोऽवि । लक्खिज्जइ जयनाहो संजमरासिध पच्चक्खो ॥ २ ॥

सा फावि गिहगयस्सवि जिणस्स मज्झत्थया पवित्थरिया । जा निग्गहियमणाणवि मुणीण चित्तं चमकेइ ॥ ३ ॥

जुह वच्छरपज्जंते तिलोयचूडामणी महावीरो । वारिसियमहादाणं दाउं परिचित्तए जाव ॥ ४ ॥



सोहम्मदेवलोए सुहासणत्थस्स ताव सक्कस्स । रयणपहपसरपयडं झडत्ति सिंहासणं चलयं ॥ ६ ॥

तचटणे ओहीए सो नाउं नाहमाणसन्निकुप्पं । अइरमसभरवियंभियपुलउप्पीलंचियसरीरो ॥ ६ ॥

सिंहासणाओ उट्ठिय सत्तट्ट पयाइं संमुहं गंतुं । थोउं जएकनाहं चित्तेउमिमं समाढत्तो ॥ ७ ॥

मययं जिणवरवीरो आपरिसं दाणमीहए दाउं । तस्स य धणप्पयाणं जुज्जइ मह संपयं काउं ॥ ८ ॥

इय चित्तिऊण जक्खं वेसमणं आणवेइ वज्जहरो । निक्खमणदाणजोग्गं खिय कणगं जिणगिहंभित्ति ॥ ९ ॥

इमं थ सोवा घरणिवट्टुंविणा मत्थएण पडिच्छिऊण सुरिंदसासणं कयकिच्चमप्पाणं मत्तंतो वेसमणो तिरि-  
यजंभगे देवे आणवेइ, तेउचि तहत्ति विणएण पडिसुणित्ता जिणिंदमंदिरे तरुणतरणिसप्पगासं चामीयररासिं वरि-  
संति । तथो भययं पइदियहं तियचउक्कचरचउम्मुहमदापहपहेसु अत्तेसु य तहाविहट्टाणेषु बहूणं सणाहाण य  
अणाहाण य पंधियाण य करोडियाण य कप्पडियाण य वाहियाण य बइदेसियाण य रिणपीडियाण य दोगच्चसं-  
तावियाण य अत्तेसिंपि घणाभिलासीण अणियारियप्पसरं वरवरियाघोसणापुब्बयं कणगं सययं दवावेइ, तं च महया  
पंपेण दिज्जमाणं अट्टलक्खादिगएगहिरन्नकोडीमेतं एगदिणेणं निट्टविज्जहत्ति ।

अह मगहमसूरकलिंगवंगसोरट्टपमुहदेसेसु । अच्छिन्नमुवन्नमहापयाणओ पसरिया किच्ची ॥ १ ॥

ताहे जंपंति जणा परोप्परं तेसु तेसु ठाणेषु । चत्तह लहु भययंतं पेच्छामो तत्थ गंतूणं ॥ २ ॥

तवणिज्जपुंजलाभेण इह भवे विगयदुक्खमप्पाणं । कुणिमो परलोयंभि य तइंसणजणियपुत्तेण ॥ ३ ॥  
 परभवपरूढखरदुक्खनिवहसंतत्तसघगत्ताणं । अन्नो नत्थि उवाओत्ति अम्ह एसो हवउ सरणं ॥ ४ ॥  
 इय गेगेसुं मग्गणगणेसु इत्तेसु दूरदेसाओ । पूरियमणोरहेसुं अन्नेसु नियत्तमाणेसु ॥ ५ ॥  
 कुंडग्गामंमि पुरे रुंदासुवि तासु तासु रत्थासु । निद्वयनिद्वलियउरो दुक्खेण जणो परिम्ममइ ॥ ६ ॥  
 जत्थ निहाणे दिट्ठि पम्हलववलं परिकिखवइ वीरो । दट्टइ तत्थ हिरन्नं करुणारसगच्छेणं व ॥ ७ ॥  
 अत्थिजणपरिवुडे जिणवरंमि गेहंगणे भमंतंमि । परिसक्किरकप्पमहादुमव लक्खिज्जए पुहई ॥ ८ ॥  
 दाणे य जायणंमि य दायगतकुयजणेण सघत्थ । सरिसच्चिय उल्लाया वियंभिया देहि देहित्ति ॥ ९ ॥  
 एत्थ रयणुकर एसु ठवेहे एत्थ य पवित्थरे वत्थे । पूरेह एत्थ तवणिज्जपुंजए मग्गणनिमित्तं ॥ १० ॥  
 इय दाणनिउत्तजणस्स पइदिणं किंकरे भणंतस्स । पुणरुत्तो वावारो जाओ संवच्छरं जाव ॥ ११ ॥  
 असल्लियपसरं त्तिरिजिणवरेण दिंतेण दुत्थियाण घणं । सेसाणवि पयडिज्जइ सिवपुरपंथी धुवं एत्त ॥ १२ ॥  
 सघावायनिबंधण घणेवि जो कुणइ मोहिओ मुच्छं । सो दुक्करतवचरणे अत्ताणं कह व संठविही ? ॥ १३ ॥  
 ता जिणवराणुमाणेण सघचिरइं समीहमाणेण । अन्नेणवि एवं चिय पयट्ठियघं सइ घणंमि ॥ १४ ॥  
 एवं च दाणे अणुदियहं पयट्ठमाणे नंदिवद्वणनरिंदो नियपुरिसे सहावेत्ता एवं आणवेइ-मो भदा ! एयस्स नय-

रस्स तेसु तेसु पएसेसु वहुओ महाणससालाओ काराविऊण विउलं असणपाणयाइमसाइमरुवं आहारं उवक्ख-  
डेह, तयणंतरं च जे जहागच्छंति सुहाभिभूया तण्हापरिसुसियकंठा पासंडत्था गिहत्था वा अन्ने वा तहारूवा  
तेसिं तहा आसत्थाणं सुहासणगयाणं हरिसुप्फुल्लोयणाणं तं चउच्चिहंपि आहारं सघायरेण दवावेह, तहा ठाणे  
ठाणे मुंचह मंदभहाइजाइणो करिणो चउद्विसं संठवेह सूररहतुरयविच्चमे पवरतुरंगमे सबत्थ पयडह रहनिवहे  
पएसे पएसे मेळह पवरपट्टणुग्गए वत्थसमुदए दंसेह गामागराइणो संनिवेसे, एएहिंतो जो जं समीहेइ तस्स तं  
वियरहत्ति, जं देवो आणवेइत्ति भणिऊण निग्गया पुरिसा, समारद्धो सबत्थ नरिंदाएसाणुरूवो उवक्कमो । अह  
अनिवारियवेरिए समगणियरायरोरे अमंदाणंदसंदोहजणणे भगवओ पयट्टे संवच्छरियमहादाणे एत्तियं अत्थो  
सघसंखाए गओ—

तिन्नेव य कोडिसया अट्टासीयं च होति कोडीओ । असियं च सयसहस्सा सघग्गेणं दविणसंखा ॥ १ ॥

इय मग्गणलयं तप्पिऊण आवरिस कणगवरिसेण । पवज्जापडिवत्तिं कुणइ मणे जिणवरो वीरो ॥ २ ॥

अह वंभलयकप्पे रिट्ठंमि विमाणपत्थडे विउले । दिव्वविमाणोवगया एए देवा महासोक्खा ॥ ३ ॥

सारस्सयमाइच्चा वण्ही वरुणा य गहूतोया य । तुसिया अच्चावाहा अग्गिच्चा चेव रिट्ठा य ॥ ४ ॥

तक्खणविचलियसीहासणा य ओहीए नायनियकिच्चा । नियनियपरियणसहिया झडत्ति जिणपासमल्लीणा ॥ ५ ॥

विणयपणमंतमत्थयगलंतमंदारसुरहिकुसुमभरा । तत्थाहिं गिराहिं जिणं धोउं एवं समारद्धा ॥ ६ ॥  
 जयसि तुमं मयरद्धयसिंधुरस्वरनहरदारुणमइंद । चरणगगचालियाचलसंखोभियसधरधरणियल ॥ ७ ॥  
 नियफज्जपांमुहभुवणरक्खणक्खणिय । परमकारुणिय । नायकुलकमलवणसंडचंडमायंड । तुज्झ नमो ॥ ८ ॥  
 जह लोयालोयगयंपि नाह । तं मुणसि यत्थुपरमत्थं । तह किं कयाइ जाणइ मंदमई मारिसो लोओ ? ॥ ९ ॥  
 अहवा हेलुछासियकरपसरनिरुद्धतिमिरनियरस्त । सूरस्त पुरो खज्जोयगाण का होइ देहपहा ? ॥ १० ॥  
 तहपि य निययाहिगारं नाह । कलिऊण नूणमम्हेहिं । सुमरणमेत्तनिमित्तेण तुह इमं सीसए किंपि (सामी) ॥ ११ ॥  
 पघज्जं पडिवज्जमु भयरुयसंतत्तगत्तसत्ताणं । तित्थंकर ! तित्थमणत्थमंधणं लहु पयट्ठेसु ॥ १२ ॥  
 अइमूढकुत्तित्थियदुट्ठदेसणातिमिरनियरअंतरियं । पयडेसु मोक्खमग्गं निरुवमनाणप्पईवेण ॥ १३ ॥  
 अइभूरिचिचित्ताइसयरयणकारुन्नवारिभरियाओ । वयणामयं पगिण्हउ लोओ तुह सायराउष ॥ १४ ॥  
 निस्सामन्नं सामन्नभावमायन्निऊण सयलजणो । रोमंचकंचुइछो आकप्पं तुह कइं कहउ ॥ १५ ॥  
 इय सविणयदेवगणोवइट्ठकायघदुगुणिउछासो । जाओ जएकचक्खू सविसेसं मोक्खसोक्खमई ॥ १६ ॥  
 एवं च विन्नविऊण सट्ठाणं गएसु लोगतियतियसेसु उट्ठिऊण भयवं सीहासणाओ पासवत्तिणा परियणेण अणु-  
 गम्ममाणो गओ नंदिवद्धणपमुहाणं नायखत्तियाणं समीवे, तेऽपि जिणर्मितं दट्ठूण सत्तट्ठ पयाइं गया सम्मुहं, कया

उचियपडिवत्ती, दवावियं महप्पमाणं सिंहासणं, निसन्नो जिणो, अणुरूयासणेसु य जहक्कमं उवविट्ठा नंदिवद्धणाइणो ।  
 तओ ते भगवया अमयविंदुसंदोहसुंदरीए सभावमहुराए अपुणरुत्ताए गंभीराए भारईए मणिया, जहा-भो देवाणु-  
 प्पिया ! पडिपुत्तो तुम्हाणमवही, जाओ पत्थावो मम सघविरइपडिवत्तीए, ता सहरिसं अणुमन्नह इयाणिं, मुयह  
 पेमाणुबंधं, निट्ठुरं कुणह विओगकायरं नियमणंति, ते य एवमायत्तिउण गाढमण्णुपरिपूरिज्जमाणगलसरणिणो कह-  
 कहवि निरुद्धसोगावेगा अणवरयनिस्सरंतनयणंसुविंदुजालच्छलेण पणयप्पव्भारं व चिरं उग्गिरिऊण भणिउमाढत्ता  
 -मयवं ! तुम्ह एवं भणंता वज्जमया धुवं अम्ह सवणा जं न संपत्ता वहिरत्तणं, चइरसारप्परमाणुविणिम्मियं हिययं  
 जं न वचइ तडत्ति सयसिक्करत्तणं, निइक्खिन्नत्तणपरममंदिरं व सरीरमिमं जमज्जवि न पवज्जइ रसायलगमणं, एवं  
 ठिए य फ्हं पत्थुयत्थाणुमन्नणनिमित्तं पयट्टउ वराइणी वाणी, जओ-को होही विसमकज्जोयहिनिवडिराण अम्ह  
 हत्यावलंओ ? कहं वा ससुरासुरनरनरिंदसंदोहवंदणिज्जपायपंकेरुहेण तुमए विरहियं भुवणत्तयपयंडं सोहिस्सइ  
 नायखत्तियकुलं ? अहो महामंदभागिणो अम्हे जेसिं करपलाओऽवि अवक्कमइ रयणंति, एवमाईणि कलुणवयणाणि  
 भासिऊण निरभिलासा चेव निवडिऊण चलणेसु भगवओ विन्नत्तिं फाउं पवत्ता—

जइवि जिणनाह ! तुम्हे पवज्जं काउसुज्जमह इणिंह । तहविहु अम्ह सुहट्ठा पडिवज्जंह निक्खमणमहिमं ॥ १ ॥  
 तेसिं उवरोहेणं तओ जिणिंदो इमंपि पडिसुणइ । अब्भत्त्यणभंगपरंसुहाईं हिययाईं गरुयार्णं ॥ २ ॥

अह नंदिवद्वणनरिदेण भणिया नियपुरिसा-अरे सिग्धं महरिहं भगवओ अणुरूवं अभिसेओवगरणं उवाह-  
 रेह, जं देवो भणइत्ति सम्मं यडिसुणिऊण निग्गया पुरिसा, पउणीफया अट्टोत्तरसहस्ससंखा अणेगे सुवन्नाइ-  
 कलसा, उवाहरियाइं समत्थपसत्थतित्थसमुत्थाइं सलिलाइं, उवणीयाओ परमोसहीओ, पणामिया गोसीसचंद-  
 णाइविलेवणविसेसा, एत्थंतरे चलियासणा वत्तीसंपि पुरंदरा विम्बियमणा ओहिणाणसामत्थमुणियपरमत्था  
 तक्खणं महप्पमाणविमाणारूढा वियसियसयवत्तविसाललयणा अहचंदणाणुलित्तगत्ता नियंसियसिलंधपुप्फसुह-  
 फरिसपवरदूसरयणा कुंदसंखदलदगरयधवलदंतपंतिरेहंतवयणा अंजणपुंजघणमसिणरुयगरमणिज्जेसपासा भइजो-  
 षणे वट्टमाणा मऊहपडलपल्लवियचूडामणिपसाहियमत्थया अणेगरूवाभरणभूसियसरीरा सोमचारुरूवा छत्तचिंधाइ-  
 विविहककुहधारिणो असंखदेवकोडिचडगरपरियरिया पडहसुइंगकाहलतिलिमडुडक्काइत्तूररवभरियंवरा जिणिंदस्स  
 अंतियं समागया, तिपयाहिणादाणपुच्चगं च पणमिऊण पराए भत्तीए पट्टणो पायपंकयं कयत्थमप्पाणं मन्नंता  
 जिणचरणमुद्दाविन्नासमुंदरे निसन्ना भवणंगणे ।

अह अचुयामरिदेण हरिसुल्लसंतदेहेण भणिया नियनियदेवा-भो सिग्धमेव निवत्तह जिणस्स महावीरस्स जोग्गं  
 महंतं निक्खमणाभिसेयं, ते य एयमायन्निऊण कययणामा अणेगकणयाइकलसे खीरोयसलिलपडिपुत्ते असंखपुप्फप-  
 डलाइं च अन्नं च तहप्पगारमभिसेयपाओग्गं पहाणवत्थुनिवहं अचुयसुराहियस्स पणामेत्ति, तओ अचुयतियसाहिवो

सयलनियदेवपरियरिओ तेहिं दिषेहिं कणयाइकुंभेहिं अट्टसहस्ससंखेहिं दिवोसहिसुगंधगंधुम्मिस्सेहिं मंदिरद्वियं  
भयवंतं हरिसवियसियवयणो अभिसिंचइ, एवं कमेण सेसावि सुराहिवइणो चंदसूरपज्जंता ण्हवंति जयगुरुं, अह तेसु  
मज्जणं काऊण सट्टाणद्विपसु नंदिवद्वणो राया कयमुहकोसविन्नासो परेणं विणएणं अचंतमप्पमत्तचित्तो तेहिं पुषो-  
षणीएहिं चामीयराइकलससहस्सेहिं गंधुदुरपवरतित्थजलभरिएहिं मज्जेइ जिणवरं, तथा वट्टमाणे य भगवओ मज्ज-  
णमहसवे केइ सुरिंदा चालिंति मंदं मंदं चामीयरदंडुडामराओ चामराओ केवि धारिंति नियधवलिमाविजियसिय-  
सययत्ताइं आयवत्ताइं केवि संमुहमभिद्वारिंति पणट्टखंपणं पधरदप्पणं केवि करयलेणुवहंति सुगंधखीरोयसलिलपुत्र-  
पिहाणपउमगंधुफडे कुडे केवि उप्पाडेंति डज्जंतागुरुपणसारसुराहियुवधूमंधयारलंछियं पंचवन्नरयणधूवकहुच्छुयं केवि  
समुषइंति परिमलमिलंतालिसामलाओ दसद्धवन्नकुसुममालाओ, अन्ने देवा य देवीओ य भगवंतं अभिसुहद्वियाओ पज्जु-  
वासिंति । अह निषत्तियम्मि मज्जणे नंदिवद्वणो राया दोचंपि उत्तरावक्कमणं सीहासणं विरयावेइ, तत्थद्वियं च भयवंतं  
सेयापीयकलसेहिं ण्हवेइ, तयणंतरं च णं अलंकारियस्स पुषाभिसुहसीहासणसन्निसन्नस्स सामिणो सुरभिसुकुमालंगंध-  
फासाइल्लहियसरीरस्स गोसीससरसचंदणचचियंगस्स परिहियनिरुवहयफलिहुज्जलदिवदेवदूसजुयलस्स निवद्धपंचराय-  
रयणफडिसुत्तयस्स कणगसेलसिलाविच्छिन्नवच्छत्थलघोलंतविमलमुत्ताहलकलावस्स विचित्तमणिखंडमंडियकुंडलुज्जो-  
वियगंडयलस्स रयणुकडकिरीडविभुसियसिरस्स पंचवन्नपुष्फमालालंकियस्स पाक्खित्तमुगंधवरवासस्स भगवओ वट्टमा-

णस्त वंदिऊण चलणजुयलं सुरासुरिंदा पुणो पुणो धरणियलनामिउत्तिमंगा आसीसासएहिं थुणिउं पवत्ता, कैहं ?—

विजयसु जएकबंधव । तसुरासुरतिहुयणेणवि अजेयं । अचंतमहहं मोहमहमचिरेण लीलाए ॥ १ ॥

मिच्छत्ततिमिरमुच्छिदिऊण सन्नाणसूरकिरणोहिं । पयडेसु मुत्तिमग्गं विमग्गलग्गाण भवाण ॥ २ ॥

पालेसु समणधम्मं चिरकालं जाव निग्गयपयावो । अजियं जिणेसु मज्झे जियस्स निवससु तुमं नाह ! ॥ ३ ॥

तुह अणवरयं गुणनिवहकित्तणारावओ विबुहलोगो । सबत्तो दिसिधलयं पकुणउ कोऊहलाउलियं ॥ ४ ॥

तुज्झ जसो कुमुओयरगोरो भुवणत्तएवि हिंडंतो । सबत्तो उग्गयचंदविंवसोहं समुवहउ ॥ ५ ॥

सिंहस्स व तुह अचंतविक्रमं पेच्छिऊण तरलच्छा । भीया कुत्तिधियमिगा एत्तो दूरे पलायंतु ॥ ६ ॥

इय आसीवायपुरस्सराहिं थुणिउं गिराहिं भुवणगुरुं । नट्टविहिं च पयट्टिव विरयंमि सुरिंदविंदमि ॥ ७ ॥

भावियजयगुरुविरहग्गिदूमिओ नंदिवद्धणो राया । वाहरिउं नियपुरिसे पयंपिउं एवमाढत्तो ॥ ८ ॥

भो भो देवाणुपिया ! जगपहुणो निमित्तं विसिद्धवेइगापरिक्खित्तपरिसरं सरसचंदणुम्मिस्सधुसिणरसालिहिय-  
विविहसत्थियं थिरनिवेशियसपायपीढनानामणिमयसीहासणं रणंतकणयकिंकिणीमहुरनिनायमुहलियदियंतरं रंगंत-  
विविहचिंधसयसंपुन्नं पत्तासधणुहायामं पणुवीसधणुविच्छिन्नं छत्तीसधणुमुविद्धं चंदप्पभनामधेयं सीयं उवट्टवेहत्ति ।  
तओ ते सामिवयणं निसामिऊण पहिट्टुहियया तहत्ति सधं निवत्तंति ।



पत्यंतरे तियसादिवेण हरिसुलसंतहियएण । पवरमणिखंडमंडियमहंतखंभापलीकलिया ॥ १ ॥

पंचविहरयणकिरणोद्विहियदिसिदिसिमुर्दिदकोदंडा । चंदप्पभाए तुळा कारविया नियमुर्दिहंतो ॥ २ ॥

मुवणच्छेरयभूया सिविगा लंयंतमोत्तिओज्जला । नवरं इमावि तं चिय पढमं सिविगं अणुपविट्ठा ॥ ३ ॥ त्रिभिर्विशेषकम् ॥

अह भयपं केसालंकारेण यत्वालंकारेण आभरणाळंकारेण मल्लालंकारेणालंफिओ कयउट्टतवोकम्मो उट्टिऊण आस-  
णाओ अणुप्पयाहिणीकुणंतो चंदप्पहं सीयमारुदित्ता पुष्पाभिमुहंमि सीहासणे निसीयइ, तओ भयवओ कुलमहरिया  
ण्हाया सुइभूया गहियपवरनेयत्या हंमलयखणं साडयं आदाय सामिस्स दाहिणे पासे महासणंमि निसन्ना, एं  
अम्मपार्श्वि चागपासे संठिया, तहा सामिस्स पिट्ठओ एगा वरतरुणी विचित्तसिंगारागारभूयं महंतं विमल-  
मुत्ताजान्दलंयंतायचूलयं पुंडरीयदंडं लत्तं धरेमाणी ठिया, उभयपासेसु य दुवे वरविलासिणीओ धोयरुप्पपट्टघवलं  
चामरजुयलं गहाय संठियाओ, उत्तरपुरत्थिमंमि य भागे एगा अशंतदरिसणिज्जा विलया निम्मलसलिलपडिपुत्रं  
मुरकरिऊरेहंतनालागारं रययभिंंगारमुषहंती निसन्ना, एं दाहिणपुरत्थिमेणं एगा वरमुंदरी विचित्तमणिकिरण-  
जालं मुयंतं फणयदंडं तालयंतं करयलेण फलयंती दूरुद्धा, पिट्ठओ य मुवणनाहस्म भगवओ देविंदा हिमरययकुंद-  
दुप्पगामाइ वेगलियमयदंडाइ जट्टमहस्सकंचणमलागाइ सवरयणामयाइ कुसुमदामदंतुराइ आयवत्ताइ धंरिंति,  
उभयपांभेसु चंदप्पहसीयाइ मोहम्मादियो ईसाणो य अमवहिमफेणुपुंजसन्निगासेहिं चामरेहिं भयपंतं वीयंति ।

एतन्तरे नंदिवद्वणनरवङ्गो वयणेण पवररूवा निरुवहयगा ण्हाया कयविलेवणा परिहियपवरवत्या सवॉलंकार-  
मणहरसरीरा विसिद्ववल्सालिणो समवया पुरिसा समूससियरोमंचकंचुया कयसषरूयया नीसेसपुन्नपगरिसमप्पाणं  
मन्नमाणा सहस्ससंखा झडत्ति आगंतूण तं सीयमुक्खिसवंति, जह पचंतीए तीए सोहम्माहिवई सुराहिवो दाहिणिल्ल-  
मुवरिल्लनाहं गिण्हइ, ईसाणोऽवि देविंदो उत्तरिल्लवाहं, चमरवल्लिणो व असुरिंदा दाहिणुत्तरसिक्खिगाहेट्टिल्लवाहाओ  
समुपइंति, जयसेसा भयणवइयाणमंतरजोइसयेमाणिया व जहारिहं सीयमुक्खिसवंति । किं वहुणा ?—

पुधिं उक्खिसत्ता माणुसेहिं साहट्टरोमकूवेहिं । पच्छा वहंति सीयं असुरिंदसुरिंदनार्गिंदा ॥ १ ॥

गेहाओ नीहरंते जिणंमि चाउधिहेहिं देवेहिं । इंतेहि य जंतेहि य कहमिव उच्चासियं गयणं ? ॥ २ ॥

वणसंडोष कुसुमिओ पउमसरो वा जहा सरयकाले । सोहइ कुसुमभरेणं इय गयणयलं सुरगणेहिं ॥ ३ ॥

सिद्धत्तयवणं व जहा असणयणं सणवणं असोमवणं । चूयवणं व कुसुमियं इय गयणयलं सुरगणेहिं ॥ ४ ॥

जयसियणं व कुसुमियं कणियारवणं व चंपगवणं वा । तिलयवणं व कुसुमियं इय गयणयलं सुरगणेहिं ॥ ५ ॥

वरपडहभेरिञ्जल्लरिदुंदुभिसंखाइत्तरनिग्घोसो । धरणियले गयणयले पयट्टिओ देवमाणुएहिं ॥ ६ ॥

एवं च सुवणबंधवस्स वचगाणस्स तप्पढमयाए सधरयणविणिम्मविया पुरओ अहाणुपुवीए सोत्थियाइणो  
जहंगलगा संपट्टिया, तयणंतरं च पुन्नकलसभिंगारा दिवा सच्छत्तपडागा गयणतल्लुंबिणीओ पयणरूपमाणं-

चलाओ महावेजयंतियाओ संपट्टियाओ, तयणंतरं वेरुलियविमलदिप्पंतदंडं पलंबकोरिंदमालोवसोहियं चंदमंड-  
 लाणुरुवं समूसियं दिवमायवत्तं, पवरसिंहासनं च समणिरयणपायवीढं मणिमयपाउयाजोगसंपजुत्तं बहुकिंरुनरपरि-  
 ग्गहियं संपट्टियं, तयणंतरं च ललियपुलियलंघणजघणगईणं लोलंतलासगललामंवरभूसणाणं फणयमयमुहनिजोगजु-  
 त्ताणं उज्जलगघासगमंडियकडीणं तरुणपुरिसपरिक्खित्ताणं अट्टसयं जच्चतुरगाणं अहाणुपुषीए संपट्टियं, तयणंतरं  
 च सत्तंगपइट्टियाणं भइजाइसमुम्भवाणं सवलक्खणोववैयाणं कंचणकोसीपविट्टकलहोयधवलदंताणं कंचणमणि-  
 तारगाभूसियाणं कुसलारोहसंपउत्ताणं अट्टसयं उत्तमकुंजराणं संपट्टियं, तयणंतरं च सत्तत्ताणं सज्झयाणं सयंटाणं  
 सपडायाणं सत्तोरणवराणं सनंदिघोसाणं हिमवंतुग्गयत्तिणिसदारुनिम्मियाणं सुसिलिट्टचकमंडलधुराणं जोत्तियपव-  
 रतुरंगाणं रणज्झणंतकिंकिणीजालाणं घत्तीसत्तोनपरिमंडियाणं चावपमुहपइरणनिवहगरियाणं अट्टसयं रहाणं अहा-  
 णुपुषीए संपट्टियं, तयणंतरं निविडपरियराणं करयलकलियविविहाउहाणं निययविकमोवइसियसेसभडाणं पुरिसा-  
 णमट्टमयं संपट्टियं, तयणंतरं च अपरिगणियसंखं हयाणीयं गयाणीयं रहाणीयं पायत्ताणीयं च पहावियं, तयणंतरं  
 च पंचवत्तकुडभीसहस्सरुलिओ वइरमयवट्टलट्टजट्टिपइट्टिओ विचित्तलत्ताइच्छत्तपरिक्खित्तो रंतंतभमरकुसुममाला-  
 मंडिओ अनिलदोलिज्जमाणघंटियापडलमणहरारावपुरियनहविचरो जसयुंजोव सुत्तिमंतो सुत्तिमग्गोव पयडो नियगु-  
 रुयत्तणेण गयणं च परिमिणंतो सायरसुरनिसरसंपरिग्गहिओ ज्ञोयणसहस्ससिओ महिंदज्झओ संपत्थिओ, तयणंतरं

च अन्ने य वहवे दंडिणो मुंडिणो सिंहंडिणो हासकरा खेडकरा चाडुकरा गायंता य वायंता य नचंता य रमंता य  
 हसंता य जयजयसहं पडंजमाणा मंगलसहस्साइं कुणमाणा गुणगणं शुणमाणा संपत्तिया, तयणंनरं उग्गा भोगा  
 रायज्ञा सत्तिया सेट्टिणो सत्थवाहा पुरिसनियरपरियरिया केइ पायविहारेणं केइ रहगया केइ तुरगाधिरूढा केइ कुंज-  
 रपट्टिसन्निसन्ना केइ जाणजंपाप्पाइगया सामिस्स पुरओ मग्गओ य संपट्टिया, तयणंतरं अन्ने य वहवे देवा य  
 देवीओ य सएहिं सएहिं विमाणेहिं सएहिं सएहिं चिंधेहिं सएहिं सएहिं परिवारेहिं समंतओ संपट्टिया, नंदिवद्ध-  
 णमहानरिंदोऽवि कयमज्जणो विहियसिंगारो गंधसिंधुरखंधगओ समूसियसियायवत्तो धुवंतधवलचामरो हयगयर-  
 हओहसेणापरिकिन्नो पिट्टओ भयवंतं अणुगंतुमारद्धो ।

एवं च नियनियट्टाणगयसुरासुरनरनियराणुगम्ममाणो वद्धमाणो सत्तरयणिप्पमाणसरीरो समचउरंससंठाणसं-  
 ठिओ वज्जरिसहनारायसंधयणो कमलुप्पलसुरहिनीसासो जलमलकलंकसेयरयदोसवज्जियत्तणू वेहप्पभापग्गारभा-  
 सुरियदिसिचक्कालो भिंमनीलफज्जलभसलसामलपसत्थमुहुमनिवद्धनिउरंवनिचियकुंचियपयाहिणावत्तकेसो अद्धयं-  
 दसमनिडालवट्टो पमाणजुत्तसुंदरसवणो चानदंडकुडिलभसुहो धवलपत्तलवियसियपुंडरियनयणो गरुडायवउज्जुतुं-  
 गनासो विपक्कविंवाफलसंनिभाधरोट्टो संखगोखीरमुत्तामणिधवलसुसिलिट्टसमदंतपंती पीणमंसलकवोलजुयलो सज-  
 लपणत्थणियदुंदुभिनिग्घोसगंभीरसरो दाहिणावत्तरेहावलयालंकियसुप्पमाणकंठकंदलो वणमहिससीहसहूलपडि-

पुनःपट्टसंधो सुदुमलोमरेहंतमंसलपलंबवाहुदंडो संजमलच्छिनिवाससुभगविसालयच्छत्यलो पवररोमराइरेहिरगंभी-  
रनाहिसोहियमज्जभागो पट्टाणुपुपोयचियचारुजंधो सुसिलिद्वगूढगुंफो नगनगरमगरसागरचकंकुसमच्छाइलकखण-  
लंछियचलणतलो परिचत्तपाणभोयणेसु पासायसिहरमारूढेसु चेलुक्खेवं करेतेसु पुरजणेसु कुसुमनियरं मुंचमाणेसु  
गयणद्वियतियसेसु सप्पणयपणचमाणेसु विज्जाहरीसु मंगलमुहलेसु वारविलयासत्थेसु दिज्जमाणेसु सव्वकामुयदा-  
णेसु गोत्तमुफित्तमाणेसु देवचारणेसु कमेण संपत्तो नायसंडाभिहाणंमुववणंमि । तं च केरिसं ?—

पढमुम्मिद्विरपल्लवसोहिलमहडपायवसमूहं । सधोउयकुसुमसमिद्धगंधवायंतमिउपवणं ॥ १ ॥

तरुणंतरुसंडपत्तलसाहापडिरुद्धसूरकरपसरं । जचंतरम्मयागुणरंजियपरिमगियसुरखयरं ॥ २ ॥

दिसिगुहपनियंभियकुसुमपरिमलायहिया भमरनियरा । उज्जाणंतरविहरणपरंमुहा जत्थ कीलंति ॥ ३ ॥

जं जिणमितं नाऊण पत्रणडोलंतपल्लवकरोहिं । चिरकालदिद्वपियमाणुसं व तं वाहरइ तुरियं ॥ ४ ॥

मयभरपरवससिहिकलरेण जं सागयं व वागरइ । निवडंतकुसुमनियरुक्केण अग्धं व दावेइ ॥ ५ ॥

इय निययचंगिमाविजियनंदणुज्जाणरम्मायगुणस्स । जयनाहचलणपूयस्स तस्स का वणणणा होउ ? ॥ ६ ॥

एवंयिहंमि तत्थ आगंतूण सिवियाओ जौयरिऊण सामी असोगवरपायवस्स मूले सवमेव अलंकारकुसुमनिवहं  
जोमुयइ, सा य कुलमयहरिया हंसलक्खणेणं पवरसाडणं तं पेच्छमाणी छिन्नमुत्ताकलावगलंतमुत्ताहलविग्गमाइं

अंसुयाइं विणिम्भुयमाणी सदुक्खं रोयमाणी मन्नुभरखलंतक्खराए गिराए भयवंतं भणिउं पवत्ता—

कासवगोत्तुम्भूओऽसि पुत्त ! सिद्धत्थपत्थिवमुओऽसि । नायकुलनहवटामलसारयरणीमयंकोऽसि ॥ १ ॥

चासिट्टसगोत्तुम्भवतिसटादेवीए कुच्छिजाओऽसि । खत्थियजणत्तिलओऽसि य ननजोघणदिवदेहोऽसि ॥ २ ॥

गच्चभावत्थाओचिय अइसुकुमालोऽसि सुंदरंगोऽसि । अप्पडिमरूत्रलायन्नकंतिपम्भारकलिओऽसि ॥ ३ ॥

त्तिहुयणविक्रयायजसोऽसि सयलविन्नाणनीइनिउणोऽसि । ता कहमिममइदुक्करतवकम्मं संपवज्जिहिसि ? ॥ ४ ॥

इह असिधारसरिच्छं महघयं वच्छ ! अणुचरेयघं । घोरोत्तसग्गवेयणनिवहाओ न माइयघं च ॥ ५ ॥

सुडुंलतुच्छभोयणवित्ती निचंपि एत्थ कायघा । गामागराइसु तहा पडिवंधमई विमोत्तघा ॥ ६ ॥

इय वच्छ ! तुज्झ साहेमि केत्थियं मुणियसयलभावरस । तह कहमि पयट्टेज्जु जह सिवसोक्खं लहुं लहसि ॥ ७ ॥

एत्थंतरंमि नीसेससयणवग्गेण परिगओ राया । आणंदामंदगलंतनयणवाहप्पवाहेण ॥ ८ ॥

अभिवंदिऊण चरणे जिणिंदसिखिद्धमाणसामिस्स । एगंतमयइंतो दुस्सहविरहग्गिसंतत्तो ॥ ९ ॥

कुलमयहरियावयणं तहत्ति पडिसुणिय जिणवरो धीरो । सयभेव पंचमुट्ठियलोयं काउं समारद्धो ॥ १० ॥

ते यं केसे सामिकरयलपल्हत्थिए, सुरिंदो निवदेवदूसंचलेणं ईसिखिणभियसरीरो सग्गं पडिच्छइ, कमेण यं निवत्ति-

यंमि लोयकम्भे जिणं अणुन्नविऊण तं कुंतलकलावं मेहपडलं व सामलं दुज्जणहिययं व कुडिलं खीरोयसल्लिडे पक्खिचइ,

दिपतूरनिनायं मणुस्ममंगलुगैरहलवोलं च निवारेइ, अह मग्गसिरकिण्हदसमीए पच्छिर्नण्हसमए हत्थुत्तरनक्खत्ते वट्ट-  
 माणे तयमेर संबुद्धो भयं नभोत्थु णं सिद्धाणंतिक्कहु करेमि सामाइयं सबं सावज्जं तिविहं तिविहेणं योसिरामित्ति चारित्तं  
 पडिवत्तए, एत्थ य पत्थावे अंवरत्तलट्टिएण भूमितलगएण य देवदेवि विज्जाहरनरविसरेण विमुक्को भगवओ चाउदिसिंपि  
 संत्तारमुहलभसलविलुण्णमाणो सुगंधियसयलजीयलोओ पिंगलियगयणमंडलो पवरवासच्चुत्तो, वहलधूमसिहाजालुच्छा-  
 इयदिसामुद्धो ठाणठाणेसु ठविओ उच्छंतागुरुकुरंगमयमीणुग्गारकप्पूरधूवघडियनिवहो, पहयाओ असंखसंखघोमु-  
 म्मिस्सभंभानुइंगमदलत्ताहलातिलिमहुहुफडकाओ, फओ य निब्भरभरियभुवणंतरालो जयजयास्वोत्ति ॥

अह चत्तरसणभूत्तणगलस्स पुरंदरेण जयगुरुणो । पामंसतले नसियं जदूसियं देववरदूसं ॥ १ ॥  
 नीसामत्ते सामन्नगुरुभरे तह जिणेण उक्खित्ते । काउं साहिज्जंपिव मणपज्जवणाणमुप्पणं ॥ २ ॥  
 ओलंनियथुयपरिहो चाउं निक्कसियमोहमाहप्पो । मेरुघ निप्पकंपो काउस्सग्गे ठिओ भयवं ॥ ३ ॥  
 चउविहदेवनिकाओ नयरजणो नरपई य नमिऊण । जयनाहं भत्तीए नियनियठाणे पडिनियत्तो ॥ ४ ॥  
 इय उत्तमगुणगणवद्धमाणंसिरिवद्धमाणचरियंमि । सग्गापवग्गसंगमलच्छीण निवासभवणंमि ॥ ५ ॥  
 गग्गावयारजम्मणदिक्खाकल्लाण रुहणपडिवद्धो । संपत्तो पज्जंतं चउत्थओ एस पत्थावो ॥ ६ ॥

इइ सिरिगुणचंदसूरिरइए सिरिमहावीरचरिए गग्गावयारजम्मदिक्खाकल्लाणगमओ चउत्थो पत्थावो

माविरमणत्यसत्यं पेहंताविदु सद्युद्विबिहवेण । धीरा सहरिसमणिसं पत्थुयवत्थुं समत्यंति ॥ १ ॥

इति विभाविऊणं व भविस्तोवसग्गवग्गसंसग्गासंखुद्धमाणसो महावीरजिणवरो गंभीरिमाइगुणरयणागरो  
वरोहधरिएकचारुवसणो मग्गणगणपूरिआसोऽवि निवाणकरो सुकतुरयचारोवि दूर-  
परिचत्तपरिग्गहो परिहरियकरिवरोवि मत्तकुंजरगमणो भयवं आपुच्छिऊण अहास-  
त्रोहयं नायवग्गं नायसंडवणाओ निग्गओ, कमेण य अतुरियं जुगमित्तनिहितचक्खुपसरो मुहुत्तावसेसंमि वासरे  
कुम्मरगामं नाम संनिवेशं पाविओ, ठिओ य एगंते काउसग्गेणंति ।

इओ च सिद्धत्वरायवालवयस्सो कुंडगामपुरवत्थवो महाजुयवसणविणासियासेसतहाविहदवनिचओ भोगोव-  
भोगलालसो असंपज्वंतवेळियत्थो सोमो नाम वंभणो शीणविहवत्तणेण अचयंतो परिचियजणमज्झे निवसिऊण  
गिहे मोत्तूण वंभणिं गओ पइरागराइसुं दधोवज्जणनिमित्तं, तत्थ य अइनिविडत्तणओ अंतराइयकम्मस्स अचंतपवं-  
लत्तणओ असायवेयणिज्जस्स निष्फलत्तणओ पुरिसयारस्स अवस्सं भवियधयाए तहाविहभावस्स सुचिरं कालं परि-  
भमियस्सवि तेषु तेषु ठाणेषु न तस्स काणकवुद्धयमेत्तावि संपत्ती जाया, समइकंताणि य आसापिसायनडियस्स  
वहइं वच्छराइं, अण्णया य—

धवलवलायादीहरुवयणो अह तरलियविज्जुलियनयणो । कलियसुररायघावो अज्जणगिरिसिंगसारिच्छो ॥ १ ॥



परिमुक्तगजिधोरट्टहासहयविरहियद्वियववाचारो । वरिसायाली वेयालदारुणो क्षत्ति संयत्तो ॥ २ ॥

तं च दद्रूण सो मुगरियनियकलत्तो तत्कालवियंभमाणनीलकंठरवसवणचउग्गुणीकयउकंठो दीहं नीससिऊण चलिओ  
अधिलंचियपयाणगेहिं सनयराभिमुहं, अद्दूरत्तणेणं मग्गस्स दुब्बलत्तणओ सरीरस्स असमत्थत्तणेणं सिग्घगभणस्स  
मासंपंचमपज्जंते संपत्तो कुंडग्गामे नगरे, पविट्ठो नियगिहे, संभावियविट्ठत्तदवाए अब्भुट्ठिओ पणइणीए, दिण्णं  
आसणं, पक्खालिया चरणा, पुच्छिओ सरीरकोसलं, वाहियं सरीरं, दंसिओ पणयभावो, भोयणकाले य उवट्ठा-  
निग्ग च कंठिगाइ इहे विणिग्घट्ठिऊण विचित्ता रसवई, काराविओ भोयणं, तदुत्तरकालं ठिओ सयणिजे, वंभणीवि  
पमीवमागया तस्स, आरद्धा य पुच्छिउं, जहा-अज्जपुत्त! केसु केसु देसंतरेसु परिभमिओ एत्तियं  
दविणजायमज्जिग्रंति ?, तेण भणियं-पिए! केत्तिए साहेमि देसे?, किं वा कहेमि दविण-

रागरसमुद्दपरतीररोहणगिरीसु । रसकूविगासु विवरेसु सुयंगभीमेसु विविहेसु ॥ १ ॥

कालं दधपिवासाए णेगठाणेसुं । विट्ठिओ य खन्नवाओ घमिया य सुवण्णपांहाणा ॥ २ ॥

त्तं दिवोसदिणो निरुविद्या चहुसो । त्रिदियां नरिंदसेवा वियाणिया मंततंताइ ॥ ३ ॥

इत्थाइएसु सत्थेसु जणपसिद्वेसु । परुओ परिस्समोविद किं किं अट्ठवा मए न कयं ? ॥ ४ ॥

तदपि विष्ट ! न जाया भोजनमेसावि मज्झ सामग्गी । तुह दंसणतण्हाए नियात्तिओ केवल इण्ह ॥ १ ॥  
 इमं च आवण्णिउण वज्जताडियव सुसियव सा माहणी कसिणवयणा कोवफुरंताहरा रत्तनयणा भणिउमाढत्ता-आ  
 पाविट्ट ! अवलक्खणसिरसेहर ! वादणसरिच्छ ! निष्भग्गनिडाळ ! जइ एवं ता कीस एत्तिग्रं कालं कडुघोसेडीफलाइं  
 तिओऽसि ! किं निरास ! तत्थ वसंतेण तुमए इमावि वत्ता न निसामिया ? जहा पोक्खलावट्टग्मेहोव  
 जाव परवरियापुषगं वरिसिओत्ति, किन्न वेच्छसि पुरओ आज-  
 कारियउत्तुंगभवणा नियपणइणीपरिगया जिणप्पसाएण विल-  
 रति ? किं वा न दिट्ठा पाउपुण्णमणारहा उयरउक्खणयरासिणो सगिदेहुं गडिनिगभांता देगंतरांगयजणा ? चंम-  
 णेण भणियं-विष्ट ! दूरदेसंतरनिवासत्तणेण नो सुणियमेयं मए, किं करेगि गिपरंघुहो हयविही धीहकालमणुम-  
 पियया विसग्दसा। वभणीए भणियं-अज्जगि लहुं गण्डयु तस्स सगासे, करुणागरो ए तु गो मयधं निच्छियं तुमए  
 रग्गिज्जमाणो किंवि दाविस्सइत्ति, एवं निसामिज्जण पाविओ महावेगेण जिणाभिगुहा वंभणो, आपुच्छंतो पत्तो  
 इमारगागं, दिट्ठो काउरसग्गठिओ सुरवइनिहित्तसुगंधनुण्णपरिगलुम्मिलंतलप्पुवउण्णदेहो भयवं जिणवरो, तिपया-  
 हेणिक्काऊण पणमिओ परमायरेणं, विण्णत्तो य जहा-देव ! निसामेयु मग पत्तं-  
 वंठभंतरपक्खलियजीहग्गुफुडरराए याणीए । को को न पत्थिओ नाह ! दाणपिपरंगुहोवि जणो ? ॥ १ ॥

परिमुष्णगञ्जिपोरदृहासहयविरहियहियजगवारो । वरिसांयालो वेयालदारुणो ज्ञत्ति संपत्तो ॥ २ ॥

तं च ददूण सो सुगरियनियकलत्तो तंफालवियंभमाणनीलकंठरसवणचउग्गुणीकयउकंठो दीहं नीससिऊण चंलिओ  
जविलंत्रियपयाणगेहिं सनयराभिमुहं, अइदूरत्तणेणं मग्गस्स दुच्चलत्तणओ सरीरस्स असमत्थत्तणेणं सिग्घगमणस्स  
मानपंचमपज्जंते संपत्तो कुंडग्गामे नगरे, पविट्ठो नियगिहे, संभात्रियविट्ठत्तदवाए अद्भुट्ठिओ पणइणीए, दिण्णं  
जासणं, पक्खालिया चरणा, पुच्छिओ सरीरकोसलं, चाहियं सरीरं, दंसिओ पणयभावो, भोयणकाले य उवद्वा-  
विया य कंठिगाइं इट्ठे त्रिणियट्ठिऊण विचित्ता रसवई, काराविओ भोयणं, तदुत्तरकालं ठिओ सयणिजे, वंभणीवि  
पहिट्ठहियया समीजमागया तस्स, जारद्वा य पुच्छिउं, जहा-अज्जपुत्त ! केसु केसु देसंतरेसु परिभमिओ एत्तियं  
कालं ? केत्तियं या दविणजायगज्जियंति ? तेण भणियं-पिए ! केत्तिए साहेमि देसे ? किं वा कहेमि दविण-  
जणं ? तद्दाहि—

मिरिपयपइरागरसमुइपरतीररोहणगिरीसु । रमकूत्रिगासु विपरेसु भुयंगभीमेसु विविहेसु ॥ १ ॥

भमिओ एत्तिय कालं दपपिवासाए णेगठाणेसुं । विहिओ य च्चउवाओ धमिया य सुवण्णपांहाणा ॥ २ ॥

अंजगसिद्धिनिगित्तं दिपोसहिणो निरुविया बहुसो । विहियां नरिंदसेवा वियाणिया भंततंतार्इ ॥ ३ ॥

असिचायकुंतचफाइएसु सत्थेसु जणपसिद्धेसु । परुजो प्रिस्समोविह किं किं अहया मए न कयं ? ॥ ४ ॥

तहचिनु पिए । न जागा भोयणमेत्तावि मज्झ सामग्गी । तुहं दंसणतण्हाए नियात्तिओ कवलं ३१५६ ॥  
 इमं च आपण्णिऊण वज्जताडियव सुसियवसा माहणी कसिणवयणा कोवफुरंताहरा रत्तनयणा भणिउमाढत्ता-आ  
 पाविट्ट ! अवलकणसिरसेहर ! पाहणसरिच्छ ! निचभग्गनिडाल ! जइ एवं ता कीस एत्तिग्रं कालं कडुघोसेडीफलाइं  
 बुफमाणो ठिओऽसि ! किं निरास ! तत्थ वसंतेण तुमए इमावि वत्ता न निसामिवा ? जहा योक्सलावट्टगमेहोव  
 ञणवरयरुणगधारार्हिं सिद्धत्थनरिंदनंदणो संबच्छरं आव वरवरियापुव्वगं वरिसिओत्ति, किन्न पेच्छसि पुरओ-आज-  
 म्मदारिदियावि रहतुरयवाहणा परिहियदिवाभरणा कारियउत्तुंगभवणा नियपणइणीपस्मिया जिणप्पसाएण विल-  
 संति ? किं वा न दिट्ठा पडिपुण्णमणोरहा उवलद्वकणयरासिणो सगिहेसु पडिनियत्तंता देसंतरागंयजणा ? वंभ-  
 णेण भणियं-पिए ! दूरदेसंतरनिवासत्तणेण नो सुणियमेयं मए, किं करेमि विपरंसुहो हयंविही दीहकालमणुभ-  
 वियघा विसमदसा) वंभणीए भणियं-अज्जवि लहुं गच्छसु तस्स सगासे, करुणापरो खु सो भयवं निच्छियं तुमए  
 मग्गिज्जमाणो किंपि दाविस्सइत्ति, एवं निसामिऊण धाविओ महावेगेण जिणाभिमुहो वंभणो, आपुच्छंतो पत्तो  
 कुमारगामं, दिट्ठो काउस्सग्गठिओ सुखइनिहित्तसुगंधचुण्णपरिमल्लुम्मिलंतच्छप्पयच्छण्णदेहो भयवं जिणवरो, त्तिपया-  
 हिणिकाऊण पणमिओ परमायरेणं, विण्णत्तो य जहा-देव ! निसामेसु मम वत्तं-

कंठभंतरपवखलियजीहमुफुडफरारए वाणीए । को को न पत्थिओ नाह ! दाणविपरंसुहोरिज्जणो ? ॥ १ ॥

कृत्य न यमिजो पद्भूटिधूमरो देव ! पहियगेहेसुं । हयउयरपूरणट्टा किं वा न कयं कुकम्ममवि ? ॥ २ ॥  
 दविजोयञ्जणहेउं छेहुं पविट्टो कयंतययणेवि । नेवत्थंपि नडेण व तं नत्थि मए न जं धरियं ॥ ३ ॥  
 इय दूरदेगपिहरणपरिमगुप्पत्तविधिहरोगस्स । विगजो एत्थियमेत्तो काळो मम मंदपुत्तस्स ॥ ४ ॥  
 संपइ पुण परिणीए आगयमेत्तस्स साहियं एयं । जह संवच्छरसीमुं दिन्नं तुमए महादानं ॥ ५ ॥  
 केसिंपि नगरपट्टणगामागरपवरदषमंडारा । जत्तेसिं मयजलंगंधवंधुरा उदुरा करिणो ॥ ६ ॥  
 जत्तेसिं पारमयच्चरउत्तवत्थीयमंभरा तुरया । केसिंपि ज्जुक्कंचणजडिया वरभूसणुग्घाया ॥ ७ ॥  
 इय मंरुण्णिगभूरिष्पभेयदाणेण कप्पतरुणष । निम्महिया नाह ! तए तण्हा मेहेण व जणाणं ॥ ८ ॥  
 एत्तोषिय दुग्गयटोयत्तिलोयभूजो ठिओ जहं विहटो । पुषभवजणियदुब्बिसहदुट्टकम्माणुमावेणं ॥ ९ ॥  
 करुणारमपरिमणसिच्चदुक्करासंतत्तसषमुरणवण । ता पसिय पणयवच्छल ! पूरेसु मणोरहं मज्झ ॥ १० ॥  
 तुज्झ पयकमलमेवावियंभियं मग्गमयपायाडे । जं कीलंत्ति जहिच्छं सुखइनरनाहदणुवइणो ॥ ११ ॥  
 गिट्ठरयरायनंदण ! तुमएउविगु जह कंहंपि चत्तोऽहं । पायाटनिरडिपस्स वि नत्थि धुयं ता मम परित्ता (धरिती) १२  
 एमाइ शीणयायगुगलंतनयणंनुपोयवयणेणं । तह तेण विन्नविच्चइ जह भिच्चइ वीयरगोऽवि ॥ १३ ॥  
 भगवयादि एयमायण्णिज्जण ममुच्छट्टियापरिक्कलियक्कारुत्तपुण्णचित्तेण भणियं-भो भो देवाणुप्पिय ! पत्तिवत्ता-

सेससंगोऽहं संपयं, तुमं च अचंतदोगच्चभरविडुरियसरीरो, अओ जइवि असारिच्छमेयं तहावि गिणहसु इमस्स देव-  
 दूसस्स अट्ठंति, जं सामि! आणवेइत्ति भणिऊण हरिसवसुग्गयवहलपुलओ वंभणी वत्थस्स अट्ठं गहिऊण कयप्प-  
 णामो अणुचिंतंतो पुणो पुणो सामिस्स अपुवमु दारत्तणं गओ नियगेहं, दिट्ठो य वंभणीए, पुच्छिओ परमायेरेणं,  
 साहिओ तेण देवदूसद्वलाभो, जाओ वंभणीए परमसंतोसो ।

अन्नदिवसे य तेणवि समप्पियं तं दूसद्वं दसिगावधणत्थं तुन्नागस्स, तेणवि तारिसमदिट्ठपुवं पेच्छिऊण  
 पुच्छिओ सो वंभणो-भइ! तुमए कहिं लद्धमेयं?, न जेण एरिसदूसाइं महीयले दीसंति, वंभणेण भणियं-मुद्ध!  
 भगवया दिण्णंति, तुण्णागेण भणियं-वीर्यं पि खंडमाणेहि, जेण उभयखंडमीलणेण तुण्णेमि एयं, पडिपुण्णं व दीणा-  
 रलकप्पमुलं पावेइ, अद्धदेण य तुज्झ ममंपि दवं भविस्सइत्ति, वंभणेण भणियं-कहं पुण दुइजयं वत्थद्वं लभि-  
 स्सामि?, जिणसमायारवियक्खणेण भणियं तुन्नागेण-जया खाणुगाइफरिसेण सामिखंधदेसाओ निवडइ  
 तथा गिण्हज्जासिइ एवं सोचा सो तलोभेण लग्गो भगवओ पिट्ठीए, जहा य तस्स तलाभो भविस्सइ  
 तहा पुरओ भणिस्सामि ।

अह कुम्मारगामवहिया पडिवन्नपडिमस्स पलं वियभुयस्स भगवओ महावीरस्स समीवे संयलदिणवाहपरिस्संते लुहा-  
 भिहए चरमाणे वसहे भलाविऊण एगो अचंतपावसंगयसरीरो विणयणयविण्णाणजा(ना)णविवज्जिओ गोवालो गावी-

दुष्टनिमित्तं गजो गामज्जे, तत्र द्वियस्म वायारंतरवावट्टणेण लग्गा महती वेला, ते य वइलगा खणमेकं भगवज्जो  
 मर्माये चरिऊण मुहाभिहयगरीरा सणियं सणियं तिणभक्खणं कुणमाणा पविट्ठा अडरिं, सो य गोवालो खणंतरेण  
 आगज्जो भगवज्जो मर्माये, वसहे अपेच्छंतो पुच्छिउमारद्वो-भो देवज्जया ! जे तुह मए भलाविया पुषं वसहा ते  
 गाहेमु कत्व गयत्ति?, नाभीरि असुर्णितोष तुण्हिफो ठिओ, तेणावि नायं-नूणमेसो महाणुभाजो न जाणइत्ति,  
 तज्जो गिरिकंदरेसु य नईसु य निज्जारेसु य महातरुगहणेसु य गामंतरालेसु य अन्नेसु य विविहप्पएसेसुं य गोसामि-  
 प्पभयभीजो विमणदुम्मणो तं गग्गं फाउमारद्वो, ते य वसहा सुचिरं सच्छंदप्पयारेण उवसंतच्छुंहावेयणा पुणोवि  
 समागया तत्थेय पएमे, भयवंतं दद्वूण रोमंघता य ठियत्ति, सो य गोवालो अणुवल्लद्वगोणपउत्तिविसेसो चउपहर-  
 रवणिजागरपरिमिलाणनयणो रेणुभरधूमरियसरीरो खाणुकुंडगाइपरिषहिओ सुचिरं परिभमिऊण वलिओ तेणेव  
 पएमेण, दिट्ठा य ते सामिणो मर्माये सुहनिस्सजा नियममहा, जह रोसारुणियच्छो फरुसगिराए भयवंतं तज्जिउमा-  
 डत्तो, क्वं चिय?—

देवज्ज ! दुज्जणो इव दावेसि पमंतवत्थनेवत्थं । जग्मित्तज्जो पुग चित्तकुकुडिलया एरिमी तुज्ज ॥ १ ॥

जं गोविऊण हूरणट्टया तुमं मज्ज मंतिए वमहे । नूणमियाणि गच्छंतज्जोऽसि जइ मं न पेच्छंतो ॥ २ ॥

ताचित्थ चंगिमा तुह वयस्स ! जरि भद्धिमा विसेयस्स । गोमट्टणमण्णं किंपिय दक्खिन्नभावस्स ॥ ३ ॥

मन्ने पलंविद्यभुओ निरुद्धनीसेसवज्जवावारो । तं जणमुसणनिमित्तं उवायजालं विचित्तेसि ॥ ४ ॥

इय दुव्वयणेहिं तज्जिऊण सो दावणेण हणिउमणो गोवालो वेयालोव धाविओ भयवओऽभिमुहं, एत्थंतरे सोह-  
म्मसभासीहासणनिसण्णो सहस्सनयणो सामिस्स सुहविहारोवलंभनिमित्तं ओहिं पउंजइ पेच्छइ य भयवंतं पडुच  
वेणेण धावमाणं तं गोवयं, तओ तत्थट्ठिओऽवि तं थंभिऊण सको दिघाए देवगईए उइण्णो जिणसमीवे, तज्जि-  
उमारद्धो य तं गोवाल्यं, जहा-रे दुरायार! पुरिसाहम! पसुनिघिसेस! नूणं एयाण वसभाणं चेव पुण्णेहिं न  
भक्खेसि तूमं तिणाइं, जो एयं सिद्धत्थनरिंदनंदणं परिचत्तकरितुरयपाइक्कसंदणं संपयमेव गहियपघजं नियधम्मक-  
जसज्जं सममुणियतणमणिं वद्धमाणमहामुणिंपि न मुणेसित्ति, एवं निब्भच्छिऊण तं सको तिपयाहिणीकाऊण भय-  
वंतं वंदेइ, सिरनमियकरकमलो य विन्नवेइ-भयवं! तुम्ह दुवालस वरिसाणि जाव समणमेत्तेणवि दुक्खजणगा इयर-  
जणजीवियंतकरणखमा पवरसूराणवि लोसुद्धोसजणगा उग्गा उवसग्गवग्गा भविस्संति, ता कुणह पसायं, अणु-  
मन्नह एत्तियं कालं मम, जेण समीवट्ठिओ वेयावच्चं भे करेमित्ति, एयं च आयत्तिऊणुस्सारियक्काउसग्गेण भणियं  
भयवया, जहा-भो भो देविंद!

तुह असरिसभत्तिमहाभरस्स जुज्जइ इयं न संदेहो । किं तु न भूयं एयं नो भवइ न भावि कइयावि ॥ १ ॥  
जं तित्थयरा तुम्हारिसस्स निरुसाए पुव्वकयकम्मं । ख्वइंसु खविस्संति य खवेत्ति वा निच्छियं सक! ॥ २ ॥



दुहणनिमित्तं गत्रो गामनज्जे, तत्थ द्वियस्स वायारंतरयावडणेण लग्गा महती वेला, ते य वइलगा खणमेकं भगवओ  
 ममीये चरिऊण सुहाभिहयसरीरा सणियं सणियं तिणभस्सणं कुणमाणा पविट्ठा अडरिं, सो य गोवालो खणंतरेण  
 जागत्रो भगवत्रो समीये, पमहे जपेच्छंतो पुच्छिउमारदो-भो देवज्जया । जे तुह मए भलाविया पुषं वसहा ते  
 गाहेसु फत्थ गयत्ति?, नागीयि अमुर्णितोष तुण्हफो ठिओ, तेणायि नायं-नूणमेसो महाणुभावो न जाणइत्ति,  
 तत्रो गिरिफंदरेसु य नईसु य निज्जरेसु य महातरुगहणेसु य गामंतरालेसु य अत्रेसु य विविहप्पएसेसुं य गोसाभि-  
 युभयभीओ विमणदुम्मणो तं गग्गणं काउमारदो, ते य वसहा सुचिरं सच्छंदप्पयारेण उवसंतच्छुहावेयणा पुणोवि  
 नमागया तत्थेय पएने, भयवंतं ददूण रोमंयता य ठियत्ति, सो य गोवालो अणुवलद्वगोणपउत्तिविसेसो चउपहर-  
 त्यणिजागरपरिमिलाणनयणो रेणुभरधूमरियसरीरो खाणुकंटागाइपरिघह्मिओ सुचिरं परिभमिऊण वल्लिओ तेणेव  
 पएसेण, दिट्ठा य ते नामिणो नमीये सुहनिसत्ता नियममहा, अह रोसारुणियच्छो फरुसगिराए भयवंतं तज्जिउमा-  
 दत्तो, फहं चिय?—

देवज्ज ! दुच्चणो इय दापेसि पमंतयत्थनेयत्थं । जग्गिभतरओ पुण चित्तकुडिलयां एरिमी तुज्ज ॥ १ ॥

जं गोविऊण हरणद्वया तुमं मज्ज संतिए वमहे । नूगमियार्णि गच्छंतओऽसि जइ मं न पेच्छंतो ॥ २ ॥

तापित्त्य चंगिमा तुह वपस्म ! जरि भल्लिमा विवेयस्म । गोमट्त्तणमण्णं किंपिय दक्खिन्नभावस्म ॥ ३ ॥ ✓

मन्त्रे पलंविद्यभुओ निरुद्धनीसेसवज्जवावारो । तं जणमुसणनिमित्तं उवायजालं विचित्तेसि ॥ ४ ॥

इय दुव्वयणेहिं तज्जिऊण सो दावणेण हणिउमणो गोवालो वेयालोच्च धाविओ भयवओऽभिमुहं, एत्थंतरे सोह-  
म्मसमासीहासणनिसणो सहस्सनयणो सामिस्स सुहविहारोचलंभनिमित्तं ओहिं पउंजइ पेठइ य भयवंतं पडुच्च  
वेगेण धावमाणं तं गोवयं, तओ तत्थट्ठिओऽवि तं थंभिऊण सको दिवाए देवगईए उइणो जिणसमीवे, तज्जि-  
उमारद्धो य तं गोवालयं, जहा-रे दुरायार! पुरिसाहम! पमुनिविसेस! नूणं एयाण वसमाणं चेव पुण्णेहिं न  
भक्खेसि तूमं तिणाइं, जो एयं सिद्धत्थनरिंदनंदणं परिचत्तकरितुरयपाइकसंदणं संपयमेव गहियपव्वजं नियधम्मक-  
जसजं सममुणियतणमणिं वद्धमाणमहामुणिंपि न मुणेसित्ति, एवं निच्चिञ्चिऊण तं सको तिपयाहिणीकाऊण भय-  
वंतं वंदेइ, सिरनमियकरकमलो य विन्नवेइ-भयवं! तुम्ह दुवालयस वरिसाणि जाय समणमेत्तेणवि दुक्खजणगा इयर-  
जणजीवियंतकरणखमा पवरसूराणवि लोमुद्धोसज्जणगा उग्गा उवसग्गवग्गा भविस्संति, ता कुणह पसायं, अणु-  
मन्नह एत्तियं कालं मम, जेण समीवट्ठिओ वेयाव्वं भे करेमित्ति, एयं च वायन्निऊणुस्सारियकाउसरगेण भणियं  
भयवया, जहा-भो भो देविंद!

तुह असरिसभत्तिमहाभरस्स जुज्जइ इमं न संदेहो । किं तु न भूयं एयं नो भवइ न भावि कइयावि ॥ १ ॥

जं तित्थयरा तुम्हारिसस्स निस्साए पुव्वकयकम्मं । खवइंसु खविस्संति य खवेत्ति वा निच्चियं सक्क! ॥ २ ॥

अह परमामत्येणवि जइ कम्मरुमउ पडेज ता विहलो । सिरलोयवंभचेराइविविहनवचरणानारो ॥ ३ ॥

जइसंक्किल्लिद्वित्तत्तणेण दढवद्वरमविनागाणं । सयमणुभयणं मोत्तुं कम्माण ण णिज्जरणमत्थि ॥ ४ ॥

एगोशिय सुहगसुहं एस जिओ महइ कम्मवसवत्ती । अवयानुनयारकरा तस्सेन पभावओ हुंति ॥ ५ ॥

ता जे पुपं गिद्धा जे मिद्धिस्संति जे य सिज्जंति । ते नियत्रीरियकम्मकएण, अन्नोऽत्थि नोवाओ ॥ ६ ॥

एवंविह विविहमहोवमग्गचग्गं वियाणिउं पुपिं । पडिवन्नोऽहं संजममेत्तो का तेसु मम गणणा ? ॥ ७ ॥

इय गुरनाहं विविहोपउत्तिजुत्तीहिं योहिउं भयवं । काउस्सग्गंमि ठिओ, नूणं मियभासिणो गरुया ॥ ८ ॥

एत्थ य पत्थावे भयवओ चेव जणणिभगिणीए पुत्तो कयतद्वाविहघोरवालतवविसेससामत्योवलद्धवंतरगुरभवो सिद्धत्यो नाम देवो समागओ तं पयमं, सो य भणिओ सुरिदेण जहा-भो सिद्धत्यय । एस भयवं तुह आसन्नसयणोत्ति एगं कारणं, पीयं पुण गमाएसो, ता सयहा पासद्विओ सामिस्स मारणंतियमुवसग्गं पडिस्सखेज्जासित्ति, सोऽपि एयमायन्निऊण देविंदमंभामणजायपरमतोसो तहत्ति पडिमुणइ, पुरंदरोऽपि सट्टाणं गओ । अह जायंमि पभायसमए भयवं चलिओ तजो ठाणाओ, कमेण य पत्तो कोलागमंनियेमे, तत्थ य बहुलो नाम माहणो परियमइ, तस्स य गिहे महम्मयो समारद्धो, निष्फाइया रसवई, जेमेइ सयलजणो, एत्थंतरे भयवं मुणियभिकखासभओ अतुरियं जसंभंतो छट्टपारणगे पविट्ठो भिकखानिमित्तं गाममज्जे, उच्चनीयगिहेसु य परिभमंतो संपत्तो बहुलस्स मंदिरं, दिट्ठो

य अणेण अप्पडिमरूवो भयवं भवणंगणगओ, तं च दट्टूण चिंतिउमारद्धो—अहो इमस्स महामुणिणो सरीरलाव-  
 ण्णया अहो निरूवमरूवया अहो सयललक्खणपडिपुण्णया अहो पसंतायारत्तणं अहो सस्तिरीयत्तणं, निच्छियं न  
 होइ एसो सामन्नगुणो, ता धत्तोऽहं जस्स मम गिहमणुपत्तोत्ति परिभाविंतो उच्छलियवहलपुलयजाली मुत्ताहलालं-  
 किओव उट्ठिऊण परमायरेण घयमहुमिस्सं पायसं भगवओ पणाभेइ, भयवंपि निच्छिहं चक्कंसलंछणलंछियं  
 पसारेइ करकमलं ।

अह पाणिसंपुडे वंभणेण खित्तंमि पायसे पवरे । गयणयले सुरनिवहा ओयरिउं भत्तिभरभरिया ॥ १ ॥ जयतीर्थ

वायंति केवि जयदुंदुहीओ अन्ने सुयंति कुसुमाइं । चेलुकखेवं केवि य करंति अन्ने थुणंति जिणं ॥ २ ॥

गंभीरगुरुगिराए अहो सुदाणंति केइ वोसंति । अच्छिन्नकणयधाराहिं हरिसिया केइ वरिसंति ॥ ३ ॥

सेसोऽवि गामलोओ तहाविहं पेच्छिऊण अच्छरियं । विग्घियहिययो महसा जिणस्सगासं समळीणो ॥ ४ ॥

किं बहुणा ?—भयवं पायसलाभेण निवुओ माहणोऽवि कणगेण । विग्घियरसेण लोगो एवं जाओ महाणंदो ॥ ५ ॥

अह चम्मचक्खुहिं अपेहिज्जंतो पारिऊण भयवं अन्नत्थ विहरिओ । गामाणुगामेण परिभमंतस्स य सामिणो

सरीरे कयज्झंकाररवा निरंतरं परिसुक्कवणकुसुममयरंदा भमर-

अपावमाणा रोसेण नहेहिं विंधंति मुहेहिं खाइंति, वसंतसमए

रोमकुरनिगयं गिणेहमापिंति, सरिरमारूडा य समं निहरंति, गामतरुणायवि तेण गंधेण आयरसियचित्ता  
 भणंति-भयवं! जम्हंवि देहि इमं गंधजुत्ति, सुरभो तुज्ज सरिरगंधो, तथा नवनीलुप्पलपलाससरिच्छमच्छिजुयलं  
 गुरभिनीयाससुभगं सुहरुगलं रुससंपयं च ददूण मयरद्वयसरपहारजजरियहिययाओ गामतरुणीओ गामाणुगामं  
 परियट्टमाणस्म भगवओ नित्रामट्टाणं पुञ्जंति, वहुप्पयारं उवसग्गंति यत्ति । एणं पच्चजादिणाओ आरम्भ चत्तारि  
 नामा समद्विया जात सुरनिदित्तनामपयइया दुट्टमपराइणो उवसग्गा जायत्ति ।

जत्तया तेलोफतिलओ सयलगुणनिलओ सामी परियउंतो गओ गोरागसंनिवेशे, तत्थ दूइज्जंता नाम तावसरु-  
 धारिणो पासंडिणो परियसंति, तेसिं च अहिउई जलणसम्भो नाम, सो य मित्तो सिद्धत्थरण्णोत्ति पुषनेहेण सामिं  
 रदूण सागयंति भणिऊण संमुहसुवट्टिओ, भयवयानि पुषपओगेण चेव चाहा पसारिया, तओ ऊलउइणा ससंभमं  
 जापुच्छिऊण पुषवत्तं भणिओ भयवं-रुमारपर! एत्थेव निवसह किंचिक्कालं, निप्पचराओ एस आसमो, न य कोइ  
 द्धाणविग्गहारी, वामारत्तस्सवि मगुचिओत्ति, ता सपहा जइ संपयं न ठाउरामो तहानि वामासु इहायसेजासित्ति  
 बुत्ते सानी तपयणं पडिमुणिय तत्थेव एगराई वोटेइ । तयणंतरं च—

पणठुपेमवंधणो असंखदुक्कनासणो । पमंतचित्तमुंदरो सधेज्जित्तमंदरो ॥ १ ॥  
 चइरमग्गमंगओ गओ य मंदगामिओ । मिओष मुन्नसेवओ व(पि)उष रक्खणुजुओ ॥ २ ॥

मडवखेडकचुडे अणेगलोगंसंकडे । सुरिंदविंदवांदिआ परिन्भमेइ सामिओ ॥ ३ ॥

एवं च हिंडमाणस्स जयगुरुणो पज्जंतमणुपत्तो गिम्हसमओ, उवागओ चासारत्तो, तओ यणियसइं कुणमाणेसु सजलजलहरेसु मंदं मंदं नियडंतीसु वारिधारासु नियनियगेहमणुवचंतेसु पहियजणेसु माणससरं सरंतेसु रायइंसेसु सामी पडिनियत्तिऊण समागओ तत्थेव मोरागसंनिवेसे, दिट्ठो कुलवई, समप्पिओ तेण पेमसघस्समुवहंतेण संछन्नो मढो, बुत्थो तत्थ पलंबियमुओ काउस्सग्गेण भयवं, एवं वचंति वासरा ।

अह वट्टमाणंसि पढमपाउसारंभे निट्ठिपसु चिरं . . . . . अणुग्गमंतेसु अभिणवत-  
णाईसु कत्थवि किंपि भक्खणिज्जं अवावमाणाइं गोर . . . . . तावसगिहेसु छायणत्तण-  
भक्खणत्थमहियंति, तावसावि निट्ठुरलट्ठिप्पहारेण ताणि कुट्ठिऊण निट्ठ्ठाडिंति, दुवारट्ठिया य निचंपि सघायरेण  
रक्खंति नियउडवए, गोरूवाणि तेहिं ताडियाणि इओ तओ परिन्भमिऊण अविज्जमाणरक्खणं भगवओ मडं  
उवइयिंति, तावसावि नियगिहट्ठिया तं विलुप्पमाणं पेच्छिऊण भयवओ उवरि परिओसमुवहंति-अहो अहो निय-  
उडवए रक्खेमो, एस पुण समणो मणागंपि न रक्खेइ, ता किं करेमो?, कुलवइणा धरिओत्ति न किंपि पारिज्जइ  
पयपखं फरुसमुल्लविउंति, एवं च पइदिणं जायमाणे परूढगाडमच्छराणुवंधा एगया गया ते कुलवइसगासे, सोपा-  
लंभं च भणिउमाडत्ता, जहा-सामि !

अम्ह गिहे तुम्हेहिं फोऽविहु मुफो उ जो इमो समणो । सो अच्चंतं नियकज्जकरणपडिवद्धवावारो ॥ १ ॥

एयंपि नो वियाणइ गोरुवेहिं जहागिहं एयं । पइदिणमुवइविज्जइ रक्खइ न खणंतरं एगं ॥ २ ॥

किं आलस्सं अहवाऽणुकंपणं अहव होज्ज व उवेहा । निइक्खिण्णत्तं वा न याणिमो तस्सऽभिप्पायं ॥ ३ ॥

अहवा मुणित्ति गोरुववारणं नो करेति स महप्पा । गुरुदेवपूयणपरा अम्हे समणा न किं होमो ? ॥ ४ ॥

हे कुलवइ ! जइ रुट्ठोसि अम्ह तं उडवयं हणिज्जंतं । एएणावि पओगेण वंचसे ता लहुं कहसु ॥ ५ ॥

जेण विमुंचामो तस्स संकहं को मए सह विरोहो ? । रुट्ठोवि तोसणिज्जो जो किर को तेण सह माणो ? ॥ ६ ॥

तुह चित्तवित्तिमवियाणिऊण णूणं मुहा कओ रोसो । तस्सोवरि अम्हेहिं का वा मूढाण होइ मई ? ॥ ७ ॥

इय ईसाभरसम्मिस्सकोचदरफुरियअहरमुल्लविउं । दूइज्जंतगमुणिणो कुलवइपासाउ निक्खंता ॥ ८ ॥

ते य तथा गच्छमाणे दट्ठूण कुलवई सघायरेण वाहराविऊण भणिउमाढत्तो, जहा-भो महाणुभावा ! किमेवं परिकप्पइ ?, को मज्झ दोसो ?, मए वयंससिद्धत्थरायपुत्तोत्ति कलिऊण एयस्स मुणिणो गउरवं कयं, किं मए एयं वियाणियं ? जं एसो एवं नियगेहमुनेहिस्सइ, एवं ठिएवि तथा करिस्सं जहा न विणस्सइ तुम्ह आसमो, एत्तो मा वहिस्सइ संतावं, मा चित्तिज्जइ कुविगप्पजालं, तुम्हाणं अवरो को मम पिओत्ति ?, एवमायन्निऊण जायसं-तोमा गया ते जहागयंति, कुलवईवि गओ जिणसगासे. दिट्ठो उडवओ निलत्तपंखपुडविडओव. नाममेत्तावसेसो,

तं च पेच्छिऊण चिंतियं कुलवइणा-अहो सम्ममुवइदं तेहिं वरागेहिं, मए पुषं वियाणियं-मच्छरेण एए जंपंति,  
इयाणि पुण एयदंसणे जहावट्टियं नायंति, एवं संकप्पिऊण भयवंतं भणिउमाढत्तो—

चउरासमगुरुणो तं सुओउसि सिद्धत्वभूवइस्स जओ । तइलोफपिहियकित्ती ता तं पइ किंपि जंपेमि ॥ १ ॥  
तुज्झ पिउणावि एयं आसमपयमायरेण निचंपि । रक्खियभिणिह पुत्तय ! पालेयषं हवइ तुमए ॥ २ ॥  
दुट्टाण ताडणं चिय तुम्ह वयं तेण मुक्कपरिसंको । फीस न गोरूवाइं तणभक्खणओ निवारेसि ? ॥ ३ ॥  
सउणीवि वच्छ ! नियनीडरक्खणं कुणइ सबजत्तेणं । भूभारधरणधीरो किं पुण तुम्हारिसो पुरिसो ? ॥ ४ ॥  
अम्हारिसजइज्जणरक्खणट्टया निच्छियं पयावइणा । तुम्हारिसा महायस ! निप्फाइजंति सप्पुरिसा ॥ ५ ॥  
अत्रह गोरूवेहि व दुट्टेहिं धम्मपन्नणीएहिं । उवहम्मंता अम्हे कं सरणं फिर पवजंता ? ॥ ६ ॥  
ता गिहनाहोष कुमार ! वससु तुह संतियं इमं सधं । पइं दिट्टे पियमित्तं सिद्धत्यनियं सरेमि अइं ॥ ७ ॥  
इय संघवणोवालंभणयसिक्खवणगन्भवयणोहिं । भणिऊण जिणं सो तावसाहिवो पडिगओ सगिहं ॥ ८ ॥  
अह तेसिं भयवं तो मुणिउं अप्पत्तियं महासत्तो । जयजीवहिएकरओ चित्तेउमिमं समाढत्तो ॥ ९ ॥  
यज्झ निमित्तेण इमे पावित्ति उवोहिं वीयमइभीमं । ता सघहा न जुत्तं एत्तोउवत्थाणमिह काउं ॥ १० ॥  
इय भुवणगुरु संचिंतिऊण जाएउवि वरिसयालंमि । ठाणाओ तओ चलिओ परपीडावज्जिणो गरुया ॥ ११ ॥



एतो चिय अनेहिंवि परपीडावज्जगंमि जइयवं । जहसत्तीए एयं जम्हा सदम्मसारोत्ति ॥ १२ ॥

एयं चेव भगवया वेरग्गकारणमुच्चहंतेण तिष्ठा! पंच अभिग्गहा गहिया, तंजहा-अचियत्तकारए उग्गहंमि न वसियधं, निधं उस्सग्गं फरेयधं, एग्गदुवयणवज्जं भोणेण ठाइयधं, पाणिपत्ते भोत्तधं, एगे किर सुरिणो एवं भणंति, तं च किर कहं?—सपत्तो धम्मो पन्नवेयवोत्ति भगवया पढमपारणगे परपत्तंमि भुत्तं, तेण परं पाणिपत्तंमि जाउत्तमुत्थोत्ति, गिहत्यो य न अच्चुट्टेयवोत्ति पंचमो, एवं च गहियपंचाभिग्गहो अद्धमासावसाणे तत्तो नीहरित्ता अट्टियग्गामंमि वच्चइ, तस्स पुण अट्टियगामस्स पढमं वद्धमाणनाममासि, तं च किर कहं ववगयंति? निसामेह कारणं—

कोसंधीए नयरीए असंखदविणसंचओ धणो नाम सेट्ठी परिवसइ, तस्स अणेगोवजाइयसएहिं पसुओ धणदेवो नाम पुत्तो, अद्यंतं पाणप्पिओ वीसासट्ठाणं च, सो य अन्नया अणेगकुवियप्पदुट्ठसत्तभीसणं समुलसंतमयणकुसुमसरं रंगंततण्हामिगवण्हियापडलं दुवारपसरंदिचोरभयावहं दुरुत्तारमूढयामहानिन्नगाविसमं अरत्तं च रउहं संपत्तो तारुणं, तघसेण य वसइ वेसागिहेसु रमइ जूयं पइदियहं विहवइ अत्थसंचयं, कुणइ विविहे विलासे, उवचरेइ दुल्लियगोट्टि, पोसेइ नडनाडइज्जगायणपमुहं अनिवदं जणं, नाऽवेक्खइ कुलमेरं न परिचितेइ सयणावचायंति, एवं च वचंतेसु य चासरेसु खीणेसु दच्चपडिपुण्णमंहानिहाणेसु, सुत्तीभूएसु कोट्टागारेसु चित्तिं धणसेट्ठिणा-अहो

अज्जपज्जयाइपुरिसपरंपरागयंपि अपरिकलियसंखंपि खयं व पत्तमियाणिं मम धणं, ता न जुचं एत्तो पुत्तस्स उवेहणंति  
 निच्छिज्जण एगंते भणिओ धणदेवो-पुत्त! तुम्हारिसाणं उवभोगाइनिमित्तमेव अत्थोवज्जणमम्हाणं, न एत्तो  
 विसिट्ठं ठाणमत्थि, केवलं जराज्जरियसरीरोऽहमियाणिं असमत्थो चंक्रमणमेत्तेऽवि अखमो समहिगभासियवेवि  
 अपरिहत्थो कलाकोसहेवि, ता वच्छ! तुमए एस सवो कुडुंबभारो धम्मवचहारोय अणुचितणिज्जो, सो य अत्थं  
 विणा न तीरए सुहुत्तमवि सोढुं, अत्थोत्ति नाम पवरो पुरिसत्थो, तद्वाहि—

अत्थेण सुगुणमुणिज्जणखेत्तनिहित्तेण सुहफलोणमियं । निप्फाइज्जइ सदम्मसस्सरं विणु पयासेण ॥ १ ॥  
 किं पुत्त! तए न सुयं जिणाण दिज्जाउ जेहिं भिक्खाओ । पढमाउ ते य तम्मिवि केऽवि जणा सिवपयं पत्ता ॥ २ ॥  
 केई तइयभवेणं सुरवरसोकखाइं भुंजिउं धीरा । सुट्ठाणनिहित्ततहविहऽत्थसामत्थओ सिद्धा ॥ ३ ॥  
 अत्थेणं पिय कोमुइमयंकतुल्लाणणाउ तरुणीओ । आवद्धपाणिसंपुडमाणाए लहुं पयट्ठंति ॥ ४ ॥  
 निंदियंउल्लुब्धापोविट्ठु सयलकलावज्जिओविट्ठु धणेणं । पुरिसो गुरुव देवोव पुच्छणिज्जो हवइ लोए ॥ ५ ॥  
 जे यरा रामरसिरे जे माणेणं गिरिंदसारिच्छा । जे भवकवंधेण जंति किर्त्ति परं भुवणे ॥ ६ ॥  
 ते रूपपुरहेणं गगरखयमवि हसंति फिर पुरिसा । अत्थद्वाण जणाणं तेवि हु सेवं पवजंति ॥ ७ ॥  
 अत्थउ पूरे धाओ नियगिदिषीऽविट्ठु न जेण धणहीणं । आयरइ नरं पुत्तय! सयलोऽविट्ठु लज्जए तेण ॥ ८ ॥

चिरसंथुयावि चिर(सह)कीलियावि निचं कओययारावि । गोहचकारगंपिव मित्तावि मुयंति धणरहियं ॥ ९ ॥  
 किं बहुणा दददालिहदुमि(स)यं माणुसं विणासंतो । सवंकसो कयंतोवि पुत्त । आलस्समुवहइ ॥ १० ॥  
 इय सच्चगुणाद्दाणं सधणत्तं तदियरं च दोगचं । नियबुद्धीए नाउं पुत्तय ! उचियं समायरसु ॥ ११ ॥  
 जइ ववसायं वंचसि काउं दविणज्जणत्थमिह भइ । ता एसो पत्थावो जावऽज्जुवि अत्थि किंपि धणं ॥ १२ ॥  
 सय विणासे जाए अग्गिपि समप्पिही न ते कोऽवि । किं पुण ववहारकए भंडोल्लं जीविगाजोग्गं ? ॥ १३ ॥  
 एवं निमुणिऊण भणियं धणदेवेण-ताय ! जइ एवं ता किं तुमए उवेहिओऽहमेत्तियं कालं ? किं मए  
 अवगणियं कयाइ तुह वयणं ? दंसिया अणुचिया पडिवत्ती ? मुरुट्टताडणेणवि पासिथो विरूवो मुहरागो ?  
 जं विणस्समाणेऽवि घरमारे ण सिक्खविओऽम्हि, अहवा अलं पुव्वगयवइयुरसोयणेण, पसीयह मे, देह  
 आपसं, दुट्टमहिलं व आरुरिसेमि दूरगयंपि लच्छिं, नंदह तुच्चे वहुं कालं केत्तिमेत्तमेयंति, सेट्ठिणा भणियं-  
 पुत्त ! किं न मुणेमि तुह कलाकोसल्लं, न जाणामि साभावियं भुयवलं ?, न लक्खेमि अंगीकयभरधुरधव-  
 लत्तणं, न बुज्झामि महिट्ठं चित्तावट्ठं, अओघिय मए एत्तियदिणाइं न किंपि भणिओऽसि, विसमदसावडि-  
 यस्सवि पुत्त । किमसज्झं तुह परकमस्स ?, ता इयाणिंपि कुणसु समुज्जमं पूरेसु पणइज्जणमणोरहे दलेसु दुज्जणदुट्ठ-  
 चित्तियं अन्भुद्धरेसु विहलियं जणं पयडेसु मयंरुनिम्मलं नियकुलंति, धणदेवेण भणियं-ताय ! किं पुणरुत्तवयणवित्थ-

रेणं ? पगुणीकरेसु सपडि सत्थं सघ(मग्ग)संवाहगं च, इय भणिए सेट्ठिणा नाऊण से निच्छयं वाहराविया नियपुरिसा,  
 भणिया य-अरे! कोह संवलगाइसमेयं समग्गं मग्गसंवाहगं, संजत्तेह विविहमहामोहभंडपडिपुण्णं, सगडसमूहं  
 उयणेह वलिट्ठं लड्डखंधगोणगणं पच्चत्तेह कम्मकरजणं वाहरह पहरणत्थं गोहसत्थंति, जं सामी आणवेइत्ति पडिसु-  
 णिऊण गया पुरिसा, अकालविलंबं सगायरियं सघं, निवेइयं च सेट्ठिणो, सो य धणदेवो ण्हाओ कयविलेवणो केस-  
 वद्धसियकुसुमो परिहियपंडुरवत्थो पणयदेवगुरुचरणो आपुच्छियजणणिजणगसयणवग्गो गणिमधरिमनेयपारिच्छे-  
 जपडिपुन्नपंचसयसगडीसत्थसमेओ सुसुहुत्ते पट्टिओ दूरदेसंतरं, ताहे पेच्छंतो अपुघापुघसंनिवेसे, किणंतो अन्नोन्न-  
 भंडाइं, आपुच्छंतो देसंतरसमायारं, पिण्णासंतो विचित्तभासापिसेसे, देंतो दीणदुत्तिययाण दाणं अइगओ दीहम-  
 द्दाणं, कमेण रणज्झणिरुवसहकंठपलंबन्तघंटियारावनिरुद्धावरसहवावारो अणेगसहाइजणपयट्टियगंतियागणो पडुत्तो  
 वद्धमाणगगामसमीवं, तस्स य अन्तरावि समनिन्नन्नयगंगीरखड्डविसमप्पवेसा आनाभिमेत्तसुहुमवेडुगापडहत्थविसा-  
 लपुलिणा महल्लचिक्खलाणुविद्धतुच्छसलिला वेगवई नाम नई, तर्हि च पविट्ठाओ सगडीओ, ताओ पुण उभयपा-  
 सावलंविणा जणेण सुसमणेणैव धरियपवणेण (धरियवयणेण) सारहिणा निगिण्हंतेण वसहनिवहं कोहालाइणा पगु-  
 णिजंतोण चक्रमग्गेण कहकहवि कट्टेण पावियाओ अद्धमग्गं, अह विसमत्तणओ नदीए दूरपहखीणसामत्थत्तणओ  
 वसभाणं, अइभारियत्तणओ सगडीणं, चाढमायासिया सारहिणो अविगणियकससं(वं)धाइघाया निवडिया महीयले

वलीवहा, वादमुचिग्गो धणदेवो, वाउलीह्वो परियणो, तत्थ य सत्थे एगो वसभो सयलगोमंडलप्पहाणो सप्पुरिसो इय लीलाए चिय समुद्धरियमहाभारो विसमप्पएसनित्थारणसमत्थो य अत्थि, सो य तहाविहविसमनिवडिणण मुमरिओ धणदेवेण पप्फुकारपुघयं च त्फारिऊण जोत्तिओ सो सगडीए, तक्खणं अखेवेण य गओ सो निक्खवडसा- मत्थेण गहिऊण लीलाए भारियंपि तं नईए परकूलं, जहा सा एगा, एवं पंचसयाणिचि सगडीणं निच्चाहियाणि तेण विसमप्पएसोत्ति । अचिय—

एगत्तो सो वराहो अत्तत्तो सयलगोणसंघाओ । उत्तारइ सगडीओ सच्चभावस्सत्थि किमसज्झं ! ॥ १ ॥

( अइदुद्धरभरपरिकहणेण तुट्टं तडत्ति से हिययं । वयणुग्गीरियरुहिरो धसत्ति धरणीयले पडिओ ॥ २ ॥ ) R.C. 1251

तं च तारिसमवत्थंतरं पत्तमवलोइऊण धणदेवो परिमुक्कसेसकायवो सोयभरमुघहंतो वाहरावेइ विजे, कारवेइ चिगिच्छं, सवमेव समीवट्ठिओ बंधयं च मित्तं च पडिजागरेइ, अन्नदिवसे य भणिओ सो परियरेण जहा—सत्थवाह ! किमे- गगोणनिमित्तं उवेहिज्जंति नियकज्जाइं ? किं न मुणह तुच्चे सीयंति वणियपुत्ता ? विणस्संति कियाणगाइं ? वोलंति वहवे वासरा, समीवमणुसरइ वासारत्तोत्ति, धणदेवेण भणियं—एवमेयं, किं तु न सक्केमि एयं वरागं परममित्तं च सच्चभावसारं मोत्तुं, परियरेण भणियं—तुच्चे जाणह जमेत्थोचियंति, तओ तप्परिहारकायरमणेणवि धणदेवेण सहा- विया वद्धमाणगगामप्पहाणा पुरिसा, सुहासणत्था तवोलाइदाणेण सम्माणिऊण सप्पणयं वसहरुम् समक्खं

भणियं जहा—एसो मम पवरवसभो एरिसदुट्टथाममवत्थंतरं पत्तो ता तुम्हेहि एयस्स इमिणा रुवगसपण ओसह-  
 चरणाश्चिताए संमं वट्ठियं, एसो तुम्ह नासुगो इव समप्पिओ मए, न सबहा अन्नहा कायधंति निरुविऊण सो  
 मयहत्तरजणे सोयाविऊण वसहस्स पुरओ वहुं चारिं पाणियं च ससिणेहं खामिऊण य तं जहाभिमयं गओ धणदे-  
 वसत्थवाहो । सो य वसभो गाढवेयणाभिभूओ जेठ्ठमासदिणयरनिट्टुरकरोलिकरालिओत्ति गिम्हुण्हतत्तमहियलडज्झमा-  
 णदेहो विरसमारसंतो दिणं गमेइ, तंपि से तिणाइयं अवरगोरूवेहिं भक्खिज्जइ, सोऽवि चारिवारिरहियत्तणेण गाढ-  
 वाहिपीडियत्तणेण य सदीणं दिसाओ अवलोएमाणो तणसलिलहत्थे तं पएसं वोळंते जणे दट्ठूण चित्तेइ—नूणं मम  
 निमित्तं एए इममुवाहरंत्तित्ति, लोगोऽवि तं अइक्खमित्ता नियनियकज्जेसु पयट्ठइ, एवं च सो वसभो पइदिणं तहा-  
 दंसणविहलियासो, चम्मट्ठिंपंजरावसेसो एवं सो परिकप्पेइ—अहो महापाविट्ठो-वज्जगंठिनिट्टुरमाणसो निग्घिणो  
 चंडालविसेसो असचसंधो कलिकालकलिलकलुसिओ एस गामजणो जेण मम एवं दुहियस्स अञ्जुउ दूरे करुणाए  
 तण्णपूलगाइदाणं जं तइथा धणदेवसत्थवाहेण मम समक्खं जवसाइ जीवणमप्पियं तंपि गसिऊण ठिओत्ति । एवं  
 च पइदिणं पओसमुधहंतो अकामतण्हाए अकामच्छुहाए अकामतिव्वेयणाए आउलीकयसरीरो महानगरदाहमज्झ-  
 पडिओ इव देहदाहाभिभूओ मरिऊण तंमि चेव गामे अग्गुज्जाणे सूळपाणिनामो वाणमंतरो समुप्पन्नो, तहिं च उव-  
 षण्णो समाणो तहाविहं देवरिद्धिं पेच्छिऊण विमरिसिउमारद्धो—अहो मए पुवभवे किं दाणं दिज्जं ? किं वा तवं

तपियं ? कस्म वा उपयारे टियं ? को वा धम्मो सम्ममाराहिओ ? कत्य वा सुतित्ये सरीरचाओ कओत्ति ? इइ  
 पिंगमिऊण पउत्तो ओही, दिट्ठं च तं तहाविगरालरूवं बलीवहसरीरं, ताहे समुच्छलिओ से महाकोवानलो वियं-  
 मिओ अविपेओ ममुलमिओ अरुज्जरुणपरिणामो, तयणंतरं पेच्छंतु दुरायारा नियपावपायवस्स फलंति विभावि-  
 तेणं तेण चिउपिया मयल्लगामवासिजणाण मारी, तप्पभावेण य अणवरयं मरिउमारद्धा उत्तिममज्झिमजहना  
 वहये जणा, जायंति य पइदिणं अफंदियरवा । कहं चिय ?—

हा नाह ! पाणवत्तह ! कत्य गओ मज्झ देसु उल्लायं । हा हा कयंत ! निक्खि ! कह सहसा ववसिओ एवं ? ॥ १ ॥

हा पच्छ ! किमुच्छंगेऽवि तं गओ अइगओ सि पंचत्तं । मम मंदभाइणीए अहो किलेसो मुहा जाओ ॥ २ ॥

हा जणणि ! तहा कट्ठेण पालिउं मं निलक्खणमियाणिं । कह निरवराहएचिय न देसि तं मज्झ पडिवयणं ? ॥ ३ ॥

हा भाय ! वंधुपच्छल ! हा हा तं भइणि ! निक्खवउपेम्मे । एकपए चिय चलियाइं कीस मुत्तूण मं दुहियं ? ॥ ४ ॥

हा पच्छे ! पडुदविणपएण परिणाविया पयत्तेण । तहविट्ठु इमं अवत्थं संपत्ता हा हयासोऽग्घि ॥ ५ ॥

हा जक्खयंमहरिमूरुदुज्जिणमंदग्गुपमुहमुरा । तह पूइयावि संपइ किमुवेक्खह तो कुणह रक्खं ॥ ६ ॥

इय अणवरयं तियच्चरेसु लोयस्स रोयमाणस्स । परिमुक्कावरकज्जस्स जंति दुक्खेण दिवसाइं ॥ ७ ॥

एवं च जुगंतसमएय रोगेहि य छिइपरेमेहि य पियजणविरहदुक्खेहि य हिययसंपट्टेहि य मरमाणंमि अणेगलोगे

सुत्रीभवन्तेसु पशुमंदिरेसु युच्छिज्जमाणेषु य अइगरुयकुलेसु म्हुयकोडिसंकुलासु गामरत्थासु भयभीओ अवसेसो  
 जणो जीवियरक्खणनिमित्तं लिहावेइ रक्खावलयं पाणिपल्लवेसु वंधेइ दिवोसहीओ, कुणइ महागहपूयं, समायरइ  
 पियरपिंडप्पयाणं, परावत्तेइ विविहमन्ते समीवट्ठियं, घरइ दिवमणिगणं, पयट्टावेइ होमविहिं, आपुच्छइ जाणयजोइ-  
 सिण, समारंभइ गिहदेवयाणं ण्हवणवलिपूयामहूसवं, अत्रंपि जं कोइ समाइसइ तं सवं तहट्ठियं निवत्तेइ, तहवि  
 ओइण्णमहाजरोष पढमद्युहाभिमूयपंचाणणोष निकाइयकम्मनिवहोष न मणागंपि सो सूलपाणिवंतरो उवसमं  
 गच्छइत्ति । अह गामजणो अणिवत्तगं दट्टण मारिं धणकणगसमिद्धाइं गोमहिसितुरगाइपरिकिन्नाइं गिहाइं मोत्तूण  
 जीवियट्टयाइं नियनियकुडुंवाइं घेतूण अन्नगामेसु गओ, तत्यवि गयं महापेरिओष उवइयइ सो तग्गामवासिलोयं,  
 एगया य तेसिं चिंता जाया-न नज्जइ तत्य अहेहिं देवो वा दाणवो वा खेत्तवालो वा जक्खो वा रक्खसो वा  
 विराहिओ होज्जा, तम्हा तहिं चैव गंतूण पसाएमोत्ति संपधारिऊण समागया तत्येव गामे, उवट्टाविया वलिकुसुम-  
 धूवाइसामग्गी, तयणंतरं ण्हाया पंडुरवत्यकयउत्तरासंगा लवंतविमुक्केसा सबसमुदाएणं तियचउक्कचचरेसु  
 पडिसडियभूयगिहेसु रुइखंदावसहेसु उज्जाणेसु य वालिं च कुसुमपयरं च मुंचमाणा उहमुहा जोडियकर्जलिणो  
 एवं जंपिउं पत्ता—

भो अंतरिक्खनिलया देवासुरजक्खरक्खकिंपुरिसा । दिवाइसयसमेया निसुणह विन्नत्तियं एयं ॥ १ ॥



इस्सरियमणं वा अन्नाणेणं व अविणएणं वा । जं अवरद्धं तुम्हं तं सवं समह अम्हाणं ॥ २ ॥

पणएसु सदुचरिओहखामणाउज्जएसु सत्तेसु । जं तुम्हारिस देवा खमंति गरुयावराहंपि ॥ ३ ॥

कोयस्स फलं दिट्ठं पेच्छामो संपयं पसायस्स । इति भणिए सो देवो गयणठिओ वुत्तुमारद्धो ॥ ४ ॥

रे रे विणट्ठसीला । घट्ठा निप्पिट्ठसिट्ठजणचिट्ठा । लोहमहागहनडिआ एत्तो मे खामणं कुणह ॥ ५ ॥

तइया न सरह पावा वसहस्स छुहाइणा किलंतस्स । तणजलसमप्पणेणवि अणुक्कंपा जं न विहियत्ति ॥ ६ ॥

नियसयणवग्गमरणे जाए संतावमुग्गमुबहह । वसहे तहा मयंमिवि न थेवमेत्तोऽवि भे सोगो ॥ ७ ॥

अलमहुणा भणिएणं वचह दूरेवि नत्थि भे मोक्खो । खलविसयेह्लिं आमूलओवि छिंदेमि दुहहेउं ॥ ८ ॥

इय तव्वयणमायन्निऊण भयवसकंपंतसरीरा धूवकडुच्छुयहत्था सुरभिपुप्फपुंजोवयारं कुणमाणा जय जीव नंदाइ-  
कोमलवयणेहिं थुणंता अट्ठंगं निवडिया महीए, भणिउमाढत्ता य-देव ! सच्चमेव अवरद्धमम्हेहिं, नत्थि तुम्ह एत्था-  
वराहो, तहावि पसीयह इयाणिं, आइसह इमस्स दोसस्स निग्घायणनिमित्तं पायच्छित्तं, 'अइकंतत्थसुमरणं विह-  
लं चिय विणट्ठकज्जंमि' किं बहुणा ?, खित्तं नियसिरं तुह चरणपुरओ, कुणसु जं किंपि कीरइ सरणागयाणंति भणि-  
ऊण अग्घदाणपुरस्सरं पुणो पडिया चरणेसु, एवं च निसाभिऊण सूलपाणिवंतरो मणागं उवसंतचित्तो भणइ-जइ  
एवं ता एयाणि माणुसद्धियाणि एगत्य पुंजीकाऊण उवरि पवरं कणंतकिंकिणीधयवडाडोवमृणहरं देवहरयं विर-

एह, अचमंतरे वलीवहाणुगयं जक्खपडिमं पइट्टवेह, निचं वलिकुसुमचणियं पयट्टेह, एवं कुणमाणानं तुम्हाणं जीवियं देमि, न अन्नहत्ति, तओ जं देवो आणवेइत्ति तं तहत्ति विणएणं सासणं सिरेण पडिच्छिऊण तेहिं गामस्स अदूरदेसे जहोवइट्टं तहेव कारवियं तस्स मंदिरं, इंदसम्मांभिहाणो य निरुविओ तत्थ देवचओ, आयेण, तिसंझं कीरइ पेच्छणयंति । एवं च अणेगमाणुसट्ठिनिचयपुरियत्तणेण इंतजंतोहिं पहिएहिं अन्नगामजणपुच्छिऊमाणोहिं तस्स अट्टिगामोत्ति नामं कयं, पसिद्धिं च सवत्थ संपत्तं । एएण कारणेण अट्टियग्गामं जायंति । तत्थ पुणवाणमंतरघरे जे तडियकप्पडियाइणो मग्गपरिस्समपीडिया परिवसंति रयणीए ते सूलपाणी पुट्टीए आरुहिऊण चिरं ताव वाहेइ जाव न सक्कंति पयमवि दाउं, पच्छा किलिकिलारायं कुणमाणो केइ तिंदूसगं व गयणे उल्लालिऊण अहो निवडंतेसु तिक्ख-खग्गेण छिंदइ केइ चरणेसु गहिऊण वत्थं व सिलायलंमि पच्छाडेइ केइ पंतं व दुवारंतोरणे पलंवेइ केइ खंडाखंडिं काऊण वलिं व सवदिसासु पक्खिवइ, एवंविहजांयणाहिं पहियजणं विणासेइ, तम्मएण य गामलोगो दिवसे अ-च्छिऊण वियाले सगिहेसु वचइ, इंदसम्मदेवचगोऽवि धूर्वं पईवं पूयं च से काऊणं दिवसओ चेव निक्खमइत्ति ।

एवं वचंतेसु वात्तरेसु भयवं महायीरसामी तावसासुमाओ समागंओ समाणो तं वंतरसुरं बोहिउकामो देवचगं भणइ-अहो एत्थ जक्खगिहे अम्हे निवसामो?, तेण भणियं-गामो जाणइ, तओ भगवया तत्थेव मिलिओ सवलो गामजणो अवत्थाणनिमित्तेणमापुच्छिओ, लोगेणवि अचंतसोमसस्सिरीयरूवं भयवंतं दट्टूण भणियं-देवज्जग । न सक्का

एतद्य वसिष्ठं, एहि गाममज्जे, गिण्हाहि जहाभिरुइयं अम्ह गिहेसु वसहिं, भयवंपि अणिच्छमाणो भणइ-इत्येव  
जणुजाणह, लोणेण भणियं-जइ एवं ता ठाहत्ति, ताहे गंतूण एगंमि कोणे पडिमं ठिओ सामी, सो य इंदसम्मो  
पच्छिमसेलसिहरं संपत्ते दिवसयरमंडले ध्रुवेलं निम्मविऊण कप्पडियाइतडियवग्गं निस्सारित्ता भयवंतंपि  
भणइ-देवज्जगा । तुम्मेवि नीहरह, मा इमिणा जक्खेण मारिज्जिहिं, सामीवि असुणमाणोच्च तुसिणीए य गमेइ,  
पुणो पुणो इय भणंते य देवच्चगे सो वंतरसुरो चित्तेइ-अहो कोऽवि एस देवच्चएणं गामजणेण य भणिज्जमाणोवि  
न गओ एत्तो ठाणाओ, ता पेच्छिही जमज्ज करिस्सामि, बहूणं दिवसाणं दिट्ठियाखेल्लणगमुवागयंति । एत्थंतरे अत्थ-  
मिओ दिणयरो समागया संज्ञा, सट्ठाणं गओ देवच्चगो, काउस्सग्गे ठिओ भुवणवंधवो ।

ताहे काउस्सग्गे ठियस्स सो भेसणट्ठया गुरुणो । जुगविगमघोरघणघोमविब्भमं भेसियजणोहं ॥ १ ॥

अट्ठट्ठहासमसमं चाउहिसिपसरियं महाभीमं । उच्छलियवहलपडिसइनायविप्फारियं कुणइ ॥ २ ॥

गामलोओऽवि तं सहं सोऊण भयसंभंतो परोप्परं भणइ-अहो एसो देवज्जगो महाणुभावो जक्खेण मारिज्जइत्ति,  
तत्थ य उप्पलो नाम परिघायगो पासजिणतित्थपुव्वपडिवन्नसामन्नो भोमुप्पायसुमिणंतलिक्खअंगसरलक्खणवंजणरूव-  
अट्ठंगमहानिमित्तसत्थपरमत्थवियाणगो लोगाओ एरिसो तारिसो देवज्जगो जक्खेण मारिज्जिहित्ति निमुणिऊण मा  
तित्तं करो महावीरो पडिवन्नदिक्खो होज्जत्ति संकियमणो वंतरगिहे य तन्भएण, गंतुमच्चाइंतो अद्धिइं काउमारद्धो ।

सो य सूलपाणी जाहे अदृष्टहाससद्देण भयवं न भीओ ताहे पिसायरुवं विदुघइ, तं च केरिसं?—

अइकविलथूललंविरेकेसोह उन्नभयणयलमज्झं । अविपकसुकतुं वयसरिच्छवीभच्छययणिहं ॥ १ ॥

दिसिकुंजरंकुसागारदूरनिकसियकलुसदसणग्गं । चिविडग्गघोरघोणानिलकंपियकविलमुहलोमं ॥ २ ॥

लंविरेवलिचम्मोणद्धमडहवच्छत्थलद्विसंधायं । पिट्ठावलग्गालिंजरकप्परसमजरदजठरतलं ॥ ३ ॥

तालतरुजुयलदीहरनिम्मंसण्हारुनद्धजंघजुयं । ठाणट्टाणोलंविथपलंबतंडवियफणसप्पं ॥ ४ ॥

अइवेगमुककमभरथरहरियससेलमेइणीवट्टं । ककखंतरालनिग्गहियमडयपिसायांसणाभिरयं ॥ ५ ॥

अइकुडिलकत्तिउफत्तियंगिनिस्सरियरुहिरपाणपरं । उब्भवियपयंडमुयं पावसमूहं व पच्चक्खं ॥ ६ ॥

इय एयंविहरुवं पिसायमवि पासिकुण जयनाहो । मसगं व अवगणितो धम्मज्झाणं विचित्तेइ ॥ ७ ॥

ताहे स सूलपाणी उचउत्तो पेहए जिणवरिंदं । मेरुध निप्पकंपं निब्भयचित्तं पवरसत्तं ॥ ८ ॥

तयणंतरं च पुणरधि भेसणकज्जेण सो महापाओ । निसियग्गकुंतुभीसणउग्गविमुग्गाढदाढालं ॥ ९ ॥

अविकलियरोसवसनिस्सरंतविसमिस्सजलणजालोहं । पप्फुरियफारफुकारवायभर्जततरुनियरं ॥ १० ॥

वियडुब्भडचडुलफणाकडप्पपडिरुद्धदिसिमुहामोगं । सिरिरियणफिरणसंचयदावियगुरुवणदवासंकं ॥ ११ ॥

कलिकालपद्धममित्तं व तिषडुरिओहभूरिरासिं व । जमपासंपि व सक्खा महिमहिलावेणिदंडं व ॥ १२ ॥

सप्यं विउघइ महं तो सो सार्मि निण्ण देहेण । आगंतूणाचेढइ वाढं थंभं व रज्जूए ॥ १३ ॥ पंचहिं कुलयं ।

पुच्छच्छडाए ताडइ सच्छंदं दसइ तिक्खदसणेहिं । कंठस्स पीडणेणं कुणइ निरुस्सासयं सहसा ॥ १४ ॥

अह अट्टहासभीसणपिसायनागोवसग्गकरणेवि । अविचलचित्तं मुणिकुण जयगुरुं गाढकुवियमणो ॥ १५ ॥

सो सघं सघरिं जाव अचंतरउइं दुरहियासं सत्तविहं वेयणं भगवओ करेइ, तंजहा—सीसवेयणं सवणवेयणं नयणवेयणं दसणवेयणं नहवेयणं नासावेयणं पिट्ठिवंसवेयणं, एयाणं वेयणाणं एक्केक्कावि समत्था पागयनरस्स जीवियं ववक्कमिउं, किं पुण सत्त एयाओ एगकालपाउब्भूयाओ अणाइक्खणिज्जरूवाओत्ति?, भयवं पुण ताओ सम्ममहियासेइ, सो य वाणमंतरो जाहे न पारेइ भयवंतं भेसिउं वा खोभिउं वा ताहे वाढपरिस्सममुवगओ अहो निप्फलो मम वावारोत्तिं कयचित्तसं-तावो धीरिमारंजियहियओ य भयवंतं पायवडिओ सद्वायरेण भणइ—भयवं! समह मम अवरहं, अयाणमाणेण तुम्ह सामत्थं सुचिरं मए अवरद्धंति, एत्थंतरे नियकज्जकरणवावडचित्तो तक्खणसुमरियसुरवइजिणभलावणावयणो सो सिद्धत्थदेवो दट्ठूण भयवओ तिघोवसग्गं धाविओ वेगेणं, पत्तो तं पएसं, भणिलमारद्धो य—अरे रे सुलपाणिवंतराहमा! अचंतदुट्ठलक्खणा दोगच्चमच्चुपत्थगा विसुद्धवुद्धिवज्जिया न जाणसि खलियारंतो इमं सिद्धत्थरायपुत्तं भयवंतं चरि-मतित्थयरंति?, जइ रे दुरायार! एयं यइयरं सफो कहवि जाणंतो ता को जाणइ तं किंपि पारिवितोत्ति?, सो य एव-मायन्निक्कण वाढं भयभीओ चउरगुणं पुणो पुणो जिणं खामेइ, सिद्धत्थो य तस्स धम्मदेसणं काउभाढत्तो जहा-

५  
 वीयरगो देवतुद्वीए गहियघो, साहुणो य गुरुबुद्धीए परिभावियवा, तत्तत्यसइहणं कायघं, सवपाणीणं पीडा परि-  
 वज्जियवा, पुबुदयरियाइं भुज्जो भुज्जो गरहणिज्जाइं, जओ एफसिं कयाणंपि तिषपओसेण पावाणं कोडाकोडाइरुवो  
 दुहविवागो इवइत्ति, सूलपाणीवि एवमायन्निऊण अणेगलोगक्खयसुमरणउप्पन्नातुच्छपच्छायावो जायसंमत्तो अचंत-  
 मयविरत्तचित्तो असेसदोसपसमणट्ठा तिहुयणपहुणो पुरओ गीयनट्टमहिमं काउं पयत्तो, गामवासिलोगोऽवि गीया-  
 इसहं सोचा चित्तेइ-अहो तं देवज्जयं जक्खो मारित्ता इयारिणि परितुट्ठो सच्छंदमेवं कीलइत्ति, मयवंपि चत्तारि रयणि-  
 जामे देसूणे परिताविओ समाणो पभायकाले सुहुत्तमेत्तं निदापमायसुवगओ संतो इमाइं दस महासुमिणाइं पस्सइ,  
 फहं १, जहा किर मए तालपिसाओ उहं बहमाणो निहओ १ पंडुरो(सउणो)चित्तओइल्लगो य हुवे पज्जुवासमाणा  
 दिट्ठा २-३ सुरहिकुसुमगंधुदुरं दामहुगं ४ गोवग्गो य पज्जुवासणापरो ५ पउमसरो विबुद्धपंकओ अवलोइओ ६  
 कळोलमालाउलो सायरो समुत्तिण्णो भुयाहिं ७ पइण्णरस्सिमंडलं चक्खुगोयरसुवगयं दिणयरविंवं ८ नियंतैहिं  
 माणुसुत्तरगिरी परिवेडिओ ९ मंदरसिहरं चारुढोत्ति १०, एवं एए दस सुमिणे पासित्ता पडिबुद्धो सामी । एत्थंतरे  
 समुग्गओ सूरु, समागओ धूवकुसुमकययइत्थो सयलगामजणो उप्पलनेमित्तिगो य, ते य दिवगंधचुण्णपुष्फवासेहिं  
 समचियं अक्खयसरीरं सामिं पेच्छिऊण उक्कुट्टिसीहनायं करेमाणा चरणेसु पडिया, परोप्परं भणिउमेवं पवत्ता  
 य-अहो देवज्जगेणं जक्खो उवसामिओ, तेणेसा पूया कयत्ति, उप्पलोवि परियाणिऊण भयवंतं पहिट्ठो, वंदिऊण

चटणजुयलंतिए निसन्नो, अह भगवजो काउस्सग्गावसाणंमि पुणरवि नमंसिऊण अट्ठंगनिमित्तसामत्यओ सुणियसु-  
 मिणाइयइयरो भणिउमारदो-मामि। तुम्हेहिं अंतिमराईए दस सुमिणा दिट्ठा, तेसिं इमं फलं-जो किर तालपि-  
 गाओ महादेहो निहओ तमचिरेण मोहणियकम्मं उम्मूलेहिसि, जो य सियसउणो तं सुक्कज्झाणं श्लियाइहिसि, जो  
 विचित्तो कोइलो तं दुपालसंगं पण्णयेहिसि, गोवग्गेण य जं तुमं परियरिओ तं ते चउधिहसमणसमणीपमुहो चउ-  
 विहो संयो भविस्सइत्ति, पउममरा य चउधिहो य देवनिकाओ तुमं पज्जुवासेही, जं च सायरमुत्तिण्णो तं संसारमुत्त-  
 रिहिसि, जो य सूरुओ अयलोइओ तमचिरेण केवलनाणं उप्पज्जिही, जं च उदराउ निस्सरिऊण अन्तेहिं माणुसुत्तरगिरी  
 पेड्डिओ तं ते निम्मलजसकित्तिपयावा सयलतिहुयणे अनियारियपसरा परिभमिस्संति, जं च मंदरसिरमारूढो तं  
 सीहामणत्पो सदेयमणुयागुराए परिणाए धम्मं पन्नविहिसि, जं च दामदुगं तस्स फलं न याणामि, सामिणा  
 भणियं-हे उप्पल! जं तुमं न याणेसि तमहं कहेमि, जं इमं दामदुगं तमहं दुविहं सागारमनागारियं धम्मं पन्नवेहा-  
 मित्ति, एवं निसामिऊण हरिसुलसियपुलयजालो उप्पलो नमंसिऊण जयगुरुं जहागयं पडिनियत्तोत्ति। भयवंपि धम्म-  
 ज्झाणपरायणो कालं गमेइ।

अह अज्जमाससमणेहिं जयगुरुवि गमिऊण चउमासं। विविहाभिग्गहनिरओ अट्ठियगामाओ निक्खंतो ॥ १ ॥  
 ताहे स सुलपाणी जक्यो अणुगच्छिऊण भयवंतं। पयकमलनिलीणसिरो भक्तीए भणिउमाट्ठो ॥ २ ॥

नाह ! तुह तिषज्वसग्गकरणजो नत्ति मम समो पायो । जं एत्थ तुमं बुच्छो तेण कयत्थोऽवि नेवत्थि ॥ ३ ॥  
 जाणामि सामि ! मम बोहणद्वया तं समोसदो एत्थ । न हु सूणासालाए कोवि निवासं जजो कुणइ ॥ ४ ॥  
 वदुजीवविणासणजणियपावपडलेण पीडिओ संतो । नो पेच्छंतो दुक्खं किमहं जइ तं न इंतोऽसि ? ॥ ५ ॥  
 ता तुमए थिय भवकूवयाओ हत्थावलंबदाणेण । उत्तारियम्हि जयगुरु ! नियसोक्खपरंगुहमणेण ॥ ६ ॥  
 इय सूलपाणिजक्खो संथविउं जिणवरं पयत्तेणं । दुस्सहयिजोगमलीएँ सल्लिओ पडिनियत्तोत्ति ॥ ७ ॥  
 पयज्जागइणाओ पढमं संयच्छरं जहावित्तं । सिद्धं जइक्कगुरुणो, इण्ह वीयं निसामेह ॥ ८ ॥

अह शुणिकुण वलियंमि जक्खे भयवं गामाणुगामं विहरमाणो गओ भोरागसन्निवेशे, तत्थ य वाहिरुज्जाणे थीप-  
 तुपंडगाइदोत्तरदिए पएसे टिओ पडिमाए, तर्हि च गामे अच्छंदूगा नाम पासंडत्था परिवसंति, तेसिं च एगो  
 अच्छंदगो लोगाणं मंततंतभूइकरणेहि जीवइ, सो य सिद्धत्थवंतरो भयवंतंमि पडिमापडिवन्नंमि कलहकेळिपियत्त-  
 णेण विणोयमपावमाणो नाहस्स पूयमपेच्छमाणो य अधिइं करेइ, अन्नदिवसे य सो भयवओ सरीरे संकंतो तेणं-  
 तेणं योर्लितं एगं गामगोहं सहित्ता कीलानिमित्तं एवं जंपइ-भो भइ ! तुमं कंगुकरं सोवीरेण सह अज्ज पज्जिमिओ,  
 संपयं च वसहरक्खणद्वया चलिओ, इंतेण य मग्गे भुयंगमो दिट्ठो, सुमिणगंमि परुत्तो य ता रे संभवइ सबभेयं ?  
 गामगोहेण भणियं-भयवं ! जवित्तहभेयंति भणिए सिद्धत्थेण अज्जंमि से वडुं समाइइं, सो परितुट्ठो परमच्छेरयंति



मण्णमाणो गंतूणं गाममज्जे नियसयणवग्गस्स पुरओ एवं परिकहेइ, अह कोऽवि देवज्जओ गामवाहिं ठिओ तीया-  
णागयवट्टमाणाइं जाणइ, पूरिया मम तेण वहये पचया, एवं च आयत्तिऊण गाढकोऊहलाउलिज्जमाणमाणसो  
गामजणो कुसुमक्खयहत्यो गओ भयवओ समीवं, संभासिओ तेण जिणतणुसंकंतेण सिद्धत्थेण, जहा भो तुम्हे मम  
अइसयपेच्छणत्थं एत्थ संपत्ता, गामजणेण भणियं-सामि। एवंति । तदणंतरं—

जं पुषकालपित्तं जं च सुयं जं च दिट्ठमित्तेहिं । जं भासियं परोप्परमह जं रयणीए अणुभूयं ॥ १ ॥

जं इट्ठाणिट्ठविओगजोगसुहदुक्खलाभलोभाइं । अज्जवि भविस्सविसयं तंपि हु सो साहए तेसिं ॥ २ ॥

ते य तहाविहं कोउगं दट्ठूण सघायरेण वंदंति पूयंति महिमं च करंति, एवं च पइदिणं इंतजंतेसु गामिल्लएसु  
पवित्थरिओ सिद्धत्थस्स परमो आणंदो । अन्नया य लोगो भणइ-भयवं!, एत्थं अन्नोवि अच्छंदओ नाम जाणओ  
परियसइ, सिद्धत्थो भणइ-सो वराओ न किंचि जाणइ, ताहे लोगो गंतूण तस्स पुरओ साहेइ, जहा देवज्जगो  
भणइ-तुमं न किंपि जाणसि, सो य तं सोचा अहंकारमुव्वहंतो अप्पाणं ठाविउकामो भणइ-एह तुम्ह समक्खं अव-  
णेमि जेण तस्स परित्राणाभिमाणं, दुक्करं खलु अम्हारिसस्स पुरओ अत्तणो पयासणं, सुकरा तुम्हारिसस्स पुरओ  
गामिल्लयाण मज्जे विविहसमुत्तावत्ति, एवं च नियवियक्खणत्तं पयडंतो ईसामहल्लसल्लखिल्लियहिययो सकोउहल्लेण  
लोगेण परियरिओ गओ सो तत्थ जत्थ जणसमूहोवासिज्जमाणपायपंकओ भयवं काउंस्समे चिट्ठइत्ति । तयणंतरं च

करंगुलीहि उभयपक्षंतेसु तण्यं घेचूण भयवओ संमुहं ठिओ पुच्छिउमारद्वो-भो देवजय ! इमं तणं किं छिज्जिही नयत्ति ? तस्स एसं पभिप्पाओ-जइ किर देवजो भणिही-छिज्जिही तो न छिंदिस्सं, अह अन्नहा तो छिंदि-  
स्सामि । एवं च विगप्पमाणंमि तंमि सिद्धत्थेण भणियं-न् छिज्जिही, सो एवं सोचा समारद्वो छिंदिउं ।

एत्थंतरंमि सफो सुहासणत्थो इमं विचिंतेइ । गामागरेसु भयवं ! कह विहरइ संपयं वीरो ? ॥ १ ॥

दिवोवओगपिभरेण वइयरं तं तओ सुणइ सधं । पेच्छइ य तं पुरत्थं तणभंगसमुज्जयं सगणं ॥ २ ॥

अहह महापाओ कह जिणंपि मिच्छं समीहए काउं ? । इय चिंतिऊण मेहइ गहह धारुळडं कुलिसं ॥ ३ ॥

तं मणसमाणेगं आगंतुं करजुगंगुलीवलयं । छिंदेइ तस्स सहसा अछिज्जमाणंमि तंमि तिणे ॥ ४ ॥

अह सो अच्छंदगो कुलिसघायनिवडियासु दससुवि करंगुलीसु जायवेलकलभावो सयलगामजणेण धिक्कारिज्ज-  
माणो गओ तप्पएमाओ, ताहे सिद्धत्थो तस्सोवरि घाटं पओसमावन्नो तं गामजणं भणइ-अरे रे दुरायारो महा-  
चोरो एसो, एण्णं वुत्तं-भयवं ! कस्स एएण चोरियं ?, सिद्धत्थेण भणियं-निसामेह, अत्थि एत्थ वीरघोसो नाम  
कम्मारओ, सोऽपिय निसामिऊण नियनायं लोवमज्झपाराओ आगंतूण निवडिओ चलणेसु, भणिउं पत्तो य-  
भयवं ! तुम्हेहिं जो समुफित्तिओ सो अहं, साहेह किं फीरउत्ति, सिद्धत्थेण भणियं-भइ ! तुह अमुगंमि काले दस-  
पलियं वत्तं नटपयं ? । तेण भणियं-आगं, सिद्धत्थेण वुत्तं-त्तं. एएण पासंडियाहमेण हरियं, वीरघोसेण भणियं-रुत्थं

तं गुण याविस्सं?, सिद्धत्थेण भणियं-एयस्स चंवे पुरोहडे महिसिंदुनामस्स पायवस्स पुरत्थिमेणं हत्थमेत्तं गंतूण  
भूमिनिहित्तं उक्खणिऊण गिण्हसुत्ति-युत्ते सो कम्मरओ लोणेण समं गओ जहोवइट्ठपएसे, आगरिसिऊण गहियं  
वट्ठयं, हल्लोलं कुणंतो य जणो पडिनिवत्तो जिणस्स अंतिए । तयणंतरं च पुणो सिद्धत्थेण भणियं-अत्तंपि सुणेह,  
अत्थि किमिह इंदसम्मो नाम गाहावई?, जणेण भणियं-अत्थि, एत्थंतरे सो इंदसम्मो निपयनाममुक्कित्तिज्जमाणं  
सोऊण सयमेव उवट्ठिओ भणइ-आणवेह सो अहंति, सिद्धत्थेण भणियं-अत्थि भइ । तुज्झ पुव्वकाले ऊरणो  
पणट्ठो?, तेण भणियं-अत्थि, सिद्धत्थेण भणियं-अरे एण अच्छंदएण सो हणिऊण खाइओ, अट्ठियाणि से उक्कु-  
रुडियाए चदरीए दाहिणे पामे उज्झियाणि जज्जि चिट्ठंति, जइ कोऊहलं ता अज्जवि गंतूण पेच्छइत्ति युत्ते वेणेण  
धाविया तदभिमुहं, अट्ठियाणि पलोइयाणि, कलकलं करंता आगया जिणसगासे, पुणरवि सिद्धत्थेण भणियं-एयं  
दुइच्चं दुगरियं, अत्तंपि तइच्चं अत्थि, परं नाहं कहिस्सं, ते य एयमायत्तिऊण गाढं निच्चंधं काऊण पुच्छिउ-  
मारद्धा, कहं?—

देव! पसीय महापणु पुणोवि अण्णं न पसिणइस्सामो । अट्ठोवइट्ठमेक्कं एयं अम्हं निवेएसु ॥ १ ॥

जह जह न साइइ सुरो तह तह पुच्छंतिं आउला धणियं । सच्चं जायं एयं जम्हकहियं हरइ हिययं ॥ २ ॥

एयं निच्चंधपरेसु तेसु सिद्धत्थेण भणियं-अरे मा तरलागह. अम्ह. अभासणिज्जमेयं. जह अवस्सं सोयच्चं ता

गंतुणं पुच्छइ एयस्स चेव भजं, सा तुम्ह साहिस्सइत्ति, एयमायत्तिऊण पधाविया तग्गिहाभिसुहं, इओ य-सा अच्छं-  
 दयस्स भज्जा तदियसं तेण पिट्ठिया, वाढं पओसभावना चित्तेइ-सोहणं जायं जं तस्स अंगुलीओ छिन्नाओ जणेण  
 धिकारिओ य, तहा इयाणिं जइ गामो एइ ता सव्वं दुस्सीलयं पवडेमिच्चि विगप्पंतीए संपत्तो गेहंगणे गामजणो,  
 पुच्छिउं पवत्तो य, सा भणइ-मा इमस्सं कम्मचंडालस्स नामंपि गिण्हहं, जओ एस नियमगिणीए सहोयराए  
 सद्धिं विसए अणुभुंजइ, गमं निच्छइत्ति, एवमायत्तिऊण ते उक्किट्ठीसिहनायं कुणंता नियनियगिहेसु गया पण्णवेत्ति-  
 जहा एरिसो तारिसो सो महापाषोत्ति, एयं सो अच्छंदओ जणेण अवमाणिज्जमाणो कयवंभणहचो इव अपेच्छिज्ज-  
 माणो लुक्खभिव्खाकवलंपि अपावमाणो एगया गंतुण जिणनाहं सकरुणं जोडिय करसंपुडं च भणिउमाढत्तो—

देवज्जप । वज्जेसुं निवासमिह तं महाणुभावोऽसि । ङाणंतरेवि लुज्जं पूयामहिमं जणो काही ॥ १ ॥

अन्नत्थ गओऽहं पुण कित्तिमकणगं व नेव अग्घामि । सुदरीए चिय गोमाउयस्स सूरत्तणं सहई ॥ २ ॥

तुह पुरओ जो विहिओ दुविणओ देव । मूढहियएणं । सो मं दढकुवियकयंतदंडघाओव दुक्खवइ ॥ ३ ॥

एयं भणमाणे अच्छंदगे अचियत्तोग्गहोत्तिकलिऊण सव्वस्सापत्ति(पीत्ति)परिहारपरायणो भयवं नीहरिऊण मोराग-  
 सन्निवेशओ उत्तरवाचालाभिमुहं पत्थिओ, अह मग्गे वंचमाणस्स दक्खिणवाचालसन्निवेशं समइकंतस्स उत्तरवाचा-  
 लसन्निवेशं च अपावमाणस्स अंतरा सुवण्णकूलाभिहाणाए महानईए पुलिणं वोळितस्स भग्गुवओ महावीरस्स खंधाव-

लंविपत्यगंडं रुहंपिपवणरुंपिप्रगाणं कंटए त्रिलगिऊण निवडियं, सामीवि येवं भूमिभांगं गंतूण अत्थंडिले पडियं  
होत्तत्ति मणागमेत्तं वडियरुंधरो तमवलोइऊण जहाभिमयं गंतुं पवत्तो । सो य पिउयंसो पुवभणियवंभणो चिर-  
रालेण तं निवडियं वत्वगंडं पहिट्टचित्तो गिण्हऊण भयवंतं च वंदित्ता ऊंडग्गामनयरमुवगंतूण पुवभणियतुत्ता-  
गस्सं ममप्पेइ । तुत्तागोऽपि अइनिउणं तुत्तिऊण एगरुत्तं विरएइ । तओ सो वंभणो देवदूसं आदाय गओ नंदिवद्धण-  
नराहियस्स समीये, पणागियं तं वत्तं, राइणावि कोऊहलमुवहंतेण सुचिरं पलोइऊण भणियं-भइ ! एवंविहं पवर-  
वत्तं कत्थ तए पावियं?, वंभणेण भणियं-देव ! महई एयस्स कहा, राइणावि भणियं-वीसत्थो सम्मं साहसु, तओ  
जह दालिओरहओ सुचिरं देसंतरेसु भमिऊण । नियमंदिरमणुपत्तो गिहिणीए तज्जिओ पुवं ॥ १ ॥  
जह जिणनाहो करुणकखरोहिं गंतूण भूरि विन्नविओ । अणुकंपांए तेणं जह दिन्नं देवदूसद्धं ॥ २ ॥  
जह तुत्ताएण पुणो दूइत्तवत्तद्वलाभरुत्तेण । जयगुरुगोच्चिय पासे सिक्खविउं पेत्तिओ सहसा ॥ ३ ॥  
जह संबन्धरमेगं पुट्टिमि ठिओ पुरागराईसु । मिस्सो इव परिभमिओ जयपहुणो विहरमाणरस ॥ ४ ॥  
जह वा सुवण्णकूलानईए रुट्टग्गलग्गवत्तद्धं । चइऊण गए नाहे तयं च गहिऊण चलिओ य ॥ ५ ॥  
जह तुत्तागेण तयं दुग्गंडसंसीवणेण गेलवियं । तह सयलं नरवइणो निवेइयं तेण सविसेसं ॥ ६ ॥  
एवं च निसामिऊण तुट्टो नंदिवद्धणनरिंदो दीगारलस्समेगं वत्थस्स सुळं दारिऊण सबहुमाणं सक्कारिऊण

मण्ड-अहो भइ ! कंहं भयवं विहरइत्ति, बंभणेण भणियं-देव ! सुणेह, सो जएकनाहो कयाइ फुट्टह्हासजणियसं-  
 तासेसु भूयभरणेसु गोदुहियाए दुद्धरं नियमविसेसमालंघिकण नासग्गसंगिचक्खुविकखेवो मंदरोव थिमिओ ज्ञाणं  
 श्रियाइ, कयाइ करालवेयालमालाउल्लासुं पयंडपडियनरसुंडमंडलीसु सुसाणभूगीसु धीरासणं संठिओ निरुद्धउ-  
 स्साससमीरपसरो सूरविंननिहियनयणो मज्झंदिणंभि आयावेइ, कयाइ गुरुमारकंतनरोव ईसिअवणयकाएण पलं-  
 वियभुयदंडो गामवहियां काउस्सग्गेण चिट्ठइ, कयाइ निक्कारणकुवियपिसायविहियतिवोवसग्गं सोक्खपरंपरं पिब  
 सम्ममहियासेइ, कयाइ छट्ठममदमासाइत्तवविसेससुसियसरीरो पुंतकुलपरिभमणलडुंउतुंठासाराहारर गहेण  
 पाणवित्तिं निघत्तेइ ।

कइयावि हीणरूवेहिं दुट्ठमीलेहिं कीडमेत्तेहिं । पाणपनरेहिं विहियं विसहइ सो तिघमुवसग्गं ॥ १ ॥

ता आवयावि मण्णे निसुणिज्जइ जा जएकदेवस्स । दइयच्च दुन्निवारा नेव समीयं समल्लियइ ॥ २ ॥

एवं किर तस्स महायसस्स उत्थरइ दुत्थिमा भीमा । कइयावि तियसनिवहा पूयामहिमं पकुच्चंति ॥ ३ ॥

इय नरवर ! तच्चरियं न मारिसो किंपि साहिउं तरइ । त्तारिसजणच्चरियाइं सुणंति जइ तारिसा चेव ॥ ४ ॥

एवं निसागिकण राया सपरिसाजणो दीहरमुकनिस्सासो अच्चिन्ननिवडंतवाहापवाहाउलवयणकमलो सोमं  
 काउमारदो । बंभणोउवि गजो सगिहं । समणियं तुन्नागस्स मोल्लउद्धं, सेसदवेण विविहं विलसंतो कालं वोलेइत्ति ।

इओ य-यद्दमाणसामी उत्तरवाचालसन्निवेशे गंतुकामो कुडिलपहपरिहारेण उज्जुयमग्गाणुलग्गकणगखलाभि-  
 हाणागममज्जेण पट्टिओ संतो निवारिओ गोवालेहिं, जहा-भयवं। एत्थ आसमे दिट्ठीविसो सप्पो अभिद्वेइ ता  
 मा, एएण पद्देण वधइ, सामीचि जाणइ, जहा-सो भविओ संवुज्झिहिति निवारिज्जमाणोऽपि गोवेहिं परकाज्जकरणर-  
 मियत्तणेण गओ कणगखलं नाम आसमपयं, जं च केरिसं?—

कप्पूरतमाललवंगतिणिमसाहारपमुहतरुत्तं । ..... ॥ १ ॥

साहाओ ॥ २ ॥

द्वीविमसप्पभयं कहइ व सउणाण सहेणं ॥ ३ ॥

एवंविहंमि तत्थ आनमपए जागंठुण ठिओ जक्खभवणमंडवियाए सामी काउस्सग्गेण चंडकोसियसप्पं पडि-  
 पोहणत्थंति । को पुण एस सप्पो पुषभे आसित्ति?, निसामेह—

अत्थ जणेगघणधण्णरुणगसभिद्वजणपरिच्छत्रो अदिट्ठपरचकोवह्वो समुद्दोष बहुवाणिओववेओ महामसरोव वि-  
 चित्तचित्तपत्तपउमाहिट्ठिओ, रासिसमुदओष मेसविसमिहुणरुत्तासभेओ गयणाभोगोष सुरसोमगुरुधुहलोगाहिट्ठिओ  
 कोसिओ नाम सन्निवेशो । तत्थ असेमदेमभामाचिमेसवियखणो नाणवित्राणकोऊहलविहिदिहण्णं उंदलक्खणजो-  
 इगसत्थपरमत्थकुमलो उक्कम्मकरणनिरयचित्तो गोभइो णाम माहणो परिवसइ, )

नियतुद्धिविणयविनिहोययारओ जेण सयलगामजणो । विहिओ पहिदुहियओ, एगं लच्छि विमोत्तुणं ॥ १ ॥  
 अहवा न सो कोऽवि गुणो जो तस्स न विज्जए दियवरस्स । तं नत्थि किंतु जं भुंजिएहिं दियसं स बोलेइ ॥ २ ॥  
 एवं च धणविरहेवि सो अविचलचित्तत्तणेण मणागंपि दीणत्तमदंसितो नियनियपरिग्गहत्तणेण चैव संतोसमुच्च-  
 हंतो चित्तेइ-अहो महाणुभावा ! इमे धणिणो जे इमीए सिरीए परिग्गहिया पीडिज्जंति दाइएहिं, विलुप्पिज्जंति  
 नराहियेहिं, अभिभविज्जंति तफरनियरेहिं, मरिगज्जंति मग्गणगणेहिं, अणुहवंति विविहावयाओ, पयमेत्तंपि न परि-  
 भमंति सच्छंदयाए, तुच्छऽपत्थभोइणोवि अभिलसिज्जंति चाहीए, अहं पुण एत्तो एगस्सवि अणत्थस्स न गोयरमु-  
 वगओत्ति, एवं तस्स परिभार्चितस्स वचंति वासरा । अन्नया य सो सिवमद्दाभिहाणाए निययपणइणीए भणिओ,  
 जहा-अज्जउत्त ! आवन्नसत्ता वहामि अहमियाणिं, पसवसमण चिसेसेण मह ओसहाइणा कज्जं भविस्सइ, तो कीस  
 तुमं न किंपि पुरिसयारमवलंबेसि ? न वा ददोयज्जणोवायं विगप्पेसि ?, न हि अणागयत्थचिंत्तापरंमुहा सलहि-  
 ज्जंति पुरिसत्ति, सो एवमायन्निऊण तक्खणविमुमरियपुवविवेओ जलहिच्च मेहोदएणं कुवियप्पकहोळमालाउलो परि-  
 भाविउमारदो-किं एत्तो यवसायं करेमि ? कं वा जणं अणुसरामि ? को वा इमस्स कज्जस्स होज्ज साहेज्जदायगो ?  
 कत्थ व गयस्स एयं सिज्जेज्ज ? को इमस्स हेउत्ति, इय किंकायवयवाउलत्तजलहिंमि सो बुट्ठो, ताहे सिवमद्दाए  
 भणिओ सो-कीस वाउलो होसि ?, केत्तियमेत्तं एयं तुह विमंलकळाकलावस्स ?, जइ कम्मविहु धणवंतं गंतुं मग्गेसि,



सोऽवि धुवमेयं कञ्चं पसाहइस्सइ, दुलहो तुम्हारिसो अतिही, गोभद्देण भणियं-पिए! साहेसु परपत्यणं भोत्तूण  
 अन्नमुवायं, पत्यणा हि नाम नरस्स जणेइ मरणसमयनिद्विसेसत्तणं, तहाहि-जायणापयट्टस्स सन्निवायाभिभूयच्च  
 पक्खलइ वाणी विगलंति विच्छायछायाओ अच्छीओ, विगयसोहं हवइ वयणकमलं, कंपंति अंगाइं, पयट्टंति दीह-  
 दीहा उस्सासा, संखुम्भइ हिययंति । अबिय—

तावच्चिय कुमुयमयंकनिम्मला विप्फुरंति गुणनिग्रहा । जाव परपत्यणाकलुसपंरुलेवं न पावेंति ॥ १ ॥

• तावच्चिय पूइज्जइ गुरुत्तबुद्धीए परमभत्तीए । जावऽत्थित्तं सत्तुत्तणं व पयडेइ न पुरिसो ॥ २ ॥

तावच्चिय सुहिसयणत्तणाइं दंसंति निच्छियं लोया । देहिति दुट्टमक्खरजुयलं जा नेव जंपेइ ॥ ३ ॥

देहिति जंपिरेणं माणविमुक्केण विणयहीणेणं । धम्मत्यवज्जिएण य जाएणवि को गुणो तेण ? ॥ ४ ॥

ता अन्नमुवायंतरमहुणां मम दुक्करंपि किंपि पिए । साहेसु पत्यणंपिहु मरमाणोवि हु न काहामि ॥ ५ ॥

इय सा तन्निच्छियमुवलम्भ सणमेगं चित्तिंऊण भणिउमारद्धा-अज्जउत्त! जइ एवं ता अत्थि अन्नो उवाओ, ॥  
 परं बहुसरीरायाससज्जो अच्चिरकालसाहणिज्जो य, जइ भणइ ता निवेएमि, गोभद्देण भणियं-पिए! को दोसो?, निवे-  
 एहि, तीए भणियं-सुणेसु, अत्थि पुवदेसे असंखदेवउलमालालंकिया वाणारसो नाम नयरी, तीसे समीवे फुरंतफा-  
 रमंगरतरंगाविद्धविमुद्धसलिला हंसचक्रवायमिहुणोवसोहिं ॥ ॥ अणवरयवहंतमहासलिलप्पवाहपूरियरयणागरा गुण/नाम

महानई, तीसे तंडमि वहवे दूरदेसंतरागयराईसरसेट्टिसेणावइंदंडनाहप्पमुहा जणा केइ परलोगत्थिणो केइ  
 कित्तिजसत्थिणो केइ अणत्थपडिघायत्थिणो केइ पियरत्तप्पणत्थिणो अणत्तरयं कारावित्ति महाहोमं पाडित्ति  
 पिंडं दिंति सुवन्नदाणं सकारिंति उद्धलियचलणे माहणेत्ति, अओ अज्जउत्त! जइ तुमंपि तत्थ वचसि ता उवत्थाण-  
 गेत्तेण पत्थणाविरहेऽवि पावेसि कणगदक्खणं, थेवमेत्तकालेण य पडिनियत्तिहिसि, इमं निसामिऊण भणियं गोभदे-  
 ण-पिए! सुद्धाऽसि तुमं, सवणरमणीया खलु दूरदेसवत्तां, सिवभद्दाए भणियं-अज्जउत्त! तद्दावि भवणनिविट्ठस्स का  
 तुज्झ कज्जनिप्फत्ती?, गोभदेण भणियं-किमज्जुत्तं?, एवंपि होउ, कुणसु संवलं जेण वचामि, तओ तीए कयं से नि-  
 मित्तं पाहेज्जं, अन्नदिवसे संवलगहत्थो पयट्ठो सो वाणारसीसंमुहो, कमेण वचंतेण दिट्ठो निट्ठुरसरीरसंठाणो नियंसि-  
 यंवत्थजुयलो निराभरणोवि अहिंसं सरीरप्पभाए उवसोहंतो वज्झागारेणवि लक्खिज्जमाणातिसओ पवरपाउगाधिरूढो  
 रत्तिविरहिओ वम्महोष पचक्खो सलीलं असंभंतो पहे वचंतो एगो सिद्धपुरिसो, तं च संभमभरियाहिं अच्छीहिं जाव  
 पेच्छइ ताव संभासिओ अणेण-भो गोभद! समागओऽसि?, किं संपयं तुमं वाणारसिं गंतुमिच्छसित्ति वुत्ते सवि-  
 म्भयं गोभदो चित्तिउमारद्धो-अहो कहं अदिट्ठं असुयं मं पचभिजाणइ?, कह वा मम गिहिणीए य एगंतजायं इमं  
 गमणवइयरं उवलक्खेइ?, सब्बहा न एस सामन्नो हवइत्ति, तद्दा जो एत्थियं मुणइ सो अन्नंपि मुणिस्सइ, ता देवयं  
 व उवचरेमि एयं, जइ पुण एत्तोच्चिय निप्फत्ती होज्जत्ति विभावितो जोडिय-करसंपुडं तं भणिउमादत्तो-अज्ज!

सोऽवि ध्रुवमेयं कज्जं पसाहइस्सइ, दुलहो तुम्हारिसो अतिही, गोभदेण भणियं-पिए! साहेसु परपत्थणं मोत्तुण  
 अन्नमुवायं, पत्थणा हि नाम नरस्स जणेइ मरणसमयनिविसेसत्तणं, तद्दाहि-जायणापयट्टस्स सन्निवायाभिभूयव  
 पक्खलइ वाणी, विगलंति विञ्छायछायाओ अञ्छीओ, विगयसोहं हवइ वयणकमलं, कंपंति अंगाइं, पयट्टंति दीह-  
 दीहा उस्तासा, संखुम्भइ हिययंति । अविय—

तावच्चिय कुमुयमयंकनिम्मला विप्फुरंति गुणनिवहा । जाव परपत्थणाकलुसपंरुलेवं न पावेंति ॥ १ ॥

-तावच्चिय पूइज्जइ गुरुत्तबुद्धीए परममत्तीए । जावऽत्थित्तं सत्तुत्तणं व पयडेइ न पुरिसो ॥ २ ॥

तावच्चिय सुहिसयणत्तणाइं दंसंति निच्छियं लोया । देहित्ति दुट्टमक्खरजुयलं जा नेव जंपेइ ॥ ३ ॥

देहित्ति जंपिरेणं माणविमुकेण विणयहीणेणं । धम्मत्थवज्जिएण य जाएणवि को गुणो तेण ? ॥ ४ ॥

ता अन्नमुवायंतरमहुणा मय दुक्करंपि किंपि पिए ! । साहेसु पत्थणंपिहु मरमाणोवि हु न काहामि ॥ ५ ॥

इय सा तन्निच्छियमुवलम्भ सणमेयं चित्तिऊण भणित्तमारद्धा-अज्जउत्त! जइ एवं ता अत्थि अन्नो उवाओ,  
 परं बहुसरीरायाससज्जो अचिरकालसाहणिज्जो य, जइ भणइ ता निवेएमि, गोभदेण भणियं-पिए! को दोसो?, निवे-  
 एहि, तीए भणियं-मुणेसु, अत्थि पुषदेसे असंखदेवउलमालालंकिया वाणारसी नाम नयरी, तीसे समीवे कुरंतफा-  
 रभंगरतरंगाविद्विसुद्धसलिला हंसचक्रवायमिहुणोवसोहि। ॥ १ ॥ णवरयवदंतमहासलिलप्पवाहपुरियरयणागरा गंग/नाम

महानई, तीसे तडंमि बहवें दूरदेसंतरागयराईसरसेट्टिसेणावइदंडनाहप्पसुहां जणा केइ परलोगत्थिणो केइ  
कित्तिजसत्थिणो केइ अणत्थपडिघायत्थिणो केइ पियरतप्पणत्थिणो अण्णरयं कारावित्ति महाहोमं पाडित्ति  
पिंडं दिंति सुवन्नदाणं सक्कारित्ति उद्धूलियचलणे माहणेत्ति, अओ अज्जउत्त! जइ तुमंपि तत्थ वचसि ता उवत्थाण-  
मेत्तेण पत्थणाविरहेऽवि पायेसि कणगदक्खिणं, थेवमेत्तकालेण य पडिनियत्तिहिसि, इमं निसामिऊण भणियं गोभदे-  
ण-पिए! मुद्धाऽसि तुमं, सवणरमणीया खलु दूरदेसवत्ता, सिवभदाए भणियं-अज्जउत्त! तहावि भवणनिविट्ठस्स का  
तुज्झ कज्जनिप्फत्ती?, गोभदेण भणियं-किमज्जुत्तं?, एवंपि होउ, कुणसु संघुलं जेण वचामि, तओ तीए कयं से नि-  
मित्तं पाहेज्जं, अन्नदिवसे संवलगहत्थो पयट्ठो सो वाणारसीसंमुहो, कमेण वचंतेण दिट्ठो निट्ठुरसरीरसंठाणो नियंसि-  
यवत्थजुयलो निराभरणोवि अहिगं सरीरप्पभाए उवसोहंतो वज्झागारेणविलक्खिज्जमाणातिसओ पवरपाउगाधिरूढो  
रत्तिविरहिणो वम्महोव पच्चक्यो सलीलं असंभंतो पहे वचंतो एगो सिद्धपुरिसो, तं च संभमभरियाहिं अच्छीहिं जाव  
पेच्छइ ताव संभासिओ अणेण-भो गोभद! समागओऽसि?, किं संपयं तुमं वाणारसिं गंतुमिच्छसित्ति बुत्ते सवि-  
म्हयं गोभदो चित्तिउमारद्धो-अहो कहं अदिट्ठं असुयं मं पच्चभिजाणइ?, कह वा मम गिहिणीए य एगंतजायं इमं  
गमणवइयरं उवलक्खेइ?, सवहा न एस सामन्नो हवइत्ति, तहा जो एत्थियं मुणइ सो अन्नंपि मुणिस्सइ, ता देवयं  
व उवचरेमि एयं, जइ पुण एत्तोच्चिय निप्फत्ती होज्जत्ति विभाविंतो जोडिय-करसंपुडं तं भणिउमाढत्तो-अज्ज!

मेत्तं च वीसमिऊण माहवीलयाहरे निरुच्चिग्गहियया विविहकहाओ कहेमाणा संपट्टिया गंतुं, गच्छंताण य  
जाए रयणिसमए गोभदेण भणियं—अज्ज ! कलयंठकंठसच्छहा समुच्छलइ तिमिररिंछोली न लक्खिज्जंति  
संपयं निण्णुण्णया महिमग्गा निदावसविसंडुलाइं घुम्मंति लोयणाइं पयत्तसंचालियावि न चलंति चलणां,  
ता गच्छह गामे, कुणह वीसामंति, विज्जासिद्धेण भणियं—सोम ! सिग्घगईए एहि सुहुत्तमेत्तं, किं गामपवे-  
सणकज्जं, गोभदेण भणियं—एवं हवउत्ति । ताहे जाममेत्तं अद्धानमइलंघिऊण ठिया एगत्य पएसे । (तयणंतरं च  
विज्जासिद्धो आवद्धपउमासणो निरुद्धसमीरप्पयारो ज्ञाणं काउमारद्धो, अह—

कणगकलसकलियं रणंतमणिकिंकिणीनिवहरम्मं । सुसिलिट्टलट्टथिरथोरथंभसोहंतवरसालं ॥ १ ॥

सुविभत्तचित्तरेहंतवेइगायलयलीढपेरंतं । वज्झपएसनिवेशियमहलपलंकसोहिलं ॥ २ ॥

गयणाओ अहापवरं विमाणमेगं समोयरेऊणं । विज्जासिद्धस्स पुरो लहुं निविट्टं धरणिवट्टे ॥ ३ ॥

अह तत्तो नीहरिऊण दिप्पंतमणिमउडलंकियसिरा विमलकुंडलकंतिविच्छुरियगंडयला पवरसुत्तासरिविराइय-  
सिरोहरा हारलयाच्छाइयथणकलसां पंचरायमणिकंकणमंडियकोमलवाहुलया रोमावलीसणाहमुट्टिगेज्झमज्झभाग-  
देसा रसणादामसंगयनियंवफलया नियंसियपंचवन्नदिघदूसा झंकारमणहरमणिनेउराणुगयचलणा हरियंदणरसवि-  
च्छुरियसरीरा अप्पडिमरूवा एगाए समाणरूवजोघणाइगुणालंकियाए विलयाए अणुगम्भमाणा समागया विला-

सिर्षी, जोडियरुसंपुडा य विज्ञासिद्धं भणिउमारद्धा, जहा-भो महायस ! उवसंहरेसु संपयं मंतसुमरणं अलंकरेसु  
 विमाणमेयंति निसामिऊण उद्धिओ विज्ञासिद्धो, पविट्टो विमाणभंतरे निसन्नो सेजाए, उवणीवाणि य तस्स  
 तंबोलनीडगाणि, ताहे वाहरिओ विज्ञासिद्धेणं गोभदो, तंबोलदाणपुघगं च विसज्जिओ निहाकरणाय, दूरे ठाऊण  
 य तदीयमाहप्पविम्हियगणो पसुत्तो एसो, विज्ञासिद्धोवि ताहिं रमणीहिं समं विविहसंकाहाहिं गमिऊण खणमेकं  
 जेट्टाए अणुचरिं जुवइं भणइ-भदे ! तुमं इमस्स गोभदस्स माहणस्स भज्जाभावदंसणेण अत्ताणं पचित्तं करेसु, तीए  
 युत्तं-एवं करेमि, अह जायंमि विजणे विज्ञासिद्धो पारद्धो इयरीए समं भोगे उवभुंजिउं, सावि तदुवरोहेण ग्या  
 गोभदसमीवे, पवोहिऊण सिद्धो विज्ञासिद्धाएसो, तेण य कुसलमइचणेण नाऊण कज्जपरमत्वं भणिया सा,  
 जहा-मयच्छि ! भणिणी तुमं मे होसि, ता अलं एत्थ पत्थुयत्थवित्थरेणं, जहाभिप्पेयं समायरसु, अकज्जपवित्तीएवि  
 जओ न एयस्स हयजीवियस्स कोऽवि समुप्पज्जइ गुणो, अविय—

अइपोरमारुयाहयनलिणीदललगसलिललवच्चवलं । जीयं सुपालियंपिहु न चिरावत्थाणमणुहवइ ॥ १ ॥

विनिहोवभोगविसयाणुकूलयालालियंपि बहुकालं । परिसड्डियविट्फलमिव विगलइ गत्तंपि अचिरेण ॥ २ ॥

सुवंति य न्तरपंसुं धम्मविरुद्धत्थरुणसत्ताणं । सत्ताणं तिकसदुक्खाइं तेण कुणिमो कहमकज्जं ? ३ ॥

सकलत्तसंगईविहु उउकालाओ परेण पडिसिद्धा । किं पुण पररमणीजणविसयपसंगो समयसत्थे ॥ ४ ॥

नियजीवस्सवि उम्मग्गामिणो जंइ करेमिं न निरोहं । ता कह अत्रे अणयारचारिणो नणुं निरुंभिस्सं ? ॥ ५ ॥

इय गोभदेण तहां कंहंपि संभांसिया सवेरग्गं । नियभायनिवित्तेसो जह जाओ तीए पडिवंधो ॥ ६ ॥

उणंमेत्तं च विगुभिऊण भणियं तीए—अहो महाणुभाव ! सुंदरो तुहाभिप्पाओ, एयं चिय सप्पुरिसलक्खणं, एयं चिय धम्मसव्वेस्सं, एत्तो सयलकळाणोवलंभो, इमाओ असेसदुस्सज्जविज्जासिद्धीओ हवंति, एयं खु सुरासुराणवि दुरणुचरं, एयाणुगओ य नरो न.रोगसोगदुंक्खेहिं वाहिज्जइ, ता पत्तं तुमए जम्मजीवियफलं जस्सेरिसो दुक्करपरित्थीसेवापरिहरणपरिणामो, एयं च कुणमाणेण तए अहंपि निओइयां सव्वकामुयसिद्धिलाभेणंति, गोभदेण भणियं—कंहं चिय मए निओइया सव्वकामुयसिद्धीए?, तीए भणियं—महायस ! भायनिवित्तेसोत्तिकाऊण साहिज्जइ तुज्ज एस वइयो, निसामेहि, गोभदेण भणियं—एसो निसामेमि, तीए कहियं—

अत्थि सयलतइलयविकखायं अणेगअच्चभुयभूयाइसयजणियजणविस्सयं आगरो विज्जारयणाणं कुलभवणं तं-  
तप्पओगाणं ठाणं खुइसिद्धीणं जालंधरं नाम पुरवरं, जत्थ—

आगट्ठिवसीकरणप्पओगअद्विस्सकरणकुसलाओ । नहगमणदूरदंसणपमोक्खलद्धीसमिद्धाओ ॥ १ ॥

हुंकारमेत्तपडिभिन्नसत्तुसंदोहत्तुद्वहिययाओ । निरुवमरूवनिरक्कियवंमंहमहिलाभिमाणाओ ॥ २ ॥

अट्ठप्पयारअणिमाइसिद्धिसंबंधसस्सिसरीयाओ । निवसंति जोगिणीओ देवाणवि वंदणिज्जाओ ॥ ३ ॥

इयरजणा दुघ्णिणयं जं नो दंसंति तं किमच्छरियं ? । तासिं महाबलाणं संकइ कुविओ कयंतोऽवि ॥ ४ ॥

मुखयरजक्खरक्खसमडप्परप्फंसणावि नूण जरा । निचावद्वियजोघणगुणाण जासिं न संकमइ ॥ ५ ॥

चिरदूरकालवोलीणभूवईणं समग्गचरियाइं । अज्जवि जाओ पयडंति सेललिहियप्पसत्थिवः ॥ ६ ॥

इय तारिसपयडपभावजोगिणीचक्कालकलियस्स । नयरस्स तस्स भण केण यन्नणा तीरण काउं ? ॥ ७ ॥

तस्य य अहं चंदलेहाभिहाणा जोगिणी परिवसामि, एसावि विज्जासिद्धसमीववज्जिणी मम जेट्ठा भइणी पसा-  
हियपरविज्जा अघंतदरिसणिज्जा जोगिणीपीढस्स चउत्थट्ठाणपूयणिज्जा चंदकंतानामा, गोभदेण भणियं-भइणि !  
को एस विज्जासिद्धो ?, किं नामो ?, कहां वा एरिसमाइप्पो ?, किं वा एस तुह जेट्ठभइणीए एयं उवचरइत्ति, कहेसु  
वाढं फोऊइलाऊलं मे हिययं, चंदलेहाए भणियं-कहेमि, एसो हि कागरूपाभिहाणजोगिणीपरिवेठियस्स डमरसी-  
हस्स पुत्तो ईसाणचंदो नाम, एएण य पुरा अणेगप्पयाराओ साहिऊण विज्जाओ अखलियपसरं सयलकामियसिद्धिं  
समीहमाणेण कचाइणीए भगवईए पुरओ कओ अट्टोत्तरविल्ललक्खेण होमो, तित्थियमित्तेणवि जाव न परितुट्ठा  
भगवई ताव आकहिऊण रग्गधेणुं समारद्धो नियकंधरं छिंदिउं,

नियजीवियनिरवेक्खो, कंठद्धं जा न छिंदए एसो । ताव सहसत्ति कत्तोवि आगया देवि रुहाणी ॥ १ ॥

अहह महाकट्टमिमं कीस तुमं पुत्त ! ववसिओ भीमं ? । इय जंपिरीए तीए कराओ छुरिया लइं हरिया ॥ २ ॥



ताहे इमेण भणियं देवि । पसीयसु, ममेत्तिण्णावि । पडिवज्जसु सिरकमलेण पूयणं होउ सीसेण ॥ ३ ॥

देवीए तओ भणियं पुत्तय । तुह साहसेण तुट्ठमिह । वरसु वरं एत्ताहे पज्जत्तं देहपीडाए ॥ ४ ॥

तओ एएण भणियं—सामिणि ! जइ सयं चिय तुट्ठासि ता जं तुमए पुत्तत्ति अहं वागरिओ एसो चिय मम वरो,  
एत्तो य पुत्तवुद्धीए मम पेच्छेज्जासित्ति भणियावसाणे दाऊण सव्वसमीहियत्यकरं रक्खावलयं पडिवज्जिऊण तधयणं  
अहंसणमुवगया कचायणी, एसोऽवि पाचियतिलोयरज्जं पिव अत्ताणं मत्तमाणो रक्खावलयमुवहंतो सगव्वं अक्खलि-  
यगमणो सपत्थ चियंभिउमाढत्तो । अचिय—

न गणइ नरवइवग्गं नय भीमभएवि उवहइ कंयं । सच्छंदलीलगमणो ज्जमंपिः उवहसइ सव्वलेणं ॥ १ ॥

अंतोउरेसु निवसइ उवभुंजइ कुलगयावि विलयाओ । आगरिसइ दूरगयंपि वत्थु वरमन्तसत्तीए ॥ २ ॥

जप्पभिइं चिय कचाइणीए एयस्स वाहुमूलंमि । वद्धं रक्खावलयं तत्तो चिय चित्तियं लहइ ॥ ३ ॥

अह अन्नया कयाई हिंडंतो एस महियलं सयलं । संपत्तो जालंधरपुरंमि रामाभिरामंमि ॥ ४ ॥

दिट्ठा य जोगिणीजणमज्झगया विहियणवरसिंगारा । अह तत्थ चंदकंता एसा मम जेट्ठिया भयणी ॥ ५ ॥

ताहे हटेण वररूवजोषणाइसयरंजिओ एसो । कुणइ पसंगमिमीए सद्धिं सद्धम्मनिरवेक्खो ॥ ६ ॥

ठाऊण कइवय दिणे सच्छंदं विविहदिषकीलाहिं । अणवट्ठियमणपसरो अमुणिज्जंतो विणिक्खंतो ॥ ७ ॥

तयणंतरं च कृत्ययि एत्तियरुलं परिभमिय इमिणा । दिव्ययिमाणारूढा अह्यं एसावि मह भइणी ॥ ८ ॥

जागिष्टिमत्तिणा जाणीयाओ संपइ पयंडदंडेण । सिरिपवयगमणट्टा गेहाओ नीहरंतीओ ॥ ९ ॥

एत्तोऽणंतरमेवं जमेस यागरइ तं करेमोत्ति । बुज्झइ खंधेण हूडी सचं चोरस्स वलियस्स ॥ १० ॥

एयमायन्निऊण गोभइेण चित्तियं-अहो रक्खसाणंपि भेक्खसा अत्थि, जमेवंविहजोगिणीजणोवि एवं आणानि-  
हेसंमि वट्टायिच्चइ, जओ चिय भणियच्चइ-बहुरयणा वसुंधरा भगवई, एत्तोच्चिय चरगुणगणनिहिणोऽवि न गवमुच्च-  
हंति सण्णुरिमा, चंदलेहाए भणियं-अहो महायस ! एयं किर साहियधं, जइ एस विज्जासिद्धो एत्थ पत्थावे मम  
भइणीचंद्रंताए न पंभचेरभंगं करंतो ता इमीए सयंपभा नाम महाविज्जा साहिया हुंता, मम पुण तुमए सील-  
खंडणं अकुणमाणेण तस्माइणनिही जच्चयि पडिपुत्तो चेव वट्टइ, सत्तरत्तमेत्तेण य चित्तियत्थसंपत्ती भविस्सइ, ता  
भो महाणुभाव ! जं पुरा पुच्छियं तुमए जहा कहं मए जोइया सब कामुयलाभसिद्धीयत्ति तत्थ एस परमत्थो, गोभ-  
इेण भणियं-सुयणु ! किमत्थ भणियधं ?

पीडंतु महा विहडंतु संपया पडड दुक्खदंदोली । सयणावि होंतु विमुहा तद्वि न मुंचामि सच्चरियं ॥ १ ॥

नियजीरस्स खलस्सय जहिच्छचारेण दिन्नपसरस्स । दुक्खेण मामि । सम्मग्गठावणं जइजणो कुणइ ॥ २ ॥

चंदलेहाए भणियं-एवमेयं; किं वन्निच्चइ तुमह निम्मलगुणाणं जस्स एरिसं जिइंदियत्तणं ?-एवंविहो अच्चककरण-

नियमो परिसं पावभीरुत्तणं एवंरूवा य वयणपइट्टा, सघहा धन्नाऽहं कयलकएणाऽहं ज मए तुम सप्पुरसासरसहरभूओ  
दिट्ठोसित्ति, गोभहेण भणियं-केत्तियमित्तोऽहं, अज्जवि महीयले दीसंति ते महापुरिसा जेसिं चरणेरणुमेत्तस्सवि न सारि-  
स्समुघहंति अम्हारिसा । तओ चंदलेहा संप्पणयं सीसे अंजलिं काऊण भणिउमारद्धा-अज्ज ! तुह असरिससचरियभत्ति-  
परवसत्तणेण किंपि विन्नविउमिच्छइ मम मणो, गोभहेण भणियं-भदे ! कीस एवं संखोहमुघहसि ?, निविसंकं भणसु  
जहाभिप्पेयं, चंदलेहाए भणियं-जइ एवं ता कयाइ परिभमणपरिवाडीए कायघो अम्ह गेहागमणेण अणुग्गहो, गोभ-  
हेण भणियं-किमणुचियं ?, नहि तुह गेहमागच्छंतस्स मम किंचि लहुयत्तणं, पत्थावंमि जेहोचियं आयरिस्सामि, न  
अन्नहा तुमए संभावणिज्जं, चंदालेहाए भणियं-महाभाग ! वाढं अणुग्गहियम्मि, न एयमन्नहा कायघंति, एवं च जाय-  
तकएणपेमाणुवंधवंधुराहिं विविहसंकहाहिं सन्भावसाराहिं विमुमरियसेसवावाराणं ससहरजोणहावसोवलक्खियपरो-  
प्पररूवाणं तेसिं झडत्ति जाया पच्छिमरयणी, उम्मीलिओ पुरंदरदिसिमुहे .....  
उमरायसरिसवन्नो कुंकुमवहलरागोवसित्तोघ सूरसारही, पविरलीभूयं गयणं .....  
मारुओ पल्हत्थिओ पच्छिमजलहिम्मि रस्सिरज्जुजडिओ ससिपुण्णकलसो सलिलाकह्णत्थं व पच्छिमदिसिरमणीए,  
एत्थंतरे विज्जासिद्धेणं भणियं-भो भो गोभइ ! बहुप्पभाया रयणी पगुणो भवसु जेण गम्मइ, गोभहेण भणियं-एस  
पगुणीह्मओऽम्मि, चंदलेहाऽवि तं आपुच्छिऊण गया चंदकंताए समीवं, विज्जासिद्धोऽवि ताओ सविमाणाओ वी-

सञ्जिऊण गंतुं संपयट्टो, गोभदोऽवि पुणो पुणोऽणुचिंततो निसावुत्तंतं लग्गो से अणुमग्गओ; तओ आपुच्छिओ  
विजासिद्धेण-भद! निसिंमि मए तुह समीवे पेसिया एगा तरुणी, तीए कया कावि पडिवत्ती? गोभद्रेण  
भणियं-अज्ज! वाढं कया, किं चिरं जीविउकामो कोइ तुह सासणमइक्कमइ?, केवलं अहं चणारसीतित्थदंसणत्थं अव-  
भकयनियमो आसि, एवमायण्णिऊण भणियं विजासिद्धेण-भद! समावि चरणेहिं तत्थं गंतंति अत्थि एस नियमो,  
न वंभचरपडिवत्तिरूवो, एवं ठिए विसेसेण मए तुह निमित्तं एस उवकमो कओ, जइ पुण तुहाभिप्पायं मुणित्तो  
ता अहंपि वंभचेरं करित्तो, एवं च कए तित्थदंसणं सफलं हवइ, गोभद्रेण भणियं-अज्ज! एवमेयं, को तुम्हाहिं-  
त्तोवि अन्नो एरिसविवेयभायणंति?, अह पुवक्कमेण भोयणं कुणमाणा विदेसियमडेसु रयणिं अइवाहिंता पत्ता कमेण  
वाणारसिं, पक्खालियमुहकरचरणा य गया सुरमंदिरेसु, दिट्ठा य खंदमुगुंदरुहपमुहा देवया, कया तेसिं पूया; एवं च  
अपण्णसुरमंदिरावलोयणेण जाए वेयालसमए विजासिद्धेण भणिओ गोभदो-भद! 'संपयमणुसरेमो सुरसरिपरिसरे,  
करेमो तत्थं ण्हाणेण पूयपावं अत्ताणं, गोभद्रेण भणियं-एह जामो, गया दोवि गंगातीरे, एत्थंतरे अविभाविय-  
आवयावडणेण अचिचिंतियवत्थुपरमत्थेणं विजासिद्धेण अइरभंसवसेण ओत्तारिऊण तं दिवरक्खावल्यं समप्पियं गो-  
भदस्स, भणिओ य संमं रक्खेजासि जाव, अहं इह भागीरहीवारिमज्जे सुहुत्तमेत्तं पाणायामं करेमि, एवंति पडिवज्जिय  
गहिय रक्खावल्यं ठिओ गोभदो, इयरोऽवि पविट्टो वारिमज्जे, अह सुहुत्तमेत्ते गए गोभदो विजासिद्धमपेच्छमाणो

संभंतनयणो इओ तओ, सयलं अवलोइउं पयत्तो, जाव-तहैव. सवओ। पलोयमाणस्स पच्छिमदिसिमवलंबियं भाणु-  
 विवं, विप्फुरिया। वालप्पवालपाडला। किरणा वाउलीह्याइं रंहंगमिहुणाइं, तओ गोभहेण निवेइया गंगातारगाण  
 यत्ता, जहा-भो भद्दा! अचंतरुवो वरपुरिसो एत्थ. तित्थंमि पविट्ठो, सो य संपयं दुत्तरउत्तंगतरंगपरंपरापच्छाइओ  
 या। मगराइदुट्टसत्तनिक्कंतिओ वा विसमपंकनिमग्गो वा भवेज्जत्ति. न' जाणिज्जइ परमत्थो, ता लहुं तधिरहतरलियं  
 मम जीवियं अणुकंपमाणा पविसह नईमज्जे निरुवह तं महाभागं, मा अपत्थावे चिय अत्थमउ तारिसवरपुरिस-  
 दिणयरो, मा आजम्मं पाउच्चभवउ सुरतरंगिणीए एरिस महाकलंकोत्ति भणियावसाणे करुणापरवसीकयहिंयया  
 पहाविया सवओ तारगा, समारद्धं च अमरसरियावारिप्पवाहावगाहणं, अह सवायरेण दीहप्पसारियभुयाहिं आलो-  
 डिज्जण जलं तेषु तेषु ठाणेषु आमूलाओ कत्थवि तं अलभमाणा पडिनियत्ता तारगा, निवेइया तदसंपत्तिवत्ता  
 गोभइस्स, सो य गाढमुग्गराभिहओव दुस्सहसोगावेगविहलंघलसरीरो विचिंतिउमारद्धो—

- कह जणनयणाणंदो समुग्गओ सरयपुण्णिमाइंदो । कह दाहुग्गाढमुहेण कवलिओ सो विडप्पेण ? ॥ १ ॥  
 कह भूमंडलमंडणकप्पो कप्पहुमंकुरो जाओ । कह वा मूलाओ चिय समुक्खओ वणवराहेण ? ॥ २ ॥  
 कह एस भुवणतिलओ विज्जासिद्धो अकारणसिणिद्धो । मइ मित्तत्तमुवगओ कह वा अहंसणं पत्तो ? ॥ ३ ॥  
 मम मंदभग्गयाए मण्णे तस्सेरिसी दसा जाया । जत्थउल्लियइ कवोडो सचं सा सुसइ तरुसाहा ॥ ४ ॥

किल मे मणोरहो एस आसि जं चिंतियत्यसंपत्ती । एत्तो होही सयला सा पुण विहलीकया विहिणा ॥ ५ ॥  
 ता किं अज्जवि एरिस कलंकपंककियं नियसरीरं । विसपायवं व जणदुक्खकारयं परिवहिस्सामि ? ॥ ६ ॥  
 एवं च संचिंतिऊण मुक्ककंठं रोइउमारद्धो—हा परमच्छेरयरयणरयणायर ! हा निकारणकरुणरससायर ! हा परम-  
 विजाहरीविलाससुभग ! हा असमसाहसपरितोसियकचाइणीदिण्णवर ! कत्थ सहसच्चिय अइगओसि ?, देहि मे  
 पडिवयणं मंदउण्णस्स, किं तुम्हारिसाणवि निवडंति एरिसीओ आवयाओ ? हा पावकयंत ! किमेकपएच्चिय पणट्ट-  
 पुरिसरयणं धराणिं काउमुज्जुओ सि, एवं परिदेविऊण तद्विरहदुयवहपसमणत्थं गंगाजले निवडिउकामो आवद्धनिवि-  
 डनियंसणो संजमियकेसपासो जोडियकरकमलो भागीरहिं विण्णविउमारद्धो—देवि ! सुरसरि एस परमबंधवो  
 तुमए चिय अवहरिओ अओ तमणुसरिउकामो अहंपि संपयं पडेमि तुह सलिले, जओ अग्गिदह्वाण अग्गिच्चिय  
ओसहंति बुद्धवाओ, इइ भणिऊण जावज्जवि न मुयइ उत्तुंगदोत्तडीओ अत्ताणं ताव गहिओ सो समीववत्तिणा  
 नत्थियवाइजणेण, पुच्छिओ य—अरे मुद्ध ! कीस तुमं इइ निवडसित्ति ?, निवेइओ अणेण गामनिग्गमाओ आरब्भ  
 सयलयुत्तंतो जाव तहंसणं अभिकंस्यमाणो इइ निवडामित्ति, तेहिं भणियं—मूढ ! केण तुह निवेइयमेयं जमिह निवड-  
 णेण पियसंपओगो वादिविगमो पावनासो वा हयेज्जत्ति, एसा हि असेसदेसंतरावगाढकोढसुद्धियसंबंगनरनिवहावगा-  
 इणदुगुंळणिज्वसलिला अणेगमडयट्टिसंघायणभक्खणपरा महारक्खसिध क्हं मणवंछियत्थं पूरेज्जा ?, अहो महामोहो

अहो गड्ढरियापवाहो, सचं चिय पढंति इमं वियक्खणा—

कर्णविपेण हि दग्धः किं किं न करोति वालिशो लोकः ? । क्षयणकतामपि धत्ते पिवति सुरां नरकपालेन ॥ १ ॥

अह एत्थ निमग्गा पावंनि समीहियत्थं ता रे किं कयमिमेहिं मञ्चकच्छवाईहिं आजम्मंपि सलिलावगाढे-  
हिति, किं वडुणा ?, मुयसु विसायं, परिचयसु मरणाभिलासं, कुणसु नियकरणिज्जं, न एवंविहजणो कयंतवयणपवि-  
ट्ठोवि विवज्जइ, अह विणियाओऽवि होज्ज ता विवण्णजीयं सरीरगं सलिलोवरि सयमेव टापज्जा, अओ अलं वाउ-  
लत्तणेणं, होउ परिदेविएणंति । एत्थंतरे गुलुगुलियं गंधहत्थिणा वज्जियं मंगलतूरं पढियं वंदिणा रसियं सारसमि-  
दुणेण, तओ तेहिं भणिओ—भो भद्द ! एरिसनिमित्तेहिं अज्जवि सइज्जइ से जीवियं, गोभदेण भणियं—तुम्ह वयणसा-  
मत्थेण एवं हवउ, इय सो तेहिं मरणाओ वावत्तियचित्तो दो तिन्नि दिणाइं तत्थेव निवसिओ, अन्नदियहे य  
चित्तियमणेण, जहा—न जुत्तं एत्थावत्थाणं, जओ—

(वाणारसीवि वाणारसिच्च किंतइ सरीरमहिगं मे । मंदाइणीवि मं दाइणिच्च दूमेइ पयदियहं ॥ १ ॥)

ता गच्छामि जालंधरं, पेच्छामि चंदलेहाए भणियं पणयंति विभाविऊण तमभिसुहं गंतुं पयट्ठो, गच्छंतेण य  
संपत्ते मज्झणहसमए विज्जासिद्धभोयणाइललियं सुमरणमाणेण अंसुजलाविल्लोयणजुयलेण चित्तियमणेण—

तारिसजणदुस्सहविरहजलणजालातविज्जमाणंपि । अज्जवि न लज्जसि वज्जघडिय ! निज्ज हयहियय ! ॥ १ ॥

तथा—तं चिय महप्पभायं रक्खायलयं इमो य सो समओ । तेणेकेणेव विणा सुत्रं सधं दिसापडलं ॥ २ ॥

अहया रक्खायलएपि होज निप्पुत्तयस्स किं मज्झ ? । चिंतामणिलामेऽविहु सीयइ विमुहो विही जस्स ॥ ३ ॥

जाधारवमेण धुवं गुणोदया न उण जहा तथा होंति । सलिलंपि सिप्पिसंपुडपडियं मुत्ताहलं होइ ॥ ४ ॥

इय एव भावितो तमेकचित्तेण सो निराणंदो । जालंधरमणुपत्तो कमेण अविंलं वियगईए ॥ ५ ॥

तथासिजणं च पुच्छितो पयिट्ठो चंद्रकंताए गिहे; सुत्तप्पायं च तं दट्ठणं भणिया दुवारट्ठिया गेहरक्खिया, जहा—भहे ! किमेत्थ कोऽपि न दीसइ, तीएपि वहिरत्तणेण वयणमसुणमाणीए दंसिया नियसवणा, तेणापि वहिरित्ति नाऊण जंपियं महया सहेण, एत्थंतरे समीपगिहट्ठिएण ईसाणचंदविज्जासिद्धेण सुणिओ सो सहो, पच्चभिन्नाओ य, तओ मणिओ सो-गोभइ ! इओ इओ एहि, इहाहं निवमामि, गोभहोऽपि ससंभमं वयणमेयं निसामिऊण कइं विज्जा-मिद्धो इय मं पाहरइत्ति जायसंको जाच कित्तिथंपि भूभागमइक्कमइ ताव समक्खं चिय दिट्ठो अणेगनाडीनिविडज-डियसरीरो चरणपसारणंपि काउमसमत्थो ईमाणचंदो विज्जासिद्धो, तं च दट्ठणं चिंतियमणेण—

किं किंपि कूडमेयं विभीसिया वा नइच्चमो किं वा । दिट्ठीए मोहणं वा होज्जा छलणप्पगारो वा ? ॥ १ ॥

अहया पीडमिमं जोगिणीण सधंपि संभवइ एत्थ । नूणं सकम्मपवणप्पणामिओ जामि निहणमहं ॥ २ ॥

सुरसरियातीरे जइं तइया काऊण धम्मकिंथाइं । परलोयं सारहितोऽग्घि ता धुवं लट्ठयं होंतं ॥ ३ ॥



इय जाव मरणभयकंपमाणदेहो स चिंतद ससोगो । तुरियं ताव पुणोऽविहु विज्जासिद्धेण वाहरिओ ॥ ४ ॥

गोभद ! भद किं कुणसि विच्चमं नत्थि तुज्झ भयमेत्थ । पुव्वोवणीयमहुणा रक्खावलयं समप्पेसु ॥ ५ ॥

इय भणिए गोभदो वीसत्थो अइगओ समीवंमि । पेच्छइ विज्जासिद्धं विविहपयारेहिं अवरुद्धं ॥ ६ ॥

अह सो तं दद्वुणं वाहाऊल्लोयणो भणइ एवं । हा अज्ज ! तुज्झवि कइं दुत्थायत्था समोत्थरइ ? ॥ ७ ॥

विज्जासिद्धेण भणियं-गोभद ! अलं विसाएण, लहुं वंधेहिं मम वाहुमूले रक्खावलयं, जमज्जो आणवेइत्ति भणि-  
ऊण वद्धमणेण, एत्थंतरे तडयडत्ति विहडियाइं नियलाइं, जाओ पगुणसरीरो, पुच्छिओ गोभदेण-अज्ज ! को एस  
वुत्तंतो ? , कहिं नईनिमज्जणं ? कहिं एत्थं आगमणं ? , कइं वा एस निरोहो ? , वाढं कोऊहलाउलं मम हिययं,  
साहेसु परमत्थं, विज्जासिद्धेण भणियं-साहेमि, जं तइया तरलत्तणेणवि सुमरियजुत्ताजुत्तवियारो दिव्वमाहप्पमप्पि-  
ऊण तुह रक्खावलयं पविट्ठोऽग्घि गंगाजले तस्स फलमेयं, गोभदेण भणियं-कइं ? , सो भणइ-जाव किर तत्थं  
सुद्धत्तमेत्तं पाणायामं काऊण ठिओ ताव सहसच्चिय अचंतं सरीरविवलत्तणं लंभिऊण तुम्हारिसेहिं अपेच्छिज्जमाणो  
उक्खित्तो अहं एयगिहसामिणीए पुव्वेराणुवंधमुव्वहंतीए चंदलेहाभिहाणाए जोगिणीए, उवणीओ एत्थ द्वाणे, दढं  
निजंत्तिओ निगडाईहिं, गोभदेण भणियं-अज्ज ! केण पुण कारणेण इमीए सद्धिं वेराणुवंधो ? , विज्जासिद्धेण भणियं-जं  
तइया पिमाणमारुद्धिय समागयाए जेट्टभइणीए चंदकंताभिहाणाए भए वला परिभोगो कओत्ति, गोभदेण भणियं-

कदं गुण चिंतियमेत्तसमत्थवत्थुलाभेऽवि संपयं तुह एरिसं अचित्तिणिज्जं विसममावडियं?, विज्जासिद्धेण भणियं-देवया-  
 दित्तरस्थावलयविरहो एत्थ कारणं, परं भद! तुमए नित्थारिओऽहं इमाओ आवयाओ, साहु साहु तुह वियक्खणत्त-  
 णस्स, एरिसमवत्थंतरनिगडियस्स न तथा जाया मह देहपीडा जहा तुह अदंसणेणं, मत्ते इह भवे चियं पसन्ना भां-  
 गिरही देवी जीए तुमं अणुवचरियपरूढपणओ मित्तो पणामिओ, ता वाढं पसन्नं मे मणो, वरेसु जहा पियंति भणिए  
 गोभदेण भणियं-अज्ज! देवो वऽण्णो जाणइ कोवि अणुवचरियपरूढपणओ कस्सवि मित्तो पणामिओ, विज्जासिद्धेण  
 भणियं-अलं इमीए संकहाए, वरेहि जहिच्छियं वरं, गोभदेण भणियं-महापसाओ, पत्थावे वरिस्सामि, एत्थंतरे डमं-  
 डमिरडमरुयनिनायमरियमुयणंतराला वराभरणकिरणविच्छुरियनहंगणा दिवविमाणारूढा पविट्ठा चंदलेहा य चंद-  
 कंता य, तओ गोभदेण भणियं-विज्जामिंद! कहमिण्ह तुमं एयासु वट्ठिस्ससि?, विज्जासिद्धेण भणियं-जहा सत्तुसु  
 वट्ठिज्जइ, गोभदेण भणियं-अज्ज! मामेवं जंपसु, जओ विसंवल्लिघं वहंती वेरपरंपरा न कोमलमावहइ, विज्जासिद्धेण  
 भणियं-ता किं कीरइ?, वियक्खाभिमवेणेव अत्तणो अवत्थाणंति, न्हि निसासंतमसमृखंडिऊण पभवइ मायंडमंडलं,  
 नेउ य पंकत्तणमपावेऊण धूलिपडलं चिरावत्थाणं वंधेइ सलिलं, गोभदेण भणियं-अत्थि चिय एस ववहारो, परं मम  
 पयणोमरोहेण ताव उदासीणेण होयधं तुमए, विज्जासिद्धेण भणियं-जं तुमं जाणासि, एवं बुत्ते जणेण अमुणिज्जंतो  
 तत्तो सो नीहरिऊण पट्ठिओ तंमंदिराभिमुहं, इंतो य दिट्ठो चंदलेहाए, स्यणियरप्पगासदिट्ठरूवाणुमाणेण य

जायपचभिन्नाणाए तीए गाढमालिंगिऊण सुहासणत्थो हरिसुलसियलौयणाए पुच्छिओ-अज्ज ! कत्तो कहंथा समा-  
 गओऽसिच्चि ? , तेणावि से साहिओ सामन्नेण वुत्तंतो, चंदलेहाए भणियं-सुद्धु कयं तुमए जमेत्थ पंथावे समाग-  
 ओऽसि, जओ अह पडियुत्ता इयाणिं सबे मणोरहा, गोभहेण भणियं-कहं चिय ? , तीए भणियं-जं तइया तुमए  
 मम वंभचेरखंडणा रक्खिया तेण सत्तरत्तपज्जंते सम्ममाराहिज्जमाणा सिद्धा भगवई सयंपभाभिहाणा विज्जा, सो य  
 दुद्धविज्जासिद्धो ईसाणचंदो सवकासुधरक्खावलयविहूणो जणहुकजाजलमज्झगओ झसोष विवसो पाविओ, गोभ-  
 हेण भणियं-कहमियाणिं सो संठविओ ? , तीए भणियं-जहा दुद्धकरिवरो, तेण भणियं-किमित्थं पुण तहा धरि-  
 ज्जइ ? , तीए भणियं-कसिणचउइसीए चंडिगाए वलिविहाणत्थं, गोभहेण भणियं-जइ एवं ता दंसेसु तं वेवदिणपरि-  
 चियत्तणेण तेण समं मे किंपि यत्तवमत्थि, तीए भणियं-को दोसो ? , एहि जेण दंसेमि, तओ पट्टियाइं गंतुं, जाव  
 य केत्तियमेत्तमंतरमुवगया चंदलेहा ताव दिट्ठो विज्जासिद्धो वाहुवद्धरक्खावलो विपलियनिघलबंधणो महाकोव-  
 फुरंताहरो पायडियनिडालभिउडिभासुरोत्ति, तं च दट्ठण चित्तियमेयाए-अहो कहं रक्खावलयलाभो इमस्स रक्ख-  
 सस्स ? , कहं वा नियडच्छेओ संपत्तो ? , अहो अवित्थियं केरिसमावडियंति ? , जायभयावि आगारसंवरणं काऊण तेण  
 समेया समीवमुवगया एयस्स, तेणवि इंतिं दट्ठण ईसि पच्छाइयकोवविरागेण संभासिया, जहा भहे ! उवविस,  
 तओ आसणनिसत्ताए चंदलेहाए पुणो कइयवेण उहमवलोइऊण भणियमणेण-अहो कहं पुवपरिचिओ गोभहो

रीमह?, इजो एहि भह!, किं तुमंपि जहमिव एयाए छलणगोयरमुवगओत्ति जेण वाणारसीविमुक्कोवि एत्थ पेच्छि-  
ज्जमि?, गोमहेण चितियं-अहो गाढो जमरिसो, ता तहा करेमि जहा अवरोप्परं पणयभावो हवइ एसिं, अणु-  
निया दिजोवेधा विसिद्धपुरिमाणंति, इइ संचिंतिऊण आवद्धकरंजली सो भणिउमाढत्तो—

हे भइणि चंदलेहे! हे विज्जामिद्ध! गुणगणममिद्ध। जइविहु कुसलत्तणओ तुम्हाण न किंपि वत्तघं ॥ १ ॥

तहविहु जसरिमपेमप्पबंधसंघतरलियमणोऽहं। दिवभावभूरिजंपिरसभावओ किंपि साहेमि ॥ २ ॥

जो तुम्ह परोप्परमेस रोसलेसो कहंपि संभूओ। सो मोत्तघो होइत्ति परमवेरिघ दुहदायी ॥ ३ ॥

जेणानलुप पडमं नियठाणं दहइ एम वहुंतो। ता अवगासोऽवि कहं दायघो होइ एयस्त? ॥ ४ ॥

अह येरिसु दोसकरणत्तणेण कोरो समुत्तसइ तुम्ह। कोवेच्चिय किं कोवं न कुणह दुक्खेक्कहेउंमि? ॥ ५ ॥

न चलइ गरुयाण मणो अवराइपए जईव गरुएवि। जह जलहरेण खुब्भुइ गिरिसरिया तह न नइनाहो ॥ ६ ॥

तथा-अवयारे अवयारो जं कीरइ एस नीयववहारो। उवयारकारगच्चिय गरुया अवयारिणि जणेऽवि ॥ ७ ॥

इहरा पित्तेसलंभो उत्तमनीयाण कह णु जाएज्जा। न हि एगरूववत्थुंमि होइ विविहाभिहाणाइं ॥ ८ ॥

जलमेत्तो भणिएणं तुम्हं जइ मम गिरंमि पडिंधो। जइ उत्तमगुणमग्गेण विहरिउं विज्जए विच्छा ॥ ९ ॥

जइ ससहरजोणहासत्यहं च किंत्तिं सया समभिलसह। पुघाणुसयं मोत्तुं परोप्परं कुणह ता पणयं ॥ १० ॥ जुम्मं।

अण्णं च-हे विज्जासिद्ध ! पओसमुघहंतो कहं न लज्जिहिंसि ? इत्थीमु तिहुयणंमिधि अवज्झसब्भावसिद्धासु ॥ ११ ॥  
 इतिहासपुराणपमोक्खसत्थविकखायमवि इमं तुज्झ । पम्हुट्टंकीस ? महाणुभाव ! कुसलावि मुज्झंति ? ॥ १२ ॥  
 आयन्निऊण एवं विज्जासिद्धेण जायलज्जेण । भणियं आपसं मे देहि लहुं जमिह कायवं ॥ १३ ॥  
 उप्पहपवन्नमारिसजणवोहणकारणेण निम्मविया । वेयत्थमहानिहिणो तुच्चे नूणं पयावइणा ॥ १४ ॥  
 एवं सोऊण गोभदेण भणियं-साहु साहु विज्जासिद्ध ! को अत्तो एवं वियाणेइ वोत्तुं ? अहवा-को सिसिरइ नि-  
 सिनाहमंडलं ? को वा चित्तेइ सिहिसिहंडाई ? । देहसहसमुग्गओ चेव विणओ तुम्हारिसजणाणं ॥ १ ॥ उट्टेसु  
 संपयं कुणसु चंदलेहाए पणामं, चंदलेहे ! तुमंपि विमुक्कमच्छरं परिचत्तपुघाणुसयं नियसु इमं सयणनिधिसेसं,  
 विहेसु इमेण समं पणयभावं, इय भणियावसाणे निवडिओ चंदलेहाए चलणेसु विज्जासिद्धो, भणिउमारद्धो  
 य-सुयणु ! तारुन्नमएण वा विज्जावलावलेवेण वा अविवेयसुलभदुघिणएण वा मए जमवरद्धं तं तुमए मरिसियवंति,  
 चंदलेहाए भणियं-विज्जासिद्ध ! अलं खामणेणं, सघहा मंदभागिणी अहं जा थेवमेत्तावराहेवि एवंविहमणत्थं  
 काउं ववसिया ।

एत्थंतरंमि कइवयचेडीचकेण परिवुडा झत्ति । विम्हयनिम्भरहियया समागया चंदकंतावि ॥ १ ॥  
 ताहे गोभदेणं विज्जासिद्धो पयंपिओ एवं । जीएँ कए चइरमिमं तहि(तुह)ट्टिया सा इमा सुयणु ॥ २ ॥

ता परिमुक्तागरिसं सविसेमं कुणमु खामणमिमीए । (रोसावेसो येवोऽवि होइ अग्गिघ दुहहेऊ ॥) ३ ॥

इय भणिए भइणीमिद्धसंधिसंधणतुट्टहिययाए । तीए विजासिद्धेण खामणा सायरं विहिया ॥ ४ ॥

चं च पणट्टकोयाणुबंधाणं एगजणणीजणियाणं व जायदढपेमाणं तेसिं परोप्परं जंपिराणं महाणसिणीए आगं-  
त्रत्ता चंद्रंता-देवि! कुणह पसायं, एह गेहम्मि, निप्फन्ना रसवई, मज्झंदिणमणुपत्तो य भयवं भुवणचक्खू  
त्यरोत्ति, एयं च निमामिऊण चंद्रंताए भणियं-हे चंदलेहे! भोयणत्थमुवनिमंतेसु पाणुणगे अइकालो वट्टइत्ति,  
तओ चंदलेहाए उट्टविओ विजासिद्धो गोभदो य, गया भोयणमंडवं, फयं समगं चिय विविहविच्छित्तिप्पहाणं  
भोयणं, तदुत्तरं च दयावियाइं कप्पूरधूलिधूसरपूगीफलदलसणाहाइं तंबोलनीडयाइं, एत्थंतरे विजासिद्धेण सिरंमि  
करणं इदं भणिओ गोभदो, जहा-पुयपडिवन्नं गिणहसु वरं, नियत्तिउत्तामोऽहमियाणिं, गोभदेण भणियं—

धिय तुट्टो वियरेसु तुमं परं महाभाग! । ता तं एयाहिं समं (पे)म्मं सययं वहेज्जासि ॥ १ ॥

मे तुमए विहियं चिय मज्झ चित्तियमसेसं । परचित्ततोसदाणाओ दाणमन्नंपि किं अत्थि? ॥ २ ॥

सवित्रलिहरिचंद्रप्पमोस्सविस्संभराहिवार पुवं । नियजीधियदाणेणवि अकरेसु जणाणमुचयारं ॥ ३ ॥

उणनस्मरम्म दुहनिवहभाइणो जीधियस्स फलमेयं । जं उचयारो कीरइ दुहसंतत्ताण सत्ताणं ॥ ४ ॥

विजासिद्धेण तओ भणियं भो कीस वाहरसि एयं? । तुम्हारिसाणवि पुरो किमन्नहा हुंति उछावा ॥ ५ ॥

निदाशुम्भिरनयणावि सज्जणा जं वयंति किर वयणं । नियजीवियघणवि तं तह अहियं समत्यंति ॥ ६ ॥  
 मिच्छाकारिं मिच्छा व भासिणं मं धुवं सुणेऊण । कचाइणीयि देवी लज्जइ किं पुण परो लोगो ? ॥ ७ ॥  
 ता-गोभइ ! परिचयसुं एत्थ मम संतिर्यं अविस्सासं । अन्नं मग्गेषु वरं मा कीरउ मे पणयभंगो ॥ ८ ॥

८ एयमायन्निऊण गोभहेण भणियं-जइ एवं ता परिहरेसु परमहिलापसंगं, एसो हि कारणं वेरपरंपराए, कुलम-  
 वणं अणत्थसत्त्वाणं, पत्तणी नरयनगरस्स, वंधवो दुघिणयस्स, ठाणं परिभवस्स, आगरो अकित्तीए, मसिकुचओ निय-  
 कुलस्स, निलओ पावपडलस्स, मूलंकसो गुणकलावस्स, जणगो उत्तरोत्तराधम्मपरिणईए, एत्तोचिय भुयणपयडावि  
 वेरिभुयदंडकंडचंडिमखंडणेकसुंडावि असेसविज्जाइसयसालिणोऽवि पाविथा लंकाहिवइपभिइणो विणासं, एत्तो चिय  
 अविगणियतणनिधिसेसनियजीवियद्या अमुणियजुत्ताजुत्तकायवा तिक्खदुक्खलक्खंवि अभिकंखंति पाणिणोत्ति, ता  
 मूसगोष मज्जारस्स, घवकुंभोष दुयवहस्स पयंगोष पईवस्स, सारंगो इव पंचाणणस्स, सुहाभिलासी दूरमवक्कमइ कुसलो  
 परदारस्सत्ति निसामिऊण समुप्पणगाढयच्छायावो वेरग्गमग्गाणुलग्गचित्तो विज्जासिद्धो भणिउमाढत्तो-गोभइ !  
 साडु समुवइट्ठं साडु समुवइट्ठं समुद्धरिओऽहं तुमए अपारपाव, पारावाराओ, होउ संपयं सदारपरिभोगं मोत्तूणाऽऽमर-  
 गंतं निवित्ती मम सेसमहिलापसंगस्सत्ति, गोभहेण भणियं-अज्ज ! जाओ इयाणिं मम वंछियत्थलाभो, एत्तो सुम-  
 रिज्जासि मं सुहिसयणाइकहंतरेसुत्ति । एवं वुत्ते विज्जासिद्धो जोडियपाणिपल्लवो पणामं काऊण सवेसिं सिणेहवस-

मंदंतग्राहफुरंतनयणो सायरमवलोइच्चमाणो चंदकंतापमुहेर्हि अहंसणमुवगओत्ति । चक्रुपहमइक्कंतेऽवि तंमि खणं  
 विरहयेयणामुन्नत्तणमणुभविऊण भणियं गोभदेण-अहो से वयणविन्नासो अहो पावपरिहारो अहो भीरुत्तणं अहो  
 विणीयया अहो सुगुणज्ञणसमुच्चमो अहो असरिसदचिरणत्तणंति, चंदलेहाए भणियं-तुहाणुभावो खलु एसो,  
 न हि नरिंदसामत्यगंतरेण भुवगफणाफलगमइक्कनिउमभिसफइ साल्लो, न तिकखंकुसकरारोहगं विणा पहे पयट्टइ  
 मत्तदोषट्टोत्ति, एवं च विरिहंरुहाहिं ठाऊण कइयय दिणे अन्नदियहे य भणियं गोभदेण, जहा-वइइं दिणाइं  
 गम गिहनिग्गयस्स ता अणुजाणह मं गमणत्यं, न जाणिच्चइ कहंपितुम्ह भाउज्जाया संपयमावण्णसत्ता निवसइत्ति,  
 एवमायण्णिऊण चंदलेहाए पुणोवि कइयय वासराणि धरिऊण अन्नसमए य पभूयरयणदाणपुघगं सम्माणिऊण  
 निसच्चिओ गोभदो सट्टाणं पत्तो क्हाणगत्रिसेसेणं निययगामं ।

अह जाव पिययमादंसणुसुओ निययगेहाभिमुहं वचइ ताव दूराओ चिय दिट्ठं भग्गदुवारदेसं रेणुपडलसंछन्नं  
 दरीपमुत्तसाणपुरपुरियघोरघोसमीसणं अणेगक्कोलचिलाउलं सुसाणं व भयावहं तं गिहं, तारिसं च दट्टूण खुभिय-  
 हियएण पुच्छिया सहेच्चिया, तीएवि चिरकालागयं दट्टूण तं जायपणयाए आहूओ सग्गिहे, दावियं आसणं, कयं  
 चरणमोयणं, भणियं च-गोभइ! करेसु ताव भोयणंति, तेणावि तहाविहगेहदंसणजायसरीरदाहेण आपुट्टा पुणोवि  
 एमा सपरवुत्तंतं, तीएऽवि अणिट्ठं भोयणावसाणे सीसइत्ति लोययायं परिभाविंतीए भणियं-पियहरं गया तुह



परिणी, सेसं पुणो कहिस्सामि विहेसु ताव भोयणं, तर्थाँ आउलहिययएणावि तदणुवित्तीए कयमणेणाहारंगहणं,  
तयणंतरं आयंतस्स सुहासणगयस्स निवेइयमणाए-गोभइ ! तुह गयस्स कइवयदिवसावसाणे विओगदुक्खेण वा  
तहाविहवाहियसेण वा परिकिसियसरीराए सिवभइाए अयंडेचिय समुप्पन्ना गाढं सुलवेयणा, आउलियं सरीरं,  
ओसहेहिवि न जाओ विसेसो, गया य मुहुत्तमेत्तेण पंचत्तंति, एयं च सो आयन्निऊण विओगवज्जज्जरियहियओ  
खणंतरमुच्छिओ इव विगमिऊण मुक्कपोकारकरुणसहं रोइउं पवत्तो, समासासिओ पासवत्तिणा जणेणं, कयाइं मय-  
लोइयकिष्वाइं, कालेण य जाओ अप्पसोगो । अन्नया य भणिओ लोगेहिं, जहा-गोभइ ! कीरउ कलत्तसंगहो, विमु-  
चउ सोगो, एसचिय गई संसारविलसियाणं, तेण भणियं-भो दूरमसरिसमेयं, तहाहि—

पढमं दघोवज्जणकएण देसंतरं गओऽहमहो । चिरकालकिलेसवसा तल्लामे नियगिहं पत्तो ॥ १ ॥

किर भुंजिस्सामि अहं इण्हि नियपणइणीए परियरिओ । पंचविहविसयसोक्खं निरवेक्खो सेसकज्जेसु ॥ २ ॥

भवियघयावसेणं अक्काले चिय दिवं गया सावि । एवं ठियंमि अन्ना परिणिज्जइ केण कज्जेण ? ॥ ३ ॥

जह सा मरणं पत्ता अणुणुवुढावि तह जइ मरेज्जा । ता होज्ज निप्फलचिय पुणोऽवि सघेऽवि आरंभा ॥ ४ ॥

नियजीवियस्सवि कइं विस्सासो बुज्झए सयत्तेण ? । आगयगयाइं जं किर कुणइ व मुहमारुयमिसेण ॥ ५ ॥

संघडणविहडणापडुपरकमे निकिवे कयंतंमि । सच्छंदं वियरंते कत्थं व जाएज्ज थिरवुद्धी ? ॥ ६ ॥

रश्मिधनपरिवर्णमंगमेषु जह सरिसरोयमं सोक्यं । पाविञ्च विष्णुओगे नियमा मेरुवमं दुक्खं ॥ ७ ॥

इय पञ्चत्तं मह परणिविसयतण्हंए बहुक्खिलेसाए । एत्तियमेत्तंमि वए विसयासा हीलणाठाणं ॥ ८ ॥

एवं तन्निच्छयं मुणिकुण तुमिणीए ठिओ जणो, सो य धम्मकज्जेसु उज्जओ जाओ, अन्नदियहे समोसरिओ तस्य पंचमवमुणिपरिवुडो लुत्तीसगुणरयणरयणायरो नीसेसपाणिगणरक्खणपरो सुगहियनामो धम्मघोससूरी, गया तस्स यंदणत्थं बह्वे जणा, गोभदोऽवि भवविरत्तमणो जाणिकुण तदागमणं पत्तो सूरिसमीवे, पहिट्ठचित्तो य पण-  
मिकुण से पायपंरुपं गुरुणा दिजासीसो उरविट्ठो भूमिवट्ठे, सूरिणावि पारद्धा धम्मदेसणा, जहा—

जीवपहालियवज्जणमदत्तधणगहणमेहुणनिवित्ती । जो य परिग्गहचाओ, एयं धम्मस्स सबस्सं ॥ १ ॥

जीवपहे जामत्ता सत्ता अट्ठप्पयारमवि कम्मं । वंधंति जंति नरए पावंति य तिक्खदुक्खाइं ॥ २ ॥

तत्तो उपट्ठित्ता तिरिक्खजोणीसु लक्खमेयासु । उवरज्जंति वराया नियदुच्चरिएण बहुकालं ॥ ३ ॥

जे उ नियजीवियममं सम्मं रक्खंति सवपाणिगणं । ते सयललोयलोयणससहरतुला हवंति जणा ॥ ४ ॥

दीहाऊउववेया पररूवा दिषदेवसोस्खाइं । जणुसुंजिकुण नूणं कमेण मोस्खंमि वचंति ॥ ५ ॥

भूयत्पनिण्हयरुरं पाणियिणासेककारणं घोरं । जं वयणं तं सचंपि वज्जणिज्जं सुबुद्धीहिं ॥ ६ ॥

इह लोए चिय जीहानिकुंतणं निंदणं च लोयाओ । पावंति वित्तहमासणपरायणा परमवे य द्दहं ॥ ७ ॥

एत्तो विरत्तचित्ता कुडिलत्तणवज्जिया मियाभासी । जे ते अवजसपंकेण नेव छिप्पंति कइयावि ॥ ८ ॥  
 पडिबुद्धकमलपरिमलसममुहनिस्सासुरहियदियंता । पूइजंति जणेण य आप्पज्जगिरा य जायंति ॥ ९ ॥  
 जो परघणं विलुंपइ सो झंपइ सुगइगिहकवाडाइं । निविडाइं कम्मनिगडाइं कुणइ तुच्छेहियमुहत्थं ॥ १० ॥  
 एत्तो चिय दोगचं पइजम्मं उवचिणेइ मूढप्पा । सुयदइयाविरहुब्भवदुहं च पावेइ दुविसहं ॥ ११ ॥  
 जे पुण संतोसपरा तणंपि गिण्हंति नेव य अदिन्नं । ते देवाणयि पुज्जा हवंति किं पुण मणुस्साणं ? ॥ १२ ॥  
 वहंति घणविलासा निरडंति न आवयाउं कइयावि । पुज्जंति य निविग्गं मणोरहा तेसि नीसेसा ॥ १३ ॥  
 जे अणिगिहियप्पाणो इहभवमुहलेसमेत्तपडिवद्धा । दासव्व कामलुद्धा मुद्धा जुवईण वट्टंति ॥ १४ ॥  
 नरवइसेवणसंगामकरणपमुद्दाइं विविहवसणाइं । मेहुणसन्नाभिरया असइंपि लहंति ते पुरिसा ॥ १५ ॥  
 कामविवरंसुहा पुण नरसुरजणपूयणिज्जकमकमला । देहुब्भवमविणस्सरपरमाणंदं सुइ चरंति ॥ १६ ॥  
 पडिपुण्णवंमपालणपत्तिगत्ताण पुरिससीहाण । सुमरणमेत्तेणं चिय विज्जा मंता य सिज्जंति ॥ १७ ॥  
 जे न परिग्गहविरइं कुणंति पावेसु संपयट्टंति । वंधंति कोसियारोव अप्पयं ते सकिरियाए ॥ १८ ॥  
 पइदियहलाभवसवहुमाणगुरुलोभदूमियसरीरा । सव्वत्थ ममत्तपरिग्गहेण सुचिरं किलिस्संति ॥ १९ ॥  
 अपरिग्गहा उण नरा ससरीरेडविहु ममत्तपडिवंधं । न कुणंति वत्थपत्ताइएसु सेसेसु का गणणा ? ॥ २० ॥

एतो यिय तियरोयसग्गवग्गेऽवि ते ण ज्ञाणाओ । मंदरगिरिष विचलंति मोक्खसोक्खं च साहंति ॥ २१ ॥

इय भो देवाणुपिया ! जविरयविरयाण दोसगुणसहियं । कहियं तुम्हाण मए सुद्धं सद्धम्मसवस्सं ॥ २२ ॥

चिंतामणिष दुल्हं संमारमहोयहिंमि भमिराणं । जीवाण नूणमेयं सकम्मगुरुभारपिहियाणं ॥ २३ ॥

एयंमि उ मंपचे तं न जए जं न पायियं होइ । ता एयंमि पयत्तो कायघो कुसलवुद्धीहिं ॥ २४ ॥

एयं च निरइयारं न साहुदिकसं विणा घडइ जम्हा । पडिवज्जह पघजं तम्हा दुहसेलवज्जसमं ॥ २५ ॥

एयं च गुरुणा उवइट्ठे सद्धम्ममग्गे पडिवुद्धा व्हवे पाणिणो पलीणा मिच्छत्तवासणा जाओ केसिंचि सबविरइ-  
परिणामो अणेमिं समुप्पजा देसविरइवुद्धित्ति, एत्थंतरे संसारासारयं परिभावेतो तक्कलतिघवेरग्गसमुग्गयपवज्जाप-  
रिणामो गोमहो गुरुसमीयं गंतूणं पित्रविउमारद्धो-भयवं ! अमयं व परिणयं मम तुम्ह वयणं समुल्लसिओ विवेओ  
तुट्ठा गेहवासणा, ता तुम्भेहिं निज्जामगेहिं पघज्जाजाणयत्तमारुहिऊण भवोदहिं लंघिउमिच्छामि, गुरुणा भणियं-  
मइ ! जुत्तमेयं तुम्हारिमाणं, तओ सूरिं पणमिऊण गओ गेहे, रयणपिक्कओवलद्धदघेण दिन्नं दीणाणाहाईणं महा-  
दाणं, अह पमत्थे तिहिमुदुत्ते सूरिसमीये गहिया पघज्जा, जाओ महातवस्सी, पालेइ- निरयारं समणधम्मं अहि-  
यासेइ सम्मं परीमहे, पउंजइ पालगिळाणाईणं, विणयं भावेइ, भावणाजालं पढेइ, समयसत्थं परिचितेइ, तच्चावत्थं  
उणइ अपुषापुषतचरणं, एयं च विमुज्जमाणस्स तस्स वोळित्ति वासरा, अन्नया य गुरुमापुच्छित्ता समारद्धाईं तेण

नासौख्यगणाहं, परिसुसियं च से सरीरं, तदावि वाटाईण कज्जिसु जणिगूहियसामत्थो सघत्थ पयट्टइत्ति । अन्नंमए य  
 सो खमगो गओ खुड्डणेण समं पासियभत्तस्स, तेण य पद्दे गच्छमाणेण जुगमेत्तनिहित्तचक्खुपसरेणवि कद्वि दिष्वजो-  
 गवसा संघिया चलणेसु मंडुफिया, विवज्जा य सा, पट्टिट्ठिएण य भणियो सो खुड्डण-जद्दा खमग ! तुमए एसा विरा-  
 हिया, ता समं निरुपेहि, सोऽवि एवमायत्तिऊण ईसिसमुप्पन्नरोसावेसो असूयाए इयरजणचरणचंपणपणट्टीवाओ  
 मंडुक्कलियाओ दंसितो भणइ-अरे दुट्ठसिक्ख ! इमावि मए मारिया ? इमावि मए मारिया ? इमावि मए मारियत्ति,  
 खुड्डणेण नायं-होउ ताव, वियाले सयमेव गुरुपुरओ आलोइस्सइत्ति, एयं च पत्थुयकज्जं काऊण पडिनियत्ता दोवि  
 निययासमं, कप्पेण य जाओ संझासमओ, आरद्धं आवस्सुयं, गुरुपुरओ य गमपरिमी आलोइत्ता देवुमियं उवविट्ठो,  
 नवरं मा विस्सुमसियं होहत्ति चित्तयंतेण खुड्डण कद्विओ मंडुफियावइयो खमगस्स, एत्थंतरे निहुरविगिट्ठतवचरण-  
 संतत्तत्तणेणं सरीरस्स माहणजम्मसुलभत्तणेणं तदाविहतिघकोबुब्भवस्स पणट्ठो से विवेओ, समुद्राइओ महया  
 वेणेणं खुड्डगताडणनिमित्तं, अंतरा य आगच्छमाणो निहुरधंभसिरावडणघाइयमम्मपएसो तदाविहकडुसाभिप्पाय-  
 चिराहियसामन्नो कालं काऊण उवपन्नो जोइसियदेवेसु, कोहदूसियस्स एवंविहा विडंवणा, जेण—  
 छट्ठमाइदुक्करिगिट्ठतवमेयमेणुन्मूयं । गुरुपालसिक्खगेलणपंडियुत्तिणओवणीयंपि ॥ १ ॥ ✓  
 दसविहजइजणकिरियापरिपालणपोमियंपि सुहपुत्तं । खणमेत्तेणत्रि तेषं तणं च कोहरिगणा दहं ॥ २ ॥ जुम्मं ।

एतच्चिय पसमविजयाण सवा निरत्थिया किरिया । उक्कित्तवोऽविहु होइ केवलं भुक्खमारो सो ॥ ३ ॥  
 जह पवयाण मेरू, नईण गंगा मियाण पंचमुहो । पक्खीणं जहा गरुडो, सेसाही सयलभुयगाण ॥ ४ ॥  
 जह साहूण जिणिंदो मणीण चिंतामणी, तहा पसमो । सारो समत्थधम्मस्स तेण एत्येव जइयवं ॥ ५ ॥ जुम्मं ।  
 अलं पसंगेणं । सो खमगजिओ जोइसदेवेसु अहाउयं पालिऊण चुओ समाणो कणगखले आसमपए पंचतावस-  
 सयाहिवइस्स कुलवइणो मिहिणीए उववन्नो दारगत्तणेणं, जाओ य उचियसमए, कयं से कोसिओत्ति नामं, सो य  
 सभावेणं चंडरोसो, थेवावराहेऽवि सेसतावसकुमारे कुट्टेति, ते य तेण ताडिज्जमाणा नियनियपिऊणं साहँति, तेहि  
 य केण कुट्टियत्ति पुच्छिज्जमाणा निवेइंति कोसिएणं, तत्थ अन्नेऽवि तावसकुमारगा कोसियाभिहाणा अत्थि अओ  
 न मुणिज्जइ केणाचित्ति तच्चिसेसोवलंभनिमित्तं तप्पभिइं ठावियं चंडकोसिओत्ति नामं, तद्धिणाओ आरब्भ पावियं  
 च पसिद्धिं, एवं सो चंडकोसिओ जाओत्ति । अन्नया य कुलवई पंचत्तमुयगओ, पच्छा सो सेसतावसेहिं कुलवइपए  
 निवेसिओ समाणो तत्थ वणसंडे अचंतं अज्जोववण्णो, अणवरयं अपुष्पापुवपायवसेयणपालणपरो कालं नमेइ, सेस-  
 तावसे य पुप्फफलाइं तहिं गेण्हंते पयत्तेण निचारेइ, ते य तत्थ कुसुममेत्तंपि अपावमाणा गुरुम्मि व गुरुपुत्तगंमि  
 पवट्टियवंति सुमरिऊण तथयणमयिकूलंता दिसोदिंसिं गया, जोऽवि गोवालगाई तत्थ फलाइनिमित्तमेइ तंपि  
 इंतूण सो निद्धाडेइ, जाया य समीवगामनगरेसु पसिद्धी, जहा चंडकोसिओ उववणं अवलोइउंपि न देइ । न्नया य

सो निसियधारं परसुं घेत्तूण वदकरणनिमित्तं कंठिगणयणाय गओ दूरवणसंडे, इओ य आसमपयासन्नं सैयंविद्या-  
 पुरियत्तयेहिं रायपुत्तेहिं फलगहणनिवारणाकुविण्हिं मुणियत्तग्गमणयुत्तंतेहिं पुवामरिसेण आगंतूण ओक्खया तरु-  
 पोयगा छिंदिया सरलतरुणतरुवरा पाडियाइं फलाइं ह्यमहिओ कओ से उडवओ, मग्गा कलसगा फोडियां कम्म-  
 डलू खंडिया दक्खामंडवा पणासियाइं कयलीहराइं, अन्नंपि जहासत्तीए उवहविउमारद्धत्ति, एत्थंतरे दिट्ठतहाविहा-  
 समभंगइयरेहिं गोवालगेहिं भंतूण सिट्ठं चंडकोसियस्स, जहा-तुह उववणं कुमारेहिं हणिज्जइत्ति, सो एवमायन्नि-  
 ज्जण कोवेण जलणोव घग्गन्तो परसुमुग्गीरिज्जण धाविओ पवणवेगेण तदभिमुहं, दिट्ठो य एंतो कुमारेहिं, ते य  
 मुणी अवज्झोत्ति चित्तिज्जण पलाणा नियनयराभिमुहं, चंडकोसिओऽपि तयणुमग्गलग्गो वाहरइ—

रे खत्तियाहमा ! मज्झ उववणं छिंदिज्जणवि परोक्खं । इण्हिं नियजणणीए किं पुण उयंरंमि पविसिहिह ? ॥ १ ॥

मा वेगेण पलायह वट्टइ सुवुडंमुहा खणं एकं । तालफलाणिव सीसे जेण कुहाडेण पाडेमि ॥ २ ॥

एमाइ असन्ने गालिग्गभयवणे समुल्लवेंतो सो । तह कहवि कोववसवियललोयणो धाविओ तुरियं ॥ ३ ॥

जह खाणुखलणनिवडणअट्ठद्वियपरसुच्छिन्नसीसस्स । अवमाणदंसणाउच्च तस्स लडु अइगयं जीयं ॥ ४ ॥

एह अट्ठज्झाणगओ मरिडे सो तम्मि चेव वणसंडे । मुच्छावसेण जाओ भीमो दिट्ठीविसो सप्पो ॥ ५ ॥

ते य तावसा तम्मरणवइयर निसामिज्जण समागया तंमि वणसंडे ठाउमारद्धा य, अन्नया य पुवसिणेहाणुवन्धस-

एत्तोच्चिय पसमचित्रजियाण सवा निरत्थिया किरिया । उक्किट्तवोऽविहु होइ केवलं भुक्खमारो सो ॥ ३ ॥  
 जह पवयाण मेरू नईण गंगा मियाण पंचमुहो । पक्खीण जहा गरुडो, सेसाही सयलभुयगाण ॥ ४ ॥  
 जह साहूण जिणिंदो मणीण चिंतामणी, तहा पसमो । सारो समत्थधम्मस्स तेण एत्थेव जइयवं ॥ ५ ॥ जुम्मं ।  
 अलं पसंगेणं । सो खमपजिओ जोइसदेवेसु अहाउयं पालिऊण चुओ समाणो कणगखले आसमपए पंचतावस-  
 सयाहियइस्स कुलवइणो गिहिणीए उववन्नो दारगत्तणेणं, जाओ य उच्चियसमए, कयं से कोसिओत्ति नामं, सो य  
 सभावेणं चंडरोसो, थेयावराहेऽवि सेसतावसकुमारे कुट्टेति, ते य तेण ताडिज्जमाणा नियनियपिऊणं साहंति, तेहि  
 य केण कुट्टियत्ति पुच्छिज्जमाणा निवेइंति कोसिएणं, तत्थ अन्नेऽवि तावसकुमारगा कोसियाभिहाणा अत्थि अओ  
 न मुणिज्जइ केणावित्ति तच्चिसेसोवलंभनिमित्तं तप्पभिइं ठावियं चंडकोसिओत्ति नामं, तहिणाओ आरब्भ पावियं  
 च पसिद्धिं, एवं सो चंडकोसिओ जाओत्ति । अन्नया य कुलवई पंचत्तमुवगओ, पच्छा सो सेसतावसेहिं कुलवइपए  
 निवेसिओ समाणो तत्थ वणसंडे अबंतं अज्झोववणो, अणवरयं अपुव्वापुवपायवसेयणपालणपरो कालं ममेइ, सेस-  
 तावसे य पुप्फफलाइं तहिं गेण्हंते पयत्तेण निवारैइ, ते य तत्थ कुसुममेत्तंपि अपावमाणा गुरुम्मि व गुरुपुत्तगंमि  
 पवट्टियवंति सुमरिऊण त्रययणमविकूलंता दिसोर्हि सिं गया, जोऽवि गोवालगाई तत्थ फलाइनिमित्तमेइ तंपि



सो निसियथारं परसुं घेत्तूण वइकरणनिमित्तं कंदिगाणयणाय गओ दूरवणसंडे, इओ य आसमपयासन्नं सैयविया-  
पुरियत्थघेहिं रायपुत्तेहिं फलगहणनिवारणाकुविपहिं मुणियतग्गमणवुत्तंतेहिं पुवामरिसेण आगंतूण ओक्खया तरु-  
पोयगा लिंदिया सरलतरुणतरुयरा पाडियाइं फलाइं हयमहिओ कओ से उडवओ, भग्गा कलसगा फोडिया कम-  
डलू खंडिया दक्खामंडवा पणासियाइं कयलीहराइं, अन्नंपि जहासत्तीए उवइविउमारद्धत्ति, एत्थंतरे दिट्ठतहाविहा-  
समभंगवइयोहिं गोवालगेहिं गंतूण सिद्धं चंडकोसियस्स, जहा-तुह उववणं कुमारेहिं हणिज्जइत्ति, सो एवमायन्नि-  
ऊण कोयेण जलणोच्च धगधगन्तो परसुमुग्गीरिऊण धाविओ पवणवेगेण तदभिमुहं, दिट्ठो य एंतो कुमारेहिं, ते य  
मुणी अवज्झोत्ति चिंतिऊण पलाणा नियनयराभिमुहं, चंडकोसिओऽपि तयणुमग्गलग्गो वाहरइ—

रे खत्तियाहमा! मज्झ उववणं लिंदिऊणवि परोक्खं । इण्हिं नियजणणीए किं पुण उयेरंमि पविसिहिह ? ॥ १ ॥

मा वेगेण पलायह वट्ठह सुवुडंमुहा खणं एकं । तालफलाणिव सीसे जेण कुहाडेण पाडेमि ॥ २ ॥

एमाइ असन्भे गालिगन्भवयणे समुल्लवेंतो सो । तह कहवि कोववसवियललयणो धाविओ तुरियं ॥ ३ ॥

जह खाणुखलणनिवडणअट्ठद्वियपरसुल्लिन्नसीसस्स । अवमाणदंसणाउच्च तस्स लहु अइगयं जीयं ॥ ४ ॥

अह अट्ठज्झाणगओ मरिउं सो तम्मि चेव वणसंडे । मुच्छावसेण जाओ भीगो दिट्ठीविसो सप्पो ॥ ५ ॥

ते य तावसा तम्मरणवइयर निसामिऊण समागया तंमि वणसंडे ठाउमारद्धा य, अन्नया य पुवसिणेहाणुवन्धस-

गुप्पन्नपरकरणपरिणामेण इओ तओ परिभमंतेण दिट्ठा ते दिट्ठीविसराप्पेण, तओ सरोससूरविंवावलयणुग्गि-  
रियजलणजालाफलापेण निहत्था अभिमुहट्ठिया अणेण, अदहंगा य पलाणा दिसोदिसिं, एवं च तिसंझं सो वणसंडं  
तिपयाहिणीरुक्कण जं सउणगमवि पासइ तंपि देहेइ, अत्रेऽवि तम्मग्गेण बोलेमाणे तडियकप्पडियपमुहे पंथिगे  
विहयेइ, अह तन्नएण अयहो जा जाओ सो मग्गो, एसा चंडकोसियसप्पस्स उप्पत्ती ।

अह तेण सप्पेण उवयणंतरे परिभमंतेण दिट्ठो जक्खमंडवियाए पडिमं ठिओ वद्धमाणजिणवरो, तं च दट्ठण  
समुत्तलियहोयानलो जहो मम सामत्यं एस न मुणइत्ति विगप्पिकुण तरणिमंडलावलयणचउगुणीभूयविणिस्सरंत-  
विसम्मिस्सदुस्सहसिहिसिहाभासुरच्छिविच्छोदो निहहिउकामो भयवन्तं पेच्छिउमारदो—

अह जयगुरुणो देहे दिट्ठी दिट्ठीविसस्स पडिफलिया । पिऊससीयले साऽणुभावओ झत्ति विज्झाया ॥ १ ॥

जसमत्था निहहिउं जाया जिणनाहलोममित्तंपि । ताहे पडिहयसत्ती तंडवियपयंडफणभित्ती ॥ २ ॥

। वेगेणं उसिउमणो पहाविओ जिणवराभिमुहं ॥ ३ ॥

एण निउडिहत्ति, भयवन्तं च तहट्ठियं चेय दट्ठण पुणो पुणो तिन्नि वारे जाव डसित्ता अमरिसेणं पलोयंतो अच्छइ,  
तहावत्थाणे य जिणसोमविंवावलयणोवसंतदुट्ठिदिट्ठिविसविगारो सो करुणाए मणिओ भयवया—उयूमम भो

चंडकोसिया !, उवसम महाणुभाव !, किन्न सरांसि सय ।चय अणुभूयं तं वइयरं ? ।

पुषमये जं समणो कोवविरादियसमग्गसामन्नो । कुच्छियजोइसदेयत्तलच्छिमणुपाविओ मरिडं ॥ १ ॥

तत्तो इह वणसंडे तावसपुत्तो य जं तुमं जाओ । तत्तोऽविय तिघविसो इण्हि सप्पत्तणं पत्तो ॥ २ ॥

ता मह ! एत्तोऽवि मुंच कोवं, एसो हि विग्घभूओ परमसुहसंपयाणं पडिखलणमलो कल्लाणवलीणं महापडिवक्खो पररविवेयस्म जलणो कुसलाणुट्ठाणवणसंडस्स, जणओ दुग्गदुग्गइपडणस्सत्ति, सवहा अलमेत्तो कोवाणुबंधेणंति, इमं च सोचा मुयगस्म पुघाणुभूयसरणवसेण इहावूहमग्गणवसेणं करेमाणस्स जायं जाइसरणं, दिट्ठं च पुघाणु-ट्ठियं तवचरणं सामण्णपरिपालणं तविराहणोवलद्धजोइसियसुरजम्मं च, अह उम्मीलियविवेओ समुल्लसियधम्मपरिणामो जायपावदुगुंठो जायाहिणपयाहिणापुषगं परमभत्तीए भयवंतं भुवणगुरुं वंदिऊण अणसणं पडिवज्जइ, भय-वंपि मुणइ जहा एस पडिवुद्धो कयाणसणो य, तहावि तअणुकंपाए तत्थेव काउस्सग्गओ परिवालेइत्ति, चंडको-सिओऽवि मा कहवि रोसवसेण नयणग्गिणा पाणविणासो होज्जत्ति परिभाविऊण विलनिहित्तुंडो पयडियसेससरीरो परमवेरग्गावडियमई चित्तेइ—

कह गुणरयणोयहिणा गुरुणा सह संगमो पुरा जाओ ? । कह पघज्जारयणं अपत्तपुषं मए पत्तं ? ॥ १ ॥

कह वा पीऊसंपिव असेसदोसग्गिविज्झवणदक्खं ? । सम्ममहीयं सुत्तं विचित्तनयभंगदुघिगमं ? ॥ २ ॥

कह वा मागङ्गमणाइ दुद्धरं तद् चिरं तमो चरियं? । कह दुद्धरंपि चरियं अकलंकं वंमचेरंपि? ॥ ३ ॥

गणमेततियकोयप्पमात्रओ कह इगं समग्गंपि । विफलत्तणमणुपत्तं? हा मुद्धो मंदभागोऽहं ॥ ४ ॥

इण्हि तु पपइभीसणमुयंगमायं गओ हयासोऽहं । गुणिधम्मस्स अजोग्गो कमुवायं संपवज्जामि? ॥ ५ ॥

हा पाव जीव! तइया जह निरलोयाइ विचिहदुक्खाइं । सहियाइं तहा सुद्धगवयणंपि य कीस नो सहियं? ॥ ६ ॥

किं मूढ! नियगिरंभी एवं पञ्चालिओ तए जलणो? । मुहकामिणा हणिज्जइ अप्पा किं अप्पणो चेव? ॥ ७ ॥

इय उत्तरोत्तरपयहुमाणयेरग्गमग्गमणुलग्गो । सप्पो शंपियदप्पो संलीणंगो मजोष ठिओ ॥ ८ ॥

अह मयवंतं ममीरमुपगवं पेन्डिऊण गोवालादयो तरुवरतिरोहियसरीरा तहा निचलस्सवि भुयंगमस्स उवरिं  
अपिस्सरोगाणा चेवणापरिस्सणनिमित्तं पाहाणखंडे खियंति, तेहिं ताडिज्जमाणोऽवि जाव न मणागंपि विचलइ  
एणो ताव ममीरमागण्ठन्ति, कट्टेण य पट्टेति, तहावि जप्फंदमाणे तंमि सेसलोयस्स साहेति, जहा—दिट्ठीवि-  
ममप्पो देवउएणं उवगामिओ, न संपयं उहइत्ति, ताहे लोको आगंतुं सामिं वंदित्ता तंपि वंदइ महिमं च करेइ,  
जज्ञाओवि गोउलिपविलयाओ घयमहियाविक्खिणणत्वं तेणंतेण ययमाणीओ तं सप्पं तुप्पेण मरुखंति, घयगंधेण य  
(अदि)मरंतति म्गंतुं इपिंवीडिगापडलघञ्जमाणदेदुप्पण्णतिपयेयणं सम्ममहियासमाणो अद्धमामियाए मंलेहणाए  
काउं काऊण सहस्सारे देवलोए देवो नट्टारसज्ञागरोवमो उवरण्णोत्ति ।

इय सुहपरंपराय निजुंजिऊण चंडकोसियं परमेसरो तिहुयणेफदिणयरो वीरो तत्तो निक्खमिऊण उत्तरचावा-  
 लसन्नियेसं गओ, तत्थ पक्खयक्खमणपारणए पविट्ठो गोयरचरियाए, कमेण पत्तो नागसेणगाहावइस्स मंदिरं,  
 तर्हि च तद्दिणे दुवालसुवरिसाओ पुत्तो समागओत्तिकाऊण पयट्ठो महूसयो, जेमियो नियगजणो, सो य निय-  
 गजणो सामिणो रूयसंपयाए आणंदसुघहंतो परमण्णेणं भयवंतं पडिलाभेइ, एत्थंतरे अहो दाणं अहो दाणंति  
 वाहरमाणेहिं चेलुक्खेवं करंतेहिं कणगयुट्ठिं सुयमाणेहिं चउविहत्तूरनियरं चायंतेहिं गंधोदयं वरिसंतेहिं दसद्धयन्नं  
 कुमुमपपरं फीरंतेहिं नद्यमाणेहिं गायमाणेहिं तिघइं अप्फालेंतेहिं सहरिसं थुणंतेहिं असुरसुरखयरनिवहेहिं भरिय-  
 मम्बरवियरंति, जयगुरुवि पारिऊण सेयवियं नयरिं गओ, तत्थ य नमंतसामंतमउलिमंडलीमंडियपायपीढो सम्महं-  
 सणमुणियजहट्टियजिणोवइट्ठजीवाइतत्तप्पवंचो पएसी नाम नराहिवो परमसमणोवासओ, सो य भयवंतं आगयं  
 मुणिऊण चाउरंगसेणापरिवारिओ सयलनयरजणसमेओ निग्गओ वंदणवडिथाए, दिट्ठो सामी, तिपयादिणीकाऊण  
 य वंदिओ परमायरंणं, थोउं पयत्तो, कहं?—

जय भुवणेफनिसायर । सायरसुररायनमियकमकमल । । मलविरहिय ! हियकारय ! रयतमभरहरणदियसयर ! ॥ १ ॥  
 करुणारसनिपावियभवगिम्हुत्तत्तसत्तरुनियह । । जिणनाह ! तुमं पुवंज्जिएहिं पुण्णेहिं दिट्ठोऽसि ॥ २ ॥  
 तं णिय दिणं पसत्थं सोचिय समओ समत्थसुहहेऊ । जत्थ भुवणेफवंधव । तुह सुहकमलं पलोएमो ॥ ३ ॥

अइनिस्सारस्तवि जीवियस्त पत्तं मए फलं अज्ज । जं तुम्ह चरणफरिसणपवित्थियं उत्तमंगं मे ॥ ४ ॥

इय जिणनाहं धोउं बहुप्पयारं पराएँ भत्तीए । राया पुरजणसहिओ जहागयं पडिनियत्तोत्ति ॥ ५ ॥

भयवंपि सुरहिपुरनयराभिमुहं वच्चइ, तत्थ य अंतरा पएसिनरवइसमीवमागच्छमाणा पंचहिं रहेहिं निज्जगा

रायाणो भयवंतं दद्रुण पूयं सक्कारं सवायरेण कुणंति, (सामीऽवि नियप्पभावप्पवोहियसत्तसंघाओ बहुविहउग्गतव-  
विसेसपणस्समाणासेसनिविडकम्मंसो विसुद्धसीलसुरभिसरीरो सुरभिपुरं अइकमिऊण संपत्तो जलहिपवाहाणुकारि-  
वारिपसरं सयलसरियापवरं गंगामहानइं, अविद्य—

पवणुच्छालियजलकणसेयवससिणिद्धतीरतरुसंडं । अन्नोन्नप्फिडणविफुट्टलोलकलोलरवमुहलं ॥ १ ॥

पप्फुरियफारडिंडीरपिंडपंडुरियतारतीरंतं । जिणदंसणतोसवसा तक्खणविहियट्टहासं च ॥ २ ॥

पणकुंजरकुलमज्जणविदलियसिप्पिउडमोत्तियसभिद्धं । वियरंतहंससारसरुहंगरवमणहरदियंतं ॥ ३ ॥

मज्जिरविलयाजणथोरघणहराघायभंगुरतरंगं । रंगंतमच्छकच्छवमयरोरगभीसणावत्तं ॥ ४ ॥

इय परिसं सुरसरिं सरणागयवच्छलो जिणो जाव पेच्छइ कमलदलच्छो परतीरगमाभिलासेण ताव सुसिलिद्धनिहुर-  
विसिद्धतरुट्टफलगनिम्मविया परतीरगमणत्थं नाविण्ण पगुणीरुया नावा, तहिं च समारूढो परतीरगामी  
जणो, भयवंपि आरुहिऊणं ठिओ तीसे एगदेसे, एवं च निलीणंमि जणे पवाहिया नावा, ऊसिओ सियवडा

पार्लियाइं अपत्तगाइं पगट्टा महायेगेण गंतुं नाया, एत्थंत्तरे तद्वट्टिण पासियं कोसिएण, तं च नितापिऊण भणियं  
 नेगिटाभिदाननेमित्तिणं—अहो इगो महासउणो इगं पाहरइ, जहा—तुप्पे इह मारणंत्तियं आवइं पाउणिस्सइ,  
 केवलमेयस्स महारिमिस्स पभायेण अपत्तयसरीरा नित्थरिस्सइत्ति, एवं निसुणिऊण विन्धिवा नावाजणां जाय  
 अपरोप्परं विविहं संत्वंत्ति ताव पत्ता जगाहसल्लिमज्जुयारदेसें नावा,

एत्थावमरंमि जिणं नावारूढं पलोइउं पावो । संभरियपुषवेरो नागसुदाढो विचिंत्तेइ ॥ १ ॥

(पमो गो जेण पुरा त्तिट्ठिचक्खिणमुत्तगणं ) गिरिकंदरमळीणो सीहत्ते वट्टमाणोऽहं ॥ २ ॥

मण्डंविनिहत्तीलाविणोयलीलाविलासदुल्लिओ । परिजुत्तपडोव दुहो विफालिओ पाणिणा घेत्तुं ॥ ३ ॥

एयस्स किमवरदं तइया विजणे वणे वसंत्तेणं ? । जेण तद्दा निहओऽहं अनिमित्तियसत्तुणा इमिणा ? ॥ ४ ॥

ता गज्ज पुत्तपगरिसवसेण जायं समीहियं अज्ज । जं.एस वेरिओ चक्रुगोयरं सयमिहावडिओ ॥ ५ ॥

जीयस्स एत्तियं चिय पसंत्तणिजं जए सुपुरिसाणं । उवयारे उवयारो जं किज्जइ वेरिए वेरं ॥ ६ ॥

आमत्तमुत्तगयंपि शु मरणं गम चित्तनिषुइं जणइ । जं पुषवइरसाहणमुत्तद्वियं एत्थ पत्थावे ॥ ७ ॥

इय जसरिमनिधामरिसपगरिसायं वअच्छिच्चिओहो । सो चिंत्तिउं सुदाढो वेगेण जिणंत्तियं पत्तो ॥ ८ ॥

जइ अंतलिस्समुत्तगणं किलकिलारायं कुणमाणेणं तेण अरे रे कत्थ वचिहत्ति भणिऊण विउच्चिओ. संवत्तगम-

हापचणो, तेण पहणिज्जमाणे उम्मूलिया तरुणो टलटलिया कुलसेला थरहरियं धरणिवट्टं दूरमुच्छलियं गंगासलिलं  
 विसंठुला डोलिया नावा भग्गो तडत्ति कूवयसंभो जजरिओ सियवडो वामूढो कन्नधारो मरणभयभीओ इट्टदेव-  
 ण सुमरिउं लग्गो नावाजणो, अवि य—

संचलियमच्छकच्छवजलकरिकरघायजजरतरंगे । तारापहमोगाढे सलिलुप्पीले महापवले ॥ १ ॥

पवयमहोलफलोलपेलणुवेळिरी सफरिगव । वोलेउं आढत्ता ताहे नावा सुदाढेण ॥ २ ॥ ✓

एत्थंतरे कंवलसंवलाभिहाणा दो नागकुमारदेवा तक्खणचलियासणा परमत्थजाणणट्टा जाव ओहिं पउंजंति ताव  
 पासंति भयवंतं नाचारूढं सुदाढेण जले वोलिउमाढत्तंति, तं च पासित्ता अलाहि सेसकजेहिं, सारिं ताव सोया-  
 येमोत्ति चिंतिऊण येगेण समागया तंपएसं, आवडिओ थ एगो नागकुमारो सुदाढेण सह जुज्झिउं, वीएणवि वियड-  
 पाणिसंपुडेणुप्पाडिऊण नावा नइपरिसरंमि पमुक्का ।

अह सो सुदाढनागो महिड्ढिओ जइवि तहवि खीणवंलो । आसन्नमरणनिंभररणरणगुच्छायउच्छाहो ॥ १ ॥

अप्पट्टिणहिवि तथा कंवलसंवलाभिहाणदेवेहिं । अहिणवदेवत्तणदिबसत्तिणा निज्जिओ झत्ति ॥ २ ॥

उद्धियदाढे नागेव निविसे निम्मिण सुदाढंमि । नागकुमारा ताहे वंदिच्चु जिणं विणयपणया ॥ ३ ॥

मुंचंति पुप्फपयरं सुरहिं गंधोदयं च वरिसंति । गायंति भत्तिभरनिस्सरंतरोमंचकंनुइया ॥ ४ ॥



एवं प अपलोइज्ज जायपरमविम्भो नावाजणो चित्तेइ-अहो कोइ एस महापुरिसो माणुसवेसोवि अमाणु-  
 माणुरूवप्पभायो, जओ एयप्पभायाओ अम्हे समुत्तिना आययामहन्नयाओ, ता जुज्जइ एस महप्पा पणमिउंति  
 विमाविऊण निवडिओ तिडुयणगुरुणो चलणकमलंभि, कंवलसंबलावि जिणं पणमिऊण गया जहागयं ।

अह के पुण कंवलसंबला पुषभवे इंतत्ति सुणेह मूलुप्पत्ति-अत्थि सयलमहियलविक्खाया समुत्तुंगपसत्थसुपास-  
 त्तिययरघूभसोहिवा मडुरा नाम नयरी, तत्थ य अहिगयजीयाजीववियारो नियमुद्धबुद्धिपगरिसोवलद्धपुन्नपावो  
 आत्तसंबरंपमोक्खतत्तवियारवियक्ख . . . . . जिणिंदसमयाणुरागरंजिय-

हियओ आगरो पसमाइगुणरयणाणं . . . . . हो धम्मियजणाणं बहुमओ  
 नरपास्स सपत्थ पावियसाडुवाओ जिणुदासो नाम सावओ, साडुदासी नामेण से भारिया, ताणि य दोन्निवि अचंत-  
 पम्मकरणलाउसाइं अणवरयगुरूवएसपालणपरायणाइं फासुयएसणिएहिं असणपाणखाइमसाइमेहिं सुणिजणं

पड्डिआभेमाणाइं कालं वोलंति ॥ अन्नं च-

संसारावत्तविचिन्तणत्थ(प्प)भीयाइं जइवि अचत्थं । जइवि य गिहवाससमुत्थदोसपरिसंक्रियमणाइं ॥ १ ॥

तद्विहु गिहंमि अन्नोन्नगाढपेमाणुबंधभावेणं । समणत्तणं पवज्जिउकामाइंवि ताइं निवसंति ॥ २ ॥

तेहि य अन्नया सुगुरुपायमूले सुणिऊण तिरियाइअसंजयपाणिपरिग्गहतिवपावोवलेवासंमंजस्सं गहियं गोमहि-

सिचउप्पयाण पच्चक्खाणं, अन्ने य अंगी कयां वहवे अभिग्गहविसेसा, अह घेणूणमभावे साहुदासी साविगा दिवसे दिवसे गोरसं आभीरिहत्थाओ गिण्हइ, अन्नदियहे य तीए आभीरी भणियां, जहा-भदे! तुमं पइदियहं मम घरे महियं घेत्तूण आगच्छेज्जाहि, अहं जेत्तियं तुमं आणेसि तेत्तियं गिण्हस्सामि, अन्नत्थ मा वच्चिहिसि, पडियन्नं च इमं तीए, एवं च पइदिणदंसणेणं निक्कवडकयविक्रयकरणेण य समुप्पन्नो तासिं परोप्परं सिणेहाणुबंधो, अंतरंतरा य साविगा से गंधपुडिगाइदाणेण उवयारं करेइ, इयरीवि सविसेसं दुद्धं दहिं पणामेइ, अन्नया य आभीरीए कन्नगा-विवाहो पारद्धो, तओ सा जिणदासं साहुदासिं च सपणयं भणिउमारद्धा—

जइवि न आसणदाणेऽवि तुम्ह सामत्थमत्थि मे किंपि । तहवि सिणेहवसेणं किमवि अहं विन्नविउकामा ॥ १ ॥

किर गुरुमणोरहेहिं सुहिसयणविसिट्ठगोट्टिकजेण । अम्हारिसेण जायइ सुचिरेण महुसवारंभो ॥ २ ॥

तुम्हारिसाण पुण पुघजम्मसुविढत्तपुन्नविभवाणं । पइदियहमूसवचिय लीलाए संपयट्ठंति ॥ ३ ॥

एयं च उल्लवंती सा भणिया सेट्ठिणा—भदे! फुडक्खरेहिं भणसु जमिह पओयणं?, तीए भणियं—अम्ह घरे विवाहो पारद्धो, अओ तुम्हेहिं तत्थ भोयणं कायघं, सेट्ठिणा भणियं—को दोसो?, कीरइ, केवलं बहुगेहवावारवा-वडत्तणेणं न पारेमो सुहुत्तमेत्तंपि गिहं परिच्चइउं, अओ न कायघो तुमए चित्तसंतावो न वोढवो अब्भत्थणाभंग-समुच्चवो अवमाणो न गणियघं निहक्खिन्नत्तणं न मोत्तवो मणागंपि प्पवपणओ, न हि निक्कवडसिणेहाणुबंधो सम-

वेकराई वज्जोवयारं, ता गच्छ नियगेहे कुणसु समीहियपजायणंति पन्नविऊण समप्पियाई धूयणवसणाई वणात्म-  
 याई तदुचियाई वत्थाभरणाई दिन्नाई कुंकुमाइविलेवणाइंति, सावि ताणि गहिऊण परमहरिसमुधहंती गया  
 सगिहं, कओ विवाहो, मिलिया सुहिसयणबंधवा, जाया महई सोहा, पसंसियाई ताई इयरजणेणं, जहा-सुंदरो  
 विवाहमहसवो एएहिं कओत्ति, ताणि य पसंसं निसामिऊण चिन्तेति-अहो परमोवयारकारी महाणुभावो सेट्टी  
 जेण अम्ह विवाहे पवरोवगरणदाणेणं एवं सोभा निवत्तिया, ता कहमेयस्स पच्चुवयारे वट्टिस्सामोत्ति संपेहिऊण  
 उवचियसरीरे अतुच्छपुच्छोवसोहिए सुप्पमाणकुडिलचारुसिंगे सरयससहरफिरणसरिसवण्णे समाणदेहपरिमंडले  
 अचंतसुंदरगोरे कंचलसंधलाभिहाणे तिवारिसिए गोवग्गपहाणे जुवाणवसहपोयगे गहिऊण गयाई ताई सेट्टिभवणे,  
 पणामिया य ते सेट्टिणो, चउप्पयपरिग्गहकयपच्चरूखाणेण निवारिया ते सेट्टिणा, तहावि अमुणियपरमत्थाणि भव-  
 णंगणे ते वंधिऊण गयाई ताई नियगेहे, तेण सावएण चिंतियं-अहो संकडमेवमावडियं, जओ-जइ मुचंति एए  
 वराया ता लोगो हलाइसु वाहेइ तहाविहहीणसमायारो वा फोइ विइवेइ, अह एत्थेव धरिज्जंति ता निरुवयारि-  
 त्तणेण दुरणुपालणिज्जा हवंतित्ति एणं विगप्पिऊण जिणवरवयणायन्नणसमुप्पन्नकरुणापूरपूरियहियएणं संगोविया  
 सेट्टिणा, पइदिणं दावेइ फिणिऊण य तेसिं फासुगचारिं, पणामेइ वत्थगलियं सलिलं, एवं पइदिणं उदंते वट्टइ,  
 सो य सावगो अट्टमिचाउदसीसु आहारपोसहं सरीरसक्कारपोसहं वंभचेरपोसहं अवावारपोसहं च पडिपुन्नं काऊण

सामाहयपडिपतो समणसमो जइयारपंकपरिरक्खणपरो धम्मसत्थपोत्थयं वाएइ, नियंपरियणो य पंजलिउंडो चित्त-  
 लिह्मिओप निमामेइ, तेऽपि कंवलसंनला अहाभइयाए तहाविहमोहणिज्जकम्मलाघवेण य धिरीकयसवणउडा  
 अपफियत्तचित्ता सन्नित्तणेण गुणियजुत्ताजुत्ता सम्मं सुणंति, जायभवभवभया य जह्विसं सावगो उववासं कुणइ  
 तह्विसं तेऽपि चारिं पाणियं च परिचयंति, पुणो पुणो दिज्जमाणंपि न गिण्हंतित्ति ।

अह तेसु तिरियजोणीसमुब्भवेसुवि तवं करंतेसु । सगुणत्ति पक्खवायं वहमाणो चित्तए सेट्ठी ॥ १ ॥

एत्तियकालं अणुक्कंपणट्ठया दिन्नमेसिमसणाइ । साहम्मिगबुद्धीए एत्तो सबं करिस्सामि ॥ २ ॥

साहम्मियवच्छलं जेण जिणिंदेहिं भुवणपणएहिं । सम्मत्तमुद्धिहेउं निदिट्ठं धम्मियजणस्स ॥ ३ ॥

जप्पुषो कोइ धुरं जहो पभावो जिणिंदवयणस्स । जं निसुणिऊण तिरियावि जंति वेरग्गमग्गंमि ॥ ४ ॥

इय चित्तिऊण सविसेसमायरं तेसिं दंसए सेट्ठी । भवेसु पक्खवायं वहंति जं वीयरगाऽवि ॥ ५ ॥

एवं च उचियकायघपरायणस्स सम्ममुवसंतचित्तस्स सरंति वासरा, अन्नया य तीए नयरीए भंडीरजक्खस्स  
 जणेण जत्ता पत्थुया, तत्थ य विविहत्तुरगाइवाहणाधिरूढो निग्गंतूण सयलपुरलोओ तस्स पुरओ वाहं करेइ ।

इओ य-जिणदाससेट्ठिणो पियमित्तो अयंतकोऊहलिओ जक्खजत्ताए वाहियालिं काउमणो सेट्ठिं अणापुच्छि-  
 ऊण पणयभावेण कंवलसंनले गंतीए जोत्तिऊण गओ जक्खपुरओ, वाहिया महतीवेळं, ते य अयंतदरिसणिज्जाएपक्खवेण

अन्नन्नपणयिणा जणेण याहिज्जमाणा आरावेइनिस्सरंतरुहिरंधारापरिगया कोमलदेहा जादद्धतहावहवपणा बुद्ध-  
दियया नित्पामा जाया, तहाविहे य ते सेट्ठीगेहे वंधित्ता मित्तो पडिगओ, सेट्ठीवि भोयणसमए जाव जवसाइ  
पेत्तुणं एइ ताव पेत्तइ एए कंयंतदेहे निस्सइयलंतनयणे वणमुहनीहरंतसोणिए दोवि गोणए, एवंविहे य दद्वण रुट्ठो  
पुच्छइ—अहो केण दुरायारेण इमे वराया इमं अवत्यमुवणीया ?, निवेइयं च से जहावित्तं परियणेणं, तदायन्नणेण  
य समुप्पन्नो महंतो चित्तसंतापो, कंवलसंभलावि द्दधायजच्चरियसरीरा अणसणं काउमणा सायरं पुरओ उवणी-  
यंपि चारिपाणियं न गेण्हंति, जाव य पुणो पुणो गवत्ताइयं दिज्जमाणं नेच्छंति ताव सेट्ठिणा मुणिरुण तदभिप्पायं  
दिन्नमेतेसिं भत्तपण्ययाणं, पडिवन्नं च साभिलासं एएहिं,

ताहे फारुत्तेणं विमुक्कनीसेसगेहवाचारो । सुसिणिद्धबंधवाण व तेसिं पासे ठिओ सेट्ठी ॥ १ ॥;

मणइ जहा रोसमहो मणागमेत्तंपि मा वहेज्जाह । जं निदएण तेणं दुत्थावत्थं इमं नीया ॥ २ ॥

संसारपवत्ताणं जंतूणं जेण कित्तियं एयं ? ( न हु नामेगंतमुहो जणंमि जाओ जणो कोई ॥ ३ ॥ ) २. ८,

ददवज्जपंजरोदरगयंपि सेलाइदुग्गलीणंपि । पुवकयमसुभकम्मं जीवं संकमइ कुवियं व ॥ ४ ॥

विदएइ तयणु वियसं सुवहुं अइविरसमारसंतं च । कूडपडियं व चडयं वहुप्पयारं तडफडंतं ॥ ५ ॥

वा भो महाणुभावा । सम्मं अदियासणं विमोत्तूण । अन्नो निच्चरणविही न विज्जए पुवपावस्स ॥ ६ ॥

उपचियपुत्रा तुष्मे सफलक्षणमुवगयं च मे जीयं । जं दुक्खविमोक्खस्समा पत्ता जिणधम्मसामग्गी ॥ ७ ॥

इय एयमाश्चयणेहि पसमसारेहिं अमयसरिसेहिं । संठविया मुहमग्गे ते वसहा सेट्टिणा सम्मं ॥ ८ ॥

एयं च विमुज्झमाणज्झवसाणा सरीरेवेषणं सहमाणा सेट्टिभणिज्जमाणं पंचनमोकारं पडियच्छमाणा कालं काऊण  
नागकुमारेसु देवेषु उपरण्णा, ते इमे कंवलसंवलत्ति ॥

इओ य-भयवं महावीरो नावुत्तिन्नो संतो जलतीरंमि इरियावहियं पडिक्कमिय सुरसरियापरिसरे ईसिजलोलसु-  
दुमपाउगोवरि मंदं मंदं पयाइं निसित्तो धूणागसंनिवेशे गंतुं पयत्तो, नवरि सामिणो पडिफलंतचक्ककमलकुलिसं-  
कुसफलंसपासायपमुहपहाणलफसणंक्रियं पयपंतिं नइपुलिणे पलोइऊण पूसो नाम सामुइलक्खणवियक्खणो  
चित्तिउमारदो-अहो आजम्महालाओउरि अदिट्टपुष्पा अयंतमच्छरियभूया कस्सइ महाणुभावस्स लक्खंडमहिमंड-  
लोवभोगिणो चफिणोष पवरलंठणा पयपद्धई एत्थ दीसइ, जइ पुण कहांपि कोइ अपत्तरज्जो वा देसदंसणकोऊहली  
पा तदाविहविसमदमावडिओ वा चक्कमट्टी एवं ममेज्जा, पेच्छामि तं महापुरिसं, जइ पुण एयावत्थंमि इमंमि  
मेविज्जमाणंमि मम समीहियत्थसिद्धी जाएज्जत्ति परिभाविऊण तुरियगइए जाव कइवयपयंतरमुवगओ ताव दिट्टो  
उणेण धूणागसंनिवेशस्स वहिया वहलपलवालंक्रियंरुंकेलितरुणो हेट्टओ पडिमासंठिओ जिणो, ददूण य परमे-  
सरस्स मिरिपच्छलंठियं पच्छयलं दाहिणावत्तगंभीरं नाभिगंडलं वालप्पवालपाडलं व करकमलं चित्तियमणं जं-ज

भजियविदिना य नमंमिऊण सार्मि गहुरवयणेणं पूसं भणइ-भइ ! किमेत्रं दूसेसि लक्खणसत्थं, नहु मिच्छा-  
भासिणो गहाणुभावा सत्थयारा, किं तुमए न सुओ एस ससुरासुरखयरनरनरेसरसिरपणयचलणो सिद्धत्थनरिंदनं-  
दणो त्तिदुयणविस्सायकित्ती धम्मपरचाउरंतचक्रट्ठी खलमहिलंय रायलच्छि उद्धिऊण एवं विहरइ । अत्रं च—

एसो मो जस्मेसरियकोडिलेसंपि न घडइ समग्गो । पायालंसग्गनरखेत्तजायलोगो सुतुंगोऽवि ॥ १ ॥

एसो थिय भयभयभीमकूयमजंतसत्तउद्धरणो । वद्धंतुब्भडकलिकालदलणदक्खो इमो चेव ॥ २ ॥

एसो थिय मियमंदिरकवाडपुडविहडणेफत्तच्छिच्छो । संजमलच्छिनिवेसियनिसालवच्छत्थलो एस ॥ ३ ॥

एसो थिय करुणाजलनिघावियमच्छरिगतत्तजणो । अप्पडिमनाणदंसणपमोक्खसुगुणगणनिही एस ॥ ४ ॥

पचाइऊण एवं पूसं तिप्पिहेण वयणनिवहेण । पणमियजिणवरचरणो सहस्सनयणो गओ सग्गं ॥ ५ ॥

इय धोरपरीसहवेरिसमरविद्धंसणेक्खवीरस्स । वीरस्स भुवणपहुणो चरियंमि सुहोहभरियंमि ॥ ६ ॥

सुरसूलपाणिक्कोसियमहाहिपडिवोहणत्थसंचद्धो । पंचमओ पत्थावो समत्थिओ वित्थरेणेसो ॥ ७ ॥

इइ सिरिगुणचंदसूरिरइए महावीरचरिए सूलपाणिचंडकोसिअपवोहणो नाम पंचमो पत्थावो ।